



# मआसिरुह उमरा

भाग २

अनुवादक—

ब्रजरत्न दास, बी. ए., एल-एल. बी.



देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला-१३



# मआसिरुल् उमरा

या

## मुगल-दरबार

(अकबर से मुहम्मदशाह के समय तक के सर्दारों की जीवनियाँ)

—\*~\*~\*~\*—

भाग २

अनुवादक

ब्रजरत्न दास बी. ए., एल-एल. बी.

~\*~\*~\*~\*

प्रकाशक

नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी

देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला-१३

प्रकाशक

काशी नागरीप्रचारिणी सभा

प्रथम संस्करण

मूल्य ४)

सं० १९९५ वि०

मुद्रक—

ना० रा० सोमण,

श्रीलक्ष्मीनारायण प्रेस, काशी

## निवेदन

इस ग्रंथ के प्रथम भाग में इस ग्रंथ का परिचय दिया जा चुका है और उक्त भाग की भूमिका में प्रायः चालीस पृष्ठों में मुग़ल-राज्य-संस्थापन से पानीपत के तृतीय युद्ध तक का संक्षिप्त इतिहास भी सम्मिलित कर दिया गया है, जिससे एक एक सर्दार की जीवनी पढ़ने पर यदि कोई घटना अशुंखलित-सी मालूम पड़े तो उसकी सहायता से इसकी शृंखला ठीक ज्ञात हो सकेगी। इस भाग में एक सौ चौबन सर्दारों की जीवनियाँ संगृहीत हैं। ये हिंदी अधरानुक्रम से रखी जा रही हैं और इस भाग में केवल स्वर से आरंभ नाम वालों ही की जीवनियाँ संकलित हुई हैं। इनमें मुग़ल-साम्राज्य के प्रधान मंत्री, प्रसिद्ध सेनापति, प्रांताध्यक्ष आदि सभी हैं, जिनके वंश-परिचय, प्रकृति, स्वतः उन्नयन के प्रयत्न आदि का वह विवरण मिलता है, जो बड़े से बड़े भारत के इतिहास में प्राप्त नहीं है तथा जिससे पाठकों का बहुत सा कौतूहल शांत होता है। यह ग्रंथ भारत-विषयक इतिहास-संबंधी फारसी या अरबी ग्रंथों में अद्वितीय है और विस्तृत विवेचन करते हुए भी बड़ी छान-बीन के साथ लिखा गया है।

इसके अनुवाद का श्रीगणेश प्रायः सोलह वर्ष हुए तभी हो चुका था और सं० १९६६ वि० में इसका प्रथम भाग किसी न किसी प्रकार प्रकाशित हो गया था। समय की कमी से अनुवाद करने में तथा प्रकाशक की ढिलाई से दूसरे भाग के प्रकाशन में भी सात आठ वर्ष लग गए। इस भाग में टिप्पणियाँ कम हैं तथा बहुत आवश्यक समझी जाने पर दी गई हैं। इसका कारण दो है। एक तो ग्रंथ योंही बहुत बड़ा है, उसे और विशद बनाना ठीक नहीं है और दूसरे उसकी विशदता के कारण ही विशेष टिप्पणियों की आवश्यकता नहीं पड़ी है। अस्तु, यह ग्रंथ इस रूप में इतिहास प्रेमी पाठकों के सम्मुख उपस्थित किया जाता है।

विजयादशमी  
१९६५ }

विनीत—  
त्रजरत्नदास ।



## माला का परिचय

जोधपुर के स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसादजी मुंसिफ इतिहास और विशेषतः मुसलिम काल के भारतीय इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता और प्रेमी थे तथा राजकोय सेवा के कामों से वे जितना समय बचाते थे, वह सब इतिहास का अध्ययन और खोज करने अथवा ऐतिहासिक ग्रंथ लिखने में हो लगाते थे। हिंदी में उन्होंने अनेक उपयोगी ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे हैं जिनका हिंदी-संसार ने अच्छा आदर किया है।

श्रीयुक्त मुंशी देवीप्रसादजी की बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि हिंदी में ऐतिहासिक पुस्तकों के प्रकाशन की विशेष रूप से व्यवस्था की जाय। इस कार्य के लिये उन्होंने ता० २१ जून १९१८ को ३५०० रु० अंकित मूल्य और १०५०० मूल्य के बंबई बंकर लि० के सात हिस्से सभा को प्रदान किये थे और आदेश किया था कि इनकी आय से उनके नाम से सभा एक ऐतिहासिक पुस्तकमाला प्रकाशित करे। उसी के अनुसार सभा यह 'देवी-प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला' प्रकाशित कर रही है। पीछे से जब बंबई बंकर अन्यान्य दोनों प्रेसिडेंसी बंकों के साथ सम्मिलित होकर इम्पीरियल बंकर के रूप में परिणत हो गया, तब सभा ने बंबई बंकर के सात हिस्सों के बदले में इम्पीरियल बंकर के चौदह हिस्से, जिनके मूल्य का एक निश्चित अंश चुका दिया गया है, और खरीद लिये और अब यह पुस्तकमाला उन्हीं से होनेवाली तथा स्वयं अपनी पुस्तकों की विक्री से होनेवाली आय से चल रही हैं। मुंशी देवीप्रसादजी का वह दानपत्र काशी नागरीप्रचारिणी सभा के २६ वें वार्षिक विवरण में प्रकाशित हुआ है।





## विषय-सूची

नाम	पृष्ठ संख्या
अ	
१. अगर खाँ पीर मुहम्मद	१-३
२. अहमद खाँ कोका	४-८
३. अजदुद्दौला एवज खाँ बहादुर	९-१२
४. अजीज कोका, मिर्जा खानआजम	१३-३०
५. अजीजुल्ला खाँ	३१
६. अजीजुल्ला खाँ	३२
७. अफजल खाँ	३३-३४
८. अफजल खाँ अल्लामी, मुल्ला	३५-४०
९. अबुल्खैर खाँ बहादुर इमामजंग	४१-४२
१०. अबुल् फजल	४३-५६
११. अबुल् फतह	५७-६०
१२. अबुल् फतह दखिनी तथा महदवी धर्म	६१-६५
१३. अबुल् फैज फैजी फैयाजी, शेख	६६-७१
१४. अबुल् बका अमीर खाँ, मीर	७२-७३
१५. अबुल्मआली, मिर्जा	७४-७६
१६. अबुल्मआली, मीर शाह	७७-८१
१७. अबुल्मकारम जान-निसार खाँ	८२-८४
१८. अबुल् मतलब खाँ	८५-८६
१९. अबुल् मंसूर खाँ बहादुर सफदरजंग	८७-८९
२०. अबुल् हसन तुर्बती, ख्वाजा	९०-९२
२१. अबूतुराब गुजराती	९३-९६

नाम	पृष्ठ संख्या
२२. अबू नसर खाँ	६७
२३. अबू सईद, मिर्जा	६८-६९
२४. अब्दुन्नबी सदर, शेख	१००-१०३
२५. अब्दुल् अजीज खाँ	१०४-१०६
२६. अब्दुल् अजीज खाँ, शेख	१०७-१०८
२७. अब्दुल् अहद खाँ, मजदुहौला	१०९
२८. अब्दुल् कवी एतमाद खाँ, शेख	११०-११३
२९. अब्दुल् मजीद हेराती ख्वाजा आसफ खाँ	११४-११६
३०. अब्दुल् वहाब, काजीउल्कुजात	१२०-१२६
३१. अब्दुल् हादी, ख्वाजा	१२७
३२. अब्दुल्ला अनसारी, मखदूमुल्मुल्क मुल्ला	१२८-१३२
३३. अब्दुल्ला खाँ उजबेग	१३३-१३६
३४. अब्दुल्ला खाँ, ख्वाजा	१३७-१३८
३५. अब्दुल्ला खाँ, फीरोज जंग	१३९-१४९
३६. अब्दुल्ला खाँ बारहा, सैयद	१५०-१५१
३७. अब्दुल्ला खाँ, शेख	१५२-१६१
३८. अब्दुल्ला खाँ, सईद खाँ	१६२
३९. अब्दुल्ला खाँ, सैयद	१६३-१६४
४०. अब्दुल्ला खाँ हसनअली, सैयद कुतुबुल्मुल्क	१६५-१७२
४१. अब्दुर्रजाक खाँ लारी	१७३-१७५
४२. अब्दुर्रहमान अफजल खाँ	१७६-१७८
४३. अब्दुर्रहमान सुलतान	१७९-१८१
४४. अब्दुर्रहीम खाँ खानखानाँ, नवाब	१८२-२००
४५. अब्दुर्रहीम खाँ	२०१
४६. अब्दुर्रहीम, ख्वाजा	२०२-२०३

नाम	पृष्ठ संख्या
४७. अब्दुरहीम बेग उजबेग	२०४-२०५
४८. अब्दुरहीम लखनवी, शेख	२०६-२०७
४९. अब्दुस्समद खाँ बहादुर दिलेरजंग सैफुद्दौला	२०८-२१०
५०. अमानत खाँ द्वितीय	२११-२१३
५१. अमानत खाँ मीरक मुईनुद्दीन अहमद	२१४-२२३
५२. अमानुल्लाह खाँ	२२४-२२५
५३. अमानुल्लाह खाँ खानजमाँ बहादुर	२२६-२३३
५४. अमीन खाँ दक्खिनी	२३४-२३८
५५. अमीन खाँ मीर मुहम्मद अमीन	२३९-२४४
५६. अमीनुद्दौला अमीनुद्दीन खाँ बहादुर संभली	२४५
५७. अमीर खाँ, खवाफी	२४६-२४७
५८. अमीर खाँ मीर इसहाक, उम्दतुल्मुल्क	२४८-२४९
५९. अमीर खाँ मीर-मीरान	२५०-२५८
६०. अमीर खाँ सिधी	२५९-२६५
६१. अरब खाँ	२६६
६२. अरब बहादुर	२६७-२६८
६३. अर्शाद खाँ मीर अबुल् अली	२६९
६४. अर्सलॉ खाँ	२७०
६५. अलाउल्मुल्क तूनी, मुल्ला	२७१-२७५
६६. अलिफ खाँ अमान बेग	२७६-२७७
६७. अली अकबर मूसवी	२७८-२७९
६८. अली कुली खाँ अंदराबी	२८०
६९. अली कुली खानजमाँ	२८१-२८८
७०. अली खाँ, मीरजादा	२८९
७१. अली गीलानी, हकीम	२९०-२९५

नाम	पृष्ठ संख्या
७२. अलीबेग अकबरशाही, मिर्जा	२९६-२९७
७३. अलीमर्दान खाँ, अमीरुल् उमरा	२९८-३०८
७४. अली मर्दान खाँ हैदराबादी	३०९
७५. अलीमर्दान बहादुर	३१०-३११
७६. अली मुराद खानजहाँ बहादुर	३१२-३१३
७७. अली मुहम्मद खाँ रुहेला	३१४-३१५
७८. अलीवर्दी खाँ मिर्जा बांदी	३१६-३१९
७९. अल्लाहकुली खाँ उजबेग	३२०-३२१
८०. अल्लाह यार खाँ	३२२-३२४
८१. अल्लाह यार खाँ, मीर तुजुक	३२५
८२. अशरफ खाँ ख्वाजा बख्तरदार	३२६
८३. अशरफ खाँ, मीर मुंशी	३२७-३२८
८४. अशरफ खाँ मीर मुहम्मद अशरफ	३२९-३३०
८५. असकर खाँ नजमसानी	३३१
८६. असद खाँ आसफुद्दौला जुम्तुल्मुल्क	३३२-३४२
८७. असद खाँ मामूरी	३४३-३४४
८८. असालत खाँ मिर्जा मुहम्मद	३४५-३४६
८९. असालत खाँ मीर अब्दुल्हादी	३४७-३५१
९०. अहमद खाँ नायतः	३५२-३५५
९१. अहमद खाँ नियाजी	३५६-३५८
९२. अहमद खाँ बारहा सैयद	३५९-३६०
९३. अहमद बेग खाँ	३६१-३६२
९४. अहमद बेग खाँ काबुली	३६३-३६४
९५. अहमद खाँ, मीर	३६५-३६८
९६. अहमद खाँ द्वितीय, मीर	३६९-३७२

नाम	पृष्ठ संख्या
६७. अहमद, शेख	३७३-३७५
६८. अहसन खाँ सुलतान हसन	३७६-३७८

## आ

६९. आकिल खाँ इनायतुल्ला खाँ	३७९-३८१
१००. आकिल खाँ मीर असाकरी	३८२-३८४
१०१. आजम खाँ कोका	३८५-३८९
१०२. आजम खाँ मीरमुहम्मद बाकर उर्फ इरादत खाँ	३९०-३९५
१०३. आतिश खाँ जानबेग	३९६-३९८
१०४. आतिश खाँ हब्शी	३९९
१०५. आलम बारहा, सैयद	४००-४०१
१०६. आसफ खाँ आसफजाही	४०२-४१०
१०७. आसफ खाँ ख्वाजा गियासुद्दीन कजवीनी	४११-४१३
१०८. आसफ खाँ मिर्जा किवामुद्दीन जाफरबेग	४१४-४२०
१०९. आसफुद्दौला अमीरुल् मुमालिक	४२१-४२२
११०. आसिम, खानदौराँ अमीरुल् उमरा ख्वाजा	४२३-४२७

## इ

१११. इखलाक खाँ हुसेन बेग	४२८
११२. इखलास खाँ आलहदीयः	४२९-४३०
११३. इखलास खाँ इखलास केश	४३१-४३३
११४. इखलास खाँ खानआलम	४३४-४३५
११५. इखतसास खाँ उर्फ सैयद फीरोज खाँ	४३६-४३७
११६. इज्जत खाँ अब्दुरजाक गीलानी	४३८
११७. इज्जत खाँ ख्वाजा बाबा	४३९
११८. इनायत खाँ	४४०-४४४

नाम	पृष्ठ संख्या
११६. इनायतुल्ला खाँ	४४५-४४७
१२०. इफ्तखार खाँ, ख्वाजा अबुल्बका	४४८-४५१
१२१. इफ्तखार खाँ सुलतान हुसेन	४५२-४५४
१२२. इब्राहीम खाँ	४५५-४५६
१२३. इब्राहीम खाँ फतहजंग	४६०-४६४
१२४. इब्राहीम खाँ उजबेग	४६१-४६६
१२५. इब्राहीम शेख	४६७-४६८
१२६. इरादत खाँ मीर इसहाक	४६९-४७१
१२७. इसकंदर खाँ उजबेग	४७२-४७४
१२८. इस्माइल कुली खाँ जुल्कद्र	४७५-४७७
१२९. इस्माइल खाँ बहादुर पन्नी	४७८-४७९
१३०. इस्माइल खाँ मक्खा	४८०
१३१. इस्माइल बेग दोलदी	४८१-४८२
१३२. इस्लाम खाँ चिरती फारूकी	४८३-४८५
१३३. इस्लाम खाँ मशहदी	४८६-४९०
१३४. इस्लाम खाँ, मीर जियाउद्दीन हुसेनी बदख्शी	४९१-४९३
१३५. इस्लाम खाँ रूमी	४९४-४९८
१३६. इहतमाम खाँ	४९९-५००
१३७. इहतिशाम खाँ इखलास खाँ शेख फरीद फतहपुरी	५०१-५०२
१३८. ईसा खाँ मुर्बी	५०३-५०५
१३९. ईसा तखान, मिर्जा उ	५०६-५०८
१४०. उजबेग खाँ नजर बहादुर	५०९-५१०
१४१. उलग खाँ हब्शी	५११

नाम	पृष्ठ संख्या
ए	
१४२. एकराम खाँ, सैयद हुसेन	५१२
१४३. एतकाद खाँ फरखशाही	५१३-५२१
१४४. एतकाद खाँ मिर्जा बहमनयार	५२२-५२४
१४५. एतकाद खाँ मिर्जा शापूर	५२५-५२७
१४६. एतबार खाँ ख्वाजासरा	५२८-५२९
१४७. एतबार खाँ नाजिर	५३०
१४८. एतमाद खाँ ख्वाजासरा	५३१-५३३
१४९. एतमाद खाँ गुजराती	५३४-५३९
१५०. एतमादुद्दौला मिर्जा गियास बेग	५४०-५४५
१५१. एमादुल् मुल्क	५४६-५५३
१५२. एरिज खाँ	५५४-५५७
१५३. एवज खाँ काकशाल	५५८
ऐ	
१५४. ऐनुल्मुल्क शीराजी, हकीम	५५९-५६०





# मआसिरुल् उमरा



## १. अग्रखॉ पीर मुहम्मद

यह औरंगजेब का एक अफसर था। इसका खेळ ( गोत्र ) अगज तक पहुँचता है, जो नूह के पुत्र याफस का वंशज था। इसी कारण वह इस नाम से भी पुकारा जाता है। इनमें से बहुत से साहस के लिए प्रसिद्ध हुए और कई देशों के लिए अपने प्राण तक दिए। शाहजहाँ के समय इनमें से एक हुसेन कुली ने, जिसने अपनी सेना सहित बादशाह की सेवा कर ली थी, डेढ़ हजारी ८०० सवार का मंसब और खॉ की पदवी पाई। यह २५वें वर्ष में मर गया। औरंगजेब के प्रथम वर्ष में अगज खॉ अपनी सेना का मुखिया हुआ और शाहजादे मुहम्मद सुलतान तथा मुअज्जम खॉ के साथ सुलतान शुजाअ का पीछा करने बंगाल की ओर गया। इसने वहाँ युद्ध में अच्छी वीरता दिखलाई। कहते हैं कि एक दिन शाही सेना को गंगा पार करना था और मुहम्मद शुजाअ की सेना दूसरी ओर रोकने को तैयार खड़ी थी। जासूस अगज हराबल के अध्यक्ष दिलेर खॉ के

आगे था। इसने बड़ी वीरता से नदी में घोड़ा डाल दिया और दूसरी ओर पहुँच कर शत्रु से द्वन्द्व युद्ध करने लगा। शत्रु के हरावल के एक मस्त हाथी ने इसे घाड़े सहित सूँड़ से उठा लिया और दूर फेंक दिया, परन्तु अराज ने तुरंत उठ कर महावत को तलवार से मार डाला और हाथी पर चढ़ बैठा। उसी समय दिलेर खॉ भी यह घटना आँखों से देख कर वहाँ आ पहुँचा। इसने उसकी प्रशंसा की और उसकी फेरी देने लगा। अराज ने कहा कि 'मैंने यह हाथी हुजूर ही के लिए लिया है। आप कृपया मुझे एक कोतल घोड़ा प्रदान करें।' दिलेर ने कहा कि 'हाथी तुम्हीं को मुबारक रहे' और दो अच्छे घोड़े उसके लिए भेज दिए।

इसी वर्ष अराज को खॉ की पदवी मिली और वह खानखानों के साथ आसाम की चढ़ाई पर भेजा गया, जहाँ इसने अपनी बहादुरी दिखलाई। खानखानों इस पर प्रसन्न था पर इसके मुगल सैनिक प्रामीणों को कष्ट देते थे। वे शिश्तित नहीं थे और न मना करने से मानते थे, इसलिए खानखानों ने इस पर कुछ भी कृपा दृष्टि नहीं की। इससे अराज दुखित हुआ और ५ वें वर्ष में खानखानों से किसी प्रकार छुट्टी पाकर दरबार चला गया। यद्यपि खानखानों के अपने ५३ मीर बखशी मुहम्मद अमीन अहमद को यह सब लिख देने से अराज कुछ समय तक अप्रतिष्ठा में रहा, इसे कोई पद न मिला तथा उसका दरबार जाना भी बंद रहा पर बाद को इस पर कृपा हुई और यह काबुल के सहायकों में नियत हुआ। वहाँ इसने खैबर के अफगानों को, जो सर्वदा विद्रोह करते रहते थे, दंड देने में खूब प्रयास किया और उन पर

चढ़ाई कर उनको मार डालने तथा उनके निवासस्थान को नष्ट करने में कुछ उठा न रखा। १३वें वर्ष में यह दरबार बुला लिया गया और दक्षिण की चढ़ाई पर भेजा गया, जहाँ शिवाजी भोंसला गड़बड़ किए हुए था। यहाँ भी इसने वीरता दिखाई और मराठों पर बराबर चढ़ाई कर उन्हें परास्त किया। आझा आने पर यह दरबार लौट गया और १७वें वर्ष फिर काबुल भेजा गया। इस बार भी इसने वहाँ साहस दिखाया। १८वें वर्ष में यह जगदलक का थानेदार नियत हुआ और २४वें वर्ष में अफ़ग़ानिस्तान की सड़कों का निरीक्षक हुआ तथा डंका पाया। राजधानी में कई वर्षों तक यह किसी राजकार्य पर नियत रहा। ३५वें वर्ष में बादशाह ने इसे दक्षिण बुलाया और जब यह मार्ग में आगरे पहुँचा तब जाटों ने, जो उस समय उपद्रव मचा कर डोके डाल रहे थे, एक कारवाँ पर आक्रमण कर कुछ गाड़ियों को, जो पोछे रह गई थीं, लूट लिया और कुछ आदमियों को कैद कर लिया। जब अराज़ ने यह वृत्तांत सुना तब एक दुर्ग पर चढ़ाई कर उसने कैदियों को लुड़ाया पर दूसरे दुर्ग पर दुस्साहस से चढ़ाई करने में गोली लगने से सन् ११०२ हि०, सन् १६९१ ई० में मारा गया। अराज़ खॉं द्वितीय इसका पुत्र था। इसने क्रमशः पिता की पदवी पाई और यह मुहम्मद शाह के समय तक जीवित था। यह भी प्रसिद्ध हुआ और समय आने पर मरा।

---

## २. अदहम खॉं कोका

यह माहम अनगा का छोटा पुत्र था, जो अपनी विशिष्ट समझदारी तथा राजभक्ति के कारण अकबर पर अपना विशेष प्रभाव रखती थी। अपनी लंबी सेवा तथा विश्वास के कारण वह पालने से राजगद्दी तक कृपापात्र बनी रही। बैराम खॉं का प्रभुत्व छीनने में यह अप्रणी थी और राजनैतिक तथा आर्थिक दोनों कार्य चलाती थी। यद्यपि मुनइम खॉं साम्राज्य के बकील थे पर प्रबंध यही करती थी। अदहम खॉं पाँच हज़ारी मंसबदार था। इसने पहिले पहिल मानकोट के घेरे में वीरता दिखला कर प्रसिद्धि पाई थी, जब यह बादशाह के साथ था। यह दुर्ग सिवालिक के ऊँचे शृंगों पर स्थित है और पहाड़ियों के सिरों पर चार भागों में इस प्रकार बना हुआ है कि एक ज्ञात होता है। सलीम शाह ने गकखरों की चढ़ाई से लौटते समय इसे बनवाया था कि पंजाब की उनसे रक्षा हो। वह लाहौर को रजाड़ कर मानकोट को बसाना चाहता था। परन्तु लाहौर बड़ा नगर था और इसमें सभी प्रकार के व्यापारी तथा अनेक जाति के मनुष्य बसे हुए थे। वहाँ भारी तथा सुसज्जित सेना तैयार की जा सकती थी। यह मुगल सेना के मार्ग में था और यहाँ पहुँचने पर उसे बहुत सहायता मिल सकती थी, जिससे कार्य असाध्य हो सकता था। बस यही विचार करते करते वह मर गया। दूसरे वर्ष सिकंदर सुर ने यहाँ शरण लिया पर अंत में उसे जब रक्षा-बचन मिल गया तब उसने दुर्ग दे दिया। तीसरे वर्ष बैराम खॉं

ने, जो अदहम खॉं से सदा सशंकित रहता था, इसे आगरे के पास हतकॉठ जागीर दिया, जिसमें भदौरिया राजपूत बसे हुए थे और जो बादशाहों के विरुद्ध विद्रोह तथा उपद्रव करने के लिए प्रसिद्ध थे। उसने ऐसा इस कारण किया कि एक तो वहाँ शान्ति स्थापित हो और दूसरे यह बादशाह से दूर रहे। वह अन्य अफसरों के साथ वहाँ भेजा गया, जहाँ उसने शान्ति स्थापित कर दी। बैराम खॉं की अवनति पर अकबर ने इसको पीर-मुहम्मद खॉं शरवानी तथा दूसरों के साथ पाँचवें वर्ष के अंत, सन् १६८ हि० के आरंभ में मालवा विजय करने भेजा, क्योंकि वहाँ के सुलतान बाज बहादुर के अन्याय तथा मूर्खता की सूचना बादशाह को कई बार मिल चुकी थी। जब अदहम खॉं सारंगपुर पहुँच गया, जो बाज बहादुर की राजधानी थी, तब उसे कुछ ध्यान हुआ और उसने युद्ध को तैयारी की। कई लड़ाइयाँ हुई पर अंत में बाज बहादुर परास्त होकर खानदेश की ओर भागा। अदहम खॉं फुर्ती से सारंगपुर पहुँचा और बाज बहादुर की संपत्ति पर अधिकार कर लिया, जिसमें जगद्विख्यात पातुर तथा गणिकाएँ भी थीं। इन सफलताओं से यह घमंडी हो गया और पीर मुहम्मद की राय पर नहीं चला। इसने मालवा प्रांत अफसरों में बाँट दिया और कुल लूट में से कुछ हाथी सादिक खॉं के साथ दरबार भेजकर स्वयं विषय-भोग में तत्पर हुआ। इससे अकबर इस पर अत्यंत अप्रसन्न हुआ। उसने इसे ठोक करना आवश्यक समझा और आगरे से जल्दी यात्रा करता हुआ १६ दिन में छठे वर्ष के २७ शाबान (१३ मई सन् १५६१ ई०) को वहाँ पहुँच गया। जब अदहम खॉं सारंगपुर से दो कोस

पर गागरौन दुर्ग लेने पहुँचा तब एकाएक बादशाह आ पहुँचे । यह सुनकर उसने आकर अभिवादन किया । बादशाह उसके डेरे पर गए और वहीं ठहरे । कहते हैं कि अदहम के हृदय में कुछ कुविचार थे और वह उसे पूरा करने का बहाना खोज रहा था पर दूसरे दिन माहम अनगा स्त्रियों के साथ आ पहुँची । उसने अपने पुत्र को होश दिलाया कि वह बादशाह को भेंट दे, मजलिस करे और जो कुछ बाज बहादुर से धन संपत्ति, सजीव-निर्जीव, और पातुरें उसे मिली हैं, उन्हें बादशाह को निरीक्षण करावे । अकबर ने उसमें से कुछ वस्तु उसे दी और चार दिन वहाँ ठहर कर वह भागरे को रवाना हो गया । कहते हैं कि जब वह लौट रहा था तब अदहम खॉं ने अपनी माता को, जो हरम की निरीक्षिका थी, पहिले पड़ाव पर बाज बहादुर की दो सुंदर पातुरें उसे गुप्त रूप से दे देने को बाध्य किया । उसने समझा था कि यह किसी को न मालूम होगा पर दैवात् बादशाह को यह मालूम हो गया और उसे खोजने की आज्ञा हुई । जब अदहम खॉं को मालूम हुआ तब उसने उन दोनों को सेना में छुड़वा दिया । जब वे पकड़ कर लाई गईं तब माहम अनगा ने उन दोनों निरपराधिनियों को मरवा डाला । अकबर ने इस पर कुछ नहीं कहा पर उसी वर्ष मालवा का शासन पीर मुहम्मद खॉं शरवानी को देकर अदहम खॉं को दरबार बुला लिया ।

जब शम्सुद्दीन मुहम्मद खॉं अतगा को कुल प्रबंध मिल गया तब अदहम खॉं को बड़ी ईर्ष्या हुई और मुनइम खॉं भी इसी ईर्ष्या के कारण उसके क्रोध को उभाड़ता रहता था । अंत में सातवें वर्ष के १२ रमजान ( १६ मई सन् १५६२ ई० ) को

जब अतगा खॉ, मुनइम खॉ तथा अन्य अफसर आफिस में बैठे कार्य कर रहे थे, उसी समय अदहम खॉ कई लुच्चों के साथ वहाँ आ पहुँचा। अतगा ने अर्द्धभ्युत्थान तथा और सब ने पूर्णोत्थान से उसका सम्मान किया। अदहम कटार पर हाथ रखकर अतगा खॉ की ओर बढ़ा और अपने साथियों को इशारा किया। उन सबने अतगा को घायल कर मार डाला और तब अदहम तलवार हाथ में लेकर उदण्डता के साथ हरम की ओर गया तथा उस बरामदे पर चढ़ गया, जो हरम के चारों ओर है। इस पर बड़ा शोर मचा, जिससे अकबर जाग पड़ा और दीवाल पर सिर निकाल कर पूछा कि 'क्या हुआ है ?' हाल ज्ञात होने पर क्रोध से तलवार हाथ में लेकर वह बाहर निकला। ज्योंही उसने अदहम खॉ को देखा त्यों ही कहा कि 'ए पिल्ले, तैने हमारे अतगा को क्यों मारा ?' अदहम ने लपक कर बादशाह का हाथ पकड़ लिया और कहा कि 'जहाँपनाह, विचार कीजिए, ज़रा मगड़ा हो गया है।' बादशाह ने अपना हाथ छुड़ाकर उसके मुख पर इतने वेग से धूँसा मारा कि वह ज़मीन पर गिर पड़ा। फरहत खॉ खास-खेल और संग्राम होसनाक वहाँ खड़े थे। उन्हें आज्ञा दी कि 'खड़े क्या देख रहे हो, इस पागल को बाँध लो।' उन्होंने आज्ञानुसार उसे बाँध लिया। तब अकबर ने उसे बुर्ज पर से सिर नीचे कर फेंकने को कहा। दो बार ऐसा किया गया, तब उसकी गर्दन टूट गई। इस प्रकार सन् १६९ हि०, १५६२ ई० में उस अपवित्र खूनी को बदला मिल गया। आज्ञानुसार दोनों शव दिल्ली भेजे गए और 'दो खून शुद्ध' से तारीख निकली। कहते हैं कि माहम अनगा ने, जो उस



समय बीमार थी, केवल यह समाचार सुना कि अदहम खॉं ने एक रक्तपात किया है और बादशाह ने उसे कैद कर रक्खा है। मातृ-प्रेम से वह उठ कर बादशाह के पास आई कि रथात् वह उसे छोड़ दे। बादशाह ने उसे देखते ही कहा कि 'अदहम ने हमारे अतगा को मार डाला और हमने उसको दण्ड दिया।' बुद्धिमान् स्त्री ने कहा कि 'बादशाह ने उचित किया।' वह यह नहीं समझी कि उसे प्राणदण्ड मिल चुका है पर जब उसे यह ज्ञात भी हुआ तब भी वह अदहम के कारण नहीं रोई पर उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसके हृदय में सहस्रों घाव हो गए। बादशाह ने उसकी लंभी सेवा के विचार से उसे आश्रामन देकर घर बिदा किया। वहाँ वह शोक करने लगी और उसकी बीमारी बढ़ गई। इस घटना के चालीस दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। बादशाह उस पर दया दिखलाने को उसके शव के साथ कुछ दूर गए और तब उसे दिल्ली भेज दिया, जहाँ उसके तथा अदहम के कब्रों पर भारी इमारत बनवाई गई।

---

## ३. अजदुद्दौला एवज़ खॉ बहादुर क़सवरै जंग

इसका नाम ख़ाजा कमाल था और यह समरकंद के मीर बहाउद्दीन के बहिन का दौहित्र था। इसका पिता मीर एवज़ हैदरी सैयदों में से एक था। अजदुद्दौला का विवाह कुलीज़ खॉ की पुत्री खदीजा बेगम से हुआ था। इसका मामा नियाज़ खॉ औरंगज़ेब के १७वें वर्ष में डेढ़ हज़ारी ५०० सवार का मंसबदार तथा बीजापुर का नाएब सूबेदार था। उक्त बादशाह की मृत्यु पर जब सुलतान कामबख़्श बीजापुर पर गया तब यह पता लगाने का बहाना कर कि वह बाद को उसका पक्ष प्रहण कर लेगा, उसे बिना सूचना दिए एकाएक जाकर आजम शाह से मिल गया। सैयद नियाज़ खॉ द्वितीय का, जो प्रथम का पुत्र था और एतमादुद्दौला कमरुद्दीन की लड़की से जिसका निकाह हुआ था, नादिरशाह के समय कुछ मिज़ाज दिखलाने के कारण पेट फाड़ डाला गया था। अजदुद्दौला औरंगज़ेब के समय तूरान से भारत आया और खॉ फीरोज़जंग के प्रभाव से उसे एवज़ खॉ की पदवी मिली और वह फीरोज़जंग के साथ रहने लगा। यह अहमदाबाद में उसके घर का प्रबंध देखता था। फीरोज़जंग की मृत्यु पर यह दरबार आया और पहिले मीर जुमला के द्वारा यह फरुखसियर के समय बरार में नियत हुआ। इसके बाद अमीरुल् उमरा हुसेनअली खॉ का नाएब होकर वह उक्त प्रांत का अध्यक्ष हुआ। इसने अच्छा प्रबंध किया और साहस दिखलाया। मुहम्मदशाह के २२ वर्ष जब निज़ामुल्मुल्क आसफ़-

जाह बहादुर मालवा से दक्षिण गया, तब इसने पत्रों का वास्तविक अर्थ समझा और योग्य सेना एकत्र कर बुर्हानपुर में आसफ जाह से जा मिला। दिलावर अली खॉ के साथ के युद्ध में, जिसने बड़े वेग से इस पर धावा किया और इसके बहुत से आदमियों को मार डाला था, यद्यपि इसका हाथी थोड़ा पीछे हटा था पर इसने साहस नहीं छोड़ा और अपना प्राण संकट में डालने से पीछे नहीं रहा। आलम अली खॉ के साथ के युद्ध में यह दाहिने भाग में था और विजयोपरांत, जो औरंगाबाद के पास हुई थी, इसने पाँच हज़ारी ५००० सवार का मंसब और अज़दुद्दौला बहादुर कसबरी जंग की पदवी पाई। यह साथ ही बरार का स्थायी प्रांताध्यक्ष भी नियुक्त हुआ। क्रमशः इसने सात हज़ारी ७००० सवार का मंसब पाया और जब २२ वर्ष आसफजाह बीजापुर प्रांत में शांति स्थापित करने निकला तब अज़दुद्दौला औरंगाबाद में उसका प्रतिनिधि हुआ। इसके बाद जब आसफजाह मुहम्मद शाह के बुलाने पर राजधानी को चला तब अज़दुद्दौला को दोबानी तथा बरशीगिरी सौंप कर उसको अपना स्थायी प्रतिनिधि नियत कर गया। राजधानी पहुँचने पर जब उसे अहमदाबाद प्रांत में हैदरकुली खॉ नासिरजंग को दंड देने की आज्ञा हुई, जो वहाँ उपद्रव मचाए हुए था तब उसने अज़दुद्दौला को बुला भेजा। यह समैन्य वहाँ पहुँच कर कुछ समय तक साथ रहा, पर मालवा के अधीनस्थ भानुआ में उसने साथ छोड़ कर अपनी रियासत को जाने की आज्ञा ले ली। मुबारिज खॉ इमादुल्मुल्क के साथ के युद्ध में इसने अच्छी सेवा

की और इसके अनंतर सन् ११४३ हि० ( १७३०-१ ई० ) में रोग से मरा और शेख बुर्हानुद्दीन गरीब के मज्जार में गाड़ा गया। इसने अच्छा पढ़ा था और मननशील भी था। यह विद्वानों का सम्मान करता और फकीरों तथा पवित्र पुरुषों से नम्रता का व्यवहार करता। यह अत्याचारियों को दमन करने तथा निर्बलों की सहायता करने में प्रयत्नशील था। न्याय करने तथा दंड देने में यह शीघ्रता करता था। औरंगाबाद में शाहगंज की मसजिद बनवाई, जिसकी तारीख 'खुजस्तः बुनियाद' है। यद्यपि इसके सामने का तालाब हुसेनअली खॉ का बनवाया था पर इसने उसे चौड़ा कराया था। उस नगर में जो हवेली तथा बारहदरी बनवाई थी वे प्रसिद्ध हैं। इसके भोजनालय में काफ़ी सामान रहता। इसके पुत्रों में सब से बड़ा सैयद जमाल खॉ अपने पिता के सामने ही बयस्क होकर युद्धों में साहस दिखला कर ख्याति प्राप्त कर चुका था। मुबारिज़ खॉ के साथ के युद्ध के बाद यह पाँच हज़ारो ५००० सवार का मंसबदार होकर बरार के शासन में अपने पिता का प्रतिनिधि हुआ था। जब आसफ़जाह दरबार गया और निज़ामुद्दौला को दक्षिण में छोड़ गया तथा मराठों का उपद्रव बढ़ता गया तब यह बरार का प्रांताध्यक्ष नियत हुआ और इसे कसवरै जंग की पदवी मिली। आसफ़जाह के लौटने पर यह नासिर जंग के साथ जाकर शाह बुर्हानुद्दीन गरीब के रौज़ा में बैठा और नासिर जंग के पिता के साथ के युद्ध में इसने भी योग दिया। बाद को आसफ़जाह ने इसको क्षमा कर दिया और तुला कर इसकी जागीर बहाल कर दी। यह सन् ११५९ हि० ( १७४६ ई० ) में मर गया। इसको कई

लड़के थे । द्वितीय पुत्र ख्वाजा मोमिन खॉ था, जो आसफजाह के समय हैदराबाद का नाएब सूबेदार और मुत्सदी नियत हुआ था । इसने रघू भोंसला के सेवक अली खॉ करावल को दमन करने में अच्छा कार्य किया । वह कुछ दिन बुर्हानपुर का अध्यक्ष रहा और सलाबत जंग के समय अजीजुद्दौला पदवी पाकर नानदेर का अध्यक्ष नियुक्त हुआ । अंत में उसने बरार के अंतर्गत परगना पातूर शेख बाबू की जागीर पर सन्तोष कर लिया । यह कुछ वर्ष बाद भारी परिवार छोड़कर मरा । तीसरा पुत्र ख्वाजा अबुलहादी खॉ बहुत दिनों तक माहवर दुर्ग का अध्यक्ष रहा । सलाबत जंग के शासन के आरंभ में यह हटाया गया पर बाद को फिर बहाल किया जाकर जहीरुद्दौला कसवरै जंग पदवी पाया । कुछ वर्ष हुए वह मर गया और कई लड़के छोड़ गया । यह राज-स्वभाव का पुरुष था और इसका हृदय जागृत था । लेखक पर उसका बहुत स्नेह था । चौथा ख्वाजा अब्दुरशीद खॉ बहादुर हिम्मते जंग और पाँचवाँ ख्वाजा अब्दुशशीद खॉ बहादुर हैबतजंग था । दोनों निजामुद्दौला आसफजाह के नौकर हैं ।

---

## ४. अजीज कोका मिर्जा खाने आजम

शम्सुदीन मुहम्मद खॉ अतगा का छोटा पुत्र था। यह अकबर का समवयस्क तथा खेल का साथी था। उसका यह सदा अंतरंग मित्र और कृपापात्र रहा। इसकी माता जोजी अनगा का भी अकबर से दृढ़ संबंध था, जो उसपर अपनी माता से अधिक स्नेह दिखलाता था। यही कारण था कि बादशाह खाने आजम की उदंडता पर तरह दे जाता था। वह कहता कि 'हमारे और अजीज के मध्य में दूध की नदी का संबंध है जिसे नहीं पार कर सकते।' जब पंजाब अतगा लोगों से ले लिया गया, क्योंकि वे बहुत दिनों से वहाँ बसे थे तब मिर्जा नहीं हटाए गए और दीपालपुर तथा अन्य स्थानों में जहाँ वह पहिले से थे बराबर रहे। जब सोलहवें वर्ष में सन् १७८ हि० (१५७१ ई०) के अंत में अकबर शेख फरोद शकरगंज के मजार का, जो पंजाब पत्तन प्रसिद्ध नाम अजोधन में है, जियारत कर दीपालपुर में पड़ाव डाला तब मिर्जा कोका का प्रार्थना पर उसके निवास-स्थान में गया। मिर्जा ने मञ्जलिस की बड़ी तैयारी की और भेंट में बहुत से सुनहले तथा रुपहले साज सहित अरबी और पारसीक घोड़े, हौदे तथा सिक्कड़ सहित बलवान हाथी, सोने के पात्र तथा कुरसी, बहुमूल्य जवाहिरात और हर एक प्रांत के उत्तम वस्त्र दिए। इस पर कृपाएँ भी अपूर्व हुईं। शाहजादों और बेगमों को भी मूल्यवान भेंट दी तथा अन्य अफसर, विद्वन्मंडली तथा पड़ाव के सभी मनुष्य इसकी उदारता के सामी हुए। शेख-

मुहम्मद राजनवी ने इस मजलिस की तारीख 'मिहमानाने अजीजंद शाहो शहजादा' ( अर्थात् शाह तथा शाहजादे अजीज के अतिथि हुए, ९७८ हि० )।

तबक़ात का लेखक लिखता है कि ऐसे समारोह के साथ मजलिस कभी कभी हांती है। सत्रहवें वर्ष में अहमदाबाद गुजरात अकबर के अधिकार में आया, जिसका शासन महींद्री नदी तक मिर्जा को मिला और अकबर स्वयं सूरत गया। विद्रोहियों अर्थात् मुहम्मद हुसेन मिर्जा और शाह मिर्जा ने शेर खॉं फौलादी के साथ मैदान को खाली देखकर पत्तन को घेर लिया। मिर्जा कोका कुतुबुद्दीन खॉं आदि अफसरों के साथ, जो हाल ही में मालवा से आए थे, शीघ्रता से वहाँ गया और युद्ध की तैयारी की। पहिले हार होती मालूम हुई पर ईश्वरीय कृपा से विजय की हवा बहने लगी। कहते हैं कि जब दायों भाग, हरावल और उसका पीछा आक्रमण न रोक सके तथा साहस छोड़ दिया तब मिर्जा मध्य के साथ आगे बढ़ा और स्वयं धावा करने का विचार किया। वीरों ने यह कह कर कि ऐसे समय में सेनाध्यक्ष के स्वयं आक्रमण करने से कुल सेना के अस्त व्यस्त होने का भय है, उसे रोक दिया। मिर्जा इस पर डटा रहा और शत्रुओं में कुछ पोझा करने और कुछ लूटमार करने में लग गए थे, इसलिए छितरा कर भाग निकले। मिर्जा विजय पाकर अहमदाबाद लौट आया।

जब बादशाह गुजरात की चढ़ाई से लौटकर २ सफर सन् ९८१ हि० ( ३ जून सन् १५७३ ई० ) को फतेहपुर पहुँचे तब इखतेयारुल्ल मुल्क, जिसने ईंडर में शरण ली थी, अहमदाबाद

के पास पहुँच कर उपद्रव करने लगा। मुहम्मद हुसेन मिर्जा भी दक्षिण से लौट कर खंभात के चारों ओर लूटमार करने लगा। इसके बाद दोनों ने सेनाएँ मिलाकर अहमदाबाद लेना चाहा। यद्यपि खानआजम के पास काफी सेना थी पर उसने उसमें राजभक्ति तथा ऐक्य की कमी देखी। इस पर उसने युद्ध के लिए जल्दी नहीं की पर नगर में सतर्क रह कर उसकी दृढ़ता का प्रबंध करने लगा। शत्रु ने भारी सेना के साथ आकर उसे घेर लिया और तोप-युद्ध होने लगा। मिर्जा ने बादशाह को आने के लिए लिखा। शैर—

विद्रोह ने है सिर उठाया, दैव है प्रतिकूल।

और यह प्रार्थना की—

सिवा सरसरे शहसवाराने शाह।

न इस गर्द को रह से सकता हटा ॥

अकबर ने कुछ अफसरों को आगे भेजा और स्वयं ४ रबीउल अव्वल ( ४ जुलाई १५७२ ई० ) को उसी वर्ष पास के थोड़े सैनिकों के साथ साँडनी पर सवार हो रवाने हुआ। शैर—

यलों ऊँट पर तरकश अन्दर कमर।

चले उड़ शुरुर्ग की तरह सब ॥

जालौर में आगे के अफसर मिले और बालसाना में पत्तन से पाँच कोस पर मीर मुहम्मद खाँ वहाँ की सेना के साथ आ मिला। अकबर ने सेना को, जो ३००० सवार थे, कई भागों में बाँट दिया और स्वयं सौ के साथ घात में पीछे रहा। देर न कर वह आगे बढ़ा और अहमदाबाद से तीन कोस पर पहुँच कर



ढंका तथा तुरही बजवाया । मुहम्मद हुसेन मिर्जा पता लेने को नदी के किनारे आया और सुभान कुली तुर्क से, जो आगे था, पूछा कि 'यह किसकी सेना है ?' उसने कहा कि 'ये शाही निशान हैं ।' मिर्जा ने कहा कि 'आज ठीक चौदह दिन हुए कि विश्वासी चरों ने बादशाह को राजधानी में छोड़ा था और यदि बादशाह स्वयं आए हैं, तो युद्धीय हाथी कहाँ है ?' सुभान कुली ने कहा कि 'वे सच्चे हैं, केवल नौ दिन हुए कि बादशाह रवाने हुए हैं और यह स्पष्ट है कि हाथी इतनी जल्दी नहीं आ सकते ।'

मुहम्मद हुसेन मिर्जा डर गया और इस्तिथारुल् मुल्क को पाँच सहस्र सेना के साथ फाटकों की रक्षा को छोड़कर, कि दुर्ग-वाले बाहर न निकलें, स्वयं पन्द्रह सहस्र सवारों के साथ युद्ध के लिए तैयारी की । इसी समय शाही सेना पार उतरी और युद्ध आरंभ हो गया । शाही हरावल शत्रु की संख्या के कारण हारने ही को था कि अकबर सौ सवारों के साथ उन पर टूट पड़ा और शत्रु को भगा दिया । मुहम्मद हुसेन मिर्जा और इस्तिथारुल् मुल्क तलवार के घाट उतरे । मिर्जा के विवरण में इसका पूरा वर्णन है ।

इस तरह के शीघ्र कूचों का पहिले के बादशाहों के विषय में भी विवरण मिलता है, जैसे सुलतान जलालुद्दीन मनगोरनी का भारत से किर्मान तक और वहाँ से गुर्जिस्तान तक, अमीर तैमूर गुर्गन का करशी पर विजय, सुलतान हुसेन मिर्जा का हिरात-विजय और बाबर बादशाह का समरकंद-विजय । पर अन्वेषकों से यह छिपा नहीं है कि इन बादशाहों ने आवश्यकता पड़ने पर या यह

देख कर कि शत्रु सतर्क नहीं है या साधारण युद्ध होगा, ऐसा समझ कर किया था। उनकी ऐसे बादशाह से तुलना नहीं की जा सकती थी, जिसके अधीन दो लाख सवार थे और जिसने स्वेच्छा से शत्रु की संख्या को तथा मुहम्मद हुसेन मिर्जा से वीर सैनिक की अभ्यक्षता को समझ कर, जिसने अपने समकालीनों की शक्ति से बढ़कर युद्ध में कार्य दिखलाया था, आगरे से गुजरात चार सौ कोस दूर पहुँच कर वह काम कर दिखलाया था, जैसे कार्य की सृष्टि के आरंभ से अब तक कहानी नहीं कही गई थी।

इस विजय के बाद मिर्जा नया जीवन प्राप्त कर नगर से बाहर निकला और बादशाही सेना के गर्द को प्रतोक्षा की आँखों के लिए सुरमा समझ कर ग्रहण किया। दूसरे वर्ष जब बादशाह अजमेर में थे तब मिर्जा बड़ी प्रसन्नता से मिलने आया। बादशाह ने कुछ आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और गले मिले। इसके अनंतर जब इख्तियारुल् मुल्क गुजराती के लड़कों ने विद्रोह किया तब यह आगरे से वहाँ भेजा गया।

२० वें वर्ष में जब अकबर ने सैनिकों के घोड़ों को दागने की प्रथा चलाना निश्चित किया तब कई अफसरों ने ऐसा करने से इनकार किया। मिर्जा दरबार बुलाया गया कि वह दाग प्रथा को चलावे पर इसने सबसे बढ़ कर विरोध किया। बादशाह का मिर्जा पर अपने लड़के से अधिक प्रेम था पर इस पर वह अप्रसन्न हो गया और इसे अमीर पद से हटा कर जहाँआरा बाग में, जिसे इसी ने बनवाया था, नजर कैद कर दिया। २३ वें वर्ष मिर्जा पर फिर कृपा हुई और वह अपने पूर्व पद पर नियत हुआ। पर उसी समय मिर्जा इस भ्रांति से कि

बादशाह बख पर पूरी कृपा नहीं रखते एकांतवासी हो गया । २५ वें वर्ष सन् १८८ हि० ( सन् १५८० ई० ) में पूर्वीय प्रांतों में बलवा हो गया और बंगाल का प्रांताध्यक्ष मुजफ्फर खॉ मारा गया । मिर्जा को पाँच हज़ारी मंसब तथा खाने-आजम पदवी देकर बड़ी सेना के साथ वहाँ भेजा । बिहार के उपद्रव के कारण मिर्जा बंगाल नहीं गया पर उस प्रांत के शासन तथा विद्रोहियों के दंड देने का उचित प्रबंध किया और हाजीपुर में अपना निवास-स्थान बनाया । २६ वें वर्ष के अंत में जब अकबर काबुल की चढ़ाई से लौटकर फतहपुर आया तब मिर्जा कोका सेवा में उपस्थित हुआ और कृपाएँ पाकर सम्मानित हुआ । २७ वें वर्ष में जनवारी, खबीता और तरखान दीवाना बंगाल से बिहार आए और मिर्जा के आदमियों से हाजीपुर लेकर वहाँ उपद्रव आरंभ कर दिया । तब मिर्जा ने बिहार के विद्रोहियों को दंड देने के लिए लुट्टी ली और उसके बाद बंगाल पर चढ़ाई करने का निश्चय किया । मिर्जा के पहुँचने के पहिले विजयी सेना ने बलवाइयों को उनके उपयुक्त दंड दे दिया था और वर्षा भी आरंभ हो गई थी, इसलिए मिर्जा आगे नहीं बढ़े । पर वर्षा बीतने पर २८ वें वर्ष के आरंभ में वह इलाहाबाद, अवध और बिहार के जागीरदारों के साथ बंगाल गया और सहज ही गढ़ी ले लिया, जो उस प्रांत का फाटक है । मासूम काबुली ने, जो इन बलवाइयों का मुखिया था, आकर घाटी गंग के किनारे पड़ाव डाला । प्रति दिन साधारण युद्ध होता था पर बादशाह के पक्ष वाले विद्रोहियों से भय के कारण जम कर युद्ध नहीं करते थे । इसी बीच मासूम और काकशालों में वैमनस्य हो गया और

खाने-आजम ने अंतिम से इस शर्त पर सुलह कर ली कि वे समय पर अच्छी सेवा करेंगे। यह तय हुआ था कि वे युद्ध से अलग रहेंगे और अपने गृह जाकर वहाँ से शाही सेना में चले आवेंगे। मासूम खॉं घबड़ा गया और भागा। खाने-आजम ने एक सेना कतलू लोहानी पर भेजा, जो इस गढ़बड़ में उड़ीसा और बंगाल के कुछ भाग पर अधिकृत हो गया था। इसने स्वयं अकबर को लिखा कि यहाँ की जलवायु स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, जिससे आज़ा हुआ कि वह प्रांत शाहबाज खॉं कंबू को दिया जाय, जो वहाँ जा रहा था और खाने-आजम अपनी जागीर बिहार को चला आवे। उसी वर्ष जब अकबर इलाहाबाद आया तब मिर्जा ने हाजीपुर से आकर सेवा की और उसे गढ़ा तथा रायसेन मिला। ३१वें वर्ष सन् १९४ हि० ( १५८६ ई० ) में यह दक्षिण विजय करने पर नियुक्त हुआ। सेना के एकत्र होने पर यह रवाने हुआ पर साथियों के दो रस्ती चाल तथा मूठ-सच बोलने के कारण गढ़बड़ मचा और शाहबुद्दीन अहमद ने, जो सहायक था, पुराने द्वेष के कारण, इसे धोखा दिया। मिर्जा कुबिहार करने लगा और अवसर पर रुकने तथा हटने बढ़ने से बहुत थोड़े सैनिक बच रहे। शत्रु अब तक डर रहा था पर साहस बढ़ने से वह युद्ध को आया। मिर्जा उसका सामना करने में अपने को असमर्थ समझ कर लौट आया और बरार चला गया। नौरोज को एलिचपुर को अरक्षित देखकर उसे लूट लिया और बहुत लूट के साथ गुजरात को चला। शत्रु ने उसके इस भागने से चकित होकर उसका शीघ्रता से पीछा किया। मिर्जा भय से फुर्ती कर भागा और नजरवार पहुँचने तक बाग न रोकी।

यद्यपि शत्रु उसे न पा सके पर जो प्रांत विजय हो चुका था वह फिर हाथ से निकल गया। मिर्जा सेना एकत्र करने के लिए नजरवार से गुजरात शीघ्रता से चला गया। खानखानों ने, जो वहाँ अधिपति था, बड़ा उत्साह दिखलाया और थोड़े समय में अच्छी सेना इकट्ठी हो गई। परंतु मनुष्यों के मूर्ख विचारों से यह सफल नहीं हुआ। ३२ वें वर्ष में मिर्जा की पुत्री का सुलतान मुराद के साथ ब्याह हुआ और अच्छे मजलिस हुई। ३४ वें वर्ष के अंत में खानखानों के स्थान पर गुजरात का शासन इसे मिला। मिर्जा मालवा पसंद करके गुजरात जाने में ढिंढाई करने लगा। अंत में ३५ वें वर्ष में वह अहमदाबाद गया। जब सुलतान मुजफ्फर ने कच्छ के जर्मीदार, जाम तथा जूनागढ़ के अध्यक्ष की सहायता से विद्रोह किया तब ३६ वें वर्ष में मिर्जा वहाँ आया और शत्रु को परास्त कर दिया। ३७ वें वर्ष में जाम तथा अन्य जर्मीदारों ने अधीनता स्वीकार कर ली और सोमनाथ आदि सोलह बंदरों पर अधिकार हो गया तथा सोरठ प्रांत की राजधानी जूनागढ़ को घेर लिया गया। अमीन खॉं गोरी के उत्तराधिकारी दौलत खॉं के पुत्रों मियॉं खॉं और ताज खॉं ने दुर्ग दे दिया। मिर्जा ने प्रत्येक को उपजाऊ जागीर दी और सुलतान मुजफ्फर को, जो विद्रोह का मूल था, कैद करने का प्रयत्न करने लगा। उसने सेना द्वारिका भेजी, जहाँ के भूम्याधिकारी की शरण में वह जा छिपा था। वह भूम्याधिकारी लड़ा पर हार गया। मुजफ्फर कच्छ भागा। मिर्जा स्वयं वहाँ गया और उसका घर जाम को देने का प्रस्ताव किया। इस पर उसने अधीनता स्वीकार कर ली और मुजफ्फर को दे दिया। उसे वे मिर्जा के

पास ला रहे थे कि उसने लघु शंका निवारण करने के बहाने एकांत में जाकर छुरे से, जो उसके पास था, अपना गला काट लिया और मर गया ।

३९ वें वर्ष सन् १००१ ई० ( १५९२-३ ई० ) में अकबर ने जब मिर्जा को बुला भेजा तब यह शंका करके हिजाब चला गया । कहते हैं कि वह बादशाह को सिद्धा करना, डाढ़ी मुँड़ाना तथा अन्य ऐसे नियम, जो दरबार में प्रचलित हो चुके थे, नहीं मानता था और इसी के विरोध में लंबी डाढ़ी रखे हुए था । इस लिए उसने सामने जाना ठीक नहीं समझा और बहाने लिखता रहा । अंत में बादशाह ने उत्तर में लिखा कि तुम आने में देर कर रहे हो, ज्ञात होता है कि तुम्हारी डाढ़ी के बाल तुम्हें दबाए हैं । कहते हैं कि मिर्जा ने भी धर्म-विषयक कठोर तथा व्यग्र पूर्ण बातें लिखीं जैसे बादशाह ने उसमान और अली के स्थान पर अबुल् फजल और फैजी को बैठा दिया है पर दोनों शीखों के स्थान पर किसको नियत किया है ?

अंत में मिर्जा ने ह्यू बंदर पर आक्रमण करने के बहाने कूच किया और फिरंगियों से संधि कर सोमनाथ के पास बलावल बंदर से इलाही जहाज पर अपने छ पुत्र खुर्रम, अनवर, अब्दुल्ला, अब्दुल्लतीफ, मुर्तजा और अब्दुल् गफूर तथा छ पुत्रियों, उनकी माताओं और सौ सेवकों के साथ सवार हो गया । अकबर को यह सुन कर बड़ा कष्ट हुआ और उसने मिर्जा के दो पुत्र शम्सी और शादमान को मंसब तथा जागीर देकर कृपा दिखलाई । शेख अब्दुल् कादिर बदाऊनी ने तारीख लिखा—

खाने-आजम ने धर्मात्माओं का स्थान लिया पर बादशाह के

विचार से वह भटका हुआ था। जब मैंने हृदय से वर्ष की तारीख पूछा, तब कहा कि 'मिर्जा कोका हज्ज को गया' ( १००२ हि० )

कहते हैं कि उसने पवित्र स्थानों में बहुत धन व्यय किया और शरीफों तथा मुखियों को सम्मान दिखलाया। इसने शरीफ को पैगंबर के मकबरे की रक्षा करने का पचास वर्ष का व्यय दिया। इसने कोठरियों खरीद कर उस पवित्र इमारत को दे दिया। जब उसने पुनः अकबर का कृपा-पूर्ण समाचार पाया तब समुद्र पार कर उसी बलाबल बंदर में उतरा और सन् १००३ हि० के आरंभ में सेवा में भर्ती हो गया। उसे उसका मंसब तथा बिहार में उसकी जागीर मिल गई और ४० वें वर्ष में वकील के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित हुआ तथा उसे शाही मुहर मिली, जिस पर मौलाना अली अहमद ने तैमूर तक के कुल पूर्वजों के नाम खोदे थे। ४१ वें वर्ष में मुलतान प्रांत उसकी जागीर हुई। ४५ वें वर्ष में जब यह आसीर के घेरे पर अकबर के साथ था तब इसकी माता बीबा ज्यू मर गई। अकबर ने उसका जनाजा कंधे पर रखा और शोक में सिर तथा मोछ मुँड़ाए। ऐसा प्रयत्न किया गया कि उसके पुत्रों के सिवा और कोई न मुँड़ावे पर न हो सका तथा बहुत से लोगों ने वैसा किया। इसी वर्ष के अंत में खान देश के शासक बहादुर खॉं ने मिर्जा की मध्यस्थता में अधीनता स्वीकार कर ली और दुर्ग दे दिया। मिर्जा की पुत्री का विवाह सुलतान सलीम के बड़े पुत्र खुसरो के साथ हुआ था, जो राजा मानसिंह का भांजा था; इस लिए साम्राज्य के इन दो स्तंभों ने खुसरो को बदाने में बहुत प्रयत्न किया। विशेष कर मिर्जा, जो उस पर अत्यंत स्नेह रखते थे, कहा करते कि 'मैं चाहता हूँ कि दैव-

उसकी बादशाहत का समाचार मुझे दाहिने कान में दे और बाँये कान से हमारा प्राण ले ले।' अकबर के मृत्यु-रोग के समय यौबराज्य के लिए षड्यंत्र रचा गया पर सफल नहीं हुआ। अकबर के जीवन का एक स्वॉस बाकी था, जब शेख फरीद बख्शा आदि शाहजादा सलीम से जा मिले। वह बादशाह के इशारे तथा इन शुभचिंतकों के उपद्रव के भय से दुर्ग के बाहर एक गृह में बैठ रहा था। राजा मानसिंह खुसरो के साथ दुर्ग से इस शर्त पर निकल आए कि वह उसे लेकर बंगाल चले जायेंगे। खाने आजम ने भी डर कर अपना परिवार राजा के गृह पर इस सूचना के साथ भेज दिया कि वह भी आ रहा है क्योंकि धन भी ले जाना उचित है और उसके पास मजदूर नहीं हैं। राजा को भी वही बहाना था। लाचार हो मिर्जा को दुर्ग में अकेले रहकर बादशाह अकबर को गाड़ने तथा अंतिम संस्कार का निरीक्षण करना पड़ा। इसके बाद जहाँगीर के १ म वर्ष में खुसरो ने बलवा किया और मिर्जा उसका बहकाने वाला बतलाया जाकर असम्मानित हो गया।

कहते हैं कि खाने-आजम कफन पहिर कर दरबार जाता था और उसे आशा थी कि वे उसे मार डालेंगे पर तब भी वह जिह्वा रोक नहीं सकता था। एक रात्रि अमीरुल् उमरा से खूब कहा सुनी हो गई। बादशाह ने समिति समाप्त कर दिया और एकांत में राय लेने लगा। अमीरुल् उमरा ने कहा कि 'उसे मार डालने में देर नहीं करना चाहिए।' महाबत खॉ ने कहा कि 'हम तर्क वितर्क नहीं जानते। हम सिपाही हैं और हमारे पास मजबूत तलवार है। उसे कमर पर मारेंगे और अगर वह दो टुकड़े न



हो जाय तो आप हमारा हाथ काट सकते हैं।' जब खानजहाँ लोदी के बोलने को पारी आई तब उसने कहा कि 'हम उसके सौभाग्य से चकित हैं। जहाँ जहाँ बादशाह का नाम पहुँचा है, वहाँ वहाँ उसका नाम भी गया है। हमें उसका कोई ऐसा प्रकट दोष नहीं दिखलाई देता जो उसके मारे जाने का कारण हो। यदि उसे मारेंगे तो लोग उसे शहीद कहेंगे।' बादशाह का क्रोध इससे कुछ शांत हुआ और इसी समय बादशाह की सौतेली माता सलीमा सुलतान बेगम ने पर्दे में से पुकार कर कहा कि 'बादशाह, मिर्जा कोका के लिए प्रार्थना करने को कुल बेगमात यहाँ जनाने में इकट्ठी हुई हैं। आप यहाँ आवें तो उत्तम है, नहीं तो वे आप के पास आँगी।' जहाँगीर को बाध होकर जनाने में जाना पड़ा और उनके कहने सुनने पर उसका दोष क्षमा करना पड़ा। अपनी खास डिब्बी से उसकी मोताद अफोम उसे दिया, जो वह नहीं ले सका था और उसे जाने की छुट्टी दी। परंतु एक दिन प्रायः उसी समय ख्वाजा अबुल् हसन तुर्बती ने एक पत्र दिया, जिसे मिर्जा कोका ने खानदेश के शासक राजा अली खों को लिखा था और जिसमें अकबर के विषय में ऐसी बातें लिखी थीं, जो किसी साधारण व्यक्ति के विषय में न लिखना चाहिए। आसीर गढ़ लिए जाने पर यह पत्र ख्वाजा के हाथ पड़ गया था और उसे वह कई वर्षों तक अपने पास रखे था। अंत में वह उसे पचा न सका और जहाँगीर को दे दिया। जहाँगीर ने उसे खानेआजम के हाथ में रख दिया और वह उसे अविचलित भाव से जोर से पढ़ने लगा। उपस्थित लोग उसे गाली तथा शाप देने लगे और बादशाह ने कहा कि 'अर्श-अशियानी (अकबर) और तुम्हारे

जीव जो अंतरंग मित्रता थी, वही मुझे रोकती है नहीं तो तुम्हारे गर्दनो से शिर का बोझ हटवा देता।' उसने उसका पद और जागीर छीन लिया तथा नजर कैद रखा। दूसरे वर्ष गुजरात का शासन इसके नाम में लिखा गया और उसका सबसे बड़ा पुत्र जहाँगीर कुली खॉँ उसका प्रतिनिधि होकर उक्त प्रांत की रक्षा के लिये भेजा गया।

दक्षिण का कार्य जब अफसरों की आपस की अनबन के कारण ठीक नहीं हो रहा था तब खानेआजम दस सहस्र सवारों से साथ ५ वें वर्ष वहाँ भेजा गया। इसके अनंतर उसने बुरहानपुर से प्रार्थना पत्र भेजा कि उसे राणा का कार्य सौंपा जाय। वह कहता था कि यदि उस युद्ध में मारा गया तो शहीद हो जाऊँगा। उसकी प्रार्थना पर उस चढ़ाई के उपयुक्त सामान मिल गया। जब कार्य आरंभ किया तब उसने प्रार्थना की कि बिना शाही झंडे के यहाँ आए यह कठिन गॉठ नहीं खुलेगी। इस पर ८ वें वर्ष सन् १०२२ हि० ( १६१३ ई० ) में जहाँगीर अजमेर आया और मिर्जा कोका के कहने पर शाहजहाँ उस कार्य पर नियुक्त किया गया पर कुल भार मिर्जा पर ही रहा। खुसरो के प्रति पक्षपात रखने के कारण इसने शाहजहाँ से ठीक बर्ताव नहीं किया, जिससे उदयपुर से उसे दरबार लाने के लिए महाबत खॉँ भेजा गया। ९ वें वर्ष यह आसफ खॉँ को मसुलिफ दे दिया गया कि ग्वालियर दुर्ग में कैद किया जाय। मिर्जा के एक कथन की लोगों ने सूचना दी, जिसका आस्य था कि मैंने किसी मंत्र तंत्र करने का विचार नहीं किया। आसफ खॉँ ने जहाँगीर से कहा था कि एक मनुष्य उसे नष्ट करने का अभ्युद्योग कर रहा

है। एकांतवास और मांसाहार तथा मैथुन का त्याग सफलता के कारण हैं और कैदखाने में ये सभी मौजूद हैं, इसलिए आज़ादी गई कि खाने के समय मुर्ग और तीतर के अच्छे मांस बना कर मिर्जा को दिए जाय—शैर—

ईश्वर की कृपा से शत्रु से भी लाभ ही होता है।

एक वर्ष बाद जब वह कैद से छूटा तब उससे इकरारनामा लिखाया गया कि बादशाह के सामने वह तब तक न बोलेगा जब तक कि उससे कोई प्रश्न न किया जाय, क्योंकि उसका अपनी जवान पर अधिकार नहीं है। एक रात्रि जहाँगीर ने जहाँगीर कुली खॉं से कहा कि 'तुम अपने पिता के लिए ज़ामिन हो सकते हो?' उसने उत्तर दिया कि 'हम उनके सब कार्य के लिए ज़ामिन हो सकते हैं पर जवान के लिए नहीं।' जब यह विचार हुआ कि उसे पंजहजारी नियुक्ति की सूचना दी जाय तब जहाँगीर ने शाहजहाँ से कहा कि 'जब अकबर ने खानेआजम को दो हजार की तरकी देना चाहा था तब शेख फरीद बखशी और राजा राम दास को उसके घर पर मुबारकबादी देने को भेजा। उस समय वह हम्माम में था और वे फाटक पर एक प्रहर तक प्रतीक्षा करते रहे। इसके बाद जब वह अपने दरबारी कमरे में आया तब इन लोगों को बुलाकर इनकी बात सुनी। इस पर वह बैठ गया और हाथ माथे पर रख कर कहा कि 'उसे दूसरा समय इस कार्य के लिए निश्चित करना होगा।' इसके बाद बिना किसी शील या सौजन्य के उन दोनों को बिदा कर दिया। मैं यह बात याद किए हूँ और यह लज्जा की बात होगी कि यदि तुम को बाबा

उसका प्रतिनिधि होकर सलाम करना पड़े, जो मिर्जा कोका को उसकी नियुक्ति की बहाली पर करना चाहिए था ।'

१८ वें वर्ष में मिर्जा कोका खुसरो के पुत्र दावरबख्श का अभिभावक तथा साथी बनाया जाकर भेजा गया, जो गुजरात का शासक नियुक्त हुआ था । १९ वें वर्ष सन् १०३३ हि० ( १६२४ ई० ) में अहमदाबाद में यह मर गया । यह बुद्धि की तीव्रता तथा वाक्शक्ति में एक ही था । ऐतिहासिक ज्ञान भी इसका बड़ा चढ़ा था । यह कभी कभी कविता करता । यह उसके शैर का अर्थ है—  
नाम तथा यश से मुझे मनचाहा नहीं मिला ।

इसके बाद कीर्तिरूपी आईने पर पत्थर फेंकना चाहता हूँ ॥

यह नस्तालीक बहुत अच्छा लिखता था । यह मुल्ला मीर अली के पुत्र मिर्जा बाकर का शिष्य था और अच्छे समालोचकों की राय में प्रसिद्ध उस्तादों से लेखन में कम नहीं था । यह मतलब को स्पष्टतः लिखने में बहुत कुशल था । यद्यपि यह अरबी का विद्वान् नहीं था तब भी कहता था कि वह अरबी भाषा जानने में 'अरब की दासी' के समान है । बातचीत करने में अपना जोड़ नहीं रखता था और अच्छे महावरे या कहावत जानता था । उनमें से एक यह है कि 'एक मनुष्य ने कुछ कहा और मैंने सोचा कि सत्य है । उसी बात पर वह विशेष जोर देने लगा तब शंका होने लगी । जब वह शपथ खाने लगा तब समझा कि यह झूठ है ।' उसका एक विनोदपूर्ण कथन है कि 'पैसे वाले के लिए चार स्त्रियाँ होनी चाहिए—एक एराकी सत्संग के लिए, एक खुरासानी गृहस्थी के लिए, एक हिंदुस्तानी मैथुन के लिए और एक मावरुन्नहरी कोड़े मारने के लिए, जिसमें दूसरों को

उपदेश मिले ।’ परन्तु विषय-वासना, घोखेबाजी तथा कठोर बोलने में यह अपने समकालीनों में सबसे बढ़कर था तथा बहुत ही क्रोधी था । जब उसका कोई चगाहने वाला सेवक सामने आता तब यदि वह कुल हिसाब, जो उसके जिम्मे निकलता था, चुका देता तो उसे छुट्टी दे दी जाती और नहीं तो उस पर इतनी मार पड़ती कि वह मर जाता । इतने पर भी यदि कोई बच जाता तो उसे फिर कष्ट न देता, चाहे लाखों उसके जिम्मे निकले । कोई ऐसा वर्ष नहीं बीतता था कि अपने दो एक हिंदुस्तानी लेखकों का सिर न मुँड़ा देता । कहते हैं कि एक अबसर पर उनमें से बहुतों ने गंगा स्नान के लिए छुट्टी ली तब इसने अपने दीवान राय दुर्गादास से कहा कि ‘तुम क्यों नहीं जाते’ । उसने उत्तर दिया कि ‘मुझ दास का गंगा-स्नान आपके पैरों के नीचे है ।’ यह सुनकर इसने स्नान की छुट्टी देना बंद कर दिया । यद्यपि यह प्रतिदिन निमाज नहीं पढ़ता था तब भी यह धर्मांध था । इसी कारण तत्कालीन सम्राट् के धार्मिक नास्तिकता तथा अप-वित्रता का साथ नहीं दिया और प्रकट रूपसे यह उन सबसे विद्वेष रखता । यह समय देखकर नहीं काम करनेवाला था । जहाँगीर के राज्यकाल में एतमादुद्दौला के परिवार का बहुत प्रभाव था पर यह उनमें से किसी के द्वार पर नहीं गया, यहाँ तक कि नूरजहाँ बेगम के द्वार तक नहीं गया । यह खानखानों मिर्जा अब्दुर्रहीम के बिलकुल विरुद्ध था क्योंकि वह एतमा-दुद्दौला के दीवान राय गोवर्द्धन के घर गया था ।

अकबर की नास्तिकता का जिक्र आ गया है इसलिए उस विषय में कुछ कहना आवश्यक हो गया, नहीं तो यह इबलीस

शैतान की नास्तिकता से कम प्रसिद्ध नहीं है। यद्यपि तत्कालीन लेखकों तथा वाकेआनवीसों ने हानि के भय से इस बात का उल्लेख नहीं किया है पर कुछ ने किया है और शेख अब्दुल्कादिर बदायूनी या वैसे ही लोगों ने इस विषय में खुल्लमखुल्ला लिखा है। इस कारण जहाँगीर ने आज्ञा निकाली कि साम्राज्य के पुस्तक विक्रेता शेख के इतिहास को न खरीदें और न बेंचे। इस कारण वह ग्रंथ कम मिलता है। उलमा का निकाला जाना तथा सिद्धे आदि नियमों का चलाना अकबर की विचार-परंपरा के सबूत हैं। इससे बढ़कर क्या सबूत हो सकता है कि तूरान के शासक अब्दुल्ला खॉं उजबेग ने अकबर को वह बातें लिखीं, जो कोई साधारण व्यक्ति को नहीं लिखता. बादशाह की कौन कहे। उत्तर में इसने बहुत सी धर्म की बातें लिखीं और इस शौर से त्तमा का प्रार्थी हुआ—

खुदा के बारे में कहते हैं उसे पुत्र था, कहते हैं कि पैगंबर वृद्ध था खुदा और पैगंबर मनुष्यों की जबान से नहीं बचे तब मेरा क्या।

इसका अकबरनामे तथा शेख अबुल्फजल के पत्रों में उल्लेख है। परंतु इस ग्रंथ के लेखक को कुल सबूत देखने पर यही निश्चित ज्ञात होता है कि अकबर ने कभी ईश्वरत्व और पैगम्बरी का दावा नहीं किया था। वास्तव में बादशाह विद्या का आरंभ भी नहीं जानते थे और न पुस्तकें ही पढ़ी थीं पर वह बुद्धिमान था और उसका ज्ञान उच्चकोटि का था। वह चाहते थे कि जो कुछ विचार के अनुकूल है वही होना चाहिए। बहुत से उलमा सांसारिक लाभ के लिए हों में हों मिलाने लगे और चापलूसी करने लगे। फैजी और अबुल्फजल के बढ़ने का यही

कारण है। उन दोनों ने बादशाह को बुद्धिसंगत तथा सूफी विचार बतलाए और प्राचीन प्रथाओं को तोड़ने को जांच करने के लिए उन्होंने उसे अपने समय का अन्वेषक तथा मुजतहोद बतलाया। इन दोनों भाइयों की योग्यता तथा विद्वत्ता इतनी बढ़ी हुई थी कि उनके समय कोई विद्वान उनसे तर्क न कर सके, जिससे वे दर्वेशजादा और दरिद्री से बढ़कर न होते हुए एकदम बादशाह के अंतरंग तथा प्रभावशाली मित्र बन गए। ईर्ष्यालु मनुष्य, जिनसे दुनिया भरी है, और मुख्यकर प्रतिद्वंद्वी मुस्ले, जो दब चुके थे, अपनी अप्रसन्नता तथा ईर्ष्या को धर्म रक्षा का नाम देकर झूठी बातें फैलाने लगे, जिसकी कोई सीमा न था। ऐसे कोई उपद्रव नहीं थे, जो इन्होंने नहीं किए। धर्माधता तथा पक्षपात से अपना जीवन तथा ऐश्वर्य निष्ठावर कर दिया। ईश्वर उन्हें क्षमा करे।

खाने आजम को कई पुत्र थे। सबसे बड़े बहांगीर कुनीखों का अलग वृत्तांत दिया है। दूसरा मिर्जा शादमान था, जिसे जहाँगीर के समय शादखों की पदवी मिली। अन्य मिर्जा खुर्रम था, जो अकबर के समय गुजरात में जूनागढ़ का अध्यक्ष था, जो उसके पिता की जागीर थी। जहाँगीर के समय वह कमाल खों के नाम से प्रसिद्ध हुआ और शाहजादा सुलतान खुर्रम के साथ राणा के विरुद्ध नियत हुआ। एक और मिर्जा अब्दुल्ला था, जिसे जहाँगीर के समय सर्दार खों की पदवी मिली। बादशाह ने इसे इसके पिता के साथ ग्वालियर में कैद किया था। पिता के छुटकारे पर इस पर भी दया हुई। एक और मिर्जा अनवर था, जिसकी जैन खों कोका की पुत्री से शादी हुई थी। प्रत्येक ने दो हजारी तीन हजारी मंसब पाए थे।

## ५. अजीजुल्ला खॉ

हुसेन टुकरिया के पुत्र यूसुफ खॉ का पुत्र था, जिन दोनों का वृत्तांत अलग दिया गया है। अजीजुल्ला काबुल में नियत हुआ और जहाँगीर के राज्य के अंत में दो हजारी १००० सवार का मंसबदार था। शाहजहाँ के गद्दी पर बैठने पर इसका मंसब बहाल रहा और ७ वें वर्ष इज्जत खॉ पदवी और झंडा उपहार में मिला। ११ वें वर्ष में इसका मंसब दो हजारी १५०० सवार का हो गया और उसी वर्ष सईद खॉ बहादुर के साथ कंधार के पास फारसीयों के युद्ध में यह साथ रहा, जिनमें वे परास्त हुए और इसको ५०० सवार की तरफ़ी मिली। कंधार से पुरदिल खॉ के साथ बुस्त दुर्ग लेने गया। १२ वें वर्ष इसे डंका और बुस्त तथा गिरिशक दुर्गों की रक्षा का भार मिला, जो अधिकृत हो चुके थे। १४ वें वर्ष इसका मंसब तीन हजारी २००० सवार का हो गया और अजीजुल्ला खॉ पदवी मिली। १७ वें वर्ष सन् १०५४ हि० ( सन् १६४० ई० ) में मर गया।

---



## ६. अजीजुल्ला खॉ

यह खलीलुल्ला खॉ यब्दी का तीसरा पुत्र था। पिता की मृत्यु पर इसे योग्य मंसब तथा खॉ की पदवी मिली। २६ वें वर्ष औरंगजेब ने इसे मुहम्मद यार खॉ के स्थान पर मीर तुजुक बनाया। ३० वें वर्ष जब इसका भाई रूहुल्ला खॉ बीजापुर का प्रांताध्यक्ष नियत हुआ तब यह उस दुर्ग का अध्यक्ष हुआ। ३६ वें वर्ष में रूहुल्ला की मृत्यु पर इसका मंसब डेढ़ हजारी ८०० सवार का हो गया। इसके बाद यह कूरबेगी हुआ और ४६ वें वर्ष में सरदार खॉ के स्थान पर कंधार दुर्ग का अध्यक्ष नियत हुआ। इसका मंसब डेढ़ हजारी १००० सवार का हो गया। इसका और कुछ हाल नहीं ज्ञात हुआ।

---

## ७. अफजल खाँ

इसका नाम ख्वाजा सुलतान अली था। हुमायूँ के राज्य काल में यह कोषागार का लेखक था। अपनी सबाई तथा योग्यता से शाही कृपा प्राप्त किया और सन् ९५६ हि० ( सन् १५४९ ई० ) में यह दीवाने खर्च बनाया गया। सन् ९५७ में हुमायूँ के छोटे भाई कामरौं ने अपने बड़े भाई का विरोध किया, जो उस पर पिता से बढ़कर कृपा रखता था और काबुल में अपना राज्य स्थापित किया। उसने शाही लेखकों तथा नौकरों पर कड़ाई की और ख्वाजा को कैद कर धन और सामान वसूल किया। जब हुमायूँ ने भारत पर चढ़ाई करने का विचार किया तब ख्वाजा मीर बख्शी नियत हुआ। हुमायूँ की मृत्यु पर तार्दी बेग खाँ, जो अपने को अमीरुलुमरा समझता था, ख्वाजा के साथ दिल्ली का प्रबंध देखने लगा। हेमू के साथ के युद्ध में ख्वाजा मीर मुंशी अशरफ खाँ और मौलाना पीर मुहम्मद शर्वांनी के साथ, जो अमीरुल उमरा तार्दी बेग को नष्ट करने का अवसर ढूँढ़ रहे थे, भाग गए। जब ये अफसर पराजित और अप्रतिष्ठित होकर अकबर के पड़ाव पर आए, जो हेमू से युद्ध करने पंजाब से सरहिंद आया था, तब बैराम खाँ ने तुरंत तार्दी बेग खाँ को मरवा डाला और ख्वाजा तथा मीर मुंशी को निरीक्षण में रखा क्योंकि उन पर धोखे तथा घूस खाने की शंका थी। इसके अनंतर ख्वाजा तथा मीर मुंशी भागकर हिजाज चले गए।

अकबर के राज्य के ५ वें वर्ष में इन्हें अभिवादन करने की आज्ञा मिली और ख्वाजा का अच्छा स्वागत हुआ तथा तीन हजारी मंसब मिला । संपादक ने यह निश्चय नहीं किया कि ख्वाजा का इसके बाद क्या हुआ और वह कब मरा ।

---

## ८. अफजल ख़ाँ अल्लामी मुल्ला शुक्रुल्ला शीराजी

विद्या के निवासस्थान शीराज में शिक्षा प्राप्त कर इसने कुछ समय साधारण विषय पढ़ाने में व्यतीत किया। जब यह समुद्र से सूरत आया और वहाँ से बुर्हानपुर गया तब खान-खानाँ ने, जो हृदयों को आकर्षित करने के लिए चुंबक था, इसको अपने यहाँ रख कर इसका प्रबंध किया और इसे अपना साथी बना लिया। इसके अनंतर यह शाहजादा शाहजहाँ की सेवा में गया और सेना का मीर अदल हो गया। उदयपुर के राणा के कार्य में यह उसका सेक्रेटरी और विश्वासपात्र था। जब इसकी उचित राय से राणा के साथ संधि हो गई, तब इसकी प्रसिद्धि बढ़ी और यह शाहजादा का दीवान हो गया। इस चढाई का काम निपटने पर शाहजहाँ की प्रार्थना से इसे अफजल ख़ाँ की पदवी मिली। दक्षिण में यह शाहजादा की ओर से राजा विक्रमाजीत और आदिल शाही वकीलों के साथ बीजापुर गया और आदिल शाह को सत्यता तथा अधीनता के मार्ग पर लाया। वहाँ ५० हाथी, असाधारण अद्भुत वस्तुएँ, जड़ाऊ हथियार और धन कर स्वरूप लाया। १७ वें वर्ष में शाहजादा को परगना धौलपुर जागीर में मिला और इसने दरिया ख़ाँ को उसका अधिकार लेने भेजा। इसके पहिले प्रार्थना की गई थी कि वह परगना सुलतान शहर-यार को मिले और उस पर उसकी ओर से शरीफुल्लुक् ने आकर

अधिकार कर लिया था। दोनों में लड़ाई का अवसर आ गया और ऐसा हुआ कि अनायास एक गोली शरीफुल्मुल्क को आँख में घुस गई और वह अंधा हो गया। यह एक विप्लव का कारण हो गया। नूरजहाँ बेगम शहरयार का पक्ष लेने से क्रुद्ध हो गई और जहाँगीर, जिसने कुल अधिकार उसे सौंप रखा था युवराज से विमनस हो गया। शाहजहाँ, जो कंधार की चढ़ाई के लिए दक्षिण से बुलाया गया था, मौकूफ कर दिया गया और शहरयार मीर रुस्तम की अभिभावकता में उस चढ़ाई पर नियत हुआ। शाहजादे को आज्ञा मिली कि अपनी पुरानी जागीर के बदले दक्षिण, गुजरात या मालवा में इच्छित जागीर लेकर वहीं ठहरे और सहायक अफसरों को कंधार की चढ़ाई पर जाने को भेज दे। ऐसा इस कारण किया गया कि यदि शाहजादा ने जागीर दे देने और सेना भेज देने की अधीनता स्वीकार कर ली तब उसकी उन्नता और ऐश्वर्य में कमी हो जायगी और यदि उसने विद्रोह कर उपद्रव मचाया तो दंड देने का अवसर मिल जायगा। कपटी संसार क्या आश्चर्यजनक कार्य नहीं कर सकता ?

शाहजादे ने अफजल ख़ान को दरबार भेजा कि वह जहाँगीर को अच्छी तरह समझावे कि यह सब नीति ठीक नहीं है और ऐसे भारी कार्य को इतना साधारण समझ लेना साम्राज्य को हानि पहुँचाना है। सब कार्य स्त्रियों को सौंप देना उचित नहीं है, स्वयं अपने दूरदर्शी मस्तिष्क को काम लाना चाहिए। यह अत्यंत दुःख की बात होगी कि यदि इस सब अनुगामी की भक्ति में कुछ कमी हो जाय। यदि बेगम के कहने पर

आज्ञा दे देंगे कि उसकी जागीर ले ली जाय तो वह शत्रुओं में किस प्रकार रह सकता है ? इसके साथ ही उसने प्रार्थना की कि माळवा और गुजरात की जागीरें भी उससे ले ली जायें और उसे मक्का का फाटक सूरत का बंदर मिल जाय, जिसमें वह वहाँ जाकर फकीर हो जाय ।

शाहजादे की इच्छा थी कि उपद्रव की घूल शांति तथा नम्रता के छिड़काव से दब जाय और सम्मान तथा प्रतिष्ठा का पर्दान उठ जाय पर इसके शत्रुओं तथा बड्यंत्रकारियों ने मगड़ों का सामान इस प्रकार नहीं तैयार किया था कि वह अफजल खाँ से ठीक किया जा सके । यद्यपि जहाँगीर पर कुछ असर हुआ और उसने बेगम से कुछ प्रस्ताव किये पर उसने और भी हठ किया । उसका वैमनस्य बढ़ गया और अफजल बिना कुछ कर सके विदा कर दिया गया । जब शाहजादे ने समझ लिया कि वह जो कुछ अधीनता दिखलावेगा वह निर्बलता समझी जायगी और उससे शत्रुओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, इसलिए उसने शाही सेना के इकट्ठे होने के पहिले हट जाना उचित समझा क्योंकि स्यात् इसके बाद परदा हट सके । इसका वृत्त अन्यत्र विस्तारपूर्वक दिया गया है इसलिए उसे न दुहरा कर अफजल की जीवनी ही दी जाती है ।

जब शाहजादा पिता के यहाँ न जाकर लौटा और मांडू होता बुर्हानपुर में जाकर हृदता से जम गया तब अफजल खाँ बीजापुर कुछ कार्य निपटाने भेजा गया । शाही सेना के भाने के कारण शाहजादे ने बुर्हानपुर में रहना ठीक नहीं समझा तब तेलिगाना होते हुए बंगाल जाने का निश्चय किया । इसके बहुत से नौकर

इस समय स्वामिद्रोही हो गए और अफजल ख़ाँ का पुत्र मुहम्मद अपने परिवार के साथ अलग होकर भाग गया। शाहजादे ने सैयद जाफर बारह: प्रसिद्ध नाम शुजाअत ख़ाँ को खानकुली उजबेग के साथ, जो कुलीज ख़ाँ शाहजहानी का बड़ा भाई था, उसको लौटा लाने को उसके पीछे भेजा। आज्ञा थी कि यदि न आवे तो उसका सिर लावे। वह भी वीरता से उठकर तीर चलाने लगा। इन सब ने बहुत समझाया पर कुछ फल न निकला। खानकुली को तै कर सैयद जाफर को घायल किया। स्वयं वीरता से लड़कर मारा गया। शाहजादा बराबर पिता को प्रसन्न कर भूतकाल के कार्यों का प्रायश्चित्त करना चाहता था, इसलिए बंगाल से लौटने पर जहाँगीर के २०वें वर्ष सन् १०३५ हि० ( सन् १६२६ ई० ) में अफजल ख़ाँ को योग्य भेंट के साथ दरबार भेजा पर जहाँगीर ने निर्ममता से उसे रोक रखा और उसे खानसामाँ नियत कर सम्मानित किया। २२ वें वर्ष में जहाँगीर के काश्मीर जाते समय यह लाहौर में रह गया क्योंकि यात्रा की कठिनाइयों के साथ गृह-कार्य भी अधिक था। लौटते समय जहाँगीर की मृत्यु हो गई। शहरियार ने लाहौर में अपने को सम्राट् घोषित कराया और अफजल को अपना वकील तथा कुल कार्यों का केंद्र बना दिया। यह हृदय से शाहजहाँ का शुभचिंतक था, इसलिए जब शहरियार ने सेना एकत्र कर उसे सुलतान बायसंगर के आधीन आसफ ख़ाँ का सामना करने भेजा और स्वयं भी सवार होकर उसके पीछे चला तब अफजल ने राय दी कि उसका जाना उचित नहीं है और सेना से समाचार आने तक उसे ठहरना चाहिए। अपने तर्क से इसने उसे तब तक

रोक रखा जब तक वह सेना बिना हाथ पाँव के, जो मुफ्त का धन पाकर इकट्ठी हो गई थी और बिना नायक के थी, बिना युद्ध के छिन्न-भिन्न हो गई और शहरयार निराश्रय हो दुर्ग में जा बैठा। जब सन् १०३७ हि० ( १६२६ ई० ) में शाहजहाँ गद्दी पर बैठा तब अफजल ने लाहौर से १५ वर्ष में २६ जमादिबल् आखिर ( २२ फरवरी सन् १६२८ ई० ) को दरबार आकर सेवा की तथा अपनी बुद्धिमानी आदि के कारण पहिले की तरह वह भीर सामान बनाया गया और पाँच सदी ५०० सवार की तरकी मिली, जिससे उसका मंसब चार हजारी २००० सवार का हो गया। दूसरे वर्ष में यह इरादत खॉं साबजी के स्थान पर दीवान-कुल नियत हुआ और एक हजारी १००० सवार की तरकी हुई। 'शुद फलातूँ वजीरे इसकंदर' ( सिकंदर का वजीर अफलातून हुआ ) से तारीख निकलती है। दूठे वर्ष में इसने प्रार्थना की कि शाहजहाँ उसके घर पर पचारकर उसे सम्मानित करे, जिसका नाम "मंजिले अफजल" ( अफजल का मकान या प्रतिष्ठित मकान ) हुआ और जिससे तारीख भी निकलती है ( सन् १०३८ हि० )। सवार होने के स्थान से उसके गृह तक, जो २५ जरीब था, भिन्न-भिन्न प्रकार की शतरंजियाँ बिछी हुई थीं। ११वें वर्ष में सात हजारी मंसब मिलने से इसकी प्रतिष्ठा का सिर शनीश्वर तक ऊँचा हो गया। १२वें वर्ष में यह सत्तरवीं साल में पहुँचा और बीमारो का जोर होने से संसार से बिदा होने के लक्षण उसके मुख पर झलकने लगे। शाहजहाँ उसे देखने गया और उसका हाल चाल पूछने की कृपा की। १२ रमजान सन् १०४८ हि०



( ७ जनवरी सन् १६३९ ई० ) को यह लाहौर में मर गया, जिसकी तारीख 'जेखबी बुर्द गोए नेकनामी' ( मुख्याति के गेंद को सुंदरता से ले गया ) से निकलती है ।

इस अच्छे आदमी का चरित्र निष्कलंक था । शाहजहाँ प्रायः कहता कि २८ वर्ष की सेवा में उसने अफजल ख़ाँ के मुख से एक भी शब्द किसी के विरुद्ध नहीं सुना । वाक्शक्ति प्रशंसनीय थी और ज्योतिष, गणित तथा बहीखाते में योग्य था । कहते हैं कि इस सब विद्वत्ता और योग्यता के होते उसने कभी कुछ कागज पर नहीं लिखा और वह अंकों को नहीं जानता था । यह उसकी उन्नता तथा आलस्य के कारण था । वास्तव में उसने सब कार्य अपने पेशकार दियानतराय नागर गुजराती पर छोड़ दिया था । वही सब निरीक्षण करता था । किसी मसखरे कवि ने मर्सिए में, जो उसकी मृत्यु पर लिखी गई थी, कहा है कि जब कब्र में किसी हूर ने कुछ प्रश्न किया तब ख़ाँ ने उत्तर दिया कि 'दियानत राय से पूछो, वही उत्तर देगा ।' इसका मकबरा जमुना के उस पार आगरे में है । उसे कोई पुत्र नहीं थे । इसने अपने भतीजे इनायतुल्ला ख़ाँ को, जिसकी पदवी आकिल ख़ाँ थी, पुत्र के समान पाला था ।

---

## ६. अबुल् खैरखाँ बहादुर इमामजंग

यह फारूकी शेखों के वंश में था और इसके पूर्वज शेख फरीदुद्दीन शकरगंज थे। इसके पूर्वजों का निवासस्थान अवध के अंतर्गत खैराबाद सरकार में मीरपुर था। यह कुछ दिन शिकोहाबाद (मैनपुरी जिले में) रहा था, इसलिए यह शिकोहाबादी कहलाया। इसका पिता शेख बहादुरीन औरंगजेब के समय में दो हजारी मंसबदार था और शिकोहाबाद का सदर और बाजारों का निरीक्षक था। अबुल्खैर को पहिले तीन सदी मंसब मिला और मालवा के शादियाबाद मॉडू नगर में मर्हमत ख़ाँ का सहकारी रहा। जिस वर्ष निजामुल्मुल्क आसफजाह मालवा से दक्षिण को गया, इसने उसका साथ दिया। यह अनुभवी सैनिक था और ऐसे कार्यों में अच्छी राय देता था, इसलिए इसकी सम्मति ली और मानो जाती थी। इसे ढाई हजारी मंसब, ख़ाँ का खिताब, योग्य जागीर तथा पूना जिले के नवीनगर अर्थात् उन्तुर-स्थान की फौजदारी मिली। सन् ११३६ हि० (सन् १७२४ ई०) में जब अद्वितीय अमीर आसफजाह राजधानी से दक्षिण आया तब वह धार के दुर्गाध्यक्ष और मालवा प्रांत में मॉडू के फौजदार ख्वाजम कुली ख़ाँ को अपने साथ लेता आया और ख़ाँ को वहाँ उस पद पर छोड़ आया। बाद को जब कुतुबुद्दीन अली ख़ाँ पनकोड़ी दरवार से उक्त पदों पर नियत हुआ तब ख़ाँ आसफजाह के पास चला आया और खानदेश के प्रांतध्यक्ष हफ़ोजुद्दीन ख़ाँ के साथ नियुक्त हुआ। इसने मराठों के विरुद्ध अच्छा कार्य किया और क्रमशः चार हजारी २००० सवार का मंसब, बहादुर की पदवी

तथा डंका निशान पाकर विश्वासपात्र हुआ। यह थोड़े थोड़े समय तक गुलशानाबाद का फौजदार, खानदेश का नायब तथा बगलाना सरकार का फौजदार रहा। नासिर जंग के समय यह शमशेर बहादुर की पदवी पाकर औरंगाबाद का नायब हुआ। मुजफ्फर जंग के समय यह खानदेश का प्रांताध्यक्ष हुआ। सलाबत जंग के समय इसे पाँच हजारी ४००० सवार का मंसब, झालरदार पालकी और इमाम जंग की पदवी मिली। राजा रघुनाथ दास को दीवानी के समय मराठों से जो युद्ध हुआ, उसमें यह हरावल का अध्यक्ष था। युद्ध में शहीद बनने की इच्छा से मृत्यु खोजता था पर भाग्य से युद्ध के बाद साधारण रोग से सन् ११६६ हि० (१७५३ ई०) में मर गया। यह वीर तथा बोलने में निहड था। यह शिक्षित भी था। जिस वर्ष एक मराठा सर्दार बाबू नायक ने हैदराबाद कर्णाटक में चौथे इकट्ठा करने को भारी सेना एकत्र की उस समय यह ससैन्य उक्त कर्णाटक के ताल्लुकेदार अनवरुद्दीन खॉं, कडप्पा के फौजदार अब्दुल्लाबी खॉं और कर्नौल के फौजदार बहादुर खॉं के साथ उसका सामना करने पर नियत हुआ। इसका शत्रु पर आक्रमण करना, सामान लूटना तथा उसे परास्त करना, जिससे उस सर्दार ने फिर गड़बड़ नहीं मचाया, सब पर विदित है। इसे दो पुत्र थे। बड़ा अबुल् बर्कत खॉं इमाम जंग साहसी था पर युवावस्था ही में मर गया। दूसरा शम्सुद्दौला अबुल् खैर खॉं बहादुर तेग-जंग था, जो लिखते समय निजामुद्दौला आसफ़जाह का कृपापात्र है और जिसे पाँच हजारी ५००० सवार का मंसब, डंका निशान और बीदर प्रांत का पश्चिमीय महाल जागीर में मिला है। इसमें अच्छे गुण हैं तथा इसका अच्छा नाम है।

## १०. अबुलफज्ज, अल्लामी फहामी शेख

यह शेख मुबारक नागौरी का द्वितीय पुत्र था। इसका जन्म सन् ९५८ हि० (६ मुहर्रम, १४ जनवरी सन् १५५१ ई०) में हुआ था। यह अपनी बुद्धि-तीव्रता, योग्यता, प्रतिभा तथा वाक्चातुरी से शीघ्र अपने समय का अद्वितीय एवं असामान्य पुरुष हो गया। १५ वें वर्ष तक इसने दार्शनिक शास्त्र तथा हदीस में पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। कहते हैं कि शिक्षा के आरम्भिक दिनों में जब वह २० वर्ष का भी नहीं हुआ था तब सिफाहानी या इस्फहानी की व्याख्या इसको मिली, जिसका आधे से अधिक अंश दीमक खा गये थे और इस कारण वह समझ में नहीं आ रहा था। इसने दीमक खाये हुये हिस्सों को अलग कर सादे कागज जोड़े और थोड़ा विचार कर के प्रत्येक पंक्ति का आरंभ तथा अंत समझ कर सादे भाग को अंदाज से भर डाला। बाद को जब दूसरी प्रति मिल गई और दोनों का मिलान किया गया, तो वे मिल गए। दो तीन स्थानों पर समानार्थी शब्द-योजना की विभिन्नता थी और तीन चार स्थानों पर के उद्धरण भिन्न थे पर उनमें भी भाव प्रायः मूल के ही थे। सबको यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ। इसका स्वभाव एकांतप्रिय था, इसलिये इसे एकांत अच्छा लगता था और इसने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया तथा स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहा। इसने किसी व्यापार के द्वार को खोलने का प्रयत्न नहीं किया। मित्रों के कहने पर १९ वें

वर्ष में यह बादशाह अकबर के दरबार में उस समय उपस्थित हुआ जब वह पूर्वीय प्रांतों की ओर जा रहा था और अयातुल् कुरसी पर लिखी हुई अपनी टीका उसे भेंट की। जब अकबर फतेहपुर लौटा तब यह दूसरी बार उसके यहाँ गया और इसकी विद्वत्ता तथा योग्यता की ख्याति अकबर तक कई बार पहुँच चुकी थी इसीलिये इस पर असीम कृपायें हुईं। जब अकबर कट्टर मुस्लाओं से बिगड़ बैठा तब ये दोनों भाई, जो अपनी सब्कोटि की विद्वत्ता तथा योग्यता के साथ धूर्तता तथा चापलूसी में भी कम नहीं थे, बार-बार शोख अब्दुअबी और मखदूमुल्मुल्क से, जो अपने ज्ञान तथा प्रचलित विद्याओं की जानकारी से साम्राज्य के स्तम्भ थे, तर्क करके उन्हें चुप कर देने में अकबर की सहायता करते रहते थे, जिससे दिन प्रतिदिन इनका प्रभुत्व और बादशाह से मित्रता बढ़ती गई। शोख तथा इसके बड़े भाई शोख फैजी का स्वभाव बादशाह की प्रकृति से मिलता था, इससे अबुल् फजल अमीर हो गया। ३२ वें वर्ष में यह एक हजारि मंसबदार हो गया। ३४ वें वर्ष में जब शोख की माँ की मृत्यु हुई तब अकबर ने शोक मनाने के लिए इसके गृह पर जाकर इसको समझाया कि यदि मनुष्य अमर होता और एक एक कर न मरता तो सहानुभूतिशील हृदयों के विरक्ति की आवश्यकता ही न रह जाती। इस सराय में कोई भी अधिक दिनों नहीं रहता, तब क्यों हम लोग असंतोष का दोष अपने ऊपर लें। ३७ वें वर्ष में इसका मंसब दो हजारि हो गया।

जब शोख का बादशाह पर इतना प्रभुत्व बढ़ गया कि शाह-जादे भी इससे ईर्ष्या करने लगे तब अफसरों का कहना ही क्या

और यह बराबर बादशाह के पास रत्न तथा कुंदन के समान रहने लगा तब कई असंतुष्ट सदर्दारों ने अकबर को शोख को दक्षिण भेजने के लिये बाध्य किया। यह प्रसिद्ध है कि एक दिन सुलतान सलीम शोख के घर पर गया और चालीस लेखकों को कुरान तथा उसकी व्याख्या की प्रतिलिपि करते देखा। वह उन सब को पुस्तकों के साथ बादशाह के पास ले गया, जो सशंकित होकर विचारने लगा कि यह हमको तो और किस्म की बातें सिखलाता है और अपने यहाँ गृह के एकांत में दूसरा करता है। उस दिन से उनकी मित्रता की बातों तथा दोस्ती में फर्क पड़ गया।

४३ वें इलाही वर्ष में यह दक्षिण शाहजादा मुराद को लाने भेजा गया। इसे आज्ञा मिली थी कि यदि वहाँ के रक्षाथ नियुक्त अफसर ठीक कार्य कर रहे हों तो वह शाहजादे के साथ लौट आवे और यदि ऐसा न हो तो वह शाहजादा को भेज दे और मिर्जा शाहख के साथ वहाँ का प्रबंध ठीक करे। जब वह वुर्हानपुर पहुँचा तब खानदेश के अध्यक्ष बहादुर खान ने, जिसके भाई से अबुल्फजल को बहन ब्याही हुई थी, चाहा कि इसे अपने घर ढिवा जाकर इसकी खातिरी करें। शोख ने कहा कि यदि तुम मेरे साथ बादशाह के कार्य में योग देने चलो तो हम निमंत्रण स्वीकार कर लें। जब यह मार्ग बंद हो गया तब उसने कुछ वस्त्र तथा रुपये भेंट भेजे। शोख ने उत्तर दिया कि मैंने खुदा से शपथ ली है कि जब तक चार शर्तें पूरी न हों तब तक मैं कुछ उपहार स्वीकार नहीं करूँगा। पहली शर्त प्रेम है, दूसरी यह कि उपहार का मैं विशेष मूल्य नहीं समझूँगा; तीसरी यह

कि मैंने उसको माँगा न हो और चौथी यह कि उसकी मुझे आवश्यकता हो। इनमें पहिले तीन तो पूरे हो सके हैं पर चौथा कैसे पूरा होगा ? क्योंकि शाहंशाह की कृपा ने इच्छा रहने ही नहीं दी है।

शाहजादा मुराद, जो अहमदनगर से असफल होकर लौटने के कारण मस्तिष्क विकार से प्रसित हो रहा था और उसके पुत्र रुस्तम मिर्जा की मृत्यु से उसमें अधिक सहायता मिली, अन्य मदिरा पायियों के प्रोत्साहन से पान करने लगा और उसे लकवा की बीमारी हो गई। जब उसे अपने बुलाये जाने की आज्ञा का समाचार मिला, तो वह अहमदनगर चला गया, जिसमें इस चढ़ाई को दरबार न जाने का एक बहाना बना ले। यह पूर्वा नदी के किनारे दीहारी पहुँच कर सन् १००७ हि० ( १५९९ ई० ) में मर गया। उसी दिन शोख फुर्ती से कूच कर पढ़ाव में पहुँचा। वहाँ अत्यंत गढ़बढ़ मचा हुआ था। छोटे बड़े सभी लौट जाना चाहते थे पर शोख ने यह सोच कर कि ऐसे समय जब शत्रु पास है और वे विदेश में हैं, लौटना अपनी हानि करना है। बहुतेरे क्रुद्ध होकर लौट गए पर इसने दृढ़ हृदय तथा सच्चे साहस के साथ सर्दारों को शांत कर सेना एकत्रित रखा और दक्षिण-विजय के लिये कूच कर दिया। थोड़े समय में भागे हुए भी आ मिले और उसने कुल प्रांत की अच्छी तरह रक्षा की। नासिक बहुत दूर था, इसलिये नहीं लिया जा सका, पर बहुत से स्थान, बटियाला, तलतुम, सितूँदा आदि साम्राज्य में मिला लिए गए। गोदावरी के तट पर पढ़ाव डाल चारों ओर योग्य सेना भेजी। संदेश मिलने पर इसने चाँद

बीबी से वह ठीक प्रतिज्ञा तथा वचन ले लिया कि अमंग खॉ हब्शी के, जिससे उसका विरोध चल रहा था, दंड पा जाने पर वह अपने लिये जुनेर जागीर में लेकर अहमदनगर दे देगी। शेख शाहगढ़ से उस ओर को रवाना हुआ।

इसी समय अकबर उज्जैन आया और उसे ज्ञात हुआ कि आसीर के अध्यक्ष बहादुर खॉ ने शाहजादा दानियाल को कोर्निश नहीं किया है तथा शाहजादा उसे दंड देना चाहता है। बादशाह बुर्हानपुर तक आना चाहते थे इसलिए शाहजादे को लिखा कि वह अहमदनगर लेने में प्रयत्न करे। इस पर पत्र पर पत्र शाहजादे के यहाँ से शेख के पास आने लगे कि उसका उत्साह दूर दूर तक लोगों को मालूम है पर अकबर चाहता है कि शाहजादा अहमदनगर विजय करे, इसलिए अबुल्फजल उस चढ़ाई से हाथ खींचे। जब शाहजादा बुर्हानपुर से चला तब शेख आझानुसार मीर मुर्तजा तथा ख्वाजा अबुल्हसन के साथ मिर्जा शाहखु के अधीन कंप छोड़ कर दरबार चला गया। १४ रमजान सन् १००८ हि० ( १९ मार्च सन् १६०० ई० ) को ४५ वें वर्ष के आरंभ में बीजापुर राज्य में करगाँव में बादशाह से भेंट की। अकबर के होंठ पर इस आशय का शेर था—

सुन्दर रात्रि तथा सुशोभित चंद्र हो, जिसमें  
तुम्हारे साथ हर विषय पर मैं वार्तालाप करूँ।

मिर्जा अजीज कोका, आसफ खॉ जाफर और शेख फरीद खल्शी के साथ शेख दुर्ग आसीर घेरने पर नियत हुए और खानदेश प्रांत का शासन उसे मिला। उसने अपने पुत्र तथा भाई के अधीन अपने आदमियों को भेजकर २२ थाने स्थापित



किए और विद्रोहियों को दमन करने में प्रयत्न किया। उसी समय इसने चार हजारों मंसब का झंडा फहराया।

एक दिन शोख तोपखाना का निरीक्षण करने गए। घिरे हुआओं में से एक आदमी ने, जो तोपखाने के मनुष्यों से आ मिला था, मालीगढ़ के दीवाल तक पहुँचने का एक मार्ग बतला दिया। आसीर के पर्वत के मध्य में उत्तर की ओर दो प्रसिद्ध दुर्ग माली और अंतरमाली हैं, जिनमें से होकर ही लोग एक दृढ़ दुर्ग में जा सकते थे। इसके सिवा वायव्य, उत्तर तथा ईशान में एक और दुर्ग जूना माली है। इसके दीवाल पूरे नहीं हुए थे। पूर्व से नैऋत्य तक कई छोटी पहाड़ियाँ हैं और दक्षिण में ऊँची पहाड़ी कोर्था है। दक्षिण-पश्चिम में सापन नामक ऊँची पहाड़ी है। यह अंतिम शाही सेना के हाथ में आ गया था, इससे शोख ने तोपखाने के अफसरों से यह निश्चित किया कि जब वे डंके तुरही आदि का शब्द सुनें तब सभी सीढ़ी लेकर बाहर निकल आँवें और बड़ा डंका पीटें। वह स्वयं एक अंधकार-पूर्ण तथा बादल-मय रात्रि में अपने सैनिकों के साथ सापन पर चढ़ आया और वहाँ से आदमियों को पता देकर आगे भेजा। उन सब ने माली का फाटक तोड़ डाला और भीतर घुसकर डंका पीटने और तुरही बजाने लगे। दुर्गवाले लड़ने लगे पर शोख भी सुबह होते होते आ पहुँचा तब दुर्गवाले आसीर गढ़ में चले गए। जब दिन हुआ तब घेरने वाले कोर्था, जूनामाली आदि सब ओर से आ पहुँचे और भारी विजय हुई। बहादुर खॉं शरणागत हुआ और खानेआजम कोका के मध्यस्थ होने पर कोर्निश करने की उसे आज्ञा मिली। जब शाहजादा दानियाल आसीर-विजय की खुशो में दरबार आया तब

राजूमना के कारण वहाँ गढ़बढ़ मचा और निजामशाह के चाचा के लड़के शाह अली को गद्दी पर बिठाने का प्रयत्न हुआ। खानखानों अहमदनगर आया और शेख को नासिक विजय करने की आज्ञा मिली। पर शाह अली के पुत्र को लेकर बहुत से आदमी अशांति मचाये हुए थे इसलिए आज्ञानुसार शेख वहाँ से लौटकर खानखानों के साथ अहमदनगर गया।

जब ४६ वें वर्ष में अकबर लुर्हानपुर से हिंदुस्तान लौटा तब शाहजादा दानियाल वहीं रह गया। जब खानखानों ने अहमदनगर को अपना निवास-स्थान बनाया तब सेनापतित्व और युद्ध-संचालन का भार शेख पर आ पड़ा। युद्धों के होने के बाद शेख ने शाह अली के लड़के से संधि कर ली और तब राजूमना को दंड देने की तैयारी की। जालनापुर तथा आस-पास के प्रांत पर, जिसमें शत्रु थे, अधिकार कर वह दौलताबाद घाटी तथा रौजा की ओर चला। कटक चतवारा से कूच कर राजूमना से युद्ध किया और विजयी रहा। राजू ने दौलताबाद में कुछ दिन शरण ली और फिर उपद्रव करता पहुँचा। थोड़ी ही लड़ाई पर वह पुनः भागा और पकड़ा जा चुका था कि वह दुर्ग की खाई में कूद पड़ा। उसका सब सामान लुट गया।

४७ वें वर्ष में जब अकबर शाहजादा सलीम से कुछ घटनाओं के कारण खफा हो गया तब उसने, क्योंकि उसके नौकर शाहजादा का पक्ष ले रहे थे और सत्यता तथा विश्वास में कोई भी अबुल्फजल के बराबर नहीं था, शेख को अपना कुल सामान वहीं छोड़ कर बिना सेना लिये फुर्ती से लौट आने के लिये लिखा। अबुल्फजल अपने पुत्र अब्दुर्रहमान के अधीन अपनी सेना

तथा सहायक अफसरों को दक्षिण में छोड़ कर फुर्ती से रवाना हो गया। जहाँगीर ने इसकी अपने स्वामी के प्रति भक्ति तथा श्रद्धा के कारण इस पर शंका की तथा इसके आने को अपने कार्य में बाधक समझा और इसके इस प्रकार अकेले आने में अपना लाभ माना। अगुणप्राहकता से शोख को मार्ग से हटा देने को उसने अपने साम्राज्य की प्रथम सीढ़ी मान लिया और वीरसिंह देव बुंदेला को बहुत सा वादा कर, जिसके राज्य में से होकर शोख आने वाला था, इसे मार डालने पर तैयार किया। वह घात में लग गया। जब यह समाचार शोख को उज्जैन में मिला तब लोगों ने राय दी कि उसे मालवा से घाटी बाँदा के मार्ग से जाना चाहिये। शोख ने कहा कि “डॉकुओं की क्या मजाल है कि मेरा रास्ता रोकें”। ४ रबीवल् अव्वल सन् १०११ हि० ( १२ अगस्त १६०२ ई० ) को शुक्रवार के दिन बड़ा की सराय से आध कोस पर, जो नरवर से ६ कोस पर है, वीरसिंह देव ने भारी घुड़सवार तथा पैदल सेना के साथ धावा किया। शोख के शुभचिंतकों ने शोख को युद्ध स्थल से हटा ले जाने का प्रयत्न किया और इसके एक पुराने सेवक गदाई अफगान ने कहा भी कि आंतरी बस्ती में पास ही रायरायान तथा राजा सूरजसिंह तीन हजार घुड़सवारों सहित मौजूद हैं, जिन्हें लेकर उसे शत्रु का दमन करना चाहिये पर शोख ने भागने की अप्रतिष्ठा नहीं उठानी चाही और जीवन के सिके को वीरता से खेल डाला।

जहाँगीर स्वयं लिखता है कि शोख अबुल्फजल ने उसके पिता को समझा दिया था कि ‘हजरत पैगंबर में वाक्-शक्ति पूर्ण थी और उन्हीं ने कुरान लिखा है। इस कारण शोख के

दक्षिण से लौटते समय उसने बीरसिंह देव को उसे मार डालने को कह दिया और इसके बाद उसके पिता के विचार बदले ।'

चगत्ताई वंश में नियम था कि शाहजादों की मृत्यु का समाचार बादशाहों को खुले रूप से नहीं दिया जाता था । उनके वकील नीला रूमाल हाथ में बाँध कर कोर्निश करते थे, जिससे बादशाह उक्त समाचार से अवगत हो जाते थे । शेख की मृत्यु का समाचार बादशाह को कहने का जब किसी को साहस नहीं हुआ तब यही नियम बरता गया । अकबर को अपने पुत्रों की मृत्यु से अधिक शोक हुआ और कुल वृत्त सुनकर कहा कि 'यदि शाहजादा बादशाहत चाहता था तो उसे मुझे मारना और शेख की रक्षा करना चाहता था । उसने यह शौर पकाएक पढ़ा—

जब शेख हमारी ओर बड़े आम्रह से आया,

तब हमारे पैर चूमने की इच्छा से बिना सिर पैर के आया ।

खाने आज़म ने शेख की मृत्यु की तारीख इस मुहम्मद में कहा—'खुदा के पैगंबर ने बागी का सिर काट डाला' ( १०११ हि० १६०२ ई० ) ।

कहते हैं कि स्वप्न में शेख ने उससे कहा कि "मेरी मृत्यु की तारीख 'बंदः अबुल्फजल' है, क्योंकि खुदा की दुनिया में भटके हुआँ पर विशेष कृपा होती है । किसी को निराश नहीं होना चाहिए ।"

शाह अबुल् मआली क्रादिरों के विषय में, जो लाहौर के शेखों का एक मुखिया था, कहा जाता है कि उसने कहा था कि "मैंने अबुल्फजल के कार्यों का विरोध किया था । एक रात्रि

मैंने स्वप्न में देखा कि अबुल्फजल पैगंबर के जलसे में लाया गया। उसने अपनी कृपा दृष्टि उस पर डाली और अपने जलसे में स्थान दिया। उसने कृपा कर कहा कि इस आदमी ने अपने जीवन के कुछ भाग कुकार्य में व्यतीत किए पर इसकी वह दुआ, जिसका आरंभ यों है कि 'ऐ खुदा, अच्छे लोगों को उनकी अच्छाई का पुरस्कार दे और बुरों पर अपनी उन्नता से दया कर' उसकी मुक्ति का कारण हो गई।"

छोटे बड़े सभी के मुख पर यह बात थी कि शेख काफिर था। कोई उसे हिंदू कह कर उसकी निंदा करता था तो कोई अभि-पूजक बतलाता था तथा मतांध की पदवी देता था। कुछ लोगों ने अपनी घृणा यहाँ तक दिखलाई है कि उसे नापाक तथा अनीश्वरवादी तक कहा है। पर दूसरे जिनमें न्याय बुद्धि अधिक है और जो सूफी मत के अनुयायियों के समान बुरे नाम वालों को अच्छे नाम देते हैं, इसे उनमें गिनते हैं, जो सबसे शांति रखते हैं, अत्यंत उदार हृदय हैं, सब धर्मों को मानते हैं, नियम को ढीला करते हैं तथा स्वतंत्र प्रकृति के हैं। आलमआरा अब्बासी का लेखक लिखता है कि शेख अबुल्फजल नुक्तवी था, जैसा कि एक अक्षर के रूप में लिखे हुए एक मन्शूर से मालूम होता है, जिसे अबुल्फजल ने मीर सैयद अहमद काशी के पास भेजा था, जो उस मत का एक मुखिया तथा उस नुक्ता मत की पुस्तकों का एक लेखक था। यह सन् १००२ हि० ( सन् १५९४ ई० ) में, जब काफिरों को फारस में मार रहे थे, काशान में शाह अब्बास के निजी हाथों से मारा गया था। नुक्तामत कुफ्र, अपवित्रता, बंचकता और घोर ईस्मईपन है और नुक्तवी लोग दार्शनिकों के समान।

विश्व को अनादि मानते हैं। वे प्रलय तथा अंतिम दिन और अच्छे बुरे कर्मों के बदले को नहीं मानते। वे स्वर्ग और नरक को यही सांसारिक सुख और दुख मानते हैं। खुदा हमें बचावे।

यह सब होते शैख योग्य पुरुष था और इसमें मेधाशक्ति तथा विवेचना की शक्ति बहुत थी। सांसारिक कार्यों तथा प्रचलित प्रश्नों को, चाहे वे कैसे भी नाजुक हों, समझने की इसमें ऐसी शक्ति थी कि कुछ भी इसकी दृष्टि से नहीं छूटता था। तब किस प्रकार यह विद्वानों से एक राय नहीं हो सका और इसने कैसे ठोक रास्ता छोड़ा ? सांसारिक कार्यों में मनुष्य, जो अनिश्चय है, अपनी बुराई आप नहीं करता और अपने को हानि नहीं पहुँचाता। उस अंतिम संसार के कार्यों में, जो नित्य और अमित हैं, क्यों जान बूझ कर अपना नाश चाहेगा ? 'वे, जिन्हें खुदा भटकने देता है, बिना मार्ग-प्रदर्शक के हैं।'

जॉब करने पर यही ज्ञात होता है कि अकबर समझ आने के समय ही से भारत के बाल व्यवहार आदि को बहुत पसंद करता था। इसके बाद वह अपने पिता के उपदेशों पर, जिसने फारस के शाह तहमास्प की सम्मति माब ली थी, चला। (निर्वासन के समय) हुमायूँ के साथ बातचीत करते हुए भारत तथा राज्य छिन जाने के विषय में चर्चा चलाकर उसने कहा कि 'ऐसा ज्ञात होता है कि भारत में दो दल हैं, जो युद्ध-कला तथा सैनिक-संचालन में प्रसिद्ध हैं, अफगान तथा राजपूत। इस समय पास्परिक अविश्वास के कारण अफगान आपके पक्ष में नहीं आ सकते, इसलिए उन्हें सेवक न रखकर व्यापारी बनाओ और राजपूतों को मिला रखो।' अकबर ने इस दल को मिला रखना

एक भारी राजनैतिक चाल माना और इसके लिए पूरा प्रयत्न किया। यहाँ तक कि उसने उनकी चाल अपनाई, गाय मारना बंद कर दिया, डाढ़ी बनवाता, मोती के बाले पहिरता, दशहरा तथा दिवाली त्योहार मनाता आदि। शेर का बादशाह पर प्रभाव था पर स्यात् प्रसिद्धि के विचार से उसने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। इस सबका उसी पर चलटा असर पड़ा।

जखीरतुल खवानीन में लिखा है कि शेर रात्रि में दर्वेशों के यहाँ जाता, उनमें अशर्कियों बाँटता और अपने धर्म के लिए उनसे दुआ माँगता। इसकी प्रार्थना यही होती कि 'शोक, क्या करना चाहिए?' तब अपने हाथ घुटनों पर रखकर गहरी साँस खींचता। इसने अपने नौकरों को कभी कुबचन नहीं कहा, अनुपस्थिति के लिए दंड नहीं लगाया और न उनकी मजदूरी आदि जप्त किया। जिसे एक बार नौकर रख लिया, उसे यथा संभव ठीक काम न करने पर भी कभी नहीं छुड़ाया। यह कहता कि लोग कहेंगे कि इसमें बुद्धि की कमी है जो बिना समझे कि कौन कैसा है, रख लेता है। जिस दिन सूर्य मेष राशि में जाता है उस दिन यह सब घराऊ सामान सामने भँगवाकर उसकी सूची बनवा लेता और अपने पास रखता। यह अपने बही खातों को जलवा देता और कुल कपड़ों को नौरोज को नौकरों में बाँट देता, केवल पैजामों को सामने जलवा देता। इसका भोजन आश्चर्यजनक था। कहते हैं कि ईधन पानी छोड़कर इसका नित्य भोजन २२ सेर था। इसका पुत्र अब्दुर्रहमान इसे भोजन कराता और पास रहता। बाबर्चीखाना का निरीक्षक मुसलमान था, जो खड़ा होकर देखता रहता। जिस तश्तरी में शेर दो बार

हाथ डालता वह दूसरे दिन फिर तैयार किया जाता। यदि कुछ स्वाद-रहित होता तो वह उसे अपने पुत्र को खाने को देता और तब वह जाकर बाबर्चियों को कहता था। शेख स्वयं कुछ नहीं कहते थे।

कहते हैं कि दक्षिण की चढ़ाई के समय इसके साथ के प्रबंध और कारखाने ऐसे थे जो विचार से परे थे। चेहल रावटी में शेख के लिए मसनद बिछता और प्रतिदिन एक सहस्र थालियों में भोजन आता तथा अफसरों में बँटता। बाहर एक नौगजी लगी रहती, जिसमें दिन रात सबको पकी पकाई खिचड़ी बँटती रहती थी।

कहा जाता है कि जब शेख वकील-मुतलक था तब एक दिन खानखानों सिंध के शासक मिर्जा जानीबेग के साथ इससे मिलने आया। शेख बिस्तर पर लंबा सोया हुआ अकबरनामा देख रहा था। इसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और उसी प्रकार पड़े हुए कहा कि 'मिर्जे आओ और बैठो'। मिर्जा जानीबेग में सल्लनत की बू थी इसलिए वह कुढ़ कर लौट गया। दूसरी बार खानखानों के बहुत कहने से मिर्जा शेख के गृह पर गए। शेख फाटक तक स्वागत को आया और बहुत सुव्यवहार करके कहा कि 'हम लोग आपके साथी नागरिक हैं और आपके सेवक हैं।' मिर्जा ने आश्चर्य में पड़कर खानखानों से पूछा कि 'उस दिन के अहंकार और आज की नम्रता का क्या अर्थ है।' खानखानों ने उत्तर दिया कि 'उस दिन प्रधान अमात्य के पद का विचार था, छाया को वास्तविकता के समान माना। आज भातृत्व का वर्ताव है।'।



अस्तु, इन सब बातों को छोड़िए। शैख की साहित्यिक शैली अत्यंत मनोरंजक थी। मुंशियाना आडंबर और लेखनकला के चालों से इसकी शैली स्वतंत्र थी। शब्दों का ओज, वाक्यविन्यास की गूढ़ता, एक एक शब्द की योजना, सुंदर संधियाँ और यमक का आश्चर्यजनक योग सभी ऐसे थे कि दूसरे को उनका नकल करना कठिन था। फारसी शब्दों का यह विशिष्ट प्रयोग करता था, जिससे कहा जाता है कि इसने निजामी की मसनवी का गद्य कर ढाला है। इस कला की इसकी अद्भुत योग्यता के कारण यह अपने सम्राट् के विषय में बहुत सी बातें लिख सका है और भूमिकाएँ लिखा है जो अचरज पैदा करती हैं और जिन्हें बहुत मनन कर समझ सकते हैं।

---

## ११. अबुल् फतह

यह मौलाना अब्दुर्रज्जाक गीलानी का पुत्र था तथा इसका पूरा नाम हकीम मसोहुद्दीन अबुल् फतह था। मौलाना ध्यान तथा भक्ति का पूरा ज्ञाता था। बहुत दिनों तक उस देश की सदरत उसके हाथ में थी। जब सन् ९७४ हि० ( सन् १५६६-७ ई० ) में शाह तहमास्प सफवी ने गीलान पर अधिकार कर लिया और वहाँ का शासक खान अहमद अपनी कार्य-अनभिज्ञता के कारण कैद हो गया तब मौलाना ने अपनी सत्यता तथा धर्माघता के कारण कैद तथा दंड में अपना प्राण खोया। हकीम अपने भाइयों हकीम हुमाम और हकीम नूरुद्दीन के साथ, जो निदान करने की शीघ्रता, प्रचलित विज्ञानों की योग्यता तथा बाहरी पूर्णता के लिए प्रसिद्ध थे, अपने देश को छोड़कर भारत आया। २० वें वर्ष में अकबर की सेवा में भर्ती हुए और तीनों भाइयों की योग्य उन्नति हुई।

अबुल्फतह की योग्यता दूसरे प्रकार की थी और उसे सांसारिक अनुभव तथा ज्ञान अधिक था, इसलिए दरबार में अच्छी तरहकी की और २४वें वर्ष में बंगाल का सदर और अमीन नियत हुआ। इसके बाद जब बंगाल तथा बिहार के विद्रोही मिल गए और प्रांताध्यक्ष मुजफ्फर खॉं को मार डाला तब हकीम तथा अन्य राजभक्त अफसर कैद हो गए। एक दिन अवसर पाकर यह दुर्ग पर से कूद पड़ा और कुशल-पूर्वक कठिनाई के साथ पैर में

कुछ चोट खाकर नीचे पहुँच गया । इसके अनंतर यह अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ ।

जब इसने देहली चूमा तब यह प्रभाव और मित्रता में अपने बराबरवालों से बहुत बढ़ गया । यद्यपि इसका मंसब हजारी से अधिक नहीं था पर यह वजीर या वकील से बढ़कर था । जब ३०वें वर्ष में जैन खों कोका की सहायता के लिए राजा बीरबर जा रहे थे, जो यूसुफजई खेल को दमन करने के लिए नियत हुआ था, तब हकीम भी उसके स्वतंत्र सहायक होकर भेजे गए थे । इन सबने एक दूसरे का ख्याल नहीं किया और मिलकर कार्य नहीं किया । इस अहंता तथा घोखे का यही फल हुआ कि राजा मारा गया और हकीम तथा कोकल-ताश बड़ी कठिनाई से जान बचाकर भागे और दरबार में उपस्थित हुए । कुछ दिनों तक वे दंडित रहे । ३४वें वर्ष सन् ९९७ हि० ( १५८९ ई० ) में जब अकबर काश्मीर से काबुल जा रहा था तब हकीम की दमतूर के पास मृत्यु हो गई । आज्ञानुसार ख्वाजा शम्सुद्दीन ख्वाफी उसका शरीर हसन-अब्दाल ले गया और उसको अपने लिए बनवाए एक गुंबद के नीचे दफना दिया । इसके कुछ ही दिन पहिले बड़ा विद्वान् अमीर अजदुद्दौला शीराजी मर गया था, जिसकी तारीख हरफी सावजी ने इस तरह निकाला था । शैर का अर्थ—

इस वर्ष दो विद्वान् संसार से गये ।

एक भागे गया दूसरा बाद को ॥

जब तक दोनों मिल नहीं गये ।

तब तक तारीख 'दोनों साथ गए' नहीं निकला ॥

अकबर इस पर बहुत कृपा रखता था, इसकी बीमारी में इसे देखने गया और इसकी मृत्यु पर हसन अब्दाल में फातिहा पढ़कर अपना शोक प्रकट किया। हकीम तीव्र, बुद्धिमान और उत्साही पुरुष था। फैजी उसके विषय में अपने मर्सिए में कहता है—

उसके लेख भाग्य के रहस्य की व्याख्या थी।

उसके कार्य भाग्य के लेख की व्याख्या थी ॥

आदमियों के स्वभाव समझने और उसके अनुकूल काम करने में यह कभी कम प्रयत्न नहीं करता था। यह जो कुछ कहता उसमें बुद्धिमता का भारोपन रहता था। यह उदारता और शील तथा अपने गुणों के लिए संसार में एक था। अपने समय के कवियों के प्रशंसा का पात्र हो गया था। विशेष कर मुल्ला उर्फ शीराजी ने इसकी प्रशंसा में कई अच्छे कसीदे लिखे। उनमें से एक यह कितः है ( पर इसका अनुवाद नहीं दिया गया है )।

इसका (सबसे छोटा) भाई हकीम नूरुद्दीन का उपनाम करारी था और यह अच्छा वक्ता तथा कवि था। उसका एक शेर है—

मैं मृत्यु को क्या समझता हूँ ? तेरी आँखों की एक तीर ने मुझे बेध दिया है और यद्यपि मैं एक शताब्दी और न मरूँ पर वह मुझे पीड़ा देता रहे ।

एक विशेष घबड़ाहट के कारण अकबर की आज्ञा से यह बंगाल भेजा गया, जहाँ बिना तरकी पाए यह मर गया ।

इसकी कुछ कहावतें इस प्रकार हैं। 'दूसरे को अपनी योग्यता दिखलाना अपना लोभ दिखलाना है।' 'उजड़ु सेबक

‘पर सर्वदा आँखें रखना अपने को दुःशील बनाना है।’ ‘जिस पर विश्वास करो वही विश्वासपात्र है।’ यह अबुल् फतह को इस दुनिया का और हकीम हुसाम को दूसरी दुनिया का आदमी समझता था तथा दोनों से दूर रहता था। इसका एक भाई हकीम लुत्फुल्ला भी बाद को फारस से चला आया और हकीम अबुल्फतह के कारण वह भी बादशाही सेवक हो गया और दो सदी मंसब पाया। यह शीघ्र मर गया। अबुल्फतह का लड़का फतहुल्ला योग्य तथा धनी आदमी था। जहाँगीर की उस पर कृपा नहीं थी, इसलिए दिव्यानत खॉ लंग ने उस पर राजद्रोह का दोष लगाया कि सुलतान खुसरो के विद्रोह के समय फतहुल्ला ने मुझसे कहा था कि उचित होगा कि पंजाब खुसरो को देकर ऋगड़ा स्वतन्त्र कर दिया जाय। फतहुल्ला ने ऐसा कहना अस्वीकार कर दिया, इस पर दोनों को शपथ खाना पड़ा। पंद्रह दिन नहीं बीते थे कि मूठी शपथ का फल मिल गया क्योंकि यह आसफखॉ के चचेरे भाई नूरुद्दीन से मिल गया, जिसने भवसर मिलते ही खुसरो को कैद से निकालने का वचन दिया था। दैवात् दूसरे वर्ष में जब जहाँगीर काबुल से लाहौर लौट रहा था तब यह षडयंत्र उसे मालूम हुआ। जॉचने पर नूरुद्दीन आदि को प्राण दंड दिया गया और हकीम फतहुल्ला को टुम की ओर मुखकर गदहे पर बैठा बराबर मंजिल मंजिल साथ लिवा गया और अंत में वह अंधा किया गया।

---

## १२. अबुलफतह खाँ दखिनी तथा महदवी धर्म

यह मीर सैयद मुहम्मद जौनपुरी का वंशज था। विवाह द्वारा जमाल खाँ हब्शी से संबंध हो जाने के कारण यह दुनिया में ऊँचे पद को पहुँचा और साहस तथा उदारता के लिए प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं कि जब मुर्तजा निजामशाह के राज्य-काल में सन्त्रवार के सुलतान हुसेन के पुत्र सुलतान इसन को, जो अहमदनगर में रहता था, मिर्जा खाँ की पदवी मिली और उस वंश का पेशवा हुआ तब यह दुष्टता तथा मूर्खता से दौलताबाद से मुर्तजा निजामशाह के लड़के मीरान हुसेन को अहमद नगर लाया और उसे सुलतान बनाया। इसने मुर्तजा निजाम शाह को कष्ट देकर मारहाला और पहिले से भी अधिक शक्तिमान हो उठा। कुछ समय बाद षट्चक्रियों ने मिर्जा खाँ और मीरान हुसेन में मनोमालिन्य करा दिया। हुसेन निजाम शाह अर्थात् मीरान हुसेन ने बेखबरी तथा अनुभवहीनता के कारण घमकी के शब्द कह डाले, जिससे मिर्जा खाँ ने 'किसी घटना के पहिले उसका उपाय कर देना चाहिए' के मसले के अनुसार हुसेन निजामशाह को दुर्ग में कैद कर दिया और बुर्हान शाह के पुत्र इस्माइल को गद्दी पर बिठाया, क्योंकि बुर्हानशाह अपने भाई मुर्तजा निजामशाह के पास से भागकर अकबर की सेवा में चला गया था।

राजगद्दी के दिन मिर्जा खाँ ने अन्य मुगल सर्दारों को

दुर्ग में बुलाया था और उत्सव मना रहा था। एकाएक जमाल खॉं ने, जो सदा मंसबदार था, अन्य दक्षिणी तथा हबशी सर्दारों के साथ अहमद नगर दुर्ग के फाटक पर हुल्लाह मचाया। वे कहते थे कि कुछ दिनों से वे हुसेन निजामशाह को नहीं देख रहे हैं और उन्हें वे देखना चाहते हैं। मिर्जा खॉं उदंडता से उत्तर में युद्ध करने लगा पर जब इससे काम नहीं चला तब निरुपाय होकर उसने हुसेन निजाम का सिर भाले पर रखवा कर दुर्गपर खड़ा करा दिया और यह घोषित किया कि 'जिसके लिए तुम लोग शोर मचा रहे हो उसका सिर यह है और हमारे आदशाह इस्माइल निजाम शाह हैं।' यह देखकर कुछ तो लौटना चाहते थे पर जमालखॉं ने कहा कि अब वह उस आरमी से बदला लेगा और प्रबंध-डोर सुलतान के हाथ में देगा, नहीं तो हम लोगों का भाग्य तथा मान मिट्टी में मिल जायगा। उसके प्रयत्न से भारी विप्लव हो गया और दुर्ग के फाटक में आग लगा दी गई। मिर्जा खॉं निरुपाय होकर जुनेर भाग गया। बलवाई दुर्ग में घुस गए और विलायतियों को मारना शुरू किया। मुहम्मद तक़ी, नाजिरी मिर्जा, सादिक उदूबादी, अमीन अजी-जुहीन अस्त्राबादी, जिनमें प्रत्येक ने पद तथा पदवी प्राप्त किया था और गुणों के लिए अपने समय में सातों देश में अपना बराबर नहीं रखते थे, और बहुत से मुगल ऊँचे नीचे नौकर या व्यापारी सब मारे गए। मिर्जा खॉं भी जुनेर से पकड़ कर लाया गया और काट डाला गया। उसके शरीर के टुकड़े बाजार में लटकए गए।

जमाल खॉं महदवी मत का अवलंबी था। जब वह सशक्त

हुआ तब इस्माइल शाह को, जो युवा था, वसी मत में दीक्षित किया और बारहो इमाम का नाम पुकारना बंद करा दिया तथा महदवी मत की उन्नति में लग गया। इसने अपने दल के दस सहस्र सवार एकत्र किए और इस समय हर ओर से इस मत-वाले अहमद नगर में एकत्र हुए। सैयद अलहदाद, जो महदवी मत के प्रवर्तक सैयद मुहम्मद जौनपुरी का वंशज था, अपने पुत्र सैयद अबुल् फत्ह के साथ दक्षिण आया। यह अपनी तपस्या तथा आचरण की पवित्रता के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए जमाल खॉं ने अपनी पुत्री अबुल्फत्ह को ब्याह दी। इस सैयद-पुत्र का एक दम भाग्य खुल गया और यह धन ऐश्वर्य का मालिक बन गया। जब बुरुहानशाह ने दक्षिण के इस अशांति तथा अपने पुत्र की गद्दी का समाचार सुना तब अकबर से छुट्टी लेकर वह अपने देश आया। राजा अली खॉं फारूको और इब्राहीम अली आदिलशाह की सहायता से यह जमाल खॉं से रोहन खोर के पास लड़ गया और उसपर विजय प्राप्त किया। दैवयोग से जमाल खॉं गोली लगने से मारा गया। इस्माइल निजाम शाह कैद हुआ। इस मिसरा से कि 'धर्म प्रचार ने जमाल का सिर पकड़ लिया' घटना को तारोख सन् ९९९ हि० निकलती है।

बुरुहान निजाम शाह ने फिर से इमामिया धर्म का प्रचार किया और महदवियों को मार कर उनका ऐश्वर्य छीन लिया। कुछ ही समय में उनका चिन्ह नहीं रह गया। सैयद अबुल् फत्ह अपने साले अर्थात् जमाल खॉं के पुत्र के साथ पकड़ा गया और बहुत दिन कैद रहा। इसके बाद वह निकल भागा और जमाल खॉं के



भागो हुए सैनिकों को एकत्र कर बीजापुर प्रांत पर अधिकार कर लिया। इब्राहीम आदिल शाह ने अली आका तुर्कमान को उस पर भेजा। ऐसा हुआ कि अली आका मारा गया और अबुल् फत्ह उसके घोड़े हाथी आदि का स्वामी बन बैठा।

आदिल शाह ने निरुपाय होकर इसको ऊँचा पद तथा गोकक पर्गना की तहसील देकर शांत किया। कुछ दिन बाद आदिल शाह ने इसे छोड़ा देना चाहा तब यह अपनी स्त्री और माता को लेकर बुर्हानपुर भाग गया। खानखानों ने इसका आना प्रतिष्ठा समझा और उसके लिए पाँच हजारी मंसब तथा डंका मँगवा दिया। इसके अनंतर मानिकपुर जागीर में मिला और इलाहाबाद का शासक हुआ। यहाँ इसने साहस के लिए नाम कमाया। जहाँगीर के ८ वें वर्ष में यह सुलतान खुर्रम के साथ राणा की बदाई पर नियत हुआ और सन् १०२३ हि० ( सन् १६१४ ई० ) में यह कुंभलमेर थाना में बीमार होकर पुर माँहल नगर में मर गया।

मीर सैयद मुहम्मद जौनपुरी महदवी मत का प्रवर्तक था। यह आविस्सी था और अत्यधिक धार्मिकता से बाह्य तथा आंतरिक विद्याओं का ज्ञाता हो गया। बहुत से लोग यह भी समझते हैं कि वह शेख दानियाल का शिष्य तथा उत्तराधिकारी था, जो काजी हामीदशाह मानिकपुरी का स्थानापन्न था। यह हनफी धर्म का था। सन् ९०६ हि० ( सन् १५०१ ई० ) के अंत में मस्तिष्क को गड़बड़ी तथा समय के प्रभाव से इसने अपने को महदी घोषित किया। बहुत से उसके अनुगामी हो गए और अपनी मूर्खता दिखलाने लगे। कहते हैं कि जब उसका दिमाग

ठीक हुआ तब उसने अपने उपदेश का खंडन किया पर जो लोग ठीक नहीं हुए थे वे उसे मानते रहे। कुछ लोग उसके इस कथन का कि 'मैं महदी हूँ' यह अर्थ लगाते हैं कि वह उस महदी का पेशवा है, जिसे शरअ ने होना बतलाया है। कुछ कहते हैं कि वास्तव में उसे खुदा ने गुप्त 'निदा' से बतलाया था कि 'तू महदी है' और इस कारण वह अपने को शरई मेहदी समझता था। इसका यह विश्वास बहुत दिन तक बना रहा और यह जौनपुर से गुजरात गया। बड़े सुलतान महमूद बैकरा ने इसकी बड़ी इज्जत की। द्वेषियों के मारे यह हिंदुस्तान नहीं गया बल्कि फारस को गया, जिसमें उधर से वह हिजाज को पहुँच जाय। मार्ग में उसे स्पष्ट हो गया कि उसके महदी होने का भाव भ्रांति मात्र है और उसने अपने शिष्यों से कहा कि 'शक्तिमान खुदा ने महदबोपन की शंका को मेरे हृदय से मिटा दिया है। यदि मैं सकुवाल लौटा तो जो कुछ मैंने कहा है उसका खंडन कर दूँगा।' यह फराह पहुँच कर मर गया और वहीं गाड़ा गया। मूर्ख मनुष्यगण, मुख्य कर पत्री अफगान जाति तथा कुछ अन्य जातियाँ, उसे महदी और इस झूठे मत को मानते हैं। इन पंक्तियों का लेखक एक बार इस मत के एक अनुगामी से मिला और उससे ज्ञात हुआ कि जिन बातों पर बहस है उसके सिवा भी हदीस से कुछ ऐसे नियम आदि लिखे हैं जो चारों मत के नियमों के विरुद्ध हैं।

## १३. शेख अबुल्फैज फैज़ी फैयाज़ी

शेख मुबारक नागौरी का बड़ा पुत्र था, जो अपने समय के विद्वानों में परिश्रम तथा धर्म-भीरुता के लिए प्रसिद्ध था। इसका एक पूर्वज यमन प्रांत के साधुओं से अलग होकर संसार भ्रमण करने लगा। ९ वीं शताब्दि में सिविस्तान के अंतर्गत एक ग्राम में आ बसा। १० वीं शताब्दि के आरंभ में शेख मुबारक का पिता हिंदुस्तान में आकर नागौर नगर में रहने लगा। उसके लड़के जीवित नहीं रहते थे इस लिये सन् ९११ हि० में शेख के पैदा होने पर इसका नाम मुबारक रखा। जब वह युवा हुआ तब गुजरात जाकर मुल्ला अबुल्फजल गाजरवनी और मौलाना एमाद लारी के पास पहुँच कर उनका शिष्य होकर उस प्रांत के विद्वानों तथा शेखों के सत्संग से बहुत लाभ उठाया और ९५० हि० में आगरे आकर वहीं रहने लगा। ५० वर्ष तक वहीं रहकर पठन-पाठन में लगा रहा और फकीरी तथा संतोष के साथ कालयापन करते हुए ईश्वर पर अपना विश्वास दिखलाया। आरंभ में निषिद्ध बातों के लिये इतना हठ रखता था कि जिस गली में गाने का शब्द सुन पड़ता उस ओर नहीं जाता था पर अंत में यहाँ तक शौकीन हो गया कि स्वयं सुनता और मस्त होता था। बहुत सी ऐसी विरोधी बातें उसके संबंध की सुनी जाती हैं। सलीमशाह के राज्य में शेख अलाई महदवी का साथ कर उसका मतावलंबी प्रसिद्ध हुआ और उस समय

के विद्वानों की क्या क्या बातें नहीं सुनीं। अकबर के राज्य के आरंभ में जब चंगत्तई सरदारगण विशेष प्रसुत्त्व रखते थे तब अपने को इसने नकशबंदी बतलाया। इसके अनंतर हमदानी शेरों में जा मिला। जब अंत में एराकी लोग दरबार में अधिक हो गए तब उन्हीं के रंग की बातें करने लगा और शीआ प्रसिद्ध हो गया। तफसीरे-कबीर के समान 'मंबडल् अयून' नामक कुरान की टीका चार जिल्दों में लिखी और जवामेउल् किल्म भी उसी की रचना है। अकबर के इजतहाद को किताब, जिस पर उस समय के विद्वानों का साक्ष्य है, शेख ने स्वयं लिखकर अंत में लिखा है कि मैं कई वर्ष से इस कार्य की प्रतीक्षा कर रहा था। कहते हैं कि अंत में अपने पुत्रों के परिश्रम से इसे मनसब मिला। शेख अबुल्फजल् लिखता है कि आखिरी अवस्था में आँख की कमजोरी से कष्ट पाकर सन् १००१ हि० (१५९३ ई०) में लाहौर में मर गया। 'शेख कामिल' से इसकी मृत्यु-तारीख निकलती है।

शेख फैजी सन् ९५४ हि० में पैदा हुआ। अपनी प्रतिभा और बुद्धिमानी से सभी विज्ञानों को फट सीख लिया। हिक्मत और अरबी में विशेष पहुँच थी और वैद्यक अच्छी तरह से पढ़ कर गरीब बीमारों को मुफ्त में दवा करता था। आरंभ में धनाभाव से कष्ट पाता था। एक दिन अपने पिता के साथ अकबर के सदर शेख अब्दुल्लाही के पास जाकर १०० बीघा जमीन मददेमआश की प्रार्थना की। शेख ने हठधर्मी से इसको तथा इसके पिता को शीआ होने के कारण घृणा कर दरबार से चठवा दिया। शेख फैजी ने इस पर बादशाह से परिचय पाने का प्रयत्न किया। कई दरबारियों ने बादशाह के दरबार में शेख

की योग्यता, विद्वत्ता तथा वाक्चातुर्य की प्रशंसा की। १२ वें वर्ष जब अकबर दुर्ग चित्तौड़ लेने के लिये जा रहा था तब उसने शेर को बुलाने के लिये कहा। इसके समय के मुल्ला लोग इन सब से बुरा मानते थे इस से यह समझ कर कि यह बुलावा दंड देने के लिये है, आगरे के शासक को यही समझा दिया तथा यह कि इसका पिता इसको कहीं छिपा न दे इस लिये कुछ मुगल भेज कर इसके घर को घेरवा ले। दैवात् शेर फैजी उस समय घर पर नहीं था, इससे बड़ी गड़बड़ी मची। जब यह आया तब सफर की तैयारी की। आय की कमी से बड़ी कठिनाई पड़ी पर शिष्यों के प्रयत्न से सब ठीक हो गया। सेना में पहुँचने पर इस पर यहाँ तक कृपा हुई कि यह बादशाह का मुसाहिब और पार्श्ववर्ती हो गया। इसने शेर अब्दुलबी से ऐसा बदला लिया कि वह मनसब और पदवी से गिर कर हेजाज भेजवा दिया गया और अंत में वह जान माल से गया।

शेर उरुच कोटि का कवि था इस लिये ३० वें वर्ष उसे राजकवि की पदवी मिली। ३३ वें वर्ष में उसने विचार किया कि खमसा की चाल पर काव्य बनावें। मखजने-असरार के समान मरकजे-अदवार ३००० शेर का, खुसरू-शीरी की जगह सुलेमान वा बिलकैस और लैलो-मजनू के बदले नलदमन, जो भारत के प्राचीन उपाख्यानो में से है, हर एक चार चार हजार शेर के तथा हफत-पैकर की चाल पर हफत किश्वर और सिफंदर नामा के जगह पर अकबर नामा हर एक ५००० शेर के बनावे। थोड़े ही समय में इसने इन पाँचों काव्यों का आरंभ कर दिया पर पूरा नहीं कर सका। कहता था कि यह समय

जीवन के बिन्दु को भिटाने का है, क्याति के द्वार को सजित करने का नहीं है ।

३९ वें वर्ष अकबर ने इस काम के लिये ताकीद की और आह्ला दी कि पहिले नलदमन उपाख्यान को कविताबद्ध करे । उसी वर्ष पूरा करके बादशाह को नजर किया परंतु बहुत दिनों से वह एकांत-सेवन करता था और मौन रहता था इसलिये बादशाह के उद्योग पर भी खमसा पूरा नहीं हुआ । अपनी क्षय की बीमारी के आरंभ में कहा है—शौर—

देखा कि आकाश ने जादू किया कि मेरे मुर्गे दिल ने रात्रि-रूपी पिंजड़े से उड़ने को इच्छा की । जिस सीने में एक संसार समा सकता था उससे आधी साँस भी कष्ट से निकलती है ।

बीमारी की हालत में दोबारा कहा है । शौर—

यदि कुल संसार एक साथ तंग आ जाय,  
तब भी न हो कि चींटी का एक पैर लँगड़ा हो जाय ।

४० वें वर्ष में १० सफर सन् १००४ हि० ( १५९५ ई० ) को मर गया । 'फैयाजे अजम' से इसकी मृत्यु की तिथि निकलती है । पहिले बहुत दिनों तक फैजी उपनाम था पर बाद को फैयाजी कर दिया । इसने स्वयं कहा है—रुबाई—

पहिले जब कविता में मेरा सिक्का था तब फैजी मेरा उपनाम था परंतु अब मैं जब प्रेम का दास हो गया तब दया के समुद्र का फैयाजी हो गया ।

शेख ने १०१ पुस्तकें बनाईं । सवातेउल् इलहाम नामक टीका जो बिना नुक्ते की है उसकी प्रतिभा का प्रबल साक्षी है । बुभौवल कहने वाले भीर हैदर ने इसकी समाप्ति की तारीख

‘सूर्य-एखलास’ में निकाली अर्थात् १००२ हि० और इसके लिये उसे दस हजार रु० पुरस्कार में मिला। उसने मबारीदुल् किल्म बिना नुक्ते के लिखा है। समकालीन विद्वानों ने विरोध किया कि अब तक किसी ने चाहे वह कितना बड़ा विद्वान या धार्मिक रहा हो, बिना नुक्ते की टीका नहीं लिखी है। शेख ने कहा कि जब कलमा तइयब, जो ईमान की नींव है बिना नुक्ते का है तब दूसरे दलील की आवश्यकता नहीं है।

कहते हैं कि शेख की ४३०० अच्छी पुस्तकें बादशाह के यहाँ जन्त हुईं। शेख दरबार में अपनी विद्वत्ता तथा प्रतिभा से अग्रणी और पार्श्ववर्ती हो गया था। शाहजादों की शिक्षा का भार इसे मिला था। दक्षिण के शासकों के पास राजदूत होकर गया था पर इसका मनसब चार सदी से अधिक नहीं हुआ। शेख अबुल्फज्जल इसका छोटा भाई था पर सरदार हो गया और फैजी के जीवन ही में ढाई हजारी मनसबदार हो गया था और अंत में मनसब और सरदारी की सीमा तक पहुँच गया था। कुछ लोग अकबर की सूर्य-पूजा का संबंध शेख के इस किता से मिलाते हैं—शैर—

हर एक को उसके उपयुक्त भेंट मिलती है जैसे सिकंदर को दर्पण और अकबर को सूर्य।

वह आइने में अपने को देखा करता और यह सूर्य में ईश्वर को देखता।

यद्यपि शंका नहीं है कि यह बड़ा नज़्म और संसार को प्रकाशमान करने वाला ईश्वर की शक्ति का एक सबसे बड़ा चिन्ह है और संसार के बिगड़ने बनने का प्रबंध इसी पर है पर जिस

प्रकार का पूजन, जो इसलामियों की चाल नहीं है और जिसकी शोख अबुल्फज्जल की कविता में ध्वनि निकलती है, उचित नहीं है। उसके अच्छे शैर और कसीदे प्रसिद्ध हैं। इसका एक शैर है—शैर—

ऐ प्रेम की तलवार यदि न्याय करना है तो हाथ क्यों काटता है। अच्छा होगा कि जुलेखा की भर्त्सना करने वाले की जिह्वा काट ।

---



## १४. अबुलबक्रा अमीर खॉ, मीर

यह कासिम खॉ नमकीन का सबसे अच्छा पुत्र था। अपने भाइयों में कार्य-दक्षता तथा योग्यता में सबसे बढ़ कर था। अपने पिता के समय ही में इसने प्रसिद्धि पाई और पाँच सदी का मंसबदार हो गया। उसकी मृत्यु पर और भी ऊँचा पद पाया। जहाँगीर के समय में यह ढाई हजारी १५०० सवार के मंसब तक पहुँचा और यमीनुद्दौला का नायब हो कर मुलतान का प्रांताध्यक्ष नियत हुआ। शाहजहाँ के २२ वर्ष में जब ठट्टा का प्रांताध्यक्ष मुर्तजा खॉ अँजू मर गया तब ५०० सवार इसके मंसब में बढ़ाए गए और तीन हजारी २००० सवार के मंसब के साथ यह उस प्रांत का अध्यक्ष नियत हुआ। ९ वें वर्ष में शाहजादे के दौलताबाद से राजधानी लौटते समय यह दक्षिण में सरकार बिड़ की जागीर पर नियत हुआ और उस प्रांत के सहायकों में कुछ दिन रहा। १४ वें वर्ष में यह कज्जाक खॉ के स्थान पर सिबिस्तान भेजा गया। १५ वें वर्ष में यह दूसरी बार शाह खॉ के स्थान पर ठट्टा का प्रांताध्यक्ष हुआ। यह वहाँ २० वें वर्ष में सन् ११०७ हि० ( सन् १६४७ ई० ) में मर गया और अपने पिता के सफए-सफा नामक मकबरे में गाड़ा गया, जो भकर दुर्ग के सामने दक्षिण ओर पहाड़ी पर है। यह सौ वर्ष से अधिक का हो गया था पर इसकी बुद्धि या शक्ति में कमी नहीं आई थी। जहाँगीर के समय यह केवल मीर खॉ के नाम से प्रसिद्ध

था। शाहजहाँ ने एक अलिफ अक्षर जोड़कर इसे अमीर खॉं की पदवी दी और इससे एक लाख रुपये पेशकश लिया। अपने पिता के समान इसे भी बहुत से लड़के थे। इसका बड़ा लड़का अब्दुर्रजाक शाहजहाँ के समय नौ सदी दर्जे में था। २६ वें वर्ष में यह मर गया। दूसरा पुत्र जियाउद्दीन यूसुफ था, जो शाहजहाँ के राज्य के अंत समय एक हजार ६०० सवार का मंसबदार था और जिसे बाद को जियाउद्दीन खॉं की पदवी मिली। इसका पौत्र मीर अबुलबका औरंगजेब के राज्य के अंत समय में अन्य पदों के साथ जानिमाजखाना का दारोगा था और इसका गुणप्राही बादशाह इसे बुद्धिमान और ईमानदार समझता था। एक अन्य पुत्र, जो स्यात् सब पुत्रों में योग्यतम था, मीर अब्दुल्करीम मुलतफत खॉं था, जो औरंगजेब का अंतरंग साथी था तथा अपने पिता की पदवी पाई थी। उसकी जीवनी अलग दी हुई है। मृत खॉं की पुत्री शाहजादा मुरादबख्श को ब्याही थी पर यह संबंध खॉं की मृत्यु पर हुआ था। शाहनवाज खॉं सफवी की पुत्री से शाहजादे को कोई पुत्र नहीं था इसलिए ३० वें वर्ष में शाहजहाँ ने इस सती स्त्री को एक लाख रुपए का जवाहिरात आदि विवाहोपहार देकर अहमदाबाद भेजा कि शाहजादे से उसकी शादी हो जाय, जो उस समय गुजरात प्रांत का अध्यक्ष था।

## १५. अबुल् मन्नाली, मिर्जा

यह प्रसिद्ध मिर्जा वाली का पुत्र था, जिससे शाहजादा दानियाल की पुत्री बुलाकी बेगम का विवाह हुआ था। पिता की मृत्यु के अनंतर उसे एक हजारी ४०० सवार का मंसब मिला। शाहजहाँ के २६वें वर्ष में इसका मंसब दो हजारों १५०० सवार का था और यह सिविस्तान का जागीरदार तथा फौजदार था। इसके अनंतर ५०० सवार और बढ़े तथा ३१ वें वर्ष में सजावार खों मराहदी की मृत्यु पर यह बिहार में तिरहुत का फौजदार हुआ। इसके बाद जब भाग्य के अद्भुत कार्यों से शाहजहाँ का राजत्व छिन्न भिन्न हो गया और पुत्रों के षड्यंत्र से राज्य-कार्य में गड़बड़ मच गया, तब अंत में गृहयुद्ध हुआ तथा दारा शिकोह, जिसके हाथ में राज्य-प्रबंध था, औरंगजेब से हार कर भाग गया और औरंगजेब की सेना के पहुँचने से राजधानी शोभायमान हुई। उस समय औरंगजेब को यही मुख्यतम बात जैची कि शुजा के लिए पिता से मुंगेर नगर और बिहार तथा पटना प्रांत बंगाल के बड़े प्रांत में मिला देने की आज्ञा दी जाय। शाहजादा शुजा सदा यही चाहता था और अब औरंगजेब ने उसका पक्ष लिया। इस लिए सभी जागीरदारों तथा फौजदारों ने इच्छा या अनिच्छा से शुजा की अधीनता स्वीकार कर ली और अबुल् मन्नाली को भी साथ देना पड़ा। शुजा पहिले बनारस के पास परास्त हो चुका था और उसका कार्य इस कारण बिगड़ रहा था, इससे दारा शिकोह के परा-

जय तथा बिहार के मिल जाने से प्रसन्न होकर उसने औरंगजेब को विशेष धन्यवाद दिया। पर जब औरंगजेब पंजाब की ओर दारा शिकोह का पीछा करने गया और ज्ञात हुआ कि इसमें बहुत समय लगेगा तब शुजा की इच्छा बढ़ी और इलाहाबाद प्रांत पर उसने चढ़ाई की। यह समाचार मिलने पर औरंगजेब दारा का पीछा करना छोड़ कर शुजा से युद्ध करने लौटा। युद्ध के पहिले अबुल् मआली भाग्य के मार्ग-प्रदर्शन से शुजा का साथ छोड़कर औरंगजेब से आ मिला। इसे पुरस्कार में हाथी आदि, मिर्जा खॉ की पदवी, ३०००० रु० नगद और एक हजारी ५०० सवार की बढ़ी मिली, जिससे उसका मंसब तीन हजारी २००० सवार का हो गया। शुजा के भागने पर उसका पीछा करने को सुलतान मुहम्मद नियुक्त हुआ, जिसके साथ अबुल् मआली भी था। इसके बाद इसे बिहार में दरभंगा की फौजदारी मिली। ६ ठे वर्ष से गोरखपुर के फौजदार अलीवर्दी खॉ के साथ मोरंग के जर्मीदार को दंड देने जाने की आज्ञा हुई। वहाँ यह सन् १०७४ हि० ( १६१३-१४ ) में मर गया। इसके पुत्र अब्दुल् वाहिद खॉ को २२ वें वर्ष में खॉ का खिताब मिला। हैदराबाद के घेरे में अच्छा कार्य किया। मालवा में अनहल पर्गना, जो मिर्जा वाली के समय से इस वंश को मिला था, इसे जागीर में दिया गया और इसके वंशजों के पास अब तक रहा। जब मराठों ने मालवा पर अधिकार कर लिया, तब ये निकाल दिए गए। इसका पौत्र ख्वाजा अब्दुल् वाहिद खॉ हिम्मत बहादुर था, जो निजामुल् मुल्क के समय दक्षिण आया। जब सलाबत जंग निजाम हुआ तब इसे दादा की पदवी मिली और क्रमशः यह

( ७६ )

अमीनुद्दौला बहादुर सैफजंग की पदवी के साथ निजामुद्दौला आसफ जाह के उत्तराधिकारी आलीजाह के जागीर का दीवान पद प्राप्त कर सन् ११८९ हि० ( १७७५ ई० ) में मर गया । सभी मित्रता के लिए अद्वितीय था ।

---

## १६. अबुल् मन्नाली, मीर शाह

यह तर्मेज का सैयद था। ख्वाजा मुहम्मद समीअ द्वारा काबुल में सन् ९५८ हि० में यह जवानी में हुमायूँ का परिचित हुआ। यह सुंदर तथा सुगठित था इसलिए यह कृपापात्र हो गया और सर्दार बन गया। इसे फर्जद ( पुत्र ) की पदवी मिली। भारत के आक्रमण में इसने प्रसिद्धि पाई और विजय के बाद कुछ अन्य अमीरों के साथ पंजाब भेजा गया कि यदि भारत का शासक सिकंदर खॉ सूर, जो युद्ध से भाग कर पहाड़ों में चला गया था, बाहर आकर विप्लव मचावे तो यह उसे दंड दे। पर इसकी अन्य अमीरों के साथ की असहनशीलता तथा उद्दंड व्यवहार से इसके स्थान पर वहाँ शाहजादा अकबर अपने अभिभावक बैराम खॉ के साथ भेजा गया और यह सरकार हिसार में नियत हुआ। जब यह व्यास नदी के किनारे शाहजादे से मिलने आया तब अकबर ने इस पर हुमायूँ की कृपाओं का विचार कर अपने दरबार में बुलाया और कृपा के साथ बर्ताव किया। यह इन सब बातों को न समझ कर अपने स्थान पर गया तब शाहजादे को इस आशय का संदेशा भेजा कि 'हर एक आदमी यह अच्छी प्रकार जानते हैं कि उस पर हुमायूँ की कितनी कृपा रहती है और मुख्यतः शाहाजादा क्योंकि एक दिन उसने बादशाह के साथ एक दस्तरख्वान पर ख़ाया था जब कि शाहजादे का खाना उसके पास भेज दिया गया था। तब क्यों, जब मैं तुम्हारे गृह पर आया, हमारे लिए अलग दीवान तथा तकिया रखा गया।'

युवा होते भी शाहजादे ने उत्तर भेजा कि 'बादशाहत के नियम एक हैं और प्रेम के दूसरे। बादशाह से तुम्हारा जो संबंध है वह हम से नहीं है। इस भिन्नता को न समझ कर तुमने व्यर्थ गड़बड़ किया।' इसके अनंतर जब अकबर गद्दी पर बैठा तब बैराम खॉं ने इसमें विद्रोह के लक्षण देख कर राजगद्दी के तीसरे दिन इसे दरबार में कैद कर लिया और लाहौर भेज दिया। यह पहलवान गुलगज असास की रक्षा में रखा गया। एक दिन रक्षकों की असावधानता से भाग कर गक्खरों के देश में चला गया। कमाल खॉं गक्खर में इसे कैद कर लिया पर वहाँ से भी भाग कर यह काबुल जाना चाहता था पर वहाँ के प्रांताध्यक्ष मुनइम खॉं ने यह समाचार सुन कर इसके भाई मीर हाशिम को, जो गोरबंद का जागीरदार था, कैद कर लिया, इस कारण अबुल् मआली वहाँ न जाकर नौशेरा में कश्मीरियों से जा मिला, जिन पर वहाँ के शासक गाजी खॉं ने अत्याचार किया था। इसने अपनी धूर्तता तथा चापलूसी से उन सब को मिला लिया और काश्मीर के शासक से लड़ गया। यह परास्त हुआ। कुछ ने लिखा है कि जब यह कमाल खॉं के यहाँ पहुँचा तब उसका चाचा आदम गक्खर उस देश का अधिकारी था। कमाल खॉं इस पर विश्वास कर तथा सेना एकत्र कर दोनों साथ काश्मीर गए। पराजय पर इसने क्षमा माँग ली। यहाँ से अबुल् मआली परगना दीपालपुर में छिप कर गया, जो बहादुर शैबानी की जागोर में था और मीरजा तोलक के घर में छिप रहा, जो पहिले इसका नौकर था पर अब बहादुर का था। ऐसा हुआ कि एक दिन तोलक अपनी स्त्री से लड़ पड़ा और उसे खूब पीटा। वह बहादुर के पास गई

और सब हाल कहा कि 'उन दोनों ने तुम्हें मार डालने का निश्चय किया है।' उसी समय बहादुर घोड़े पर सवार हो वहाँ गया और मीर लोलक को मार कर अबुल् मआली को कैद कर लिया तथा बैराम खॉ के पास भेज दिया। उसने इसे मक्का ले जाने को वलीबेग की रक्षा में रखा। यह गुजरात इस लिये गया कि वहाँ से वह मक्का जा सके पर वहाँ एक अन्याय-पूर्ण रक्षपात कर खानजमों के यहाँ भाग गया। उसने आज्ञानुसार इसे बैराम खॉ के पास भेज दिया। इस बार बैराम ने इसे कुछ दिन प्रतिष्ठा के साथ रोक रखा और तब बिआना दुर्ग में कैद कर दिया। अपनी अवनति-काल में उसने अलबर से अबुल् मआली को छुट्टी दी और अन्य अमीरों के साथ दरबार भेज दिया। मञ्जर ( रोहतक जिडे ) में सब अमीर सेवा में उपस्थित हुए। अबुल् मआली भी आया पर घोड़े पर चढ़े ही अभिवादन किया, जिससे बादशाह क्रुद्ध हुए। उसे फिर हथकड़ी पहिराई गई और मक्का भेज देने के लिए यह शाहाबुद्दीन अहमद की रक्षा में रखा गया। दो वर्ष बाद यह ८ वें वर्ष में वहाँ से लौटा और बुरी नीयत से जालौर गया तथा शरीफुद्दीन हुसेन अहरारी से भेंट की, जो विद्रोही हो गया था। उसने इसे कुछ सेना दी जिससे यह आगरा-दिल्ली प्रांत में आकर गढ़बढ़ मचाने लगा। यह पहिले नारनौल गया और थोड़े बादशाही खजाने पर अधिकार कर लिया। वहाँ से फ़ानफ़तून आया और यहाँ से हिसार फ़ीरोजा गया। जब उसने देखा कि उसे सफलता नहीं मिल रही है और शाही सेना उसका सब ओर पीछा कर रही है तब वह काबुल गया। इसने मिर्जा मुहम्मद हकीम की माता माहचूक बेगम को अपना



कुल वृत्त लिखा, जिसके हाथ में काबुल का प्रबंध था। अबुल्-मआली ने यह शैर भी उसमें लिखा है—

हम इस द्वार पर प्रतिष्ठा तथा यश की खोज में नहीं आए हैं।  
प्रत्युत् भाग्य के हाथों से रक्षा पाने के लिए आए हैं।

लोगों ने बेगम से कहा कि शाह अबुल्मआली उषपदस्थ तथा साहसी युवा पुरुष है और हुमायूँ ने तुम्हारी बड़ी पुत्री की उससे विवाह की बात की थी। जो इसे वह शरण में लेगी तो उसे लाभ ही होगा। वह धोखे में आ गई और उत्तर लिखा कि—  
कृपा करो, आओ, क्योंकि यह घर तुम्हारा ही है।

वह इसे सम्मान के साथ काबुल में लाई और मुहम्मद हकीम की बहिन फखुभिसा बेगम को शादी इससे कर दी। जब इस संबंध से वह वहाँ की स्थिति का स्वामी बन बैठा तब कुप्रकृति के कारण और कुछ लोगों की कुसम्मति पर कि बेगम के रहते इसका प्रभुत्व दृढ़ न होगा, सन् ९७१ हि० शाबान महीने ( अप्रैल सन् १९६४ ई० ) के मध्य में दो जल्लादों के साथ बेगम के महल में चला गया और उसको मार डाला। इसने कई प्रभावशाली मनुष्यों को मार डाला, जिनमें हैदर कासिम कोहबर भी था, जिसके पूर्वज इस वंश में अच्छे अच्छे पदों पर रहे और जो उस समय वकील था। मिर्जा सुलेमान, जो सदा काबुल लेने की इच्छा रखता था, मुहम्मद हकीम तथा काबुल के कुछ सर्दारों की प्रार्थना पर बदख़शों से आया। अबुल् मआली हकीम को साथ लेकर युद्ध को निकला और गोरबंद नदी के पास युद्ध हुआ। आरंभ ही में मुहम्मद हकीम के हितचिंतक इसे मिर्जा सुलेमान को और लिवा गए जिससे सब काबुली इधर उधर भाग गए। अबुल्

मन्नाली घबड़ाकर भागा पर बदक्षियों ने पीछा कर चारकारों में इसे पकड़ लिया। काबुल में ईदुल्फित्र के दिन ( १३ मई सन् १५६४ ई० ) यह हकीम की आज्ञा से फौसी पर चढ़ाया गया और इधने अपनी करनी का फल पाया।

अपनी आँखों से मैंने गुजरगाह में देखा।  
एक पक्षी को एक चींटी का प्राण लेते।  
उसकी चोंच अपने शिकार से नहीं हटी थी।  
कि दूसरे पक्षी ने आकर उसे समाप्त कर दिया।  
दोष करके कभी सुचित्त न हो  
क्योंकि बदला प्रकृति के अनुसार है।

शाह अबुल् मन्नाली हंसमुख था और 'शाहीदी' उपनाम से कविता भी करता था।



## १७. अबुल् मकारम जान निसार खाँ

इसका नाम ख्वाजा अबुल्मकारम था। पहिले यह सुलतान मुहम्मद मुअज्जम का एक विश्वस्त सेवक था। जब सुलतान मुहम्मद अकबर ने विद्रोह की कुल तैयारी कर ली और मूर्ख राजपूतों के साथ अपने पिता के विरुद्ध भारी सेना लेकर कूच करने को सन्नद्ध हुआ, उस समय उसकी सेना का पूरा विवरण नहीं ज्ञात था। इसलिए शाहजादा मुअज्जम ने अपनी ओर से अबुल्मकारम को जासूस की तौर पर भेजा और यह शाहजादा अकबर के जासूसों पर जा पड़ा। लड़ाई हो गई पर ख्वाजा घायल होकर निकल आया। इस प्रकार बादशाह को इसका परिचय हो गया और इसे नौसदी का मंसब तथा जान निसार खाँ की पदवी मिली। रामदर्रा को चढ़ाई में यह भी शाहजादा मुअज्जम के साथ नियत हुआ और सात गाँव के घेरे में इसने ख्याति पाई तथा घावों के लेखों से इसकी वीरता का मानपत्र अंकित हुआ। जब शाहजादा वहाँ से लौटा तब वह अबुल्हसन कुतुब शाह की चढ़ाई पर नियुक्त हुआ और जान निसार उसके साथ गया। शाहजादे के आज्ञानुसार यह सरम दुर्ग लेने गया और थाना स्थापित किया। अबुल्हसन की दुर्ग-सेना को परास्त किया और गोलकुंडा के घेरे में स्वयं घायल होकर ख्याति पाई। ३३ वें वर्ष में यशम की मुठिया का कटार पाकर नोच शत्रु को दंड देने भेजा गया। इसके दूसरे वर्ष इसे खिलअत और हाथी मिला। यह बराबर अच्छे कार्य के डिप प्रसिद्धि पा रहा था इससे बादशाह

इस पर कृपा करते रहते थे। इसके बाद जब संता घोरपदे और झाही सेना में कर्णाटक के एक ग्राम में युद्ध हुआ तब अंतिम देवकोप से परास्त हुई। खॉं बायल हुआ पर निकल भागा। इसके अनंतर यह ग्वालियर का फौजदार तथा किलेदार हुआ और यहीं संतोष से रहने लगा।

जब औरंगजेब मर गया तब खॉं बहादुर शाह का पुराना सेवक होने से तरक्की की आशा में था पर मुहम्मद आजमशाह के पास होने के कारण इसने जल्दी में आजमशाह और सुल्तान मुहम्मद अजीम दोनों को प्रार्थना पत्र लिखे कि वह आने को तैयार है पर दूसरे पक्ष वाले ने उसे लाने को सेना भेजी है। वह मार्ग मिलते ही शीघ्र आ मिलेगा। इसी बीच इसने सुना कि बहादुर शाह आगरे आ गया है तब यह शीघ्रता से उससे जा मिला। बादशाह को यह पता था कि यह चार पाँच सहस्र सवारों के साथ मुहम्मद आजम से जा मिला होगा, इसलिए वह इससे अप्रसन्न था। मुहम्मद आजम शाह के मारे जाने पर जान निसार में पश्चाताप के लक्षण देखकर कुछ समय बाद अपनी सेना में ले लिया। इसे चार हजारी २००० सवार का मंसब तथा डंका मिला।

बहादुरशाह की मृत्यु पर फर्हखसियर के साथ के युद्ध में खॉं जहाँदार शाह के बाएँ भाग में था। इसके बाद फर्हखसियर की सेवा में रहा। जब दक्षिण का प्रांताध्यक्ष हुसेन अली खॉं सीमा पर आया और शत्रु के साथ चौथ और देशमुखी देने की प्रतिज्ञा पर संधि कर ली और बादशाह ने उसे नहीं माना तब जान निसार, जो स्वभाव को समझने वाला, अनुभवी तथा

अब्दुल्ला खॉ सैयद का माना हुआ भाई था, ६ ठे वर्ष में बुर्हानपुर का अध्यक्ष होकर हुसेन अली खॉ को समझा बुझाकर सन्मार्ग पर लाने गया। अकबरपुर उतार तक पहुँचने पर हुसेन अली खॉ ने यह समझकर कि यह उसके पक्ष में न होगा कुछ सेना भेजकर इसे औरंगाबाद बुला लिया। दिखाव में दोनों पक्ष में मेल था, प्रतिदिन खाना जाता, सम्मान होता और चाचा साहब पुकारता था पर बुर्हानपुर में जाने को वह टालता रहा। जाड़े की फसल बीतने पर इस वचन पर इसे बुर्हानपुर में जाने की आज्ञा मिली कि यह अपने बड़े पुत्र दाराब खॉ को वहाँ पर भेजे और स्वयं हुसेन अली के साथ रहे। जब हुसेन अली ने राजधानी जाने का निश्चय किया तब जान निसार पर विश्वास नहीं रखने के कारण तथा बुर्हानपुर के निवासियों के दाराब खॉ की चुगली खाने पर उसने सैफुद्दीन अली खॉ को उस पद पर नियत कर दाराब को साथ ले लिया। यह नहीं ज्ञात है कि जान निसार का अंत में क्या हुआ। इसे दो पुत्र थे। एक दाराब खॉ तथा दूसरा कामथाब खॉ था। ये दोनों निजामुलमुल्क आसफजाह के साथ उस युद्ध में थे, जो आलम अली खॉ के साथ हुआ था। दूसरा इसमें घायल हुआ। बड़ा खानजहाँ बहादुर कोकलताश आलमगोरी का दामाद था और उसकी बहिन पतमादुहौला कमरुद्दीन खॉ को व्याही हुई थी। इसे पिता की पदवी मिली और मुहम्मदशाह के समय यह कड़ा जहानाबाद सरकार का, जो इलाहाबाद प्रांत में है, फौजदार हुआ। यह सात वर्ष वहाँ रहा और १४ वें वर्ष में वहाँ के जमींदार भगवंत सिंह के हाथ मारा गया।

## १८. अब्दुल् मतलब खाँ

यह शाह बिदाग खाँ का पुत्र और अकबर के ढाई हजारि मंसबदारों में से था। पहिले यह मिर्जा शरफुद्दीन के साथ मेड़ता-विजय करने पर नियत हुआ और उसमें अच्छा कार्य किया। उसके बाद यह अकबर का खास सेवक हो गया। १० वें वर्ष में यह मीर मुईजुल्मुल्क के साथ सिकंदर खाँ उजबेग तथा बहादुर खाँ शैबानी को दंड देने पर भेजा गया। जब बादशाही सेना परास्त होकर छिन्न भिन्न हो गई तब यह भी भाग गया। इसके अनंतर यह मुहम्मद कुली खाँ बर्लास के साथ सिकंदर खाँ पर नियत हुआ, जिसने अबध में बलवा मचा रखा था। इसके उपरांत यह कुछ दिन मालवा में अपनी जागीर में रहा। जब १७ वें वर्ष में मालवा के अफसरों को खानेआजम कोका की सहायता करने की आज्ञा हुई तब यह गुजरात गया और मुहम्मद हुसेन मिर्जा के साथ के युद्ध में द्रंद्रयुद्ध खूब किया। आज्ञानुसार इसने खानेआजम के साथ आकर बादशाह की सेवा की, जो सूरत घेरें हुआ था और उसके बाद आज्ञा पाकर अपनी जागीर को लौट गया। २३ वें वर्ष में जब कुतुबुद्दीन खाँ के आदमी मुजफ्फर हुसेन मिर्जा को पकड़ कर दक्षिण से दरबार में ले जा रहे थे तब यह भी मालवा की कुछ सेना लेकर रत्तार्थ साथ हो गया। २५ वें वर्ष में यह इस्माइल कुली खाँ के साथ पनियाबत खाँ अरब को दंड देने पर नियत हुआ और उस कार्य

में उत्साह तथा राजभक्ति दिखलाई । २६ वें वर्ष में अली दोस्त बारबेगी के पुत्र फतह दोस्त को मार डालने का अभियोग इसे लगाया गया पर कुछ समय बाद इस पर फिर कृपा हुई । काबुल की चढ़ाई में यह बाँएँ भाग का अध्यक्ष था । २७ वें वर्ष में जब अकबर पूर्वीय प्रांत की ओर काल्पी के पास पहुँचा, जहाँ अब्दुल् मतलब खॉ की जागीर थी, तब इसकी प्रार्थना पर इसके निवास-स्थान पर अकबर गया । ३० वें वर्ष में यह खाने-आजम कोका की सहायक सेना में नियत होकर दक्षिण गया और ३२ वें वर्ष में जलाल तारीकी को दंड देने सेना सहित गया था । एक दिन जलाल तारीकी ने पीछे से धावा किया पर अब्दुल् मतलब खॉ के घोड़े पर सवार होने के पहिले ही दूसरे अफसरों ने युद्ध कर बहुत से शत्रु को परास्त कर मार डाला । पर अब्दुल् मतलब मस्तिष्क के बिगड़ने तथा आशंका से पागल हो गया और बेकार होकर दरबार लौट आया । अंत में यह अपने निश्चित समय पर मर गया । उसके पुत्र शेरजाद को जहाँगीर के समय पाँच सदी २०० सवार का मंसब मिला ।

---

## १६. अबुलमंसूर खॉ बहादुर सफदरजंग

इसका नाम मुहम्मद मुकीम था और यह बुर्हानुलमुल्क का भांजा तथा दामाद था । इसके पिता की पदवी सयादत खॉ थी । अपने श्वसुर की मृत्यु पर यह मुहम्मदशाह द्वारा अवध का प्रांताध्यक्ष नियत हुआ और वहाँ के विद्रोहियों को दमन कर उन्हें अपने अधीन किया । सन् ११५५ हि० ( सन् १७४२ ई० ) में बादशाह की आज्ञानुसार यह बंगाल के प्रांताध्यक्ष अलीवर्दी खॉ की सहायता करने पटना गया, जहाँ मराठे उपद्रव मचाए हुए थे । पुरस्कार में इसे रोहतास तथा चुनार दुर्गों की अध्यक्षता मिली पर अलीवर्दी को शंका हुई, जिससे उसने बादशाह से आज्ञा निकलवाई कि वह उसकी सहायता न करे । इससे यह अपने प्रांत को लौट आया । सन् ११५६ हि० में बुलाए जाने पर यह दरबार में गया और मीर आतिश नियत हुआ । सन् ११५९ हि० ( १७४६ ई० ) में उमदतुलमुल्क अमीर खॉ की मृत्यु पर इलाहाबाद प्रांत इसे मिल गया । सन् ११६१ हि० में जब दुर्रानी शाह कंधार से भारत पर आक्रमण करने रवाना हुआ और लाहौर से आगे बढ़ा तब यह बादशाह की आज्ञानुसार सुलतान अहमदशाह के साथ सरहिंद गया और एतमादुद्दौला कमरुद्दीन खॉ के मारे जाने पर यह दृढ़ बना रहा तथा ऐसी वीरता दिखलाई कि दुर्रानी को लौट जाना पड़ा । इसके एक महीने बाद मुहम्मद शाह २७ रबीउस्सानी ( १६ अप्रैल सन् १७४८ ई० ) को मर गया और अहमदशाह गद्दी पर बैठा । इसके कुछ ही दिन बाद आसफजाह की मृत्यु का समाचार मिला, जिससे



यह वजीर नियत हुआ। अली मुहम्मद खॉं रहेला से क्रुद्ध होने के कारण इसने कायम खॉं बंगश को सादुल्ला खॉं के विरुद्ध उभाड़ा, जो अली मुहम्मद का पहला पुत्र था। कायम खॉं और उसके भाइयों के मारे जाने पर, जैसा कि उसके पिता मुहम्मद खॉं बंगश की जीवनी में विस्तार से लिखा जा चुका है, सफदरजंग ने उसके भाई अहमद खॉं बंगश के विरुद्ध बादशाह को सम्मति दी कि उसकी जायदाद जन्त की जाय। बादशाह अलीगढ़ (कोल) में ठहरे और सफदरजंग गंगा नदी तक पहुँचे, जहाँ से फर्रुखाबाद बौस कोस दूर था। अहमद खॉं की माता ने भाकर साठ लाख रुपये पर मामला तय किया और बादशाह लौट गए। सफदरजंग यह रुपया लेने के लिए कुछ दिन ठहरा रहा और अहमद खॉं की जायदाद जन्त करने जगा। उसने कन्नौज में नवलराय कायस्थ को नियत किया, जो पहिले साधारण कार्य पर नियत था और क्रमशः उन्नति करते हुए अवध का नायब हो गया था और स्वयं दरबार गया। अफगानों से युद्ध कर नवलराय मारा गया और सफदरजंग ने सेना एकत्र कर सूरजमल के साथ अहमद खॉं बंगश पर चढ़ाई की। सन् ११६३ हि० ( १७५० ई० ) में युद्ध में यह बड़े असम्मान से परास्त होकर राजधानी लौट गया। इस बीच अहमद खॉं बंगश ने इलाहाबाद और अवध में उपद्रव मचाया और सर्वत्र लूटना जलाना भी नहीं छोड़ा। दूसरे वर्ष सफदरजंग ने मल्हारराव होलकर और जयाजो सेंधिया से मिल कर, जो दो प्रभावशाली मराठा सर्दार थे, अफगानों का सामना किया, जो इस बार परास्त होकर भागे और मदारिया पहाड़ों की घाटियों में शरण ली, जो कमायूँ के पहाड़ों की शाखा है।

अंत में उन्हें प्रार्थना करने को और सफदरजंग के इच्छानुसार संधि करने को बाध्य किया गया। इसी बीच अहमद शाह दुरानी के लाहौर से दिल्ली के पास पहुँचने का समाचार मिला तब सफदरजंग बादशाह की आज्ञानुसार होल्कर को बड़ी रकम देने का बचन देकर सन् ११६५ ई० में दिल्ली साथ लिया गया। ख्वाजा जावेद खॉं बहादुर ने, जो प्रबंध का केंद्र था, दुरानी शाह के एलची कलंदर खॉं से संधि कर उसे लौटा दिया था, जिससे सफदरजंग ने, जो उससे पहले ही से सद्भाव नहीं रखता था, उसे अपने घर निर्मंत्रित कर मार डाला और साम्राज्य का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया। इसके अनंतर बादशाह ने कमरुद्दीन खॉं के पुत्र इंतजामुद्दौला खानखानों के कहने से सफदरजंग को संदेश भेजा कि वह गुसलखाना तथा तोपखाना के मीर पद का त्यागपत्र दे दे। इसका यह तात्पर्य समझ गया और कुछ दिन घर पर ठहर कर त्यागपत्र भेज दिया। इसके न स्वीकार होने पर बिना आज्ञा के चल दिया और नगर के बाहर दो कोस पर ठहरा। प्रति दिन उपद्रव बढ़ने लगा, यहाँ तक कि सफदरजंग ने एक मिथ्या शाहजादा को खड़ा किया। इस पर अहमद शाह ने इंतजामुद्दौला को वजीर नियत किया। इमादुल्मुल्क सफदरजंग से युद्ध करने लगा, जो छ महीने तक चलता रहा। अंत में इंतजामुद्दौला के मध्यस्थ होने पर इस शर्त पर संधि हो गई कि इलाहाबाद तथा अवध के प्रांत पर सफदरजंग ही बहाल रहेगा। यह अपने प्रांत को चल दिया और १७ जी हिज्जा सन् ११६७ हि० ( ५ अक्टूबर सन् १७५४ ई० ) को मर गया। इसके पुत्र शुजाउद्दौला का वृत्तांत अलग दिया गया है।

## २०. अबुलहन तुर्बती, रुक्नुस्सलतनत ख्वाजा

खुरासान में तुर्बत एक जिला है। कुतुबुद्दीन हैदर, जिसने अद्भुत कार्य किए थे और हैदरी लोग जिससे अपने को बतलाते हैं, यहीं का था। अकबर के समय ख्वाजा शाहजादा दानियाल की सेवा में आया और उसका वजीर तथा दक्षिण का दीवान नियत हुआ। जब जहाँगीर गद्दी पर बैठा तब यह दक्षिण से बुला लिया गया। २२ वर्ष जब आसफ खॉं महम्मद जाफर वकील हुआ तब उसने प्रार्थना की कि वह इसे अपना सहकारी अपना कार्य ठीक करने को बना ले। इसके बाद जब आसफ खॉं दक्षिण के कार्य में लगा और दीवानी एतमादुद्दौला को मिली तब ख्वाजा ने बादशाह के पास उपस्थित रहने से अपना प्रभाव तथा पहिचान बढ़ाया और ८ वें वर्ष सन् १०२२ हि० (सन् १६१३ ई०) में मीर बख्शर के उच्च पद पर पहुँच गया। एतमादुद्दौला की मृत्यु पर ख्वाजा मुख्य दीवान हुआ और इसे पाँच हजारी ५००० सवार का मंसब मिला। महाबत खॉं के विद्रोह के समय ख्वाजा आसफजाह तथा इरादत खॉं के साथ नूरजहाँ बेगम की हाथी-पालकी के आगे आगे था और थोड़ी सेना के साथ उन सबने अपने घोड़े तैराए और तर हथियार से महाबत का सामना किया। एकाएक शत्रु ने तीरों की बौछार से बेगम के मनुष्यों को भगा दिया और प्रत्येक अफसर हट गया। ऐसे समय में ख्वाजा अपने घोड़ों से अलग हो गया पर एक काश्मीरी मल्लाह की

सहायता से इसके प्राण बच गए। १९ वें वर्ष में यह कानुल का अध्यक्ष हुआ और इसका पुत्र जफर खॉं दरबार से उसका प्रतिनिधि नियत हो वहाँ भेजा गया। शाहजहाँ के राज्य-काल में इसे छ हजारों ६००० सवार का मंसब मिला। २६ सफर सन् १०३९ हि० ( ४ अक्टूबर सन् १६२९ ई० ) को जब खानजहाँ लोदी आगरे से रात्रि में भागा तब शाहजहाँ ने ख्वाजा तथा अन्य अफसरों को पीछा करने भेजा। यद्यपि कुछ अफसर मारामार गए और उससे युद्ध किया पर खानजहाँ लोदी चंबल पार कर निकल गया। ख्वाजा दिन बीतने पर उसके तट पर पहुँचा। बिना नाव के यह पार उतर नहीं सकता था, इसलिए दूसरे दिन दोपहर तक वहीं ठहरा रहा। इससे खानजहाँ को सात पहर का समय मिल गया और वह बुंदेलों के देश में पहुँच गया। जुम्हार के लड़के जुगराज ने उसे रक्षा-बचन दिया और अपने देश से निकल जाने दिया। बादशाही सेना के मार्ग-प्रदर्शकों को मिलाकर दूसरा रास्ता बतला दिया और सेना भी गलत रास्ते से चली गई। इस कारण ख्वाजा तथा अन्य सद्दार्गण व्यर्थ जंगलों में टकर खाते रहे और सिवा यकावट के कुछ न पाया। जब शाहजहाँ खानजहाँ को दमन करने बुर्हानपुर आया तब ख्वाजा तथा अन्य सहायक उसके पास उपस्थित हुए और नासिक तथा ज्यंबक के बीच के प्रांतों को साफ करने के लिए भेजे गए। उस प्रांत तथा शाहू भोंसला की जागीर में शांति स्थापित करने पर ख्वाजा बादशाह की आज्ञानुसार नासिरी खॉं की सहायता को गया, जो कंधार दुर्ग घेरे हुए था। रास्ते ही में उसके विजय का समाचार मिला, जिससे यह लौट आया।

यह पातूर शेख बाबू, जो पाई घाट का एक परगना है और एक नदी के किनारे है, पहुँचा जहाँ बहुत कम जल था। इसने वहाँ वर्षा व्यतीत करना निश्चय किया पर एकाएक पहाड़ों से कंप पर बाढ़ आ गई। रात्रि के अंधकार तथा पानी के वेग के कारण आदमी घबड़ा गए और चारों ओर भागे। ख्वाजा तथा अन्य अफसर बिना चारजामे के घोड़ों पर चढ़ गए और उन सब ने किसी प्रकार उस भयानक स्थिति से अपने को बचाया। लगभग दो सहस्र आदमी और ख्वाजा की कुल जायदाद, जिसमें एक लाख रुपये नगद थे, बह गई। ५ वें वर्ष यह काश्मीर का अध्यक्ष नियत हुआ पर साम्राज्य का यह एक वृद्ध पुरुष था, इससे इसका पुत्र जफर ख़ाँ वहाँ का प्रबंध ठीक रखने को इसका प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। ख्वाजा ६ ठे वर्ष सन् १०४२ हि० ( सन् १६३२ ई० ) में सत्तर वर्ष की अवस्था में मर गया। तालिब कलीम ने तारीख लिखा कि 'वह अमीरुल् मोमिनीन के साथ उन्नति करे।'

ख्वाजा सच्चा और योग्य पुरुष था पर कुछ चिड़चिड़ा और उजडुचाल का था। इसके उत्तराधिकारी जफर ख़ाँ का अलग वृत्तांत दिया है। एक और पुत्र मुहम्मद खुशेद-नजर था।

## २१. अबू तुराब गुजराती, मीर

यह शीराज का सलामी सैयद था। इसका दादा मीर इनायतुद्दीन सरअली ने, जिसे हिब्तबल्ला भी कहते थे, पर जो सैयद शाह मीर नाम से प्रसिद्ध था, विज्ञान में बड़ी योग्यता प्राप्त कर ली थी और यह अमीर सदरुद्दीन का गुरु भाई था। अहमदाबाद नगर के संस्थापक सुलतान अहमद के पौत्र सुलतान कुतुबुद्दीन के समय में यह गुजरात आया। कुछ दिन बाद यह देश लौट गया पर फिर शाह इस्माइल सफवी के उपद्रव के समय अपने पुत्र कमालुद्दीन के साथ सुलतान महमूद बैकरा के राज्य काल में गुजरात आया, जो अबू तुराब का पिता था। यह चंपानेर ( महमूदाबाद ) में रहने लगा, जो सुलतानों की पहिले राजधानी थी। यहाँ इसने पाठशाला खोली और लाभदायक पुस्तकें लिखने लगा। इसके कई अच्छे लड़के थे, जिनमें सबसे योग्य मीर कमालुद्दीन था और जो बाह्य तथा आंतरिक गुणों के लिए प्रसिद्ध था। यह जब अच्छा नाम छोड़ कर मर गया तब इसके बाद अबू तुराब ही अपने सगे तथा चचेरे भाइयों में सबसे बड़ा था। इन सैयदों के परिवार का मप्रबिह मत से संबंध था, जिसका प्रवर्तक शेख अहमद खतू था। ये सलामी कहलाते थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उनमें से किसी का पूर्वज जब पैगम्बर के मकबरे में गया तब उन्हें सलाम शब्द अभिवादन के उत्तर में सुनाई दिया था।

उक्त प्रांत में मीर अबू तुराब ने अपनी सचाई तथा योग्यता से अच्छा प्रभाव प्राप्त कर लिया था। जिस वर्ष अकबर वहाँ युद्धार्थ पहुँचा तब गुजरात के अन्य सर्दारों के पहिले मीर उसके पास उपस्थित हो गया। जोताना थाने पर ख्वाजा मुहम्मद हवी और खाने आलम ने इसका स्वागत किया और इसे बादशाह के पास ले गए तथा सलाम करने की इज्जत मिली। अहमदाबाद जाने के पहिले जब यह आज्ञा हुई कि गुजरात के जितने अफसर आ मिले हैं, उनकी जमानत ले लो जाय, जिसमें शंका का कोई स्थान न रह जाय तब एतमाद खॉं, जो उस प्रांत में सबसे अधिक प्रभावशाली था, हथियारों को छोड़कर सब के लिए जामिन हुआ और मीर तुराब एतमाद खॉं का जामिन हुआ। इसके अनंतर जब आधा गुजरात एतमाद खॉं तथा दूसरे गुजराती अमीरों को सौंप दिया गया और बादशाही सेना खंभात की खाड़ी की ओर समुद्र देखने चली तब इखितयारुल् मुल्क गुजराती अदूरदर्शिता तथा उच्छृंखलता के कारण अहमदाबाद से भागा। एतमाद तथा दूसरे सर्दार, जिन्होंने शपथ लिया था, जाने ही को थे कि अबू तुराब पहुँच गया और उन्हें बातों में लगा लिया। वे इसे भी कैद कर ले जाना चाहते थे कि बादशाह की ओर से शहबाज खॉं आ पहुँचा और इस कारण उनकी बदनीयती पूरी न हो सकी। अबू तुराब की राजभक्ति प्रगट हुई और उस पर कृपाएँ हुई। तब से बराबर इस पर कृपा बनी रही।

२२ वें वर्ष सन् ९८५ हि० ( सन् १५७७ ई० ) में यह हज्ज के यात्रियों का मुखिया बनाया गया और पाँच लाख रुपये तथा दस हजार खिलअत इसे मक्का के भिखमंगों को बाँटने के

लिए दिया गया। २४ वें वर्ष में समाचार मिला कि इसने यात्रा समाप्त कर ली है और पैगंबर के पैर का निशान लेकर आ रहा है। इसका कथन था कि फीरोज शाह के समय सैयद जलाल बोखारी-जो निशान लाया था उसी का यह जोड़ा है। अकबर ने आज्ञा दी कि मीर आगरे से चार कोस पर कारबों सहित ठहरे। आज्ञानुसार वहाँ अफसरों ने एक आनंद-भवन बनाया और बादशाह उच्चपदस्थ सर्दारों तथा विद्वानों के साथ वहाँ आया तथा उस पत्थर को, जो जीवन से अधिक प्रिय है, अपने कंधे पर रखकर कुछ कदम चला। तब अमीर पारी-पारी करके उसे आगरा लाए और बादशाह के आज्ञानुसार वह मीर के गृह पर रखा गया। “खैर कदम” से तारीख ( ९८७ ) निकलती है।

अन्वेषकों ने बतलाया है कि उस समय यह खबर उड़ रही थी कि बादशाह स्वयं अपने को पैगम्बर प्रकट कर रहा है, इस्लाम धर्म के विषय में ओछी सम्मति रखता है, जो संसार के अंत तक रहेगा, और उसे हटा देना चाहता है, खुदा हम लोगों को बचावे। इस कारण लोगों का मुख बंद करने को यह ऊपरी आदर और प्रतिष्ठा दिखलाई गई थी। अबुलफजल इसका समर्थन करता है, क्योंकि वह कहता है कि बादशाह जानते थे कि यह चिन्ह सच्चा नहीं है और जाननेवालों ने उसे भूठ बतलाया है पर परदा रहने देने के लिए, पैगम्बर की इज्जत करने को तथा सीधे सैयद की मानशानि न करने को और व्यंग्य बोलने वालों को कुछ कहने से रोकने को यह सम्मान दिखलाया था। इस कार्य से उन लोगों को लज्जित होना पड़ा, जो दुष्टता से अनर्गल बका करते थे।



२९ वें वर्ष में जब गुजरात का शासन एतमाद खॉ को मिला, जिसने कई वर्ष वहाँ प्रबंध किया था, तब मीर अबू तुराब अमीन हुआ और अपने दो भतीजों मीर मुहीबुल्ला और मीर शरफुद्दीन को साथ लेकर वहाँ चला गया। सन् १००५ हि० ( सन् १५९५-७ ) तक यह जीवित रहा। अहमदाबाद में यह गाड़ा गया। इसका पुत्र मीर गदाई अकबर के अफसरों में भरती था और नौकरी रहते भी उसने सैयदपन तथा शोखपन नहीं छोड़ा।

---

## २२. अबूनसर खॉं

यह शायस्ता खॉं का पुत्र था । औरंगजेब के २३ वें वर्ष में लुत्तफुल्ला खॉं के स्थान पर यह अर्ज मुकर्रर पद पर नियत हुआ । २४ वें वर्ष में सुलतान मुहम्मद अकबर के विद्रोह के लक्षण दिखाई दिए । बादशाह के पास उस समय बहुत थोड़ी सेना थी पर उसने असद खॉं को आगे पुंकर तालाब पर भेजा, जिसके साथ अबूनसर भी नियत हुआ । इसके बाद यह कोरबेगी नियुक्त हुआ पर २५ वें वर्ष में उस पद से हटाया गया । इसके अनंतर यह काश्मीर का अध्यक्ष हुआ । ४१ वें वर्ष में वहाँ से हटाया जाकर मुकर्रम खॉं के स्थान पर लाहौर का प्रांताध्यक्ष नियत हुआ । कुछ कारण से इसका मंसब छिन गया पर ४५ वें वर्ष में इस पर फिर कृपा हुई और मुस्तार खॉं के स्थान पर मालवा का प्रांताध्यक्ष हुआ । इस समय इसका मंसब बढ़कर तीन हजारी १५०० सवार का हो गया । इसके बाद यह कुछ दिन बंगाल में नियत रहा । ४९ वें वर्ष में यह अवध का शासक हुआ और तीन हजारी २५०० सवार का मंसबदार था । इसके बाद का कुछ पता नहीं ।

## २३. अबू सईद, मिर्जा

यह एतमादुद्दौला का पौत्र और नूरजहाँ बेगम का भतीजा था। अपने सौंदर्य तथा शाहजादापन के लिए प्रसिद्ध था और खाने पहिरने दोनों का विशेष ध्यान रखता था। यह गलीचे आदि बिल्लावन को स्वयं देखता और आभूषण, चाल तथा सभी सांसारिक बातों के लिए विख्यात था और इसमें इसके बराबर वाले क्या बड़े भी इसकी बराबरी नहीं कर पाते थे। इसकी आडंबर-प्रियता और उच्च विचार ऐसे थे कि कभी २ वह पगड़ी सँभालता ही रह जाता था कि दरबार के उठ जाने का समाचार आ पहुँचता और कभी २ पगड़ी ठीक न होने से वह सवारी करना रोक देता था। अपने दादा की कृपा से वह ऊँचे पद पर पहुँचा और ऊँचा सिर रख सका। वह ऐसा बहंड और घमंडी था कि देश तथा आकाश को कुछ नहीं समझता था।

इसका हस्ताक्षर एतमादुद्दौला से बहुत मिलता था इसलिए उसके मंत्रित्व-काल में यही दरखास्त, रसीद आदि पर दस्तखत करता था। एतमादुद्दौला की मृत्यु पर यह अननुभव तथा यौवन के कारण अपने चाचा आसफजाही से लड़ गया और महाबत खॉं से मिल गया। शाहजादा सुलतान पर्वेज से मित्रता हो गई और उच्च पद पर पहुँच गया। शाहजादे के साथ दक्षिण गया और उसकी मृत्यु पर दरबार लौट आया। जहाँगीर के २२ वें वर्ष में यह ठट्टा का प्रांताध्यक्ष हुआ। शाहजहाँ की राजगद्दी होने पर

आसफजाह से मनोमालिन्य के कारण यह अपने पद तथा प्रभाव से गिर गया और इसे तीस सहस्र रुपये वार्षिक पेंशन मिलने लगा । बहुत दिनों तक यह आराम तथा शांति से एकान्त वास करता रहा । २३ वें वर्ष में बेगम साहिबा की प्रार्थना पर यह अजमेर का फौजदार हुआ और इसे दो हजारी ८०० सवार का मंसब मिला । इसे बाल गिरने की बीमारी थी इससे यह कार्य देख नहीं सकता था । २६ वें वर्ष में इसे चालीस सहस्र वार्षिक मिलने लगा और आगरे ही में यह एकान्त वास करने लगा । इसी प्रकार सुख से इसने अंत समय तक व्यतीत कर दिया । औरंगजेब के राज्यारंभ काल में यह मर गया । कविता करने का शौक था और ओजपूर्ण दीवान संकलन करना चाहता था । इसने अपने शैरों का संकलन करके “खुलासए कौनन” नाम रखा । इसका पुत्र हमीदुद्दौल खॉं शाहजादा औरंगजेब का मित्र होने के कारण सफल हुआ । राजा यशवंत सिंह के युद्ध के बाद, जिसमें प्रथम विजय मिली थी, इसे खानाजादखॉं की पदवी मिली । इसके बाद इसका नाम खानी हो गया । २६ वें वर्ष में करमुल्ला की मृत्यु पर यह मूँगी पत्तन का फौजदार हुआ, जो औरंगाबाद से बास कोस पर गोदावरी के तट पर स्थित है । २९ वें वर्ष में यह दक्षिण के कंधार का अध्यक्ष हुआ ।

## २४. शेख अब्दुन्नबी सद्र

यह गंगोह के शेख अब्दुल् कुद्दूस का पौत्र था, जो कूफा के इमाम अबू हनीफा का वंशधर था और जिसने बाद को भारत में ख्याति प्राप्ति की थी। यह सन् ९४४ हि० (सन् १५३७-३८६०) में मरा था। शेख अब्दुन्नबी साहित्यिक विषयों के विद्वानों में अपने समय में अग्रणी था और हदीस के जानने में भी प्रसिद्ध था। इतना विद्वान होने पर यह चिरित्या मत का प्रतिपादक था। यह इतनी देर तक स्त्रॉस रोक सकता था कि एक पहर तक बिना प्रश्वास लिये मानसिक ध्यान कर सकता था। अकबर के जलूस के १० वें वर्ष में मुजफ्फर खॉं दीवाने आला के कहने से यह भारत का सदरुस्सुदूर नियत हुआ। कुछ समय में साम्राज्य के काम भी इसकी सम्मति से होने लगे। बादशाह से इतनी भिन्नता हो गई कि वह हदीस सुनने इसके घर जाते थे। उस समय शेख के बहकाने पर अकबर धर्मानुसार कार्य करने में तथा मना किए हुए कार्यों के न करने में विशेष उत्साह दिखलाता था यहाँ तक कि स्वयं अजाँ पुकारता, इमाम का कार्य करता और कभी कभी पुण्य कमाने को मस्जिद भी झाड़ता था। एक दिन वर्ष-गाँठ के अवसर पर बादशाह के वस्त्र में केशर का रंग लगा हुआ था, जिसपर शेख खफा हो गए और दीवाने आम में अपनी छड़ी इस प्रकार चलाई कि बादशाह का कपड़ा फट गया। अकबर क्रुद्ध हो गया और अपनी माता को जाकर कुल वृत्तांत से अवगत

कर कहा कि शेख को एकांत में कहना चाहता था। हमीदाबानू बेगम ने कहा कि पुत्र दुःखित मत हो। प्रलय के दिन यह तुम्हारी मुक्ति का कारण होगा। उस दिन लोग कहेंगे कि किस तरह एक दरिद्र मुल्ला ने अपने समय के बादशाह से बर्ताव किया था और उस बादशाह ने उसे कैसे सहन कर लिया था।

शेख तथा मखदूमुल्मुल्क प्रति दिन अपनी कट्टरता तथा चलाहने से उसे अप्रसन्न करते रहे, यहाँ तक कि वह इनसे खफा हो गया। शेख फैजो तथा शेख अबुल् फजल ने यह देखकर अकबर से कहा कि इन धर्मीषों से हमारा विज्ञान बहुत बढ़कर है, क्योंकि वे दीन की आड़ में दुनियावी वस्तु संचित करते हैं। 'यदि आप बादशाह सहायता करें, तो हम लोग उन्हें तर्क से चुप कर देंगे।' एक दिन दस्तरख्वान पर केशर मिला भोजन लाया गया। जब अब्दुल्लाबी ने उसे खा लिया तब अबुल्फजल ने कहा कि 'शेख तुम्हें धिक्कार है। यदि केसर हलाल है तो तुमने बादशाह पर, जो खुदा का इमाम है, क्यों आपत्त किया और यदि हराम है तो तुमने क्यों खाया, जिसका तीन दिन तक असर रहता है।' इस प्रकार बराबर झगड़ा होता रहा। २२ वें वर्ष में सयूरगाल तथा अन्य मददेमआश की जाँच हुई, जिससे ज्ञात हुआ कि शेख ने इतनी धार्मिक कट्टरता तथा तपस्या पर भी सबसे गुणों के अनुसार निष्पक्ष व्यवहार नहीं किया था। हर प्रांत में अलग अलग सदर नियत थे। २४ वें वर्ष में अकबर ने आलिमों और फकीरों का जलसा किया, जिसमें निश्चय किया गया कि अपने समय का बादशाह ही इमाम और संसार का मुजतहीद है। पहिले के जिस किसी विद्वान का तर्क, जिस

विषय पर एकमत नहीं है, बादशाह सकारें वही संसार को मानना पड़ेगा। तात्पर्य यह कि धार्मिक विषय पर, जिसमें मुजतहीद-गण भिन्न मत हों, जो मत बादशाह संसार की शांति तथा मुसल्मानों के संतोष के लिए उचित समझें वही सबको मान्य होगा और कुरान तथा सुन्नत का विरोधी न होते हुए धार्मिक विषय पर मनुष्य के लाभार्थ जो आज्ञा बादशाह दें उसका विरोध करने से दोनों दुनिया में उसे हानि पहुँचेगी। न्यायशील बादशाह मुजतहीद से बढ़कर है। इसी प्रकार का एक विज्ञापन लिखा गया, जिस पर अब्दुन्नबी, मखदूमुल्मुल्क सुल्तान-पुरी, गाजी खॉ बदख्शी, हकीमुल्मुल्क तथा अन्य विद्वानों के हस्ताक्षर थे। यह कार्य सन् ९८७ हि० के रज्जब महीने ( अगस्त सन् १५७९ ई० ) में हुआ था।

जब अब्दुन्नबी तथा मखदूमुल्मुल्क कई तरह की बातें इस विषय में कहने लगे और यह मालूम हुआ कि वे कह रहे हैं कि उस विज्ञप्ति-पत्र पर उनसे बलात् तथा उनके विचार के विपरीत हस्ताक्षर करा लिया गया है, अकबर ने उसी वर्ष शेर को मक्का जाने वाले कारवाँ का मुखिया बनाकर कुछ धन दे बिदा किया और वहीं के लिए मखदूमुल्मुल्क को नौकरी से छुड़ा दिया। इस प्रकार उन दोनों को अपने राज्य के बाहर कर दिया और आज्ञा दी कि वे दोनों वहीं खुदा का ध्यान करते रहें और बिना बुलाए कभी न लौटें। जब मुहम्मद हकीम की चढ़ाई तथा बिहार-बंगाल के अफसरों के बलवे से भारत में गड़बड़ मचा, उस समय अब्दुन्नबी और मखदूमुल्मुल्क ने, जो ऐसा ही अवसर देख रहे थे, बढ़ाया हुआ वृत्तांत सुनकर लौटने

का निश्चय किया । मक्का के शरीफ के मना करने और बादशाही आज्ञा के विरुद्ध वे दोनों लौटे और २७ वें वर्ष में अहमदाबाद गुजरात पहुँच कर रहने लगे । बेगमों की प्रार्थना पर क्षमा करने का विचार था पर फिर से उन विद्रोहियों के कुवाच्य कहने पर, शेख वहाँ से बुलाया गया और हिसाब देने के बहाने कड़े कैद में डाल दिया गया । यह शेख अबुल्फजल की निरीक्षण में रखा गया, जिसने यह समझ कर कि इसे मार डालने से बादशाह उससे कुछ न पूछेगा, सन् ९९२ हि० ( सन् १५८४ ई० ) में इसे पुरानी शत्रुता के कारण गला घोट कर मरवा डाला या स्यात् यह अपनी मृत्यु से मरा ।

---



## २५. अब्दुल् अजीज खॉ

यह संसार-प्रिय शेख शेख फरीदुद्दीन गंजशाकर का वंशज था। इसके पूर्वजों का निवास-स्थान बिलग्राम के पास असीग्राम था। इसके दादा का नाम शेख अलाउद्दीन था पर वह शेख अलहदिया नाम से अधिक प्रसिद्ध था। कहते हैं कि भट्टः के सैयद महमूद के पुत्र सैयद खान महम्मद का पुत्र सैयद अबुल् कासिम को तीन लड़के थे। इनमें सैयद अब्दुल् हकीम और सैयद अब्दुल् कादिर एक स्त्री के पुत्र थे, जो इसके संबंध ही की थी। दूसरी स्त्री से सैयद बदरुद्दीन था, जिसका असीग्राम में विवाह हुआ था। इसको कोई पुत्र नहीं था, इसलिए इसकी स्त्री ने अपने भाई के या बहिन के लड़के को गोद ले लिया, जिसका नाम शेख अलहदिया पड़ा। जब सैयद अब्दुल् हकीम का पुत्र सैयद फाजिल दौलताबाद में एक सर्दार का दीवान था तब अलहदिया भी उसके साथ था। अमीर ने उसकी योग्यता देखकर उसे शाही पड़ाव में अपना वकील बनाकर भेज दिया। कार्य को सुचारु रूप से करने के कारण शेख अलहदिया उन्नति करता रहा। इसे तीन लड़के थे और तीसरा पुत्र अब्दुर्रसूल खॉ इस चरित्र-नायक का पिता था।

गाजीउद्दीन फीरोज जंग बहादुर ने औरंगजेब के समय में अब्दुल् अजीज को शाही नौकरी दिखाई। बाद को यह योग्य पद तथा खिदमत-तलब खॉ पदवी पाकर बीजापुर प्रांत में

नलदुर्ग का अध्यक्ष नियत हुआ। मुहम्मदाबाद बीदर प्रांत के ओसा का भी यही अध्यक्ष बनाया गया। निजामुल्मुल्क आसफजाह के समय में यह जुनेर का अध्यक्ष हुआ और उसका कृपापात्र भी हो गया। जब निजामुल्मुल्क दक्षिण में नासिरजंग शहीद को छोड़कर मुहम्मदशाह के पास चले गए और बाजीराव ने युद्ध की तैयारी की तब नासिरजंग ने भी सेना एकत्र करना आरंभ किया और जुनार से अब्दुल् अजीज खॉं को भी मंत्रणा के लिये बुलाया क्योंकि यह साहस के लिए प्रसिद्ध था और मराठों के युद्ध-कौशल को जानता था। मराठों से युद्ध समाप्त होने पर इसे औरंगाबाद का नाएब-सुबेदार नियत किया। निजामुल्मुल्क आसफजाह के उत्तरापथ से लौटने पर जब पिता-पुत्र में वैमनस्य हो गया और नासिरजंग खुल्दाबाद रौजा को चला गया, जो दौलताबाद दुर्ग से दो कोस पर है, तब अब्दुल् अजीज भी छुट्टी लेकर आसफजाह के पास चला आया। यहाँ कृपा कम देखकर यह बहाने से औरंगाबाद से चला गया और पत्र तथा संदेश से नासिर जंग को रौजा से बाहर निकलने को बाध्य किया। अंत में वह मुल्हेर आया तथा सेना एकत्र कर औरंगाबाद के सामने पिता से युद्ध करने पहुँचा। जो होना था वही हुआ। इस कार्य में यह असफल होकर जुनेर चला गया। इसने आसफजाह की दया तथा नीति-प्रियता से अपने दोष क्षमा कराने के लिए बहुत उपाय किए और साथ ही गुप्त रूप से मुहम्मद शाह को पत्र तथा संदेश भेजकर अपने नाम गुजरात की सनद की प्रार्थना की, जो उस समय मराठों के अधिकार में था। जब आसफजाह का पड़ाव त्रिचिनापल्ली में था, उस

( १०६ )

समय यह बहुत सी सेना एकत्र कर उस प्रांत को चला । मार्ग में मराठों ने इसको रोका और युद्ध में सन् ११५६ हि० ( सन् १७४३ ई० ) में अब्दुल् अजीज मारा गया । यह साहसी पुरुष था और तहसील के कार्य में कुशल था । अकारण या सकारण धन वसूल करने में यह कुछ विचार नहीं करता था । इसका एक लड़का महमूद आलम खॉ अपने पिता के बाद जुनेर दुर्ग का शासक हुआ और वहाँ बहुत दिनों तक रहा । जब मराठों की शक्ति बहुत बढ़ गई और सहायता की कोई आशा नहीं रह गई तब इसने दुर्ग उन्हें दे दिया और उनसे जागीर पाया । लिखते समय वह जीवित था । दूसरा पुत्र खिदमत तलब खॉ अंत में नलदुर्ग का अध्यक्ष हुआ और वहीं मर गया ।

---

## २६. अब्दुल् अजीज खाँ, शेख

यह बुर्हानपुर के शेख अब्दुल्लतीफ का संबंधी था। औरंगजेब ने शेख का काफी सत्संग किया था और उसे उसके गुण तथा पवित्रता के कारण बहुत मानता था, इसलिए शेख के कहने पर अब्दुल् अजीज खाँ को अपने यहाँ नौकर रख लिया। महाराज जसवंत सिंह के साथ के युद्ध में इसने बहुत प्रयत्न किया, जिसमें इसे इक्कीस घाव लगे थे और इस कारण खिलजत तथा घोड़ा उपहार में पाया। जब औरंगजेब दाराशिकोह का पीछा करता हुआ आगरे से दिल्ली गया तब अब्दुल् अजीज को डेढ़ हजारी ५०० सवार का मंसब और खाँ की पदवी मिली तथा वह मालवा के रायसेन दुर्ग का अध्यक्ष नियत हुआ। ७ वें वर्ष में यह दरबार बुलाया गया और उसी वर्ष मीर बाकर खाँ की मृत्यु पर सरहिंद चकला का फौजदार नियुक्त हुआ। इसके बाद यह औरंगाबाद-प्रांत के आसोरगढ़ का अध्यक्ष हुआ और २० वें वर्ष में जब शिवाजी भोंसला ने दुर्ग के ऊपर रस्से से सैनिक चढ़ाए तब इसने फुर्ती दिखलाई और उन्हें मारा। बहुत दिनों तक यह वहाँ दृढ़ता से बटा रहा। यह २९ वें वर्ष में सन् १०९६ हि० ( सन् १६८५ ई० ) में मरा। इसका पुत्र अबुल् खैर इसका उत्तराधिकारी हुआ और ३३ वें वर्ष में राजगढ़ का अध्यक्ष नियत हुआ। जब मराठा सेना ने दुर्ग खाली कर देने को इससे कहलाया, तब भय से रक्षा-वचन लेकर अपने परिवार

तथा सामान सहित यह बाहर निकल आया । मराठों ने वचन तोड़ कर इसका सारा सामान लूट लिया । जब यह बात बादशाह को मालूम हुई तब उसने अबुल् खैर को नौकरी से छुड़ा दिया और एक सजावत नियत किया कि वह देखे कि यह मक्का चला गया । इसकी माता ने बहुत प्रयत्न कर इस आज्ञा को रद्द कराया पर इस दूसरी आज्ञा के पहिले ही यह सूरत से मक्का को रवाना हो चुका था । वहाँ से लौटने पर इस पर फिर कृपा हुई और अपने पिता की पदवी पाई । बुर्हानपुर में शाह अब्दुल् लतीफ के मकबरे का यह अध्यक्ष हुआ । इसका पुत्र मुहम्मद नासिर ख़ाँ उपनाम भियाँ मस्ती दूसरों की नौकरी करता है । यह भी अंत में मर गया ।

---

## २७. मजदुदौला अब्दुलअहद खॉ

इसके पूर्वज काश्मीर के रहने वाले थे। इसका पिता अब्दुल मजीद खॉ अपने देश से आकर पहिले इनायतुल्ला खॉ के साथ रहता था। उसकी मृत्यु पर एतमादुदौला क्रमरुद्दीन खॉ का मित्र हो कर बादशाही सेवा में भर्ती हो गया। योग्य मुतसद्दी होने से नादिरशाह की चढ़ाई के बाद मुहम्मदशाह के समय में खालसा और तन का दीवान हो गया। इसका मनसब बढ़कर छ हजारों ६००० सवार का हो गया और झंडा, डंका, झालरदार पालकी तथा मजदुदौला बहादुर की पदवी पाई। इसे दो पुत्र थे, जिनमें एक मुहम्मद परस्त खॉ जल्दी मर गया और दूसरा अब्दुल अहद खॉ अपने समय के बादशाह शाहखालिम को प्रसन्न कर बादशाही सर्कार के कुल मुकद्दमों का निरीक्षक हो गया तथा सत्राज्य का कुल काम उसकी राय पर होने लगा। इसे इसके पिता की पदवी और अच्छा मनसब मिला। सन् ११९३ हि० में एक शाहजादे को नियमानुसार नियत कर उसके साथ सेना सहित सरहिंद गया। जब वहाँ का काम इच्छानुसार नहीं हुआ और सिक्खों के सिवा पटियाला का जर्मीदार भी अमर सिंह की सहायता को आ गया तब यह शाहजादा के साथ लौट आया। इस कारण बादशाह इससे क्रुद्ध हो गया। इसके और जुल्फिकारु-दौला नजफ खॉ के बीच पहिले से वैमनस्य चला आ रहा था, इस लिए बादशाह ने इसे उसीसे कैद करा दिया। लिखते समय यह कैद ही में था। इसकी जागीर के बहाल रहते हुए इसका घर और सामान जन्त हो गया था।

---

## २८. अब्दुल्कवी एतमाद खाँ, शेख

यह अपनी उदारता, गुण और हठधर्म के लिए प्रसिद्ध था। यह बहुत दिनों से शाहजादा औरंगजेब की सेवा में रहता था और अपने सत्य बोलने और ठीक काम करने से विश्वास तथा प्रतिष्ठा का पात्र बन गया। जिस समय औरंगजेब बादशाहत के लिए दक्षिण से आगरा को चला तब इसका मनसब नौ सदी से डेढ़हजारी हो गया तथा सभी युद्धों में यह साथ रहा। राजगद्दी के बाद इसको अच्छा मनसब मिला। ४ थे वर्ष एतमाद खाँ की पदवी पाई। यह सेवा और विश्वास में बढ़ा हुआ था तथा अनुभव और मामिला समझने में प्रसिद्ध था, इस लिए सब सरदारों से उसका सनमान और सामीप्य बढ़ गया था। कहते हैं कि वह एकांत में बादशाह के पास बैठता था और बहुधा बादशाह उसकी बात को सुनते और उसकी प्रार्थना स्वीकार करते थे। पर इसने कभी किसी के लिए अच्छी बात नहीं कही और दान तथा भलाई करने का मार्ग बंद रखा। बादशाह के सामीप्य और उस्ताद होने पर भी किसी की सहायता नहीं किया। इसमें अहंकार तथा ऐंठ बहुत थी और अत्यंत धर्मांध और कठोर था।

सईदाई सरमद, जो असल में अपने कथनानुसार यहूदी और दूसरों से सुनने से अरमनी था, तथा इसलाम के मानने पर मीर अबुल्कासिम कंदजा की सेवा में रह कर व्यापार के कारण

काशान से ठट्टा आकर किसी हिंदू के फेर में पड़ गया और जो कुछ उसके पास था सब लुटा कर नंगा बाबा हो गया । जब वह दिल्ली आया तब उसका दाराशिकोह का सत्संग हुआ क्योंकि वह सौंदर्य के पागलों पर विश्वास रखता था । इसके अनंतर आलमगीर बादशाह हुआ और वह धर्मभीरु बादशाह अपने शरीयत की आज्ञा का पाबंद था इसलिए मुल्ला अब्दुल्कवी को आज्ञा मिली कि उसको बुलाकर कपड़ा पहिरावे । जब समद को लिवा लाए तब मुल्ला ने उससे कहा कि तुम क्यों नंगे रहते हो । कहा कि शैतान कबो है और यह रुवाई ( उर्दू अनुवाद ) पढ़ा—

उच्चता रहते हुए मुझको बनाया नीचा ।

रहते चश्मे के मिला मुझको न दो जाम भरा ॥

वह बगल में मेरे मैं करता फिरूँ खोज उसकी ।

इस अजब दर्द ने है मुझको बनाया नंगा ॥

मुल्ला ने दूसरे मुल्लाओं की राय से उसे प्राण दंड दिया और यह रुवाई ( उर्दू अनुवाद ) उस पर लिख दिया—

भेद को उनकी हकीकत के कोई क्या जाने ।

है वह चर्ख बरों से भी बलंद क्या माने ॥

‘मुल्ला’ कहता है कि फलक तक अहमद जावे ।

कहता सरमद है कि फलक नीचे आवे ॥

वास्तव में उसके मारे जाने का सबब उसका दारा शिकोह का साथ था, नहीं तो वैसे नंगे साधु हर कूचे और गली में घूमते रहते हैं ।

इसके साथ साथ मुल्ला अब्दुल्कवी व्याकरण अच्छी तरह



जानता था। ९ वें वर्ष सन् १०७७ हि० में एक तुर्कमान कलंदर ने इसे मार डाला और यह घटना विचित्र है। इसका विवरण इस प्रकार है कि जब तरबियत खॉ ईरान के शाह अब्बास द्वितीय के यहाँ राजदूत होकर गया तो अपनी उच्छृंखलता तथा दुःशीलता से राजदूत के नियम न बजा लाकर उस उन्माद-प्रकृति शाह को क्रुद्ध करके पुरानी मित्रता में मैल डाल दी और दोनों तरफ से आक्रमण होने लगे। इसी समय काबुल के सूबेदार सैयद अमीर खॉ ने कुछ मुगल तुर्कमानों को जासूसी करते हुए पकड़ कर दरबार भेजा। एतमाद खॉ उनकी जाँच करने को नियत हुआ। उक्त खॉ इनमें से एक को, जो तुर्कमान सिपाही था, बिना बेदी हथकड़ी के एकांत में बुलाकर उससे हाल पूछने लगा। उसी समय वह मूर्ख अपनी जगह से आगे बढ़कर उस नौकर के पास पहुँचा, जो उसका हथियार रखे हुए था, और उसके हाथ से तलवार छीनकर उसको लिए चालाकी से लौट कर उक्त खॉ पर एक हाथ ऐसा मारा कि वह मर गया। पास वालों ने भी उसको मार डाला। खाफ़ी खॉ ने यह घटना दूसरी चाल पर अपने इतिहास में लिखा है। यद्यपि उक्त खॉ का अन्वेषण, क्योंकि लेखक और उस मृत के बीच परिचय काफ़ी था, मीरातुल आलम और आलमगीर नामा से भी मालूम था पर जो कुछ लिखा गया है वह उस कलंदर के मित्रों से सुना गया है तथा अजीब है इसलिए वह यहाँ लिखा जाता है। वह कलंदर ईरान का एक चालाक पहलवान था और यह झुंड अपने उपद्रव तथा उहड़ता से सरदारों से रुपये ऐंठ लेता था और अपना काम चलाता था। इन आदमियों में से सूरत और बुर्हानपुर में दो

बार काम हो चुके थे। जब यह दिल्ली आया तब ईरानी सरदारों से उत्साह पाकर इसने कुछ कलंदर इकट्ठे कर लिए और सब बाग में प्रति दिन एकत्र होकर गाना, बजाना करने लगे। इस हाल के प्रसिद्ध होने पर इन पर कुछ लोग कीमियागरी, डाँका और चोरी का शक करने लगे। अंत में समाचार मिला कि वह शाह का जासूस है। उसकी बहादुरी और साहस सबको मालूम था इसलिए कोतवाल अबसर के अनुसार जिस समय वह सोया था उस समय उसको कैद कर हथकड़ी बेड़ी पहिराकर बादशाह के सामने ले गया। एतमाद खॉं पता लगाने के लिए नियत हुआ। पूछने पर उसने बार बार कहा कि मैं यात्री हूँ लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ और उसे मौखिक धमकी दी गई। उस मृत्यु-संकट में पड़े हुए ने देखा कि अब छुटकारा नहीं है तब कहा कि यदि क्षमा मिले तो जो बात है नवाब के कान में कह दूँ। पास पहुँचकर वह इस प्रकार फुफ्फू कि मानों वह कुछ कहना ही चाहता है, पर इस कारण कि उसके दोनों हाथ बँधे हुए थे उसने अँगुलियों के सिरे से नीमचे को, जो एतमाद खॉं की मसनद पर रखा हुआ था, फुर्ती और बालाकी से चठाकर म्यान सहित उसके सिर पर ऐसा मारा कि सिर खीरे की तरह फट गया। बादशाह ने उसके मारे जाने का हाल सुनकर बहुत शोक किया और उसके लड़कों और संबंधियों को मनसब आदि दिया।



## २६. अब्दुल्मजीद हरवी, खाजा आसफ खॉ

यह शेख अबूबक तायबादी का वंशधर था, जो अपने समय का एक सिद्ध साधु था। जब सन् ७८२ हि० ( सन् १३८०-१ ई० ) में तैमूर हेरात विजय को चला, जिसका शासक मलिक गियासुद्दीन था, तब वह तायबाद आया। उसने शेख को कहला भेजा कि वह उससे मिलने क्यों नहीं आया। शेख ने कहा कि मुझे उससे क्या मतलब है। तब तैमूर स्वयं उसके पास गया और उससे पूछा कि आपने मलिक गियासुद्दीन को क्यों नहीं ठीक सम्मति दी। उसने उत्तर दिया कि मैंने अवश्य उपदेश दिए पर उसने ध्यान नहीं दिया। खुदा ने तुम्हें उसके विरुद्ध भेजा है, अब मैं तुम्हे उपदेश करता हूँ कि न्याय करो। यदि तुम भी ध्यान न दोगे तो खुदा दूसरे को तुम पर भेजेगा। अमीर तैमूर कहा करता था कि हमने अपने राज्य काल में जिस दवेश से बातचीत की, उसमें प्रत्येक अपने हृदय में अपना ही ध्यान रखता था, केवल इसी शेख को हमने अहमत्व से अलग पाया।

खाजा अब्दुल्मजीद हुमायूँ का सेवक था और भारत के अधिकार के समय यह अपनी सचाई तथा कौशल के कारण दीवान नियत हुआ था। जब अकबर बादशाह हुआ तब खाजा दीवानी से सर्दारी में आ गया और खड्ग तथा लेखनी का मिलन हुआ। जब अकबर बैराम खॉ के सिलसिले में पंजाब गया तब खाजा को आसफ खॉ की पदवी मिली और दिल्ली का अध्यक्ष

हुआ। इसे डंका, झंडा तथा तीन हजारी मंसब मिला। जब अदली के गुलाम फत्तू, जिसने चुनार पर अधिकार कर लिया था, दुर्ग देने को तैयार हुआ तब आसफ खॉं बादशाही आज्ञानुसार शेख मुहम्मद गौस के साथ वहाँ गया और उस पर अधिकार कर लिया। सरकार कड़ा मानिकपुर भी इसे जागीर में मिला। इसी समय गाजी खॉं तनवरी, जो एक मुख्य अफगान अफसर था तथा अकबर के यहाँ कुछ दिन से सेवक था, भागा और भट्टा प्रांत में चला गया, जो स्वतंत्र राज्य था। यहाँ सुरक्षित रहकर षड्यंत्र करने लगा। ७ वें वर्ष में आसफ खॉं ने वहाँ के राजा रामचंद्र को संदेश भेजा कि वह अधीनता स्वीकार कर ले और विद्रोहियों को सौंप दे। राजा ने अहंकार के कारण विद्रोहियों से मिलकर युद्ध की तैयारी की। आसफ खॉं ने वीरता दिखाई और भगैलों को मारा। राजा परास्त हो कर बांधवगढ़ में जा बैठा, जो उस प्रांत का दृढ़तम दुर्ग है। अंत में उसने अधीनता स्वीकार कर लिया और अकबर के पास के राजाओं के मध्यस्थ होने पर आसफ खॉं को आज्ञा मिली कि राजा पर अब चढ़ाई न करे। इस पर आसफ खॉं हट आया पर इस विजय से उसकी शक्ति बढ़ गई थी, इसलिए गढ़ा विजय करने का उसने विचार किया। भट्टा के दक्षिण में गोंडवाना नामक एक विस्तृत प्रांत है, जो डेढ़ सौ कोस लंबा और अस्सी कोस चौड़ा है। कहते हैं कि पहिले इसमें अस्सी सहस्र ग्राम थे।

यहाँ के निवासी अधिकतर नीच जाति के गोंड हैं, जो हिंदुओं से घृणा की दृष्टि से देखे जाते हैं। पहिले बहुत से राजों ने राज्य किया था पर इस समय शासन रानी दुर्गावती के

हाथ में था। उसने अपने साहस, राज्य-कौशल तथा न्याय से कुल प्रांत को एक कर रखा था। उस प्रांत में गढ़ा एक भारी नगर था और कंटक एक गाँव का नाम है। दूरों से उस प्रांत के मार्गों का कुल हाल जानकर ९ वें वर्ष में दस सहस्र सवारों के साथ उस पर चढ़ाई की। रानी उस समय तक अपनी सेना एकत्र नहीं कर सकी थी इसलिए थोड़ी ही सेना के साथ युद्ध करने को तैयार हुई। उसने कहा कि 'हमने इस देश का बहुत दिनों तक राश्र्य किया है अब किस प्रकार भाग सकती हूँ ? ससंमान मृत्यु अप्रतिष्ठित जीवन से उत्तम है।' उसके अफसरों ने कहा कि युद्ध करने का विचार बहुत ठीक है पर उपाय के सुमार्ग को छोड़ देना साहस की नीति नहीं है। उन्हें कोई स्थान तब तक के लिए हट कर लेना चाहिए, जब तक कुल सेना तैयार न हो जाय। यही किया गया। जब आसफ खॉं गढ़ा ले लेने पर भी नहीं लौटा, तब रानी ने अपने अफसरों को बुलाकर कहा कि 'मैं युद्ध ही चाहती हूँ। जो यही चाहता हो वह हमारा साथ दे। तीसरा मार्ग नहीं है। विजय या मृत्यु ये ही दो मार्ग हैं।' युद्ध आरंभ कर दिया। जब उसे समाचार मिला कि उसका पुत्र बीरशाह घायल हो गया तब उसने आज्ञा दी कि उसको युद्ध-क्षेत्र से हटाकर सुरक्षित स्थान में ले जाँय पर जब स्वयं घायल हुई तब अपने एक विश्वासपात्र से कहा कि 'युद्ध में तो मैं हार गई पर ईश्वर न करे कि मैं नाम तथा ख्याति में पराजित हो जाऊँ। इसलिए तुम अपना कार्य पूरा करो और मुझे छुरे से मार डालो।' पर उसका साहस नहीं पड़ा तब उसने स्वयं अपने हाथ से जान दे दी। अब आसफ खॉं औरंगज़द विजय करने गया,

जिसे वीर शाह ने दृढ़ कर रक्खा था और जो दुर्ग तथा राजधानी होते अपने कोषागारों के लिए प्रसिद्ध था। युद्ध में वीर शाह ने वीर गति पाई और दुर्ग विजय हो गया। आसफ खॉं अपनी इस विजय पर, जो इसके जीवन का सबसे बड़ा कार्य था, बहुत कोष पाने से बड़ा घमंडी हो गया। उसने कुमार्ग ग्रहण किया और एक सहस्र हाथियों में से केवल दो सौ हाथी बादशाह के पास भेजे। १० वें वर्ष में जब खानेजमों शैबानी ने पूर्व में नियुक्त वज्रवेग अफसरों से मिलकर विद्रोह किया और मानिकपुर दुर्ग में भजनू खॉं काकशाल को घेर लिया तब आसफ खॉं पाँच सहस्र सवारों सहित उसकी सहायता को आया। जब अकबर विद्रोह-दमन के लिए उस प्रांत में आया तब आसफ खॉं ने हाजिर होकर गढ़ा की बहुमूल्य वस्तुएँ भेंट दीं और अपनी सेना दिखलाई। इस पर फिर कृपा हुई और यह शत्रु का पीछा करने भेजा गया। बादशाही मुंशियों ने, जो इसके घूस के इच्छुक हो चुके थे, लोभ तथा द्वेष से इसके घन एकत्र करने तथा गवन करने का आक्षेप किया। चुगलखोरों ने यह बात बढ़ा कर आसफ खॉं से कहा, जो भय से २० सफर सन् ९७३ हि० ( १६ सितंबर सन् १५६५ ई० ) को झूठी शंका करके भागा। ११ वें वर्ष में महदी कासिम खॉं गढ़े का अध्यक्ष नियुक्त हुआ और आसफ खॉं बहुत पश्चाताप करता हुआ उस प्रांत को छोड़कर अपने भाई वजीर खॉं के साथ खानेजमों का निमंत्रण स्वीकार कर जौनपुर में उससे जा मिला। पहिली ही भेंट में इसे खानेजमों के अत्याचार तथा घमंड का परिचय मिला, जिससे इसे वहाँ आने का पछतावा हुआ और जब इसने देखा कि इसकी संपत्ति का लोभ खान-

जमों के हृदय में समा गया है तब भागने का अवसर देखने लगा। इसी समय खानजमों ने इसको अपने भाई बहादुर खॉ के साथ अफगानों पर भेजा पर इसके भाई वजीर खॉ को अपने पास रख लिया। तब दोनों भाई ने भागना निश्चय कर मानिकपुर से अपना अपना रास्ता लिया। बहादुर खॉ ने पीछा किया और युद्ध हुआ। आसफ खॉ हार गया और पकड़ा गया। उसी समय वजीर खॉ वहाँ पहुँच गया और कुल वृत्तांत से अवगत हुआ। बहादुर खॉ के सैनिक लूटने में लगे थे इसलिए वजीर खॉ के घावा करने पर बहादुर खॉ भागा। भागते समय उसने आसफ खॉ को मार डालने का इशारा किया, जो हाथी पर बँधा हुआ था। उस पर दो एक चोट हुए और उसकी जँगलियों कट गई तथा नाक पर घाव हो गया पर वजीर खॉ के पहुँचने से वह बच गया। सन् ९७३ हि० ( सन् १५६५-६६ ई० ) में दोनों भाई कड़ा पहुँचे। आसफ खॉ ने वजीर खॉ को मुजफ्फर खॉ तुरबती के पास आगरे भेजा कि वह मध्यस्थ होकर क्षमा पत्र दिला दे। मुजफ्फर खॉ आज्ञानुसार सन् ९७४ हि० में पंजाब जाता था और वजीर खॉ को साथ लिवा जाकर शिकारखाने में अकबर के सामने हाजिर कर क्षमा करने की प्रार्थना की। आज्ञा हुई कि आसफ खॉ मजनू खॉ के साथ कड़ा मानिकपुर की सीमा की रक्षा करे। उसी वर्ष अकबर ने फुर्ती से कूच कर खानजमों और बहादुर खॉ को मार डाला। इस युद्ध में आसफ खॉ ने उत्साह तथा राजभक्ति दिखलाई। सन् ९७५ हि० ( सन् १५६८ ई० ) में इसे हाजी मुहम्मद खॉ सीस्तानी के बदले बीआन्स

जागीर में मिला, कि यह वहाँ जाकर राणा उदयसिंह के विरुद्ध तैयारी करे। जब उस वर्ष में रबीउल्ल आउवल्ल महीने के मध्य ( सितं० १५६७ ई० ) में अकबर राणा को दंड देने के लिए आगरे से रवाना हुआ तब उसने जयमल को, जो पहिले मेड़ता में था, चित्तौड़ में छोड़ा और स्वयं जंगलों में चला गया। आसफ ख़ाँ ने इस घरे में बहुत काम किया। चित्तौड़ एक पहाड़ी पर है, जो एक कोस ऊँचा है और यह एक ऐसे मैदान में है, जिसमें और कोई ऊँचा टीला आसपास नहीं है। इसका घेरा नीचे छ कोस है और ऊपर जहाँ दीवाल है तीन कोस है। पत्थर के बड़े तालाबों के सिवा, जिसमें वर्षा का जल रहता है, ऊँचे पर सोते भी हैं। चार महीने सात दिन पर १२ वें वर्ष में २५ शाबान ( २४ फरवरी सन् १५६८ ई० ) को दुर्ग टूटा और चित्तौड़ का कुल सरकार आसफ ख़ाँ को जागीर में मिला।

---



## ३०. अब्दुल् वहाब, काजीउल् कुजात

यह गुजरात-पत्तन-निवासी शेख मुहम्मद ताहिर बोहरा का पौत्र था। मुहम्मद ताहिर में अनेक गुण थे और वह हज्ज कर आया था, जहाँ उस से शेख अली मुत्ताकी से भेंट हुई थी। यह उसका शिष्य हो गया और अपने समय का पवित्रता, सिद्धाई तथा शरअ के ज्ञान में अद्वितीय हुआ। जब यह अपने देश को लौटा तब अपनी जाति में प्रचलित विश्वास तथा व्यवहार को छोड़कर जौनपुर के सैयद मुहम्मद के महदवी मतानुलंबियों को दमन करने में प्रयत्न किया। धर्म-शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए अपने गुरु शेख के अंतिम उपदेशों के अनुसार नियम बनाए तथा उसपर उपदेश दिए। वह बहुधा कहता कि क्यों न एक मनुष्य दूसरे के ज्ञान से लाभ उठाए। मजमवल् बहार गरीबुल्लु-गातुल्लहदीस नामक इसकी एक रचना प्रसिद्ध है। सन् ९८६ हि० ( सन् १५७८ ई० ) में उज्जैन और सारङ्गपुर के बीच के सड़क पर कुछ मनुष्यों ने इस पर आक्रमण कर इसे मार डाला। कहते हैं कि उसने शपथ खाई थी कि जब तक उसकी जाति के हृदय से शिआपन का अंधकार तथा अन्य कुफ्र निकल न जायगा, तब तक वह पगड़ी नहीं बाँधेगा। जब सन् ९८० हि० ( सन् १५७२ ई० ) में अकबर गुजरात आया तब शेख से भेंट की और उसके सिरपर पगड़ी बाँधी तथा कहा कि आपके शपथ को पूरा करना हमारा काम है। उसने मिर्जा कोका को गुजरात में

नियत किया और शेख ने उसकी सहायता से अपनी जाति की बहुत सी चाल बंद करा दी। कुछ समय बाद जब वहाँ का शासन एक पारसीय सर्दार को मिला, तब उसकी सहायता से उसकी जाति वाले फिर अपनी रिवाज चलाने लगे। शेख ने अपनी पगड़ी फिर उतार पटकी और आगरे को चला। सैयद वजीउद्दीन गुजराती के मना करने पर भी उसने नहीं माना और जो होना था वही हुआ। उसका शव मालवा से नहरवाला, जो पत्तन का दूसरा नाम है, लाया गया और अपने पूर्वजों के मकबरे में गाड़ा गया।

काजी अब्दुल वहाब धर्मशास्त्र का अच्छा ज्ञाता था और शाहजहाँ के समय में अपने जन्मस्थान पत्तन का बहुत दिनों तक काजी रहा। जब शाहजहाँ औरंगजेब दक्षिण का शासक हुआ तब यह उसकी सेवा में उपस्थित हुआ और सम्मान पाया। औरंगजेब के गद्दी पर बैठने के समय से अब्दुल् वहाब सेना का काजी नियत हुआ और अच्छी प्रतिष्ठा पाई। इसके पूर्वजों में से किसी ने इतना ऊँचा पद नहीं पाया था, क्योंकि बादशाह कट्टर धार्मिक था जो इतने बड़े देश का साम्राज्य कुप्र मिटाने के नियमों पर कायम रखना चाहता था। नगरों तथा कस्बों के काजी वहाँ के शासकों से मिलकर दंड का स्वत्व सोने के बदले बँचते थे। बादशाह का काजी, जो अपने को फकीर तथा धार्मिक प्रकट करता था, हर एक कार्य में हस्तक्षेप करता था और 'केवल मैं दूसरा नहीं' का झंडा ऊँचा किए था। सब पदस्थ अफसर उससे डरते तथा डहकते थे। इन सब ढोंग के होते रुपये का ढेर बटोरने तथा जमा करने में ये काजी बहुत बड़े हुए थे। महाबत लहरास्य अपने साहस के लिए प्रसिद्ध था। एकबार

जब वह दक्षिण की चढ़ाई पर भेजा गया और राजधानी के पास कुछ दिन तक सेना को अग्रिम वेतन दिलाने के लिए रुका रहता तब उसे ज्ञात हुआ कि तीन चार लाख रुपयों के मूल्य का काश्मीर तथा आगरा का माल, जिसे काजी ने खरीदा था, अहमदाबाद के अन्य सौदागरों के माल के साथ भेजा जा रहा है। यह काजी से वैमनस्य रखता था, इसलिए इन सबको छीन लिया और सेना में वेतन रूप में वितरित कर दिया। जब बादशाह को यह सूचित किया गया तब महाबत ने उत्तर लिखा कि आवश्यकता पड़ने से सौदागरों से ये सामान उधार लिए गए थे, जो मुनाफे सहित लौटा दिए जायेंगे। काजी ने समझ लिया कि वह कुछ नहीं कर सकता, केवल मौन धारण कर सकता है। १७ वें वर्ष में बराबर बीमार रहने से वह हसन अब्दाल से राजधानी आया। लाहौर का काजी अली अकबर उसका स्थानापन्न काजी नियत हुआ। यह १९ वें वर्ष के आरंभ में १८ रमजान सन् १०८६ हि० ( २६ नवंबर १६७५ ई० ) को दिल्ली में मर गया।

इसके चार लड़के थे। बड़ा शेखुल् इसलाम राजधानी का काजी हुआ। यह अपने पिता की मृत्यु पर बादशाह के बुलाने पर आया और कंफ का काजी हुआ। इसमें बनावट नहीं थी। इसने अपने पिता के छोड़े धन में से एक दाम तक नहीं लिया, जो सब मिलाकर एक लाख अशर्फी, पाँच लाख रुपये, जवाहिरात आदि था, और सब अन्य हिस्सेदारों में बाँट दिया। इसने उचित जीवन व्यतीत किया। समय के प्रभाव को समझ कर, जब मनुष्य मूठ तथा अत्याचार के आदी हो गए थे, यह साक्षी तथा साक्ष्य पर

भरोसा न कर वादी तथा प्रतिवादी में सुलह कराने पर विशेष प्रयत्न करता ।

कहते हैं कि बादशाह ने बीजापुर तथा हैदराबाद की चढ़ाइयों के धर्म पूर्ण होनेपर इससे पूछा था पर इसने उसके विचार के विरुद्ध अपनी सम्मति दी थी । २७ वें वर्ष में खुदाई आज़ा से नौकरी छोड़ कर अन्य सांसारिक बंधनों को भी तोड़ डाला । बादशाही कृपाओं और बुलाने पर भी इसने नौकरी की ओर रुचि नहीं की । इसके कहने पर काजी अब्दुल् वहाब के दामाद सैयद अबू सईद को कंफ का काजी नियत किया, जो राजधानी में था । २८ वें वर्ष में मक्का जाने की छुट्टी ली और इसके सूरत लौटने पर औरंगजेब ने इसे बुला भेजा और इसपर कृपाएँ की । जैसे कई बार उसने अपने हाथ से इसके कपड़े में इत्र लगाए और काजी तथा सद्र पद स्वीकार करने को स्वयं कहा । इसने अस्वीकार कर दिया और अपने देश जाकर अपने पूर्वजों के मकबरों को देखने तथा अपने परिवार से मिलने के बाद लौट आने के लिए छुट्टी की प्रार्थना की । इसके बाद यह खुदा से दुआ करता कि बादशाही काम से पुनः अपवित्र न होने पावे । ४२ वें वर्ष में एक प्रेम-पूर्ण फर्मान इसके भाई नूरुलहक के हाथ भेजा गया कि यदि वह बादशाह के पास उपस्थित होकर सद्र की पदवी स्वीकार करें तो वह उसे मिल जाएगी । इसने लाचार होकर इच्छा न रहते हुए भी अहमदाबाद से यात्रा थारंभ कर दी क्योंकि यह संसार से अलग रहकर सच्चे ईश्वर से मिलना चाहता था । उसी समय यह बहुत बीमार हो गया और सन् ११०९ हि० ( सन् १६९८ ई० ) में जहाँ जाना चाहता था वहाँ

चला गया। बादशाह ने दुःखित होकर कहा कि 'वही सुखी है जो हज्ज करने के बाद दुनिया के फंदे में नहीं पड़ा।' दो सौ वर्ष के तैमूरी राज्य में कोई काजी पवित्रता तथा सचाई के लिए इसके समान नहीं हुआ। जब तक यह काजी रहा बराबर उस पद से हटने का प्रयत्न करता रहा। बादशाह इसे नहीं जाने देता था पर बीजापुर चढ़ाई में, जब मुसलमानों के विरुद्ध लड़ाई थी, यह हट गया।

जो लोग धर्म को संसार के बदले बेंचते हैं, वे इस पद को बहुत चाहते हैं और इसे पाने के लिए घूस में बहुत व्यय करते हैं, जिससे उसके मिलने पर बहुतों का हक मार कर उसका सैकड़ों गुणा कमा लें। वे निकाह और महर की फीस पर अपनी माता के दूध से बढ़कर स्वत्व समझते हैं। कस्बों के वंश परंपरा के काजियों को क्या कहा जाय, क्योंकि उनके लिए शरअ का जानना शत्रु का काम है और देशपांडे के रजिष्टर तथा जर्मीदारों का कथन उनके लिए शरअ और पवित्र पुस्तक है। काजियों के ज्ञान तथा व्यवहार के विषय में यह कहा जाता है कि प्रत्येक तीन में एक स्वर्ग का है। ख्वाजा मुहम्मद पारसा ने फल्लुलखिताब में लिखा है कि 'हो वह काजी वहाँ है पर वह स्वर्ग का काजी है। इस जाति के कुकर्मों तथा मूर्खताओं का कौन वर्णन कर सकता है, जो गँवारों से भी बुरे हैं।'

मृत शेखुल् इस्लाम को चार संतानें थीं। इन्होंने में एक शेख सिराजुद्दीन बरार का दीवान हुआ। इसने भी शाही नौकरी छोड़ी और दर्वेश का बाना बनाया। ख्वाजा अब्दुर्रहमान का यह शिष्य हुआ, जिसने बहुत दिनों से पदवी तथा धन को त्याग पत्र दे

दिया था और खुदा पर श्रद्धा के द्वार को खटखटाता रहा था तथा जो खुदा की याद और ध्यान का गुरु हो गया था। औरंगजेब की मृत्यु पर यह शोख के साथ राजधानी आया और अपने समय पर मर गया। दूसरा पुत्र मुहम्मद इकराम था, जो बहुत समय तक अहमदाबाद का सदर रहा। इसे शेखुल-इसलाम की पदवी मिली। अंत में अंधा होकर सूरत में रहने लगा, जहाँ वर्तमान राजा के समय मर गया। काजी अब्दुल-वहाब के पुत्रों में नूरुल्हक भी था, जो दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते थे। एक दिन बादशाह को शक हो गया कि इनमें कौन-कौन है। बड़ा सेना का हिस्सा रखने वाला था और दूसरा दारोगा-खास था। अब्दुल-हक मुहम्मद का पुत्र मुहम्मद मन्नाली खॉ शराबी तथा संगीत-प्रेमी था। स्वयं बिना लज्जा के गाता बजाता। शिकार का भी शौकीन था। वर्तमान राज्यकाल में यह बरार के अंतर्गत मलकापुर का बहुत दिनों तक फौजदार रहा, जो बुर्हानपुर से १८ कोस पर है। अठारह वर्ष के लगभग हुए कि वह मर गया।

भारतीय भाषा में बोहरा का अर्थ व्यापारी है और इस जाति के बहुत आदमी व्यापारी हैं, इसलिए ये बोहरा कहलाए। कहते हैं कि इसके साढ़े चार सौ वर्ष पहिले मुल्ला अली नामक विद्वान् के प्रोत्साहन से, जिसका मकबरा खंभात में है, गुजरात के कुछ मनुष्य, जो उस समय मूर्ति-पूजक थे, मुसलमान हो गए। वह इमामिया था, इसलिए यह सब वही हुए। उसके बाद जब सुलतान अहमद, जो दिल्ली के सुलतान फीरोजशाह का एक विश्वस्त अफसर था, यहाँ आया और इसलाम धर्म फैलाने-

लगा तब इनमें से कुछ लोग उस समय के मुल्लाओं के उपदेश पर सुन्नी हो गए, जो सभी सुन्नी थे। इन दोनों में आरंभ ही से ऋगड़ा तथा वैमनस्य चला आ रहा था, इसलिए अब भी वह ऋगड़ा उठसा है। जो शीघ्रा बचे हैं, वे सर्वदा अपनी जाति के पवित्र तथा विद्वान् मनुष्य को मानते हैं और उन्हीं से धार्मिक बातें पूछते हैं। वे अपने धन का पाँचवा हिस्सा मदीना के सैयदों को भेजते हैं और जो कुछ दान करते हैं वह सब पूर्वोक्त विद्वान् को देते हैं, जो उसी जाति के गरीबों में बाँटता है।

---

## ३१. अबुल हादी, ख्वाजा

यह सफ़दर ख़ाँ ख्वाजा कासिम का बड़ा पुत्र था। शाह-जहाँ के राज्य के आरंभ में यह सिरौज में था, जहाँ इसके पिता की जागीर थी। ४ थे वर्ष में जब खानजहाँ लोदी दरियाख़ाँ रुहेला के साथ दक्षिण से मालवा के इस ग्राम में आया तब इसने उसकी रक्षा का भार लिया। २० वें वर्ष में इसका मंसब नौ सदी ६०० सवार का था पर २१ वें में बढ़कर डेढ़ हजारी ८०० सवार का हो गया, जिसमें २३ वें वर्ष में २०० सवार बढ़ाए गए। २६ वें वर्ष में यह दारा शिकोह के साथ कंधार की चढ़ाई पर गया। बिदाई के समय इसे दो हजारी १००० सवार का मंसब, खिलअत तथा चाँदी के साज सहित घोड़ा मिला। २७ वें वर्ष में इसे झंडा भी मिला। ३० वें वर्ष सन् १०६६ हि० ( सन् १६५६ ई० ) में यह मर गया। इसके लड़के ख्वाजा जाह का ३० वें वर्ष तक एक हजारी ४०० सवार का मंसब था।

---



## ३२. अब्दुल्ला अनसारी मखदूमुल मुल्क, मुल्ला

यह शैख शम्सुद्दीन सुलतानपुरी का पुत्र था। इसके पूर्वजों ने मुलतान से सुलतानपुर आकर इसे अपना निवासस्थान बनाया। मौलाना अब्दुल्लादिर सरहिंदी से अब्दुल्ला ने पढ़ा और न्याय तथा धर्म शास्त्र का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। इसकी विद्वत्ता की प्रसिद्धि संसार में फैली। इसने मुल्ला की टीका पर हाशिया लिखा और पैगम्बर की जीवनी पर मिनहाजुद्दीन लिखा। खुदा उसपर तथा उसके परिवार पर शांति भेजे। तत्कालीन शाहगण उसका सम्मान करते थे और हुमायूँ उस पर श्रद्धा रखता था। शेरशाह ने अपने समय उसे सदरुल्-इसलाम की पदवी दी। एक दिन सलीम शाह ने दूर पर इसे देख कर कहा कि 'बाबर बादशाह को पाँच लड़के थे, चार चले गए और एक रह गया।' सरमस्त ख़ाँ ने कहा कि 'ऐसे षड्चक्री को क्यों रहने देते हैं?' उसने उत्तर दिया कि 'इससे उत्तम आदमी नहीं मिलता।' जब मुल्ला पास आया तब सलीम शाह ने उसे तख्त पर बिठाया और बीस सहस्र रुपये मूल्य की मोती की माला दी, जिसे उसने उसी समय भेंट में पाया था। मुल्ला कट्टर था, जिसे लोग धर्म-रक्षक समझते थे और धर्म की ओट में वह बहुत वैमनस्य दिखलाता था। जैसे मुल्ला ही के प्रयत्न से शैख अलाई मारा गया था। शैख अलाई शैख हसन का लड़का था, जो बंगाल का एक बड़ा शैख था। उसने अपने पिता से वाह्य तथा आभ्यंतर ज्ञान प्राप्त

किया था और हज्ज से लौटने पर बियाना में ठहरा। यहीं सत्य के पालन तथा असत्य के निराकरण में लग गया। इसी समय शेख अब्दुल्ला नियाजी भी बियाना में आकर बस गया। यह शेख सलीम चिरती का अनुगामी था और मक्का से लौटने पर सैयद मुहम्मद जौनपुरी का साथी हुआ, जो अपने को महदी कहता था। शेख अलाई ने उसकी प्रथा का समर्थन किया और उससे स्वॉस रोकना सोखा, जो महदवियों में एक बाल है और आश्चर्यजनक काम दिखलाने की ख्याति प्राप्त की। बहुत से अनुयायियों के साथ खुदा में विश्वास रख दिन व्यतीत किए। रात्रि के समय कुल घरेलू बर्तन, यहाँ तक कि पानी के पात्र भी खाली छोड़ दिए जाने पर सुबह सब भरे मिलते थे। मुल्ला अब्दुल्ला ने उस पर धर्म में जादू का तथा कुफ्र का दोष लगाया और सलीम शाह को उसे बियाना से बुलाकर मुल्लाओं से तर्क करने पर बाध्य किया। शेख अलाई विजयी हुआ। उस बहस में शेख मुबारक ने उसका पक्ष लिया, इसलिए उस पर भी महदवी होने का दोष लगाया गया।

सलीम शाह पर अलाई का प्रभाव पड़ा और उसने उससे कहा कि महदवीपन छोड़ने पर उसे वह साम्राज्य का धार्मिक हिसाबी बना देगा और यदि वह ऐसा न करेगा तो उसे तुरंत देश त्याग देना चाहिए क्योंकि उल्लमा ने उसे मार डालने का फतवा दिया है। शेख दक्षिण चला गया। जब सलीम शाह पंजाब के नियाजियों को दमन करने गया तब मुल्ला अब्दुल्ला ने बतलाया कि शेख अब्दुल्ला नियाजियों का पीर है। सलीम शाह ने सन् ९५५ हि० ( १५४८ ई० ) में उसे बुला

भेजा और इतने ज़ात मुक्के कोड़े उस पर बरसे कि वह बेहोश हो गया। जब तक उसे होश था वह बराबर कहता रहा 'या खुदा हमारे दोषों को क्षमा कर।' जब वह होश में आया तब महदवी-पन छोड़ दिया और सन् ९९३ हि० ( १५८५ ई० ) में अकबर के अटक की ओर जाते समय उसकी सेवा कर ली। इसे सर-हिंद में कुछ भूमि इसके पुत्रों के नाम भददे मध्याश में मिल गई और यह नब्बे वर्ष की अवस्था में सन् १००० हि० ( १५९२ ई० ) में मर गया।

नियाजी कार्य समाप्त होने पर मुल्ला अब्दुल्ला ने सलीम-शाह को फिर उभाड़ा और उसने शेख अलार्ई को हिंदिया से बुलाया। सलीमशाह ने फिर अपना प्रस्ताव किया और शेख ने उसे स्वीकार नहीं किया। सलीमशाह ने मुल्ला से कहा कि अब तुम और यह जानो। मुल्ला ने उसे कोड़े मारने को कहा और तीसरे कोड़े में वह मर गया। उसका शव हाथी के पाँव में बाँध कर जनता को दिखलाया गया। कहते हैं कि उस दिन ऐसी तेज हवा बहो कि मनुष्यों ने महशर ( प्रलय ) आया समझा। इतने फूल शेख के शव पर बरसे कि वह उसी में गड़ सा गया। इसके बाद सलीम शाह ने दो वर्ष भी राज्य नहीं किया। जब हुमायूँ भारत आया और कंधार विजय किया तब उसने मुल्ला को शेखुल् इसलाम की पदवी दी। इसके बाद अकबर ने बादशाह होने पर मुल्ला को मखदूमुल्मुल्क की पदवी दी और वैराम खॉँ ने परगना तानगवाल: दिया, जिसकी एक लाख तहसील थी तथा उसे सब सर्दार के ऊपर कर दिया। यह साम्राज्य का एक स्तंभ हो गया। कुछ महानों और सालों के बीतने पर जब

बादशाह का विचार तत्कालीन इन सब मुस्लाखों से छोटी छोटी बातों पर बिगड़ गया तब २४ वें वर्ष सन् ९८७ हि० में उसने इसको तथा अब्दुल्लाबी सदर को, जिन दोनों में बराबर शत्रुता और झगड़ा चलता आ रहा था, एक साथ हिजाज जाने की आज्ञा दे दी। इस पर भी इन दोनों में कभी मेज़ नहीं हुआ, न यात्रा में और न मक्का में। यहाँ तक कि एक दूसरे के प्रति वैमनस्य भी कम न हुआ।

मखदूमल्मुल्क की प्रतिष्ठा अफगानों के समय से अकबर के समय तक होती आई थी और वह अपने न्याय तथा कार्यों के अनुभव के लिए प्रसिद्ध था और उसकी बुद्धिमत्ता का वृत्तांत चारों ओर फैल गया था, इससे मक्का के मुफती शीब इब्नहजर ने आगे बढ़कर इमका स्वागत किया, बहुत सम्मान दिखलाया तथा असमय में उसके लिए काबा का द्वार खुलवा दिया। अकबर के भाई मिर्जा मुहम्मद हकीम की गड़बड़ी जब सुनी गई तब उसके झूठे वृत्तांत को सत्य मानकर इसने उन्नति की इच्छा की तथा समृद्धि के प्रेम से अब्दुल्लाबी सदर के साथ अहमदाबाद लौट आया। जब बादशाह को ज्ञात हुआ कि उन दोनों ने मजलिसों में ईर्ष्या के मारे उसके विरुद्ध अनुचित बातें कही हैं तब उसने गुप्त रूप से कुछ मनुष्यों को उन्हें कैद करने को नियत किया, क्योंकि वेगमें उनका पत्र ले रही थीं। मखदूमल्मुल्क मय से सन् ९९१ हि० में मर गया। कहते हैं कि उसे अकबर के इशारे से विष दे दिया गया था। उसका शव गुप्तरूप से जालंधर लाया जाकर गाड़ दिया गया। काजी अली उसकी संपत्ति जब्त करने पर नियत हुआ। लाहौर में गढ़ा हुआ बहुत धन मिला। कुछ

संदूकों में सोने की ईंटें भरी थीं, जो मकबरे से निकाली गईं। ये शर्वा के बहाने गाड़े गए थे। इस कारण उसके लड़कों पर बहुत दिनों तक धन खोजने के लिए ज्यादाती होती रही। तीन करोड़ रुपये मिले।

अब्दुल् कादिर बदाऊनी अपने इतिहास में लिखता है कि मखदूमुल् मुल्क ने फतवा दिया था कि इस समय हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हज्ज करना ज्यादा संगत नहीं है क्योंकि यात्रा समुद्र से करनी पड़ती है और स्वरक्षा की आवश्यकता से बिना फिरंगी पासपोर्ट के काम नहीं चलता, जिस पर मरियम और ईसा का चित्र रहता है। इससे नियम टूटता है और यह एक प्रकार का मूर्ति-पूजन है। दूसरा मार्ग फारस से है, जहाँ अयोग्य लोग (शीआ लोग) रहते हैं। अपनी कट्टरता में मखदूमुल् मुल्क ने रौजतुल् अहबाब की तीसरी जिल्द जलवा दी, जिसमें पूर्व काल के वृत्तांत में कमी तथा अशुद्धि है। इससे वह जिल्द कम मिलती है।

---

## ३३. अब्दुल्ला खॉ उजबेग

यह हुमायूँ का एक अफसर था और उल्हाशय सर्दारों में से था, जो समय पर अपनी जान लड़ा देते थे। अकबर के समय हेमू पर विजय प्राप्त करने के बाद इसे गुजाअत खॉ की पदवी मिली और यह कालपी का जागीरदार नियत हुआ। मालवा-विजय में इसने अदहम खॉ की सहायता की थी और उस प्रांत से यह परिचित था, इसलिये सातवें वर्ष में जब वहाँ का प्रांताध्यक्ष पीर मुहम्मद खॉ शेरवानी नर्मदा में डूब मरा और बाजबहादुर ने मालवा पर अपनी पैतृक संपत्ति समझकर अधिकार कर लिया तब अकबर ने अब्दुल्ला खॉ उजबेग को पाँच हजारी मंसब देकर बाज बहादुर को दंड देने और उस प्रांत में शांति स्थापित करने भेजा। इसे पूरी शक्ति प्रदान की गई थी। जब अब्दुल्ला पूरी तौर सुसज्जित होकर मालवा विजय करने गया तब बाज-बहादुर उसका सामना न कर सका और भागा तथा वह प्रांत बादशाही अधिकार में चला आया। अब्दुल्ला खॉ मांडू आया, जो मालवा के शासकों की राजधानी थी और अमीरों में उस प्रांत के नगर कस्बे बाँट दिए।

जिनमें राजभक्ति की कमी रहती है वे शक्ति मिलते ही बिगड़ जाते हैं, उसी प्रकार अब्दुल्ला खॉ भी घमंडी तथा राजद्रोही हो गया। ९ वें वर्ष सन् ९७१ हि० ( १५६३-६४ ई० ) में पूर्ण वर्षा काल में अकबर नरवर तथा सिप्री हाथी का शिकार खेलने

के बहाने आया, जो उस समय वहाँ बहुत हो गए थे और फुर्ती से वहाँ से माँह गया। बादल की गरज, बिजली, वर्षा, बाद तथा कीच और बिल तथा खडू के कारण, जो मालवा में बहुत होते हैं, कूच में बड़ी कठिनाई हो गई थी। घोड़ों को दरियाई घोड़ों के समान पैरना पड़ा और ऊँटों को जहाजों के समान तूफानी समुद्र पार करना पड़ा। पशुओं के पैर उनके छाती तक कीचड़ में धँस गए और कितने मजदूरों कीचड़ में रह गए। पर अकबर गागरून से आगे बढ़ा क्योंकि इस भयंकर यात्रा का तात्पर्य एकाएक अब्दुल्ला खॉं पर पहुँच जाना था; जो ऐसे समय में सेना का मालवा आना संभव नहीं समझता था। अशरफ खॉं और एतमाद खॉं उसे यह शुभ सूचना देने के लिये आगे भेजे गए, जो अपने कर्मों के कारण डर रहा था, कि उसपर बादशाह की बहुत क्रुपा है। साथ ही इसके वे उसे सेवा में ले आवें, जिसमें वह भगोड़ न हो जाय। अकबर ने एक दिन की कूच में पानी कीचड़ होते हुए मालवा का पचीस कोस तै किया, जो दिल्ली के चालीस कोस के बराबर है और सारंगपुर पहुँचा। जब वह घर आया तब उसे अपने दूतों से ज्ञात हुआ कि बहुत प्रयत्न करनेपर भी वे उसके अधिक भय के कारण सफल नहीं हो सके। उसने कुछ बेढब प्रस्ताव किए और तब अपने परिवार और संपत्ति के साथ भाग गया। अकबर माँह से घूमा और अपने कुछ अफसरों को अब्दुल्ला का रास्ता रोकने के लिए हरावल बनाकर भेजा तथा स्वयं भी पीछा किया। जब हरावल अब्दुल्ला पर पहुँच गया तब यह विचार कर कि बहुत दूर से आने के कारण इस समय युद्ध-योग्य कम आदमी पहुँचे होंगे वह घूमा और युद्ध किया। जब लड़ाई जोरों पर

थी और शत्रु के तीर बादशाह के सिर पर से जाने लगे तब अकबर ने दैवी इच्छा से विजय का डंका पीटने की आज्ञा दी और मुनश्म खॉ खानखानों से कहा कि 'अब देर करना ठीक नहीं है, शत्रु पर धावा करना चाहिए।' खानखानों ने कहा कि 'ठीक है, पर अभी द्रुंद्र युद्ध का अवसर नहीं है, सैनिकों को इकट्ठा कर धावा करेंगे।' अकबर क्रुद्ध हो गया और आगे बढ़ने ही को था कि एतमाद खॉ ने उत्साह के मारे उसके घोड़े की बाग पकड़ ली। बादशाह ने और भी क्रुद्ध होकर धावा कर दिया। दैव साहसी की रक्षा करता है, इससे शत्रु बादशाह के प्रताप से भाग गए। अब्दुल्ला खॉ के पास एक सहस्र से अधिक सवार थे और अकबर के साथ तीन सौ से अधिक नहीं थे, तिस पर भी वह अपने सर्दारों को कटा कर युद्ध-स्थल से भागा तथा आवे ( नदी ) मोहान होकर गुजरात चला गया। अकबर ने कासिम खॉ नैशापुरी के अधीन सेना उसके पीछे भेजी। अड़ोस पड़ोस के जर्मींदारों ने राजभक्ति के कारण इस सेना से मिलकर अब्दुल्ला पर चंपानेर दर्रे में धावा किया। वह घबड़ा कर अपनी स्त्रियों को रेगिस्तान की ओर भेजकर अपने पुत्र के साथ भाग गया। शाही सर्दार गण उसके कुल सामान, स्त्रियों, हाथी आदि पर अधिकार कर वहीं ठहर गए। अकबर भी नदी पार कर वहीं आया और खुदा को धन्यवाद देकर बहुत लूट के साथ लौटा। युद्धस्थल से अर्द्ध-जीवित बचा हुआ अब्दुल्ला खॉ गुजरात गया और चंगेज खॉ से, जो वहाँ शक्तिमान था, जा मिला। अकबर ने चंगेज खॉ के पास इकीम पेनुल्मुल्क को भेजा कि या तो वह उस दुष्ट को हमारे पास भेज दे या अपने राज्य से निकाल दे। उसने प्रार्थना



की कि शाही हुक्म मानने को वह तैयार है और उसे वह दरबार में भेज देगा यदि वह क्षमा कर दिया जाय । यदि बादशाह यह स्वीकार न करे तो उसे वह राज्य से निकाल देगा । जब दोबारा वही संदेश गया तब उसने उसे निकाल बाहर किया । वह मालवा आया और गड़बड़ मचाने लगा । शहाबुद्दीन अहमद खॉं, जो मालवा का प्रबंध करने भेजा गया था, ससैन्य ११ वें वर्ष में उसको दमन करने आया और अब्दुल्ला पकड़ा हो जा चुका था पर निकल गया । बहुत कठिनाई उठाकर यह अली कुली खॉं खानेजमों तथा सिकंदर खॉं उजबेग से जा मिला और वहाँ बंगाल या बिहार में मर गया ।

---

## ३४. अब्दुल्लाखॉ, ख्वाजा

यह तूरान का था। पहिले यह और इसका भाई ख्वाजा रहमतुल्ला खॉ दोनों एमादुल्मुल्क मुबारिज खॉ के अनुयायी हुए और दोनों को सिकाकौल तथा राजेन्द्री की फौजदारी मिली। मुबारिज खॉ के मारे जाने पर जब निजामुल्मुल्क आसफ जाह हैदराबाद आया तब दोनों भाई उसके सामने उपस्थित हुए। अब्दुल्ला राजेन्द्री की फौजदारी के साथ खानसामों नियुक्त हुआ और उसका भाई आसफ जाह के सरकार का दीवान हुआ। रहमतुल्ला खॉ शीघ्र मर गया। उसकी मृत्यु पर ख्वाजा अब्दुल्ला दीवान हुआ और जब आसफजाह दूसरी बार राजधानी गया तब वह अब्दुल्ला को दक्षिण में शहोद नासिर जंग का अभिभावक नियत कर छोड़ गया। आसफजाह के दक्षिण लौटने पर यह उसका विश्वासपात्र दरबारी रहा। जब कर्णाटक हैदराबाद का ताल्लुकादार सआदतुल्ला खॉ मर गया और उसका भतीजा दोस्त अलीखॉ तथा दोस्त अली का लड़का सफदर अली खॉ दोनों उस तरह समाप्त हुए, जिसका विवरण सआदतुल्ला खॉ की जीवनी में आ चुका है और उस प्रांत का प्रसिद्ध दुर्ग त्रिचिनापल्ली मुरारीराव घोरपुरे के अधिकार में चला गया तब आसफजाह ने अब्दुल्ला को उस कर्णाटक ताल्लुके पर नियत किया और स्वयं त्रिचिनापल्ली दुर्ग लेने का प्रयत्न करने लगा। जब वह उसे लेने के बाद लौटा तब अब्दुल्ला खॉ को डंका प्रदान कर उसे ताल्लुके पर भेज दिया। उसी रात्रि

सन् ११५७ हि० ( सन् १७४४ ) में यह मर गया । 'नकारए  
आखिर' इसकी मृत्यु तिथि है । यह विलायती था और सौम्य  
प्रकृति तथा सदा होठे हुए थिड़थिड़े स्वभाव का था । यदि किसी  
पर वह खफा होता और दूसरा सामने आ जाता तो वह उसी से  
कड़ा व्यवहार कर बैठता था । इसका सबसे योग्य पुत्र ख्वाजा  
नेअमतुल्ला खॉ था, जो पिता की मृत्यु पर कुछ दिन राजबंदरी  
का आमिल रहा । सलाबत जंग के समय यह बीजापुर का  
नाएब सूबेदार नियत हुआ और तहव्वर जंग बहादुर को पदवी  
पाई । कुछ दिन बाद यह पागल होकर मर गया । दूसरे लड़के  
ख्वाजा अब्दुल्ला खॉ और ख्वाजा सादुल्ला खॉ थे, जो हुजा-  
चलमुल्क अमीरुलसमरा की नौकरी में थे । दूसरा कुरान  
पदा हुआ था ।

---

## ३५. अब्दुल्ला खॉं फीरोज जंग

इसका नाम ख्वाजा अब्दुल्ला था और यह ख्वाजा अब्दुल्ला नासिरुद्दीन अहरार का वंशधर तथा ख्वाजा हसन नक्शबंदी का भांजा था। अकबर के राज्य के उत्तरार्द्ध में यह बिलायत से भारत आया और कुछ समय तक अपने एक संबंधी शेर ख्वाजा के यहाँ दक्षिण में नौकर रहा। युद्ध में सर्वत्र प्रसिद्धि पाई। बाद को यह ख्वाजा को छोड़कर लाहौर में सुलतान सलीम से मिला और एक भहदी नियत हुआ। जब शाहजादा इलाहाबाद में था और स्वतंत्रता तथा अहंता से मंसब और पदवी वितरण करने लगा तथा जागीरें बाँटने लगा तब इसे डेढ़ हजारी मंसब और खॉं की पदवी मिली। पर शाहजादे के प्रबंधकर्ता शरीफ खॉं से इसकी नहीं बनी तब यह ४८ वें वर्ष में दरबार चला आया और बादशाह ने इसकी योग्यता देखकर इसे एक हजारी मंसब और सफदर जंग की पदवी दी। इसके भाई ख्वाजा यादगार और ख्वाजा बरखुरदार को भी योग्य पद मिला। जहाँगीर की राजगद्दी पर इसे डंका निशान मिला।

महाराणा उदयपुर की चढ़ाई महाबत खॉं की अधीनता में सफल नहीं हो रही थी, इस पर ४ थे वर्ष में सेना की अध्यक्षता अब्दुल्ला को मिली और उस कार्य में इसने ख्याति पाई। इसने मेहपुर पर धावा किया, जहाँ राणा अमरसिंह छिपकर रहते थे और अद्वितीय हाथी आलम-गुमान ले लिया। कुंभलमेर में थाना स्थापित कर राजपूतों के एक सर्दार बीरम देव सोलंकी को

परास्त कर लूट लिया। ६ ठे वर्ष सन् १०२० हि० (१६११ ई०) में यह गुजरात का प्रांताध्यक्ष बनाया गया और दरबार से एक सहायक सेना भी दी गई। प्रबंध यह हुआ था कि गुजरात की सेना के साथ नासिक और त्र्यंबक होते हुए यह दक्षिण जाय और खानेजहाँ राजा मानसिंह, अमीरुलुमरा तथा मिर्जा रुस्तम के साथ बरार का मार्ग ग्रहण करे। दोनों सेनाएँ एक-दूसरे से मिली रहें, जिससे एक निश्चित दिन शत्रु को घेर लें। ऐसा होने से शत्रु नष्ट हो सके।

अब्दुल्ला के साथ दस सहस्र सवार सेना थी, इससे यह घमंड के मारे दूसरी सेना की कुछ भी खबर न लेकर शत्रु के देश में चला गया। मलिक अंबर इससे बहुत दुःखी था, इस-लिए चुने हुए आदमियों को इसे नष्ट करने भेजा। प्रतिदिन इसके पड़ाव के चारों ओर युद्ध होता और संध्या से सुबह तक मारकाट होती। यह ज्यों ज्यों दौलताबाद के पास पहुँचता गया, त्यों त्यों शत्रु बढ़ते गए। जब यह वहाँ पहुँच गया तब तक दूसरी सेना का कोई चिन्ह नहीं मिला। अब इसने लौटना उचित समझा और बगलाना होता अहमदाबाद की ओर चला। कूच के समय भी शत्रु बराबर घेरे रहते और प्रतिदिन युद्ध होता रहता। अलीमर्दान बहादुर ने भागना ठीक नहीं समझा और लड़ गया तथा कैद हो गया। यह सूचना कि मलिक अंबर ने खानखानों को मिला-कर बहामे से खानेजहाँ को रोक लिया है, असत्य है क्योंकि उसी समय खानखानों दक्षिण से दरबार चला आया था। जब खानजहाँ को यह दुःखद समाचार बरार में मिला तब वह लौटा और आदिलाबाद में शहजदा पर्वत से जा मिला।

कहते हैं कि जहाँगीर ने अब्दुल्ला खॉं तथा अन्य अफसरों के चित्र तैयार कराए थे और उनको एक एक देखते हुए उन पर टीका करता जाता था। अब्दुल्ला के चित्र पर कहा कि 'इस समय कोई योग्यता तथा वंश में तुम्हारे बराबर नहीं है और इस स्वरूप, योग्यता, वंश, पद, खजाना और सेना के रहते तुम्हें भागना नहीं चाहता था। तुम्हारा खिताब गुरेज्जंग है।' ११ वें वर्ष में अब्दुल्ला ने आबिद खॉं को, जो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद बख्शी का पुत्र तथा अहमदाबाद का बाकेआनवीस था, पैदल बुलाकर उसकी सच्ची रिपोर्ट के कारण उसकी अप्रतिष्ठा की। इस पर दरबार से दियानत खॉं भेजा गया कि अब्दुल्ला को पैदल दरबार लावे। यह आज्ञा पहुँचने के पहिले ही पैदल रवाना हो गया और सुलतान खुर्रम की प्रार्थना पर क्षमा कर दिया गया। जब युवराज शाहजहाँ दूसरी बार दक्षिण गया तब अब्दुल्ला भी उसके साथ भेजा गया पर यह दक्षिण छोड़कर बिना आज्ञा के अपनी जागीर पर चला गया। इस पर इसकी जागीर छिन गई तथा एतमादराय उसे शाहजादे के पास लिवा जाने को सजावल नियत हुआ। जब शाहजादा कंधार की चढ़ाई के लिए दक्षिण से बुलाया गया और वर्षा के कारण वह मांडू में रुक गया तथा बादशाह कुछ ऋगड़ा के बहाने से ऐसे लड़के से क्रुद्ध हो गया तब युद्ध का प्रबंध हुआ और अब्दुल्ला खॉं अपनी जागीर से लाहौर आकर बादशाह से मिला। जब शाहजादा ने पिता का सामना करना छोड़ दिया और बादशाहो सेना के सामने पड़ी हुई अपनी सेना को राजा विक्रमाजीत के अधीन कर दिया कि यदि उसके पीछे सेना भेजी जाय तो वह उसे रोक सके तब ख्वाजा अबुलूहसन ने

वैमनस्य से ऐसा उपाय किया कि अब्दुल्ला ख़ाँ शाही सेना के हरावल में नियत हो गया। युद्ध आरंभ होते ही अब्दुल्ला ख़ाँ शाहजादे की ओर चला आया। दैवात् एक गोली लगने से राजा विक्रमाजीत मर गया। दोनों सेनाओं में गड़बड़ मच गया और वे अपने अपने स्थानों को लौट गईं। राजा गुजरात का शासक था इसलिए अब्दुल्ला ख़ाँ को शाहजादे ने वहाँ नियत किया और थोड़ी सेना के साथ वफा-नामक ख्वांजे को उसका नायब बनाकर वहाँ भेजा। मिर्जा सफी सैफ ख़ाँ ने बादशाह की स्वामिभक्ति उचित समझ कर उस प्रांत के नियुक्त मनुष्यों की सहायता से ख्वांजे को पकड़ लिया और नगर पर अधिकार कर लिया। मांडू में शाहजादे से छुट्टी लेकर अब्दुल्ला ख़ाँ शीघ्रता से सहायता की अपेक्षा न कर वहाँ जा पहुँचा। दोनों पक्ष में युद्ध होने पर अब्दुल्ला ख़ाँ परास्त हुआ और उसे बंदीदा होते सूरत जाना पड़ा। यहाँ कुछ सेना एकत्र कर यह शाहजादे से बुर्हानपुर में जा मिला। इसके बाद युद्धों में बराबर यह हरावल में रहता था।

२० वें वर्ष में जब शाहजादा बंगाल से दक्षिण आया और याकूत ख़ाँ हब्शी तथा अन्य निजामशाही नौकरों को साथ लेकर बुर्हानपुर पर चढ़ाई की तब अब्दुल्ला ख़ाँ ने शपथ खाई कि जब उस नगर पर अधिकार होगा तब वह कतूले आम करेगा। जब शाहजादा ने सफल न हो सकने पर घेरा उठा दिया तब अब्दुल्ला ख़ाँ ने यह जानकर कि शाहजादा उस पर कृपा नहीं रखता, कुल कृपाओं का विचार न कर, जो उसे मिल चुकी थीं, वह भागा और मलिक अंबर से जा मिला। जैसी इसे आशा थी वैसा इसको वहाँ आश्रय नहीं मिला, तब यह खानजहाँ की

सहायता से बाबरशाह की सेवा में आया। कहते हैं कि जब यह बुर्हानपुर पहुँचा तब खानजहाँ जैनाबाद बाग तक इसके स्वागत को आया और इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई। इसने चापलूसी तथा नम्रता का भाव रखा। उजबेग दर्वेश सा कपड़ा पहिरा, नाभि तक लंबी डाढ़ी रखी और बिना हथियार लिए एक घंटे रात रहे खानजहाँ के दीवानखाने में आकर बैठता। जब आज्ञानुसार खानजहाँ जुनेर गया तब यह भी साथ था। इसने मलिक अंबर को लिखा कि यदि इस समय वह खानजहाँ पर दूट पड़े तो वह सफल होगा। दैवान् वह पत्र पकड़ा गया और जब खानजहाँ ने उसे अब्दुल्ला खँ के हाथ में दिया तब इसने सब हाल ठीक बतला दिया। आज्ञानुसार वह असीरगढ़ में कैद किया गया। दुर्गाध्यक्ष इकराम खँ फतहपुरी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था और महाबत खँ के इशारे पर, जो उस समय शक्तिमान था, कई बार इसे अंधा करने की आज्ञा आई पर खानेजहाँ ने स्वीकार नहीं किया। उसने उत्तर में लिखा कि उसके वचन पर यह आया है और वह इसे दरबार ले आवेगा।

जब शाहजहाँ बादशाह हुआ तब नकशबंदी मत के प्रसिद्ध अनुगामी अब्दुरहीम ख्वाजा के मध्यस्थ होने पर अब्दुल्ला खँ क्षमा कर दिया गया। यह ख्वाजा कलौ ख्वाजा जूयबारी का वंशज था, जो स्वयं इमाम हुसाम जाफर सादिक के पुत्र सैयद अली अरीज से तीस पीढ़ी हटकर था और तूरान के विख्यात सैयदों में से एक था तथा जिस पर उजबेग खानों की बड़ी श्रद्धा और विश्वास था, जो सब उस वंश के भक्त थे। वहाँ का शासक अब्दुल्ला खँ ख्वाजा



कलौं का शिष्य हो गया था। जहाँगीर के समय ख्वाजा अब्दुरहीम तूरान के शासक इमाम कुली खॉं का राजदूत होकर आया और इसका बड़े आदर से स्वागत हुआ। इसे तख्त के पास बैठने की आज्ञा मिलने से फारस, तूरान तथा भारत के सर्दारों में इसकी बहुत प्रतिष्ठा बढ़ी। शम्रहजहाँ के राज्यांरंभ में यह लाहौर से आगरे आया और पहिले से अधिक सम्मान हुआ। अब्दुल्ला खॉं का नक्शबंदी मत से संबंध था, इसीसे वह त्तमा किया गया और उसे पाँच हजारी ५००० सवार का मंसब, डंका निशान तथा कन्नौज सरकार जागीर में मिला।

उसी प्रथम वर्ष जब जुम्हारखिंह बुंदेला दरबार से ओड़छा अपने घर भागा तब महाबत खॉं के अधीन उसपर सेना नियत हुई। खानजहाँ लोदी मालवा से और अब्दुल्ला खॉं अपनी जागीर से चारों ओर के अन्य अफसरों के साथ उसके राज्य में आ घुसे और लूटपाट मचाने लगे। जब जुम्हार पीड़ित हुआ तब उसने महाबत खॉं को मध्यस्थ कर अधीनता स्वीकार कर ली। अब्दुल्ला खॉं और बहादुर खॉं कुछ अफसरों तथा ९००० सवार के साथ परिज दुर्ग आए, जो ओड़छा से तेरह कोस पर जुम्हार सिंह के राज्य के पूर्व ओर तथा उसके अधिकार में था और बड़ी फुर्ती तथा उस्ताह से उस पर अधिकार कर लिया। जब शाहजहाँ खानजहाँ लोदी को दमन करने बुर्दानपुर आया तब अब्दुल्ला खॉं अपनी जागीर काल्पी से दक्षिण आया और शायस्ता खॉं के अधीनस्थ सेना में नियत हुआ। पेट फूलने के रोग से जब यह आराम हुआ तब दरबार आया और दरिया खॉं रुहेला को दमन करने भेजा गया, जो बालीस गाँव के पास उपद्रव मचा रहा था। यह आज्ञा भी हुई कि

वह खानदेश में ठहरे और खानेजहाँ तथा दरिया खॉ का पीछा करे, चाहे वे कहीं जाय ।

४ थे वर्ष में खानजहाँ और दरिया खॉ दौलताबाद से खानदेश का राह से मालवा आए तब यह भी उनका पीछा करता रहा और उन्हें कहीं आराम लेने नहीं दिया । अंत में सेहोंडा ताल के किनारे खानेजहाँ डट गया और मारा गया । इसके पुरस्कार में इसे छ हजार ६००० सवार का मंसब और फ़ीरोज जंग पदवी मिली । ५ वें वर्ष में यह बिहार का प्रांतध्यक्ष हुआ । अब्दुल्ला खॉ नेरतनपुर के जर्मीदार को दंड देना निश्चित किया और चघर गया । वहाँ का जर्मीदार बाबू लक्ष्मी डर गया और बाँधो के शासक अमर सिंह के मध्यस्थ होने पर उसे अमान मिली । ८ वें वर्ष अब्दुल्ला के साथ कर लेकर दरबार में उपस्थित हुआ । जब अब्दुल्ला अपनी जागीर पर चला गया तब जुम्हार सिंह बुंदेला ने फिर विद्रोह किया । आज्ञानुसार अब्दुल्ला मार्ग ही से लौटा और इसे दंड देने चला । मालवा से खानेदौराँ और सैयद खानेजहाँ बारहा इससे आ मिले । जब ओड़छा से एक कोस पर इन सबने पड़ाव डाला तब वह नीच दुष्ट डर गया और अपने परिवार, नौकर, सोना, चाँदी आदि लेकर दुर्ग से निकल धामुनी दुर्ग चला गया, जिसे उसके पिता ने बहुत दृढ़ किया था । शाही सेना ओड़छा विजय कर उसका पीछा करती हुई धामुनी से तीन कोस पर पहुँची तब ज्ञात हुआ कि वह वहाँ से भी अपना सामान आदि लेकर चौरागढ़ चला गया है और वहाँ देवगढ़ के जर्मीदार के पत्र का मार्ग देख रहा है । यदि वह अपने राज्य में से जाने का मार्ग दे देगा तो वह दक्षिण चला जायगा । शाही सेना ने धामुनी पर अधिकार

कर लिया और सैयद खानेजहाँ बाराहा ने वहाँ विजित प्रांत को शांत करने के लिए ठहरना निश्चित किया। अब्दुल्ला खानेदौरी बहादुर के हरात्रल के साथ आगे बढ़ा। जुम्हार लांजी होता भागा, जो देवगढ़ राज्य के अंतर्गत है। अब्दुल्ला दस गोंड कोस प्रतिदिन और कभी-कभी बीस कोस चलता था, जो कोस साधारण कोस से दूने होते हैं और चाँदा की सीमा पर उसपर पहुँच कर युद्ध किया। वह दुष्ट गोलकुंडा की ओर भागा। कई कूचों के बाद अब्दुल्ला फिर उस पर पहुँच गया तब वे पिता-पुत्र प्राण भय से जंगलों में भागे। वहाँ गोंडों के हाथ वे मारे गए। फीरोज जंग ने उनका सिर काट लिया और दरबार भेज दिया।

१० वें वर्ष में राजा प्रताप रज्जैनिया ने, जिसे डेढ़ हजारों १००० सवार का मंसब मिला था, अपने देश जाने की छुट्टी पाई, जैसी कि उसकी इच्छा थी और वहाँ जाकर उसने विद्रोह कर दिया। अब्दुल्ला खों आज्ञानुसार विहार से उसे दंड देने गया। इसने पहिले भोजपुर घेर लिया, जो राजा की राजधानी थी और जहाँ प्रताप ने शरण लिया था। युद्ध के बाद डर कर उसने संधि की प्रार्थना की। वह लुंगी पहिन कर और अपनी स्त्री का हाथ पकड़ कर फीरोज जंग के एक हीजड़े के द्वारा उसके पास हाजिर हुआ। खों ने उन दोनों को कैद कर दरबार को सूचना भेज दी। वहाँ से आज्ञा आई कि उस दुष्ट को मार डालो और उसकी स्त्री तथा सामान को अपने लिए रख लो। फीरोज जंग ने लूट का कुछ भाग सिपाहियों में बाँट दिया और उसकी स्त्री को मुसलमान बनाकर अपने पौत्र से विवाह कर दिया। १३ वें वर्ष में यह जुम्हार सिंह के पुत्र पृथ्वीराज तथा चंपत बुंदेला को दंड

देने पर नियत हुआ, जो ओढ़छा में उपद्रव मचा रहे थे। बाकी खौं के प्रयत्न से, जिसे अब्दुल्ला ने भेजा था, पृथ्वीराज पकड़ा गया पर चंपत, जो इसका जड़ था, भाग गया। यह अब्दुल्ला की असावधानी तथा सुखेच्छा के कारण हुआ माना गया और इससे इसकी इस्लामाबाद की जागीर छिन गई और उसकी भर्त्सना की गई। १६ वें वर्ष में यह सैयद गुजाबत खौं के स्थान पर इलाहाबाद का प्रांताध्यक्ष हुआ। कुछ समय बाद शाहजहाँ ने इसे इसके पद से हटा दिया और एक लाख रुपये उसको काल-यापन के लिए दिए। उसी समय फिर इस पर उसकी कृपा हो गई और मंसब बहाल कर दिया। यह प्रायः सत्तर वर्ष की अवस्था में १८ वें वर्ष के १७ शव्वाल सन् १०५४ हि० ( ७ दिसं० १६४४ ई० ) को मर गया।

इसकी ऐसी कठोरता और अत्याचार पर भी मनुष्यगण विश्वास करते थे कि वह आश्चर्य कार्य दिखला सकता था और उसको भेंट देते थे। यह पचास वर्ष तक सर्दार रहा। यह कई बार अपने पद से हटाया गया और बहाल किया गया तथा पहिले ही के समान इसका ऐश्वर्य और शक्ति हो जाती थी। इसकी सेवा करना भाग्य की सत्ता समझो जातो थी। इसी के जीवन में इसके कितने सेवक पाँच हजारी और चार हजारी हो गए। यह अपने सिपाहियों की अच्छी रखवाली करता था पर साल में तीन चार महीने से अधिक का वेतन कभी नहीं देता था। पर अन्य स्थानों के मुकाबिले इसका तीन महीने का वेतन सालभर के बराबर होता था। कोई इससे स्वयं अपना वृत्तांत नहीं कह सकता था। उसे इसके दीवान या बरूशी से पहिले कहना पड़ता

था। यदि इनमें से कोई हाल कहने में देर करता तो उसकी यह डाढ़ी मुँड़वा लेता था। इसका यह नियम सा था कि जब वह कठिन चढ़ाइयों पर जाता तो साठ सत्तर कोस प्रतिदिन चलता। यह विश्वसनीय चंदावल साथ रखता। यदि कोई पीछे रह जाता तो उसका सिर काट लिया जाता और इसके पास लाया जाता। पचास मुगल, जो मीर तुजुक के यसाबल थे, वरदी पहिरे तथा छड़ी लिए प्रबंध देखते। कहते हैं कि राणा की चढ़ाई के समय तीन सौ सवार कारचोबो कपड़े और अच्छे कवच पहिरे तथा दो सौ पैदल खिदमतगार, जिलौदार, चोबदार आदि उसी प्रकार सुसज्जित साथ थे। यह किसीका उदास मुख देखकर बड़ा प्रसन्न होता। इसकी चाल बड़ी शानदार थी। जीवन के अंतिम काल में अपना दीवान रात्रि के अंतिम पहर में शुरू करता। इस समय तक कठोरता भी कम कर दी थी।

जखीरतुलखवानीन में शेख फरीद भक्करी कहता है कि “जब खानेजहाँ लोदी ने अब्दुल्ला को अपनी रक्षा में रखा था, उस समय उसने हमारे हाथ से दस सहस्र रुपये उसके पास व्यय के लिए भेजे थे। मैंने अब्दुल्ला से कहा कि ‘नवाब ने गाजी की तौर पर खुदा का बहुत काम किया है। आपने कितने काफिरों के सिर कटवाए हैं।’ उसने कहा कि ‘दो लाख सिर होंगे, जिसमें आगरे से पटने तक मीनारों के दो कतार बन जाँय।’ मैंने कहा कि ‘अवश्य ही इनमें एकाध निर्दोष मुसलमान भी रहा होगा।’ वह क्रुद्ध हो गया और कहा कि ‘मैंने पाँच लाख स्त्री पुरुष कैद किए और बँच दिए। वे सब मुसलमान हो गए। उनसे प्रलय के दिन करोड़ों पैदा होंगे। खुदा के रसूल

धुनिया के यहाँ जाकर उससे मुसलमान होने को कहते थे और मैंने एक दम पाँच लाख मुसलमान बना दिए । यदि ठीक हिसाब किया जाय तो इस्लाम के अनुयायी और अधिक होंगे ।’ जब मैंने यह हाल खानेजहाँ से कहा तब उसने कहा कि ‘आश्चर्य है कि यह मनुष्य अपने कुकर्मों का तथा पश्चाताप न करने का घमंड करता है ।’ इसके पुत्र फले फूले नहीं । मुहम्मद अब्दुल् रसूल दक्षिण में नियत हुआ ।”

---

## ३६. अब्दुल्ला खॉ वारहा, सैयद

इसे सैयद मियॉ भी कहते थे। पहिले यह शाहआलम बहादुर का नौकर था। यह रूहुल्ला खॉ के साथ कोंकण के कार्य पर नियत हुआ। २६ वें वर्ष औरंगजेबी में इसे एक हजारी ६०० सवार का मंसब मिला और यह बादशाही सेना में भरती हो गया। २८ वें वर्ष में उक्त शाहजादे के साथ हैदराबाद के शासक अबुल्हसन को दंड देने पर नियत होकर चढ़ाई में अच्छा कार्य किया और घायल हो गया। एक दिन जब यह सेना के चंदावल का रक्षक था तब शत्रुओं से घोर युद्ध कर उसे परास्त किया और अपने दाएँ बाएँ भागों की सहायता को आया। जब उसी दिन शत्रु शाहजादे के दीवान वुंदावन को घायल कर उसके हाथी को हॉकते हुए ले जा रहे थे तब अब्दुल्ला ने उन पर धावा किया और उन्हें परास्त कर वुंदावन को छुड़ा लिया। बीजापुर के घेरे में शाहजादा पर उसके पिता की शंका हुई और उसके बहुत से साथी हटा दिए गए। उषी साथ अब्दुल्ला के लिए फर्मान निकला, जिससे वह कैद कर दिया गया। बाद को रूहुल्ला खॉ के कहने पर यह उसीको सौंप दिया गया कि अपनी रक्षा में रखे। क्रमशः इसके दोष क्षमा किए गए। गोलकुंडा के घेरे के समय जब रूहुल्ला खॉ बुलाए जाने पर बीजापुर से दरबार आया तब अब्दुल्ला खॉ वहाँ उसका नाएब होकर रहा। कुछ दिन बाद वह स्वयं वहाँ का अध्यक्ष बनाया गया। ३२ वें वर्ष में जब

समाचार मिला कि शंभा मोसला का भाई रामा राहिरीगढ़ से भाग गया, जिसे जुलफिकार ख़ाँ घेरे हुए था और जिसने पूर्वोक्त शामक अबुल्हसन के राज्य में शरण लिया है तब अब्दुल्ला को हुक्म मिला कि उसे खोज कर कैद कर ले। तीन दिन तीन रात कूच कर यह उसपर जा पहुँचा और कई सर्दारों के पकड़ जाने पर भी रामा निकल गया। इस कारण इतनी सेवा करते हुए भी बादशाह इससे प्रसन्न नहीं हुए। इसके सिवा बीजापुर के दुर्ग में बहुत से कैदी रखने की आज्ञा हुई थी पर वैसे स्थान से भी कुछ निकल भागे, तब उसी वर्ष अब्दुल्ला बीजापुर से हटा दिया गया। ३३ वें वर्ष में यह सर्दार ख़ाँ के बदले नानदेर का फौजदार नियत हुआ। यह अपने समय पर मरा। इसके कई लड़के थे, जिनमें दो बहुत प्रसिद्ध हुए—कुतुबुल्मुल्क अब्दुल्ला ख़ाँ और अमीरुल्लमरा हुसेन अली ख़ाँ। इनके सिवा दूसरों में एक नज्मुद्दीन अली ख़ाँ था। इन सब का विवरण अलग दिया गया है।

---



## ३७. अब्दुल्ला खाँ, शेख

यह ग्वालियर के शक्तारी शाखा के बड़े शेख शेख मुहम्मद गौस का योग्य पुत्र था। उस फकीर के लड़कों में अब्दुल्ला और जियाउल्ला अति प्रसिद्ध हुए। पहिला शेख बदरी के नाम से मशहूर हुआ। दावत और तकसीर की विद्या में यह अपने पिता का शिष्य था तथा उपदेश देने और मार्ग-प्रदर्शन में पिता का स्थानापन्न हुआ। भाग्य से फकीर और दर्वेश होते हुए यह शाही नौकरी में घुसा और एक बड़ा सर्दार हो गया। बदायौं में इसने बराबर अच्छी सेवा की और युद्ध में प्राण को भी कुछ न समझता। अकबरी राज्य के ४० वें वर्ष में यह एक हजार मंसब तक पहुँचा। कहते हैं कि वह तीन हजार मंसब तक पहुँच कर युवावस्था में मर गया।

दूसरे पुत्र जियाउल्ला ने सेवा नहीं की और दर्वेश ही बना रहा। पिता के समय ही यह गुजरात गया और वजीहुद्दीन अलवी की सेवा में पहुँचा, जो विज्ञानों का विद्वान् था, कई पुस्तकों पर अच्छी टीकाएँ लिखी थीं और इसके पिता का शिष्य था। उसके यहाँ इसने विज्ञान सीखा और पत्तन में शेख मुहम्मद ताहिर मुहद्दिस बोहरा से हदीस सीखा। उसी समय इसने अपने पिता से सार्टिफिकेट और स्थानापन्न होने का खिरका पाया। सन् ९७० हि० (सन् १५६२—३ ई०) में पिता की मृत्यु पर आगरे में रहने लगा और वहाँ गृह तथा

खानकाह बनवाया । बहुत दिनों तक अंतिम पुरस्कार प्राप्ति के लिये प्रयत्न करता रहा और सूफीमत अच्छी प्रकार मानता रहा । ३ रमजान सन् १००५ हि० ( १० अप्रैल सन् १५९७ ई० ) को मर गया ।

कहते हैं कि जिस वर्ष में लाहौर में हरिणों का युद्ध देखते समय उनकी सींघ से अंडकोश में चोट लग जाने से अकबर बड़ी पीड़ा में था, उस समय बहुत से बड़े अभ्रगण्य मनुष्यगण उसे देखने आए थे । एक दिन बादशाह ने कहा कि शेख जिया-उल्ला ने मुझे नहीं याद किया । शेख अबुल्फजल ने इसकी सूचना भेज दी और यह लाहौर गया । दैवात् कुछ दिन बाद शाहजादा दानियाल की एक स्त्री गर्भवती हुई, जिस पर बादशाह ने आज्ञा दी कि वह प्रसूति के लिये शेख के गृह पर भेजी जाय । शेख ने इसके विरुद्ध कहा पर कुछ फल न हुआ और वह बेगम वहाँ लाई गई । शेख को जीवन से घृणा हो गई और वह एक सप्ताह बाद मर गया ।

अबसर मिल गया है, इसलिये इन दोनों भाइयों के पिता का कुछ हाल दिया जाता है । शेख मुहम्मद गौस और उसके बड़े भाई शेख ( बहलोल ) फूल शेख फरीद अत्तार के वंशज थे और वह अपने समय का प्रसिद्ध फकीर था । दोनों ही खुदा के नाम जपने तथा समाधि लगाने में एक थे । शेख बहलोल शाह कमीस का शिष्य था, जो ( सरकार सरहिंद के अंतर्गत ) साधौरा में गड़ा हुआ है । हुमायूँ उसका अनुयायी हुआ और यद्यपि वह ख्वाजा नासिरुद्दीन अहरार के पौत्र ख्वाजा खार्वद महमूद का शिष्य था पर उस संबंध को तोड़कर शेख का शिष्य हो गया ।

इस पर ख्वाजा अत्यंत कुपित हुआ और हुमायूँ का साथ छोड़कर भारत से अपने देश चला गया। उसने एक शौर पढ़ा, जिसका तात्पर्य है कि—

कहा कि ए हुमा, अपनी छाया कभी न छोड़।

उस भूमि पर जहाँ चील से तोते की कम प्रतिष्ठा होती है।

जब सन् १४५ हि० ( सन् १५३८—१६० ) में बंगाल विजय हुआ तब वहाँ की जल वायु के हुमायूँ के अनुकूल होने से उसने वहाँ आराम करना निश्चित किया और त्रिषयोपभोग में निरत हो गया। छोटे भाई मिर्जा हिंदाल ने तिरहुत जागीर में पाया था पर कुछ षड्चक्रियों से मिलकर बुरे विचार से ठीक वर्षाऋतु में वह बिना आज्ञा लिये राजधानी चला गया। दिल्ली का अध्यक्ष मीर फकीर अली, जो साम्राज्य का एक स्तंभ था, आगरे आया और अपने सदुपदेश से मिर्जा को राज-भक्ति के मार्ग पर लाया, जिससे वह अफगानों को दंड देने के लिए जौनपुर गया। इसी बीच कुछ अफसर बंगाल से भागकर मिर्जा से जौनपुर में आ मिले। उन सबने राय दी कि अपने नाम खुतबा पढ़वाकर गद्दीपर बैठ जाओ। मिर्जा भी पुनः यह सब विचार करने लगा। हुमायूँ ने जब यह वृत्तांत सुना तब शेख बहलोल को उसे सलाह देने भेजा। मिर्जा आगे बढ़कर उसका स्वागत कर अपने निवासस्थान पर लाया और उसकी बड़ी प्रतिष्ठा की। शेख के आने से अफसरों को बहुत कष्ट हुआ पर अंत में सबने मिलकर निश्चय किया कि उसे मार डालना चाहिए क्योंकि जब तक उन सबके कार्यों पर पड़ा हुआ परदा न चटेगा कुछ न हो सकेगा। मिर्जा नूरुद्दीन मुहम्मद ने शेख को बसी के

खेमे में अफगानों का साथ देने के दोष के बहाने पकड़ कर बाद-शाही बाग के पास रेती में मार डाला। शेख मुहम्मद गौस ने मृत्यु तारीख 'फकदमात शहीदः' ( वास्तव में वह शहीद किया गया, सन् ९४५ हि० ) निकाला। दुर्ग बियाना के पास पहाड़ी पर उसका मकबरा है।

हुमायूँ को शेख के मारे जाने पर बड़ा दुःख हुआ और वह उसके भाई मुहम्मद गौस के यहाँ शोक मनाने गया। वह शेख अब्दुल्ला शत्तारी के शिष्य शेख काजन बंगाली के शिष्य हाजी हमीद ग्वालियरी गजनवी का शिष्य था। इसका ठीक नाम अब्दुल् मुवीद मुहम्मद था और गुरु की ओर से इसे गौस की पदवी मिली थी। यह बिहार के अंतर्गत चुनार की पहाड़ियों में पीर की तौर पर रहता था और उसी एकांत वास में सन् ९२९ हि० ( सन् १५२३ ई० ) में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जवाहिर खमसा लिखा। उस समय वह २२ वर्ष का था। जब सन् ९४७ हि० में शेरशाह ने उत्तरी भारत विजय कर लिया तब हुमायूँ से अपने संबंध के कारण यह भय से गुजरात भाग गया। वहाँ एक ऊँची खानकाह बनवाकर उस देश के निवासियों को मुसलमान बनाने का प्रयत्न करने लगा। जब सन् ९६१ हि० ( सन् १५५४ ई० ) में हुमायूँ का झंडा फिर भारत में फहराया तब शेख ने वहाँ से लौटने का निश्चय किया और सन् ९६३ हि० में, जो अकबर के राज्य के आरंभ का वर्ष था, ग्वालियर होता आगरे आया। बादशाह ने इसका स्वागत तथा सम्मान किया। शेख गदाई कंधो सदरुससदूर ने, शेख से अपनी पुरानी शत्रुता के विचार से, फिर वैमनस्य ठाना और बैरामखॉं को गुजरात में

शेख की लिखी एक पुस्तिका मोराजिया दिखलाया। इसने उसमें अपनी वंशपरंपरा दी थी, जिसकी गुजरात के विद्वानों ने कठोर आलोचना की थी। इस प्रकार गदाई ने ख़ाँ को शेख के विरुद्ध कर दिया, जिससे उसने शेख का शाही सम्मान नहीं किया, जैसी कि उसने आशा की थी। तब इसने छुट्टी ली और अप्रसन्न होकर अपने स्थान ग्वाळियर चला गया। सोमवार १७ रमजान सन् ९७० हि० ( १० मई सन् १५६३ ई० ) को यह मर गया और इसकी तारीख 'बंदएखुदाशुद' हुई। कहते हैं कि अकबर से इसे एक करोड़ दाम वृत्ति मिलती थी। जखीरतुलखवानीन में लिखा है कि शेख को नौ लाख की जागीर मिली थी और उसके पास चालीस हाथी थे। अकबरनामे से ज्ञात होता है कि यह कथन कि अकबर उसका शिष्य था, सच है और शेख अबुल्फज्जल ने शेखों की प्रतिद्वंद्विता, ईर्ष्या या बादशाह की प्रकृति के विचार से इसका चलटा दिखलाया है। उसने लिखा है कि चौथे वर्ष सन् ९६६ हि० में, जिसमें कुछ के अनुसार शेख गुजरात से लौटकर आया था, अकबर आगरे से अहेर खेलने ग्वाळियर पहुँचा। उसे यहाँ मालूम हुआ कि किबचाक के बैल मुहम्मद गौस के साथ गुजरात से आए हैं तब उन्हें व्यापारियों से उचित मूल्य पर खरीद लेने के लिये आज्ञा हुई। इसपर उससे कहा गया कि शेख और उसके मनुष्यों के पास इनसे अच्छे पशु हैं और यदि अकबर शिकार से लौटते समय शेख के निवासस्थान से होता चले तो वह अवश्य भेंट में उन्हें दे देगा। जब अकबर उसके यहाँ गया तब शेख ने उसके आने को अपना बड़ा सम्मान समझा और बैराम ख़ाँ के

कुन्यवहार की इसे सफाई माना। इसके मनुष्यों के पास जितने पशु थे वे सब तथा गुजरात की अन्य अलभ्य वस्तुओं को भेंट दिया। इसने मिष्टान्न तथा इत्र भी निकाले। मुजाफात के बाद इसने बादशाह से पूछा कि उसने किसी को अनुगमन का हाथ दिया है। बादशाह ने कहा नहीं। शेख ने आगे हाथ बढ़ाकर बादशाह का हाथ पकड़ लिया और कहा कि 'हमने आपका हाथ पकड़ा।' बादशाह मुस्कराकर बिदा हुए। सुना जाता है कि बादशाह ने कहा था कि 'उसी रात्रि को हम लोग अपने खेमे में लौटे, मदिरापान हुआ और सुख उठाया गया तथा बैलों के पकड़ने और शेख के हाथ पकड़ने की चालाकी पर खूब हँसी हुई।'।

### शौर

रंग विरंगे कबायों नीचे वे फँदे लिए रहते हैं।

छोटी आस्तीन वाले इनके बड़े हाथ ( लूट ) को देखो ॥

इसके अनंतर वह स्वयं प्रसन्न होनेवाला मूर्ख अपने कार्य की प्रशंसा जनसाधारण में करने लगा। उसने ( अबुल्फजल ) इस वर्णन के सिवा और भी बहुत कुछ लिखा है, पर उसका यहाँ देना ठीक नहीं है।

अबुल्फजल ने शेख बहलोल के बारे में और भी विचित्र बातें लिखी हैं, जैसे हुमायूँ का शेख के शोषदेबाजो में मन लगता था, इसलिये उसे शेख की प्रतिष्ठा करना पड़ता था। कभी-वह हुमायूँ को अपना शिष्य बतलाता और कभी अपने को उसका राजभक्त नौकर कहता। वास्तव में वे दोनों भाई गुण या

विद्वत्ता से विहीन थे पर वे पहाड़ों पर आश्रम में बैठकर खुदा का नाम जप करते थे और उसे अपने नाम तथा प्रभाव का द्वार बनाया था। शाहजादों और अमीरों के सस्त्र में रहने से मूर्खों के कारण यह बराबर अपने पेशे में सफल होते गए और फकीरी की वस्तु बेचकर बहानों से ग्राम और बस्ती कमाते गए। वास्तव में यह सब विवरण अबुल् फजूल की गाली है, जैसा वह अपने समय के बड़े शैखों के प्रति देने का आदो था। इसका कारण उसको गुप्त ईर्ष्या थी कि कोई उसका प्रतिद्वंद्वी न खड़ा हो जाय क्योंकि उसका पिता भी धार्मिक नेता था और गौस के बराबर अपने को समझता था पर उसे लोग वैसा नहीं मानते थे। यह उसकी अहम्मन्थता और बकवाद का फल हो सकता है, जो अनुदार होकर जनसाधारण की राय नहीं मानता। उन लोगों की फकीरी तथा सिद्धाई, जिससे गुप्त बातें ज्ञात हो जाती हैं, जो कुछ रहो हो पर यह ठीक है कि हुमायूँ उन दोनों भाइयों पर बहुत श्रद्धा रखता था। शेरशाह के विजयोपरांत हुमायूँ ने जो पत्र शेख मुहम्मद गौस को लिखा था वह शेख के उत्तर सहित गुलजारुल्-अबयार में दिया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है। इसलिए वे दोनों यहाँ दे दिए जाते हैं।

### हुमायूँ का पत्र

आदाब और हाथ चूमने के बाद प्रार्थना है कि सर्व शक्तिमान की कृपा ने आप और सभी दर्वेशों के मार्ग-पदर्शन द्वारा हमें दुःखों के दर्रे से निकाल कर आराम में पहुँचाया। षड्चक्री भाग्य के कारण जो हुआ है उससे हमको इससे

अधिक कष्ट नहीं मिला है कि हम आपकी सेवा से वंचित हुए। हर स्वाँस और हर पग पर हमें ख्याल होता है कि वे राक्षस-प्रकृति मनुष्य ( शेरशाह तथा अफगानगण ) उस दैवी पुरुष से कैसा बर्ताव करेंगे। जब हमने सुना कि आप उसी समय वहाँ से गुजरात को रवाना हुए तब हमारी आशांका कम हो गई। हमें आशा है कि जैसे खुदा ने आपको उस अयोग्य के कष्ट से छुटकारा दिया है उसी प्रकार वह हम लोगों की प्रकट जुदाई को दूर कर देगा। ए खुदा, हम किस प्रकार उस सिद्ध पुरुष को मार्ग प्रदर्शन के लिए धन्यवाद दें। इन सब कष्टों के रहते, जो प्रकट में मुझे घेरे हुए हैं, हमारे हृदय के कोष में, ऐक्य-पूजन के निवास में, तनिक भी चोट या असफलता नहीं है। आने जाने का मार्ग सदा जारी रहे और हमारी शुभेच्छाओं के कारवाँ के पहुँचने को खुदा रहे।

### उत्तर

“बादशाह के सुप्रसिद्ध पत्र की पहुँच से और हुमायूँ के सम्मान्य लेख के पढ़ने से इस देश के ईमानदारों को बड़ा आराम पहुँचा तथा उससे साथ के सेवकों के स्वास्थ्य तथा ऐश्वर्य की सूचना भी मिल गई। जो कुरु लिखा गया है वह कुल बातों का सार है। जो हो चुका है उसके लिए रंज नहीं है।

### मिसरा

जो शब्द हृदय से निकलता है वह हृदय तक पहुँचता है। मेरी प्रार्थना है कि मेरे ताज-सुशोभित स्वामी का सिर दुखद घटनाओं से विचलित न हो।



मिसरा

सुमार्ग के यात्री के लिए, जो घटना घटती है  
वह अच्छे ही के लिए होती है ॥

जब खुदा अपने सेवक को पूर्ण करने के मार्ग पर ले चलता है तब उस पर वह अपने सुंदर तथा भयानक दोनों गुणों का प्रयोग करता है। उसकी सुहृद कृपा का समय बीत गया है और कुछ दिन के लिए दुःख आ गया है। जैसा कहा गया है 'सुख के साथ दुःख आता है और दुःख के साथ सुख।' सुखद समय पुनः शीघ्र आवेगा क्योंकि अरब कानून के अनुसार 'एक दुःख दो सुखों के बीच रहता है।' इस कारण कि आधे का घेरा आधार से कम होता है, सफलता-बधू शीघ्र विवाह मंच पर आ बैठेगी। खुदा ऐसा करे और खुदा को अब तथा बाद दोनों जगह स्तुति है।

संक्षेपतः शेख मुहम्मद गौस भारत के शक्तारी नेताओं में से एक था। इसके कई प्रसिद्ध शिष्य तथा उत्तराधिकारी हुए। सैयद बजोहुदीन गुजराती इसका शिष्य था, जिसने पुस्तकों पर टीकाएँ लिखीं और जो विज्ञान का विद्वान था। एक ने सैयद से कहा कि 'आपने इतनी विद्वत्ता और बुद्धि के रहते शेख को क्यों गुरु बनाया।' उसने उत्तर दिया कि 'यह धन्यवाद की बात है कि मेरे रसूल उम्मी थे तथा पीर निरञ्जर हैं।' शक्तारी मत सुलतानुल्ला-रिफीन बायजीद बिस्तामी से शुरू होता है, जिससे तुर्की में यह मत बिस्तामिया कहलाता है। इस मत के बीच की एक कड़ी शेख अबुल्हसन इश्की था, जिससे फारस और तूरान में यह इश्किया कहलाता है। इस मत के पीरों को शक्तारी इसलिए

कहते हैं कि वे अन्य मतवाले पीरों से अधिक तेज तथा  
उत्साही होते हैं। इस मत के बड़े आदमी अरबी तथा पारसी  
इराकों में बराबर यात्रियों के लिए मार्ग-प्रदर्शन का दीपक  
जलाते हैं। पहिला आदमी जो फारस से भारत आया वह  
शेख अब्दुल्ला शन्तारी था, जो शेखों के शेख शहाबुद्दीन सहर-  
वर्दी से पाँच पीढ़ी और बायजीद बिस्तामी से सात पीढ़ी बाद  
हुआ। अखबारुल् अखियार में लिखा है कि शेख अब्दुल्ला शेख  
नज्मुद्दीन किवरी से पाँच पीढ़ी पर हुआ। इसने मालवा में मांडू  
में निवास किया और वहाँ सन् ८९७ हि० ( १४८५ ई० ) में  
मर कर गाड़ा गया। उसके चेले भारत में शिष्य करते फिरते हैं।



## ३८. अब्दुल्ला खाँ सईद खाँ

यह सईद खाँ बहादुर जफरजंग का चौथा लड़का था। सौभाग्य तथा अच्छे कार्य से इसका पिता बराबर उन्नति कर रहा था, इसलिये इसे योग्य मंसब मिला। १३ वें वर्ष शाहजहाँनी में यह पाई बंगश का रक्तक नियत हुआ। १७ वें वर्ष में इसका मंसब एक हजारी ४०० सवार का हो गया और यह कंधार में अपने पिता के साथ नियत हुआ। जब २५ वें वर्ष में इसका पिता मर गया तब इसका मंसब दो हजारी १५०० सवार का हुआ और उसी वर्ष के अंत में इसे खाँ की पदवी तथा चाँदी के साज सहित थोड़ा मिला। यह औरंगजेब के साथ कंधार की दूसरी चढ़ाई पर भेजा गया। इसके बाद बहुत दिनों तक यह काबुल नगर का कोतवाल रहा। ३१ वें वर्ष में इसका मंसब दो हजारी २००० सवार का हो गया और इसे डंका निशान मिला। इसके बाद ५०० सवार और बढ़े। यह सुलेमान शिकोह के साथ नियत किया गया, जो सुलतान शुजाअ के विरुद्ध भेजा गया था। बाद को जब आकाश ने नया रंग दिखलाया और दाराशिकोह सामूगढ़ युद्ध के बाद लाहौर भागा तब यह उक्त शाहजादे का साथ छोड़कर औरंगजेब की सेवा में चला गया। इसे खिलअत, सईदखाँ पदवी और तीन हजारी २५०० सवार का मंसब मिला। इसका आगे का विवरण नहीं प्राप्त हुआ।

---

## ३६. अब्दुल्ला खाँ सैयद

यह मीर ख्वानिन्दा का पुत्र था। छोटी अवस्था ही से यह अकबर द्वारा पालित हुआ, उसकी सेवा में रहा तथा सात सदी मंसब तक पहुँचा। ९ वें वर्ष में यह अन्य सर्दारों के साथ अब्दुल्ला खाँ उजबेग का पीछा करने पर नियत हुआ, जो मालवा से गुजरात भाग गया था। १७ वें वर्ष में जब बादशाह ने गुजरात-विजय की इच्छा की और खानेकल्ला आगे भेजा गया तब यह भी उसके साथ नियत हुआ। १८ वें वर्ष में यह मुजफ्फर खाँ के साथ भेजा गया, जो मालवा का अध्यक्ष नियत हुआ था। १९ वें वर्ष में जब बादशाह स्वयं पूर्वीय प्रांतों की ओर गए तब यह भी उनका एक अनुयायी था। इसके बाद जब खान-खानों बंगाल विजय करने पर नियत हुआ तब यह भी साथ गया। सुलेमान किरानी के पुत्र दाऊद के साथ के युद्ध में यह खाने-आलम के हरावल में था। वहाँ से किसी कारण-वश यह दरबार चला आया। २१ वें वर्ष में घोड़ों की डाक से पूर्वीय प्रांतों में यह संदेश लेकर भेजा गया कि बादशाह स्वयं वहाँ पधार रहे हैं। उसी वर्ष के मध्य में यह विजय का समाचार लाया और उस बड़ी दूरी को केवल ११ दिन में पूरी कर दरबार पहुँचा। इस कार्य के लिये कृपापूर्वक इसका आदर हुआ। इतना सोना चाँदी इसके दामन में छोड़ा गया कि यह उसे ले न जा सका। कहते हैं कि जब बादशाह ने इसे भेजा

था तभी इससे कहा था कि 'तुम विजय का समाचार लाओगे।' २५ वें वर्ष में जब खाने आजम कोका बंगाल में विद्रोह-दमन करने को नियत हुआ तब पूर्वोक्त खॉ भी उसके साथ भेजा गया। शहबाज खॉ और मासूम खॉ फरन्खुदी के बीच के युद्ध में यह बाएँ भाग में था। उस प्रांत का कार्य ठीक तौर पर नहीं चल रहा था, इसलिये ३१ वें वर्ष के अंत में ( सन् १९५ हि० ) यह कासिम खॉ के पास भेजा गया, जो काश्मीर का शासक नियत हुआ था। एक दिन जब इसकी पारी थी तब इसने एक पहाड़ी कश्मीरियों के युद्ध में शत्रुओं से खाली कराली पर बिना ठीक प्रबंध के लौटते समय जब यह दर्रे में पहुँचा तब विद्रोहियों ने हर ओर से तीर गोली से आक्रमण किया, जिससे लगभग तीन सौ सैनिक मारे गए। खॉ भी वहाँ ज्वर से ३४ वें वर्ष सन् १९७ हि० ( सन् १५८९ ई० ) में मर गया।

---





सैयद कुतुबुल्मुल्क अब्दुल्ला खाँ हसनअली

( पेज १६५ )

## ४०. कुतुबुलमुल्क सैयद अब्दुल्ला खॉ

इसका नाम हसन अली था। यह मुहम्मद फरूखसियर बादशाह का प्रधान मंत्री था। इसका भाई सैयद हुसेन अली अमीरुल् उमरा था, जिसका वृत्तांत अलग लिखा जा चुका है। औरंगजेब के समय में कुतुबुलमुल्क को खॉ की पदवी और बगलाना के अंतर्गत नदरबार और सुळतानपुर की फौजदारी मिली थी। इसके अनंतर ग्रह औरंगाबाद का अध्यक्ष हुआ।

जब शाहआलम का पुत्र शाहजादा मुहम्मद मुइज्जुद्दीन को औरंगजेब ने मुलतान का सूबेदार नियत किया तब हसन अली खॉ भी उसके साथ भेजा गया। इसका साथ शाहजादे को पसंद नहीं हुआ इसलिए यह दुखी होकर लाहौर चला आया। औरंगजेब की मृत्यु पर और शाह आलम के बादशाह होने पर हुसेन अली खॉ को तीन हजारी मंसब, डंका और नई सेना की बख्शीगिरी मिली। मुहम्मद आजमशाह के युद्ध में मुहम्मद मुइज्जुद्दीन की सेना का हरावल नियत हुआ, जो शाहआलम की कुल सेना का हरावल था। जिस समय युद्ध बराबर चल रहा था उस समय हसन अली खॉ, हुसेन अली खॉ और इसका तीसरा भाई नूरुद्दीन अली खॉ बहादुरी से हाथी से उतर पड़े और बारहा के सैयदों के साथ धीरता से धावा किया। नूरुद्दीन अली खॉ मारा गया और दोनों भाई घायल हुए। विजय की प्रशंसा इन्हें मिली। हसन अली खॉ का मनसब बढ़कर चार हजारी हो गया



और अजमेर का सूबेदार नियत हुआ। इसके अनंतर यह इलाहाबाद का सूबेदार हुआ।

जब मुहम्मद मुइज्जुद्दीन बादशाह हुआ तब इलाहाबाद का शासन इसे हटाकर राजेखों को मिला। सैयद सदरजहाँ सदरु-स्तुदूर पिहानवी का वंशज सैयद अब्दुल् गफ्फार उसका नायब होकर इलाहाबाद गया। सैयद हसन अली खॉ सेना लेकर युद्ध के लिए निकला और इलाहाबाद के पास युद्ध हुआ, जिसमें सैयद अब्दुल् गफ्फार विजयी होने के बाद फिर हारकर लौट गया। मुहम्मद मुइज्जुद्दीन आलस्य और आराम के कारण कुछ व्यवस्था न कर सैयद हसन अली खॉ को प्रसन्न करने के लिए इलाहाबाद की बहाली का फरमान मनसब की तरफ़ी के साथ भेजा परंतु उसके भाई सैयद हुसेन अली खॉ ने, जो अजीमाबाद पटने का नाजिम और वीरता, बुद्धिमानी तथा प्रतिष्ठा में प्रसिद्ध था, मुहम्मद फरुखसियर से मित्रता कर ली। यह उसके वृत्तांत में लिखा जा चुका है। बड़े भाई हसन अली खॉ ने भी उस मित्रता को मान लिया। हसन अलीखॉ मुहम्मद मुइज्जुद्दीन की चाप-लूसी पर, जिसकी कृपा के अभाव को मुल्तान की सूबेदारी के समय से वह जानता था, विश्वास न कर सच्चे दिल से मुहम्मद फरुखसियर का साथी हो गया और उसे इलाहाबाद आने को लिखा। मुहम्मद फरुखसियर इन दो बहादुर भाइयों के ससैन्य मिल जाने से अपने को भाग्यवान समझकर पटने से इलाहाबाद पहुँचा और हसन अली खॉ से नए शिरे से प्रतिज्ञा कराकर उसपर कृपा किया तथा उसे हरावल नियत कर फिर आगे बढ़ा।

मुहम्मद मुइज्जुद्दीन का बड़ा पुत्र इज्जुद्दीन ख्वाजा हुसेन

खानवीरों की अभिभावकता में दिल्ली से मुहम्मद फरुखसियर का सामना करने आया और इलाहाबाद के अंतर्गत खजवा में पहुँचकर शत्रु की प्रतीक्षा करने लगा। मुहम्मद फरुखसियर की सेना के पहुँचते ही इब्जुहीन युद्ध न कर अर्द्धरात्रि को भाग गया। मुहम्मद फरुखसियर की सेना बड़ी कठिनाई और बे सामानी में थी पर इब्जुहीन के पड़ाव की लूट से उसमें कुछ सामान हो गया और आगे बढ़कर वे आगरे के पास पहुँचे। मुहम्मद मुइब्जुहीन भी राजधानी से कूच कर आगरे आया और यमुना नदी पार करने का विचार कर रहा था कि हसन अली खॉ दूरदर्शिता से रोजबहानी सराय के पास से, जो आगरे से चार कोस पर है, यमुना नदी पार कर लिया। उसके पीछे पीछे फरुखसियर भी पार हो गया। उसके बहुत से आदमी तंगी और सामान की कमी से बड़ी खराब हालत में थे। बहुत थोड़े साथ पहुँचे। १३ जीहिज्जा सन् ११३३ हि० (१७१२ ई०) को दोनों पक्ष में युद्ध हुआ। मुहम्मद फरुखसियर की विजय हुई और मुइब्जुहीन दिल्ली लौट गया। इस युद्ध में दोनों भाइयों ने बहुत प्रयत्न किया था। छोटा भाई हुसेन अली खॉ बहुत घायल होकर मैदान में गिर गया था। विजय के बाद बड़ा भाई हसन अली खॉ सेना के साथ दिल्ली रवाना हुआ और बादशाह भी एक सप्ताह ठहर कर दिल्ली को चले। हसन अली खॉ को सात हजारी ७००० सवार का मनसब, सैयद अब्दुल्ला खॉ कुतुबुल्मुल्क बहादुर यार बफादार जफरजंग की पदवी और प्रधान मंत्रित्व का पद मिला।

इन दोनों भाइयों की प्रतिष्ठा सीमा पार कर चुकी थी

इसलिए कुछ अदूरदर्शी पुरुष इन्हें गिराने की चेष्टा करने लगे और बाहियात बातों से बादशाह के कान भरे। यहाँ तक हुआ कि दोनों भाई घर बैठ गए और मोरचे बाँध कर लड़ाई का प्रबंध करने लगे। बादशाह की माँ ने, जो दोनों से मित्रता रखती थी और पुराना संबंध था, कुतुबुल्मुल्क के घर आकर नई प्रतिज्ञा कर मित्रता दृढ़ की। दानों भाईओं ने सेवा में उपस्थित होकर प्रेम भरे उलाहने दिए और कुछ दिन आराम से बीते। स्वार्थियों ने बादशाह के मिजाज को फिरा दिया और प्रतिदिन वैमनस्य बढ़ता गया। यह भगड़ा, जो पुरानी रियासतों को बिगाड़ने वाली होती है, बढ़ता गया। यहाँ तक कि अमीरुल् उमरा दक्षिण का सूबेदार नियत किया गया और कुतुबुल्मुल्क ने ऐश आराम में लिप्ट रहकर मंत्रित्व का कुल भार राजा रतनचंद को सौंप दिया। एतकाद खौं काश्मीरी बादशाह का मित्र बन गया और उसने सैयदों को नष्ट करने की राय दी। कुतुबुल्मुल्क ने अमीरुल् उमरा को लिखा कि काम हाथ के बाहर चला गया इसलिए दक्षिण से शीघ्र आ जाना चाहिए, जिसमें प्रतिष्ठा न बिगड़ने पावे। अमीरुल् उमरा शीघ्रता से तैयार होकर दक्षिण से कूच कर दिल्ली के पास ससैन्य आ पहुँचा और बादशाह को संदेश भेजा कि जब तक दुर्ग का प्रबंध उसके हाथ में न दिया जायगा तब तक वह सेवा में उपस्थित होने में हिचकता रहेगा। बादशाह ने दुर्ग के सब काम अमीरुल् उमरा के आदमियों को सौंप दिए। यह प्रबंध हो जाने पर अमीरुल् उमरा बादशाह की सेवा में पहुँचा। ८ रबीउल् आखीर को दूसरी बार मुलाकात की इच्छा से सेना सुसज्जित कर शहर में

गया और शाहस्ता खॉ की हवेली में उतरा। कुतबुलमुल्क और महाराजा अजीत सिंह ने पहिले दिन को तरह दुर्ग में जाकर वहाँ का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया और फाटक की कुंजी भी अपने हाथ में कर ली। वह दिन और रात्रि इसी प्रकार बीत गई और नगरवालों को यह भी नहीं मालूम हुआ कि दुर्ग में रात्रि के समय क्या हुआ। जब सुबह हुआ तब कुतबुल मुल्क के मारे जाने का समाचार फैला, जिससे बादशाही सेना हर ओर से अमीरुलउमरा पर घावा करने को तैयार हुई। अमीरुलउमरा ने कुतबुलमुल्क से कहला भेजा कि अब किस बात की प्रतीक्षा करते हैं, जल्दी उसे बीच से उठा दो। निरुपाय होकर कुतबुलमुल्क ने ९ रबीउल् आखिर सन् ११३१ हि० ( १७ फरवरी सन् १७१९ ई० ) को बादशाह को कैद कर दिया और शाहआलम के पौत्र तथा रफीउर्रशान के पुत्र रफीउद्दजात को कैदखाने से निकाल कर गद्दी पर बैठाया। उसकी राजगद्दी का ढंका बजने पर शहर में जो उपद्रव मचा था, वह शांत हो गया। रफीउद्दजात कैदखाने में तपेदिक से बीमार था और जब बादशाह हुआ तब उसने परहेज छोड़ दिया, जिससे तीन महीने कुछ दिन बाद मर गया। उसके वसीयत के अनुसार उसके बड़े भाई रफीउद्दौला को गद्दी पर बैठाया और द्वितीय शाहजहाँ की पदवी दी। कुछ समय बाद निकोसियर ने आगरे में उपद्रव मचाया। अमीरुल उमरा ने बादशाह के साथ शीघ्र वहाँ पहुँच कर उस दुर्ग को विजय किया। एकाएक दूसरा फसाद खड़ा हुआ और जयसिंह सवाई ने विद्रोह किया। कुतबुलमुल्क बादशाह के साथ जयसिंह को दमन करने के लिए फतहपुर

सीकरी गया और जयसिंह से संधि हो गई। द्वितीय शाहजहाँ भी तीन महीने कुछ दिन बाद उसी रोग से मर गया तब शाह-आलम के पौत्र और जहाँशाह के पुत्र रौशन अख्तर को दिल्ली से बुलाकर १५ जिकदः सन् ११३१ हि० ( १९ सितं० सन् १७१९ ई० ) को गद्दी दी और मुहम्मद शाह पदवी को घोषणा की।

यद्यपि सैयदों ने स्वयं बादशाहत का दावा नहीं किया और तैमूर के वंशजों ही को गद्दी पर बैठाया पर मुहम्मद फर्रुखसियर के साथ जो बर्ताव इन लोगों ने किया था वह नहीं फला और आराम से एक पल भी नहीं बिता सके। फिसाद रूपी नदियों चारों ओर से उमड़ आई और प्रभुत्व के नाश का सामान तैयार हो गया। समाचार मिला कि १ रज्जब सन् ११३२ हि० को मालवा के प्रांताध्यक्ष नवाब निजामुलमुल्क ने नर्मदा नदी पार कर आसीरगढ़ और बुरहानपुर पर अधिकार कर लिया है। अमीरुल् उमरा ने अपने बख्शी दिलावर अलीखॉ को भारी सेना के साथ निजामुलमुल्क पर भेजा पर वह युद्ध में मारा गया। दक्षिण का नायब सूबेदार सैयद आलम अली खॉ, जो वीर नबयुवक था, युद्ध कर मारा गया। अमीरुल् उमरा ने बादशाह के साथ दक्षिण जाने का विचार किया। कुतबुलमुल्क कुछ सरदारों के साथ १९ जिकदः को आगरा से चार कोस फतहपुर से दिल्ली को रवाना हुआ। अभी वह पहुँचा नहीं था कि ७ जीहिज्जः को अमीरुल् उमरा के मारे जाने का समाचार मिला। कुतबुलमुल्क ने अपने छोटे भाई सैयद नज्मुद्दीन अलीखॉ को, जो दिल्ली का शासक था, लिखा कि एक शाहजादे को कैदखाने

से निकाल कर गद्दी पर बैठावे। १५ जीहिज्जा सन् ११३२ हि० सन् १६२० ई० को शाह आलम के पौत्र और रफीउशान के पुत्र सुलतान इब्राहीम को दिल्ली में गद्दी पर बैठा दिया। दो दिन बाद कुतुबुल्-मुल्क भी पहुँचा और पुराने तथा नए सरदारों को मिलाने लगा तथा सेना भी एकत्र करने लगा। मंत्रित्व-काल में जो कुछ नकद और सामान एकट्ठा किया था और जिसके द्वारा किसी मनुष्य की शक्ति नहीं है कि अपने को बचा सके, वह सब सिपाहियों और भिन्नों में बाँट दिया। कहता था कि यदि रहूँगा तो सब इकट्ठा कर लूँगा और यदि दैव की इच्छा दूसरी है तो क्या हुआ जो दूसरों के हाथ चला गया। १७ जीहिज्जा को युद्ध के लिए दिल्ली से निकला। १३ मुहर्रम सन् ११३३ हि० को हसनपुर पहुँचा। १४ को युद्ध हुआ। बादशाह का तोपखाना हैदर कुली ख़ाँ मीर आतिश की अधीनता में बराबर आग बरसाता रहा। बारहा के सिपाही छाती को ढाल बनाकर बराबर तोपखाने पर धावा करते रहे पर समय के फेर से कोई लाभ नहीं हुआ। रात्रि होनेपर भी तोप, जम्बूरक और सुतुरनाल से बराबर गोला बरसाते रहे और फुर्सत न मिलने से कुतुबुल्-मुल्क की सेना भाग चली और सुबह होते-होते बहुत थोड़े आदमी रह गए। सबेरे ही बादशाह की सेना ने धावा किया और खूब युद्ध हुआ। बहुत से सैयद घायल हुए और नज्मुद्दीन अली ख़ाँ का घातक चोट लगी। कुतुबुल्-मुल्क स्वयं हाथी से गिर पड़ा क्योंकि सिर में तीर का और हाथ में तलवार की चोट लगी थी। हैदरकुली ख़ाँ ने वहाँ पहुँच कर उसे अपने हाथी पर ले लिया और बादशाह के पास ले गया। बादशाह ने प्राण रक्षा कर उसे हैदर कुली ख़ाँ को

सौंप दिया । कुतुबुल् मुल्क दिन रात कैद में सिआह होता जाता था । अंत में जहर दे दिया । पहिलो बार इसके खिदमतगार ने इसको जहर मोहरा पीसकर पिला दिया और बहुत कै करने पर जहर शांत हुआ । दूसरे दिन बादशाही ख्वाजासरा हलाहल विष ले आया । कुतुबुल् मुल्क स्नान कर पूर्व की ओर मुँह करके बैठा और कहा कि ऐ खुदा तू जानता है कि यह हराम वस्तु मैं अपनी खुशी से नहीं खा रहा हूँ ।' इसके गले से उतरते ही इसका रंग बदलने लगा और यह मर गया । यह घटना १ जीहिज्जा सन् ११३५ हि० ( १७२३ ई० ) को हुई । इसको कब्र दिल्ली में है । इसका स्मारक पटपर गंज की नहर दिल्ली में है, जहाँ बिनकुल पानी नहीं था । कुतुबुल मुल्क सन् ११२८ हि० में शाहजहाँ की नहर से काटकर इसे लाया था और उस टुकड़े को पानी पहुँचाया था । मीर अब्दुल् जलील बिलग्रामी अल्लामः ने एक किता कहा है कि कुतुबुल् मुल्क अब्दुल्ला खँ के दान और औदार्य का समुद्र । उस वैभवशाली मंत्रीने भलाई की नहर जारी की ॥

उसके लिए अब्दुल् जलील वासिती ने तारीख कहा है 'नहरे कुतुबुल् मुल्क मद बहरे एहसानो करम ।

मृत अल्लामः ने उसकी प्रशंसा में मसनवी कही है—

शौर

वह बुद्धिमानो में अरस्तू और सुलेमान बादशाह के मंत्री का चिन्ह है । अब्दुल्ला खँ राज्य का दाहिना हाथ है । जब दीवान में बैठा तो नव बहार है और जब मैदान में आया तो अलो की तलवार है ।

## ४१. अब्दुर्रजाक खाँ लारी

यह पहिले हैदराबाद के शासक अबुल् हसन का सेवक था और इसकी पदवी मुस्तफा खाँ थी। जब २९ वें वर्ष में औरंगजेब ने गोलकुंडा दुर्ग घेर लिया, जिसमें अबुल्हसन था, तब उसके बहुत से अफसर समय के कारण औरंगजेब के पास चले आए और ऊँचे पद तथा पदवी पाई। पर अब्दुर्रजाक स्वामिभक्त बना रहा और बराबर दुर्ग से निकलकर खाइयों पर धावा करता रहा तथा कभी प्रयत्न करने से नहीं हटा। इसने शाही फर्मान, जिसमें इसे आशा दिलाई गई थी और जो इसे शांत करने को भेजा गया था, अम्वांकार कर दिया और घृणा के साथ फाड़ डाला। एक रात्रि जब शाही अफसर दुर्ग-सेना से मिलकर दुर्ग में घुस गए और बड़ा शोर मचा, उस समय यह बिना तैयारी किए ही एक घोड़े पर चारजामा डालकर दस बारह सैनिकों के साथ तलवार ढाल लेकर फाटक की ओर दौड़ा। शाही सेना फाटक पर अधिकार कर जब दुर्ग में प्रवाह धारा के समान चली आ रही थी, तब अब्दुर्रजाक का उसका सामना हुआ और यह तलवार चलाने लगा। शाही सेना से यह घायल हो गया और इसे बारह चोट लगे। अंत में आँख पर कटी हुई भिल्ली के आ जान से इसका घोड़ा इसे दुर्ग के पास एक नारियल वृत्त के नीचे ले गया। किसीने इसे पहिचान कर इसे आश्रय दिया। जब यह घटना अफसरों को मालूम हुई और उनके



द्वारा बादशाह से कही गई तब उसने इसकी स्वामिभक्ति की प्रशंसा कर शस्त्रवैद्यों को इसे देखने भेजा ।

कहते हैं कि जब इसके अच्छे हो जाने की आशा हुई और इसकी सूचना औरंगजेब को मिली तब उसने इसके पास सूचना भेजी कि वह अपने लडकों को सेवा के लिए भेजे और उसे भी स्वस्थ होने पर काम मिल जायगा । इसने धन्यवाद देने के बाद कहलाया कि उसके कठोर जीवन का यद्यपि अंत नहीं हुआ पर उसके हाथ पैर घायल होकर बेकार हो चुके इसलिए वह सेवा नहीं कर सकता । यदि वह सेवा करने योग्य भी होता तो अबुल्-हसन के निमक से पला हुआ यह शरीर बादशाह आलमगीर की सेवा नहीं कर सकता । बादशाह के मुख पर क्रोध की झलक आ गई पर न्याय की दृष्टि से कहा कि उसके अच्छे होने पर सूचना दी जाय । इसके अच्छे होने पर हैदराबाद के अध्येक्ष को आज्ञा दी गई कि उसे समझाकर भेज दे । पर इसके अस्वीकार करने पर इसे कैद कर भेजने की आज्ञा दी गई । खॉं फीरोज जंग ने इसके लिए प्रार्थना कर इसे अपने पास बुला लिया और कुछ दिन अपने पास रखकर इसे ठीक कर लिया । ३८ वें वर्ष में इसे चारहजारी ३००० सवार का मंसब मिला और नौकरों में भर्ती हो गया । इसे खॉं की पदवी, घोड़ा और हाथी मिला तथा राहिरा का फौजदार नियत हुआ । ४० वें वर्ष में आदिलशाही कोंकण का फौजदार हुआ, जो समुद्र तट पर गोवा के पास है । इसके अनंतर आवश्यकता पड़ने से मक्का जाने की छुट्टी मिली । वहाँ से लौटने पर अपने घर तार ( फारस ) पहुँचकर वहीं एकांतवास करने लगा । बादशाह ने यह सुनकर इसके पुत्र

( १७५ )

अकुल् करीम को एक फर्मान के साथ भेजा कि वह वहाँ के एक सहस्र नवयुवकों के साथ आवे । इसी बीच खबर मिली कि शाह फारस के बुलाने पर जाते समय रास्ते में बह मर गया । रज्जाक कुली खॉ और मुहम्मद खलील दो पुत्र औरंगाबाद में रहे और वहीं जागीर पर मरे । प्रथकर्त्ता द्वितीय से परिचित था ।



## ४२. अब्दुर्रहमान, अफजल ख़ाँ

यह अस्लामी फहामी शेख अबुल्फजल का लड़का था। पिता की सेवा के समय इसका पालन हुआ था। अकबरी जल्स के ३५ वें वर्ष में सआदत यार कोका की भतीजी से इसका विवाह हुआ। इसको जब पुत्र हुआ तब बादशाह ने इसका बिशीतन नाम रखा, जो अजम के वीर असफंदियार के भाई का नाम था। जब शेख अबुल्फजल दक्षिण में सेनापति था तब अब्दुर्रहमान उसके तूणीर के मुख पर का तीर था। जब कोई काम आ पड़ता या किसी काम की आवश्यकता होती तो शेख अब्दुर्रहमान को वहाँ भेजता और यह अपने साहस तथा फुर्ती से उस काम को पूरा कर आता। ४६ वें वर्ष में जब मलिक अंबर हबशी ने तेलिगाना के अध्यक्ष अली मर्दान बहादुर को कैद कर उस प्रांत पर अधिकार कर लिया तब शेख ने इसको गोदावरी के किनारे से चुनो हुई सेना देकर वहाँ भेजा। इसने शेर ख्वाजा को, जो पाथरी में था, उसके सहायतार्थ भेजा। अब्दुर्रहमान ने शेर ख्वाजा के साथ नानदेर के पास गोदावरी उत्तर कर मनजारा नदी के पास मलिक अंबर से युद्ध कर उसे परास्त किया। सत्य ही अब्दुर्रहमान अपनी वीरता तथा साहस के कारण शेख का भाग्य था। अपने पिता के विचार से जहांगीर के प्रति इसका जो भाव था, उसके रहते भी इसने उसकी खूब सेवा की और उसका कृपागत भी रहा। इसको अफजल ख़ाँ की पदवी

और दो हजारों मंसब मिला । ३ रे वर्ष में इसका मंसब बढ़ाया जाकर यह इसलाम ख़ाँ ( अबुल्फजल का साला ) के स्थान पर बिहार-पटना का प्रांताध्यक्ष नियत हुआ । जब गोरखपुर, जो पटना से ६० कोस पर है, इसे जागीर में मिला तब शीख हुसेन बनारसी और गियास बेग को, जो उस प्रांत के बखशी और दीवान थे, वहाँ अन्य अफसरों के साथ छोड़कर गोरखपुर गया । दैवात् इसी समय कुतुब नामी एक भ्रष्ट मनुष्य उरुछ से उजैन ( भोजपुर ), जो पटना के पास है, फकोर के वेष में आया और अपने को सुलतान खुसरो घोषित कर अनेक बहानों से वहाँ के बलवाइयों का मिला लिया । थोड़े ही समय में कुछ सेना एकत्र कर फुर्ती से पटने पहुँच कर दुर्ग में घुस गया । बख-डाहट में शीख बनारसी दुर्ग की रक्षा न कर सका और गियास बेग के साथ एक खिड़की से निकल कर नाव से भाग गया । बलवाइ गण ने अफजल ख़ाँ का सामान तथा राजकोष लूटकर अपने शासन का घोषणा पत्र निकाला और सेना एकत्र करने लगे । ज्यों ही अफजल ख़ाँ ने यह समाचार सुना उसने त्योंही विद्रोहियों को दंड देने के लिए फुर्ती की । मूठे खुसरो ने दुर्ग हड़कर पुनपुना के किनारे युद्ध की तैयारी की । थोड़े युद्ध के बाद हार कर वह दूसरी बार दुर्ग में आया पर अफजल ख़ाँ भी पीछा करता दुर्ग में जा पहुँचा । कुछ आदमियों को मार कर अंत में वह पकड़ा गया और मार डाला गया । जब जहाँगीर ने यह समाचार सुना, तब उसने हुक्म भेजा कि बखशी, दीवान तथा अन्य अफसर, जिन्होंने नगर की रक्षा में कमी की थी, उन-सब की दाढ़ी मोछ मुड़वाकर, स्त्रियों के कपड़े पहिराकर तथा

( १७८ )

गर्भों पर दुम की ओर मुख करके बैठकर दरबार भेजे जायें तथा मार्ग के शहरों में उन्हें शूली दी जाय, जिसमें अन्य कादरों तथा अदूरदर्शकों को चेतावनी हो। उसी समय एकाएक बीमार हो जाने से अफजल खाँ भी दरबार बुला लिया गया। कोर्निश करने के बाद बहुत दिनों तक वह फोड़े से कष्ट पाकर ८ वें वर्ष में मर गया।

---

## ४३. अब्दुर्रहमान सुलतान

यह नज़्म मुहम्मद ख़ॉ का छठा पुत्र था। शाहजहाँ के १९ वें वर्ष में शाहजादा मुराद बख्श बड़ी सेना लेकर गया और नज़्म मुहम्मदख़ॉ के अपने दो पुत्रों सुभान कुली और कतलक मुहम्मद के साथ भागने पर बलख पर अधिकार कर लिया। उसने नज़्म मुहम्मद के अन्य पुत्रों बहराम और अब्दुर्रहमान तथा पौत्र रुस्तम को, जो खुसरो का लड़का था, बुलवाकर लहरास्प ख़ॉ की रक्षा में सौंप दिया। २० वें वर्ष में सादुल्ला ख़ॉ शाहजादे के उक्त पद त्याग देने पर वहाँ का प्रबंध करने पर नियत हुआ। उसने आज्ञानुसार उन तीनों को राजा विठ्ठलदास आदि के साथ दरबार भेज दिया। इनके पहुँचने पर सदरुससदूर सैयद जलाल खियाबों तक स्वागत कर बादशाह के पास लिखा लाया। बादशाह ने बहराम को खिलअत, कारचोवो चारकब, जीगापगढ़ी, जड़ाऊ जमधर फूल कटार सहित, पाँच हजारी १००० सवार का मंसब, सुनहले साज के दो घोड़े, ९० थान कपड़े और एक लाख शाही, जो २५००० रु० होता है, दिया। अब्दुर्रहमान को खिलअत, जीगा, जड़ाऊ कटार, सोने के साज सहित घोड़ा और पैंतालीस थान कपड़े मिले। रुस्तम को खिलअत और एक घोड़ा मिला। अब्दुर्रहमान सबसे छोटा भाई था, जिसे सौ रुपये रोज की वृत्ति देकर दारा शिकोह को सौंप दिया।

बेगम साहबा ( शाहजहाँ की बड़ी पुत्री जहाँआरा बेगम ने

खॉ की स्त्रियों को बुलवाकर उन्हें संतोष दिलाया और कई प्रकार से उनपर कृपा की। इसके बाद कई बार घोड़े, हाथी तथा नगद भेंट में पाया। जब बलख नज़र मुहम्मद खॉ को लौटा दिया गया तथा उजबेगों और अलघमानों से बहुत लड़ भिड़कर जब उसने उन्हें दमन किया और राज्य हृद कर लिया तब उसने अपने लड़कों और परिवार को लौटाने के लिए दरबार को लिखा। बलख और बदखगों लेने के पहिले ही से खुसरू का अपने पिता से मनमुटाव हो गया था और वह दरबार में उपस्थित था इसलिए न उसके पिता ने उसे बुलाया और न वही वहाँ जाना चाहता था। बहराम भी भारत के आराम को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। २३ वें वर्ष में अब्दुर्रहमान खिलजत, कारचोबी जीगा, तलबार, कटार, ढाल तथा कवच, सुनहले साज सहित दो घोड़े और तीस हजार रुपया पाकर अपने पिता के दूत यादगार जौलाक के साथ चला गया। जब यह अपने पिता के पास पहुँचा तब उसने इसे गोरी प्रांत दिया पर चौथा पुत्र सुभान कुली इस पर क्रुद्ध होकर एक सहस्र सवार के साथ बलख आया और खॉ को दिक करने लगा, जिससे उसे अंत में अब्दुर्रहमान को बुलाना पड़ा। अब्दुर्रहमान लौटा आ रहा था कि कलमाकों ने, जो सुभान कुली के मित्र थे, मागे रोक कर इसे कैद कर दिया पर अपने रक्षकों को मिलाकर अब्दुर्रहमान २४ वें वर्ष में दरबार चला आया। यहाँ इसे खिलजत, कारचोबी जीगा, फूलकटार, चार हजाररी ५०० सवार का मंसब, सुनहले साज का घोड़ा, हाथी और बीस हजार रुपये नगद मिला। २५ वें वर्ष में नज़र मुहम्मद खॉ की मृत्यु पर खुसरो, बहराम और अब्दुर्रहमान को शोक

वस्त्र मिले । २६ वें वर्ष में जब इसने कुचाल दिखलाई तब बादशाह ने क्रुद्ध होकर इसे बंगाल भेज दिया । औरंगजेब के गद्दी पर बैठने के बाद यह शुजाभ के साथ के युद्ध में सेना के मध्य भाग में था । शुजा के भागने पर यह बादशाह के पास आया । १३ वें वर्ष तक यह और बहराम जीवित थे और बहुघा नगद, छोड़े और हाथी भेंट में पाते रहते थे ।

---



## ४४. अब्दुरहीम, खानखानाँ

यह बैराम खॉँ का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। इसकी माता मेवात के खॉँ वंश की थी। जब सन् ९६१ हि० ( सन् १५५४ ई० ) में हुमायूँ दूसरी बार भारत की राजगद्दी पर बैठा और दिल्ली में राज्य दृढ़ किया तब यहाँ के जमींदारों को मिलाने और उनका सत्साह बढ़ाने के लिए उनकी पुत्रियों से विवाह-संबंध किया। जब भारत के एक प्रमुख जमींदार हुसेन खॉँ मेवाती का चचेरा भाई जमाल खॉँ हुमायूँ के पास आया तब उसे दो पुत्रियाँ थीं। उसने उनमें से बड़ी से स्वयं विवाह किया और दूसरी का बैराम खॉँ से कर दिया। १४ सफर सन् ९६४ हि० ( १७ दि० सन् १५५६ ई० ) को अकबर की राजगद्दी के प्रथम वर्ष के अंत में अब्दुरहीम का लाहौर में जन्म हुआ। जब इसका पिता गुजरात के पत्तन नगर में अफगानों के हाथ मारा गया, उस समय यह चार वर्ष का था। बलवाइयों ने कंफ लूटा। मुहम्मद अमीन दीवाना, बाबा जंबूर और इसकी माता ने मिर्जा की बलवे से रक्षा की और अहमदाबाद को रवाना हुए। पीछा करनेवाले अफगानों से लड़ते हुए वे वहाँ पहुँचे। चार महीने बाद मुहम्मद अमीन दीवाना तथा दूसरे सेवक मिर्जा के साथ दरबार को चले। लड़के को बुलाने का आज्ञापत्र इन्हें लाहौर में मिला। ६ ठे वर्ष के आरंभ में सन् ९६९ हि० ( सन् १५६२ ई० ) में इसने सेवा की और अकबर ने इसके बुरा चाहने वालों



नवाब अब्दुर्रहीम खाँ खानखानाँ

( पेज १८२ )



तथा द्वेषियों के रहने पर भी इसमें उषता के चिह्न देखकर इसका लालन पालन का प्रबंध किया ।

जब यह समझदार हुआ तब इसे मिर्जा खॉ की पदवी मिली और खाने-आजम की बहिन माहबानू बेगम से इसका विवाह हुआ । २१ वें वर्ष में यह नाम के लिए गुजरात का शासक नियत हुआ पर कुछ प्रबंध वजीर खॉ के हाथ में था । २५ वें वर्ष में यह मीर अर्ज हुआ । २८ वें वर्ष में सुलतान सलीम का अभिभावक नियत हुआ और इसी वर्ष सुलतान मुजफ्फर गुजराती पर विजय प्राप्त की । विवरण यों है कि गुजरात की पहिली चढ़ाई में सुलतान मुजफ्फर पकड़ा गया और कैद किया गया । वह मुनइम खॉ खानखानों के पास भेजा गया । जब मुनइम खॉ मरा, मुजफ्फर दरबार भेजा गया और शाह मंसूर को सौंपा गया । ३३ वें वर्ष में भागकर यह गुजरात पहुँचा । कुछ दिन तक जूनागढ़ के पास काठियों की रक्षा में रहा । मुगल अफसरों ने उसे कुछ महत्व न देकर उसका कुछ ध्यान नहीं किया । जब शहाबुद्दीन अहमद के स्थान पर एतमाद खॉ गुजरात का शासक नियत होकर आया तब पहिले शासक के नौकर विद्रोही हो गए और उपद्रव मचाया । मुजफ्फर उनसे जा मिला और उनका नेता होकर उसने अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया । अकबर ने सेना सहित खानखानों को उस पर नियुक्त किया । मुजफ्फर की सेना में चालीस सहस्र सवार थे और बादशाही सेना कुछ दस सहस्र थी, इसलिए अफसरों की युद्ध की राय नहीं हुई और बादशाह ने भी लिख भेजा कि मालवा से कुलीज खॉ आदि सहायक अफसरों के पहुँचने तक

युद्ध न किया जाय । इसके साथी तथा मीर शमशेर दौलत खॉ लोदी ने कहा कि 'उस समय विजय में अनेक सामी हो जायँगे । यदि खानखानों होना चाहते हैं तो अकेले विजय प्राप्त कीजिए । अज्ञात नाम सहित जोने से मृत्यु भली है ।' मिर्जा खॉ ने अपने साथियों को उत्साह दिलाया और सबको लड़ने के लिए तैयार किया । अहमदाबाद से तीन कोस पर सरखेज में घोर युद्ध हुआ और दोनों पक्ष के वीरों ने द्रुंद्धयुद्ध किए । मिर्जा खॉ स्वयं तीन सौ बहादुरों और सौ हाथियों के साथ मध्य में दटा था कि मुजफ्फर ने छ सौ हजार सवार से उस पर घावा किया । इसके कुछ हितेच्छुओं ने चाहा कि बाग पकड़ कर इसे हटा ले जायँ पर इसने हृदता धारण की । कुछ शत्रु मारे गए तथा बहुत से भागे । मुजफ्फर जो अब तक घमंड में फूला हुआ था घबड़ा कर भागा । वह यहाँ से खंभात गया और वहाँ के व्यापारियों से धन लेकर फिर युद्ध की तैयारी की । मिर्जा खॉ ने मालवा से आए हुए अफसरों के साथ कूचकर कई बार मुजफ्फर को दंड दिया । मुजफ्फर ने यहाँ से नादौत पहुँचकर बलवा मचाया । दोनों पक्ष के लोगों ने पैदल होकर युद्ध के अच्छे करश्मे दिखलाए । अंत में मुजफ्फर भागकर राजपीपला चला गया । मिर्जा खॉ को पाँच हजारी मंसब और खानखानों की पदवी मिली ।

कहते हैं कि गुजरात-विजय के दिन इनके पास जो कुछ था सब दान कर दिया था । अंत में एक मनुष्य आया और कहा कि मुझे कुछ नहीं मिला है । एक कलमदान बच गया था, उसे भी चठा कर इन्होंने दे दिया । गुजरात प्रांत में शांति स्थापित कर वहाँ कुलीज खॉ को छोड़ कर दरबार लौट आए । ३४ वें वर्ष

( १८५ )

में बाबर का आत्मचरित्र, जिसे इन्होंने तुर्की से फारस में अनूदित किया था, अकबर को भेंट किया, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई। उसी वर्ष सन् १९८ हि० ( सन् १५९० ई० ) में यह बकील नियत हुआ और जौनपुर जागीर में मिला। ३६ वें वर्ष में इसे मुलतान जागीर में मिला और ठट्टा तथा सिंध प्रांत विजय करने का इसने निश्चय किया। शेख फैजी ने 'क़न्दे ठट्टा' में इसकी तारीख निकाली। जब खानखानों अपनी फुर्ती तथा कौशल से दुर्ग सेहवन के नीचे से, जिसे सिबिस्तान भी कहते हैं, आगे बढ़े और लक्खी पर अधिकार कर लिया, जो उस प्रांत का द्वार है, जैसे गढ़ी बंगाल का और बारहमूला काश्मीर का है, तब ठट्टा का शासक मिर्जा जानी, जो युद्ध को आया था, घोर युद्ध के अनंतर परास्त हो गया। ३७ वें वर्ष में उसने सिंध प्रस्ताव किया। शर्तें यह थीं कि वह दुर्ग सेहवन दे देगा, जो सिंध नदी पर है और खानखानों के लड़के मिर्जा एरिज को अपना दामाद बनाकर वर्षा बाद दरबार जायगा। खानपान के सामान की कमी से शाही सेना कष्ट में थी, इससे खानखानों ने यह संधि स्वीकार कर लिया और दुर्ग सेहवन में हसन अली अरब को नियत कर उससे बीस कोस हट कर अपना पड़ाव डाला। वर्षा बीतने पर मिर्जा जानी दरबार जाने में बहाना करने लगा तब खानखानों को फिर ठट्टा जाना पड़ा। मिर्जा ठट्टा से बाहरतान कोस आगे जा कर सैन्य सज्जित करने लगा पर बादशाही सेना आक्रमण कर विजयी हो गई। मिर्जा जानी ने कुल प्रांत बादशाही अफसरों को सौंप दिया और खानखानों के साथ सपरिवार दरबार गया। इसका अच्छा स्वागत हुआ। इस विजय पर मुल्ला शिकेबी ने

एक मनसवी लिखी, जो खानखानों का आश्रित था । एक शैव उसका इस प्रकार है—

हुमाय कि बर चर्ख कर दी खिराम ।

गिरफती वो आजाद कर दी मुदाम ॥

खानखानों ने एक सहस्र अशर्फी पुरस्कार दिया और मिर्जा जानी ने भी एक सहस्र अशर्फी यह कहकर पुरस्कार दिया कि 'खुदा का शुक्र है कि तुमने हुमा बनाया । यदि गीदड़ कहते तो कौन तुम्हारी जीभ रोकता ।'

जब बादशाह की आज्ञा से सुलतान मुराद गुजरात से दक्षिण विजय को चला, तब वह भड़ोच में सहायक सेना के आसरे में रुक गया । खानखानों भी इस कार्य पर नियुक्त हुए थे पर यह अपनी जागीर भिलसा में कुछ समय के लिए रुक गए और तब वज्जैन को चले । शाहजादा इस पर क्रुद्ध हो गया और इन्हें कड़ा पत्र लिखा । इन्होंने उत्तर भेजा कि वह खानदेश के शासक राजा अली खों को शांत कर अपने साथ लिवा ला रहा है । शाहजादा और भी असंतुष्ट हो कर जो कुछ सेना उसके पास थी उसी को लेकर दक्षिण चल दिया । खानखानों ने पड़ाक तथा तोपखाना का भार मिर्जा शाहखुख पर छोड़ कर राजा अली खों को साथ लेकर फुर्ती से आगे बढ़ा और चौदौर में अहमदाबाद से तीस कोस पर शाहजादे से जा मिला । यह कुछ समय के बाद शाहजादे से मिल सका और इस पर कुछ कृपा नहीं दिखलाई गई, जिससे खानखानों का चित्त उस कार्य से चदासीन हो गया । सन् १००४ हि० रबीउल आखिर ( सन्

१५९५ ई० के दिसम्बर ) के अंत में अहमदनगर घेर लिया गया और तोष लगाने तथा खान उड़ाने के प्रबंध हुए पर चांद बीबी सुलताना साहस से, जो बुर्हान निजामशाह की बहिन और अली आदिलशाह बीजापुर की स्त्री थी तथा अभंग खॉ हबशी के साथ दुर्ग की रक्षा कर रही थी और इधर अफसरों के आपस के वैमनस्य तथा एक दूसरे के कार्य बिगाड़ने से उस दुर्ग का लेना सुगम नहीं रह गया ।

अफसरों के आपस के मनोमालिन्य का पता पाकर दुर्ग-वासियों ने संधि प्रस्ताव किया कि बुर्हान निजामशाह का पौत्र बहादुर कैद से निकाल कर निजामुखमुल्क बनाया जाय और वह साम्राज्य के आधीन होकर रहे । अहमद नगर का उपजाऊ प्रांत उसे जागीर में दिया जाय और बरार प्रांत साम्राज्य में मिला लिया जाय । यद्यपि अनुभवी लोगों ने घिरे हुआओं के अन्न-कष्ट, दुःख और चालाकी का हाल कहा पर आपस के वैमनस्य से किसी ने कुछ नहीं ध्यान दिया । इसी समय यह भी ज्ञात हो चला था कि बीजापुर का खोजा मोतमिदुद्दौला सुहेल खॉ निजाम शाह की सेना की सहायता को आ रहा है पर अंत में मीर मुर्तजा के मध्यस्थ होने पर संधि हो गई और सेना बरार में बाळापुर लौट गई । जब सुहेल खॉ ने बीजापुर की सेना दाई ओर, कुतुबशाही सेना बाईं ओर और मध्य में निजामशाही सेना रखकर युद्ध की तैयारी की तब शाहजादा युद्ध करने को तैयार हुआ पर उसके अफसरों ने इनकार कर दिया । खानखानों, मिर्जा शाहखुख और राजा अली खॉ शाहपुर से शत्रु पर चले । सन् १००० हि० के जमादिउल आखोर के अंत में ( फरवरी



सन् १५९७ ई० ) आष्टी के पास, जो पाबरी से बारह कोस पर है, युद्ध हुआ। घोर लड़ाई के अनंतर खानदेश का शासक पँच सर्दार तथा ५०० सैनिकों सहित वीरतापूर्वक मारा गया, जो आदिल शाहियों से सामना कर रहा था। शत्रु यह समझकर कि मिर्जा शाहहख या खानखानों मारे गए हैं, छूट पाट में लग गया। खानखानों ने अपने सामने के शत्रु को परास्त कर दिया पर अंधकार में दोनों विपक्षी सेनाएँ अलग हो गईं और ठहर गईं। प्रत्येक यही समझते रहे कि वे विजयो हैं और षोड़े पर सवार रहकर रात्रि व्यतीत कर दिया। सुबह के समय बादशाही सेना, जो सात सहस्र थी और प्यासे ही रात बिता दिया था, फुर्ती से नदी की ओर चली। शत्रु २५००० सवार के साथ युद्ध को आगे बढ़ा। शत्रु की तीन सेनाओं के बहुत से अफसर मारे गए थे। कहा जाता है कि दौलत खॉ लोदी ने, जो हरावल में था, सुहेल खॉ के हाथियों तथा तोपखाने सहित आगे बढ़ने के समय खानखानों से कहा कि 'हम लोग कुल छ सौ सवार हैं। सामने से ऐसी सेना पर धावा करना अपने को खोना है, इसलिए पीछे से धावा करूँगा।' खानखानों ने कहा कि 'तब दिल्ली खो बैठोगे।' उसने उत्तर दिया कि 'यदि शत्रु को परास्त कर दिया तो सौ दिल्ली बना लेंगे और मारे गए तो खुदा जाने।' जब उसने षोड़े को बढ़ाना चाहा तब कासिम बारहा सैयदों सहित उसके साथ था। उसने कहा कि 'हम तुम हिंदुस्तानी हैं और हमलोगों के लिए सिवा मरने के दूसरा कोई उपाय नहीं है पर खॉ साहब से उनकी इच्छा पूछ लो।' तब दौलत खॉ ने घूमकर खानखानों से पूछा कि 'हमारे सामने भारी सेना है और

विजय ईरबर के हाथ में है। बतलाइये कि आपको पराजय के बाद कहीं खोजेंगे।' खानखानों ने उत्तर दिया कि 'शत्रुओं के नीचे।' दौलत खॉ और सैयद सेना के मध्य में घुस पड़े और शत्रु को भगा दिया। कुछ ही देर में सुहेल खॉ भी भागा। कहते हैं कि उस समय खानखानों के पास पचहत्तर लाख रुपये थे। उसने सब लुटा दिया, केवल दो ऊँट बच गया। इतनी भारी विजय पाने पर भी जब दक्षिण का काम नहीं ठीक हुआ तब खानखानों दरबार बुला लिया गया। वह ४३ वें वर्ष में सेवार में उपस्थित हुआ। उसकी स्त्री माहबानू बेगम इसी वर्ष में मर गई।

जब अकबर ने खानखानों से दक्षिण के विषय में राय पूछी तब उसने शाहजादे को बुला लेने और उसे कुल अधिकार देने की राय दी। बादशाह ने इसे स्वीकार नहीं किया और उससे रुष्ट हो गया। शाहजादा मुराद के मरने पर जब सुलतान दानियाल ४४ वें वर्ष में दक्षिण भेजा गया और अकबर स्वयं वहाँ जाने को तैयार हुआ तब खानखानों पर फिर कृपा हुई और वह शाहजादे के पास भेजा गया। ४५ वें वर्ष में सन् १००८ हि० के शब्वाल महीने के अंत ( मई सन् १६०० ई० ) में शाहजादा ने खानखानों के साथ अहमद नगर दुर्ग को घेर लिया। दोनों ओर से खूब प्रयत्न होते रहे। चाँदबीबी ने संघि का प्रस्ताव किया पर चीता खॉ हबशी ने उसके विरुद्ध बलवा कर अन्य बलवाइयों के साथ उक्त बीबी को मार डाला। दुर्ग से तोप छोड़ी जाने लगी और लड़ाई फिर शुरू हो गई। खान में आग लगाने से तीस गज दीवाल के उड़ जाने पर घेरने वालों ने

लैली बुर्ज में घुसकर बहुतों को मार डाला। इब्राहीम का लड़का बहादुर, जिसे सभी ने निजाम शाह बनाया था, कैद कर लिया गया। चार महीने चार दिन के घेरे पर दुर्ग विजय हुआ। खानखानों निजाम शाह को लेकर बुर्हानपुर में अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ। राजधानी लौटते समय बादशाह ने खानदेश का नाम दानदेश रखकर उसे सुलतान दानियाल को दे दिया और उसकी शादी खानखानों की लड़की जाना बेगम से कर दिया। उसने खानखानों को राजूमना को दंड देने भेजा, जो मुर्तजा निजाम शाह के चाचा शाह अली के पुत्र की गद्दी पर बिठाकर युद्ध की तैयारी कर रहा था। अकबर की मृत्यु के बाद दक्षिण में बहुत बड़ा विप्लव हुआ। जहाँगीर के तीसरे वर्ष सन् १०१७ हि० ( सन् १६०९ ई० ) में खानखानों दरबार आया और यह बीड़ा उठाया कि जितनी सेना उसके पास इस समय है उसके सिवा बारह सहस्र सवार सेना उसे और मिले तो वह दक्षिण का कार्य दो वर्ष में निपटा दे। इस पर उसे तुरंत दक्षिण जाने की आज्ञा मिली। आसफ खॉं जाफर की अभिभावकता में शाहजादा पर्वेज, अमीरुल् उमरा शरीफ खॉं, राजा मानसिंह कङ्कवाहा और खानेजहाँ लोदी एक के बाद दूसरे खानखानों की सहायता करने को नियत हुए। जब यह ज्ञात हुआ कि खानखानों वर्षा के मध्यमें शाहजादे को बुर्हानपुर से बाला घाट लिवा गया और सर्दारों के आपस के मनोमालिन्य से कोई निश्चित कार्यक्रम से काम नहीं हो रहा है तथा सेना अन्न कष्ट और पशुओं की मृत्यु से बड़ी कठिनाई में पड़ गई है तथा इन कारणों से खानखानों शत्रु से ऐसी अयोग्य संधि कर, जो

साम्राज्य के लिए कलंक है, लौट आए तब दक्षिण का कार्य खानेजहाँ को सौंपा गया और महाबत खॉ उस बृद्ध सेनापति को लिवालाने भेजा गया ।

जब ५ वें वर्ष में वह दरबार आया और अपनी जागीर कालपी तथा कन्नौज जाने की छुट्टी पाई कि वहाँ की अशांति का दमन करे । ७ वें वर्ष में जब दक्षिण में अब्दुल्ला खॉ फीरोज-जंग को कड़ी पराजय मिली और खानेजहाँ की अधीनता में वहाँ का कार्य ठीक रूप से नहीं चला तब खानखानों को पुनः दक्षिण भेजना निश्चित हुआ और वह ख्वाजा अबुल् हसन के साथ वहाँ भेजा गया । पहिली ही चाळ पर इस बार भी शाहजादा पॅज तथा अन्य अमीरों के रहने से जब कार्य ठीक नहीं चला तब जहाँगीर ने ११ वें वर्ष में सन् १०२५ हि० ( सन् १६१६ ई० ) में सुलतान खुर्रम ( शाहजहाँ ) को दक्षिण भेजा, जिसे शाह की पदवी दी गई । तैमूर के समय से अब तक किसी शाहजादे को ऐसी पदवी नहीं मिली थी । जहाँगीर स्वयं सन् १०२६ हि० के मुहर्रम ( जनवरी १६१७ ) में मालवा आया और मांडू में ठहरा । शाहजहाँ ने बुर्हानपुर में स्थान जमाया और वहाँ से योग्य मनुष्यों को दक्षिण के शासकों के पास भेजा । उसी समय शाहजहाँ ने जहाँगीर की आज्ञा से खानखानों के पुत्र शाहनेवाज खॉ की पुत्री से अपनी शादी कर ली । शाहजहाँ के राजदूत के पहुँचने पर आदिलशाह ने ५० हाथी, १५ लाख रुपये मूल्य की वस्तु, जवाहिरात आदि भेजकर अधीनता स्वीकार कर ली । इस पर शाहजादा की प्रार्थना पर जहाँगीर ने उसे फर्जंद की पदवी दी और अपने हाथ से फर्मान

के ऊपर एक शेर लिखा कि 'शाहखुर्रम के कहने पर तुम दुनिया में हमारे फर्जद कहलाकर प्रसिद्ध हुए ।'

कुतुबुल्मुल्क ने भी उसी मूल्य के भेंट भेजे और उस पर भी कृपा हुई । मलिक अंबर ने भी अधीनता स्वीकार कर ली और अहमदनगर तथा अन्य दुर्गों की कुंजियों सौंप दीं तथा बालाघाट के उन पर्वतों को दे दिया, जिन पर उसने अधिकार कर लिया था । जब शाहजादा दक्षिण के पूर्वोक्त प्रबंध से संतुष्ट हो गया तब खानदेश, बरार और अहमदनगर के प्रबंध पर खानखानों सिपहसालार को तथा बालाघाट के विजित प्रांत पर वन्हीं के बड़े पुत्र शाहनवाज खों को नियत किया । तीन सहस्र सवार और सात सहस्र बंदूकची सेना वहाँ छोड़ी और सहायक सेनाओं के अफसरों को वहीं जागीरें दी । इसके अनंतर १२ वें वर्ष में मांडू में पिता के पास पहुँचा । मिलने के समय जहाँगीर ने आप से आप वठ कर दो तीन कदम आगे बढ़ कर स्वागत किया । उसे तीस हजारी २०००० सवार का मंसब, शाहजहाँ की पदवी तथा तख्त के पास कुर्सी पर बैठने का स्वत्व प्रदान किया । यह अंतिम खास कृपा थी, जो तैमूर के समय से कभी किसी को नहीं प्राप्त हुई थी । जहाँगीर ने झरोखे से उतरकर जवाहिरात, सोने आदि से भरी थालियाँ इस पर से निछावर कीं । जब १५ वें वर्ष में मलिक अंबर ने संधि तोड़ी और मराठा बर्गियों के मारे शाही थानेदार अपने थाने छाड़ छोड़कर भागे, यहाँ तक कि दाराब खों बालाघाट से बालापुर लौट आया और वहाँ भी न टिक सकने पर बुर्हानपुर आकर अपने पिता के साथ वहीं विर गया तब शाहजहाँ को एक करोड़ रुपया सैनिक व्यय

के लिए देकर और चौदह करोड़ दाम विजित देशों पर देकर द्वितीय बार दक्षिण भेजा ।

कहा जाता है कि जब खानखानों के पत्र पर पत्र बादशाह के सामने पेश हुए कि उसकी स्थिति कठिन हो गई है और उसने जौहर करना निश्चय कर लिया है अर्थात् अपने को सपरिवार जला देना तै किया है तब जहाँगीर ने शाहजहाँ से कहा कि जिस प्रकार अकबर ने फुर्ती से कूचकर खाने आजम की गुजरातियों से रक्षा की थी उसी प्रकार तुम खानखानों की रक्षा करो । जब दक्षिणियों ने शाहजहाँ के आने की खबर सुनी तभी वे इधर उधर हो गए । शाहजादा बुर्हानपुर पहुँचा और नए सिरे से वहाँ का प्रबंध करने लगा ।

१७ वें वर्ष में शाह अब्बास सफ़वो कंधार घेरने आया तब शाहजादा को शीघ्रातिशीघ्र आने को लिखा गया । वह खानखानों को भी साथ लाया । इसी बीच कुछ ऐसी बातें हुईं और मूर्खों के षड्यंत्र से ऐसा घरेलू झगड़ा चठा कि उसमें बाहरी शत्रुओं को ओर ध्यान नहीं दिया गया । शाहजादा खानखानों के साथ लौट कर मांडू में ठहर गया । जहाँगीर ने नूरजहाँ बेगम के कहने से सुलतान पर्वज और महाबत खॉं को सेनाध्यक्ष नियत किया । रुस्तम खॉं के धोखा देने के बाद, जिसे शाहजादे ने बादशाही सेना का सामना करने भेजा था, शाहजहाँ खानखानों के साथ नर्मदा पार कर बुर्हानपुर गया और बैरामबेग बल्शी को मार्ग रोकने के लिए वहीं तट पर छोड़ा । इसी समय खानखानों का एक पत्र, जो उसने महाबत खॉं को लिखा था और जिसके हाशिए पर नीचे लिखा शैर था, शाहजादे को मिला । शैर—

सैकड़ों मनुष्य निगाह रखते हैं,  
नहीं तो इस कष्ट से मैं भाग आता ।

शाहजहाँ ने खानखानों को बुलाकर वह पत्र दिखलाया । उसके पास कोई सुनने योग्य उज्र न था । इस पर वह और उसका पुत्र दाराब खॉ कैद किए गए । जब शाहजादा आसीर दुर्ग से आगे बढ़ा तब इन दोनों को उसी दुर्ग में सैयद मुजफ्फर खॉ बारहा के पास कैद करने को भेज दिया । पर निर्दोष दाराब खॉ को कैद करना अन्याय था और उसे छोड़कर पिता को कैद रखना उचित नहीं समझा गया, इसलिए दोनों को बुलाकर तथा वचन लेकर छोड़ दिया । जब महाबत खॉ सुलतान पर्वेज के साथ नर्मदा के किनारे पहुँचा और देखा कि वैरामबेग कुल नावों को नदी के उस पार ले गया है और उत्तारों की तोप बंदूक से रक्षा कर रहा है, तब उसने दगाबाजो खेली और गुप्त रूप से खानखानों को पत्र लिखकर उस अनुभवी वृद्ध पुरुष को अपनी ओर मिला लिया । खानखानों ने शाहजादे को लिखा कि इस समय आसमान विरुद्ध है । यदि वह कुछ दिन के लिए अस्थायी संधि कर ले तो दोनों पक्ष के सैनिकों को जरा आराम मिले । शाहजादा सर्वदा आपस में सुनह कर लेना चाहता था, इसलिए इस घटना को अपना फायदा ही समझा और खानखानों को सलाह करने के लिए बुलाया । खानखानों से पवित्र पुस्तक पर शपथ लेकर और इससे संतुष्ट होकर इसे बिदा किया कि नर्मदा के किनारे रहकर दोनों पक्ष के लिए जो लाभदायक हो, वही करे । खानखानों के वहाँ आने तथा संधि की बातचीत की खबर से उत्तारों की रक्षा में सतर्कता कम हो गई और महाबत खॉ, जो

ऐसे ही अबसर की ताक में था, रात्रि में कुछ युवकों को नदी के उस पार भेज दिया। खानखानों सुलतान पर्वेज और महाबत खॉ के मूठे पत्रों के घोखे में आ गया और अपना रापथ तोड़कर दुनियादारी के विचार से महाबत खॉ के पास चला गया। शाहजादा अब बुर्हानपुर में रहना उचित न समझकर तेलिंगाने की राह से बंगाल गया। महाबत खॉ बुर्हानपुर आया और खानखानों से मिलकर ताम्री उतर शाहजहाँ का कुछ दूर तक पीछा किया। खानखानों ने उदयपुर के राणा के पुत्र राजा भीम को लिखा, जो शाहजहाँ का एक अफसर था, कि यदि शाहजादा उसके लड़कों को छोड़ दे तो वह शाही सेना को लौटा देने का प्रबंध करे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। उत्तर में राजा भीम ने लिखा कि उनके पास अभी पाँच छः हजार विश्वस्त सवार हैं और यदि वह उन पर आवेगा तो पहिले उनके लड़के ही मारे जावेंगे और फिर उस पर धावा किया जायगा।

बंगाल का कार्य निपटाकर बिहार जाते समय शाहजादे ने दाराब खॉ को छुट्टी देकर बंगाल का अभ्यन्त नियत किया। जब महाबत खॉ शाहजादे को रोकने के लिए इलाहाबाद गया तब वह खानखानों पर, उनको नीति-कौशल तथा असत्यता के कारण, बराबर दृष्टि रखता। २० वें वर्ष में जहाँगीर ने उसे दरबार बुला लिया, जिससे महाबत खॉ से उसे छुट्टी मिल गई और उसे क्षमा कर दिया। उसने स्वयं यह कहते क्षमा माँगी कि 'यह सब भाग्य का खेल है। यह न तुम्हारे और न हमारे वश में है और हम तुमसे अधिक लज्जित हैं।' उसने इन्हें एक लाख रुपये दिए, पुरानी पदवी तथा मंसब बहाल रखा और मलकुसा जागीर में



दिया। वृद्ध पुरुष ने सांसारिक प्रेम में फँस कर नाम और ख्याति का कुछ विचार न किया और यह शौर अपनी अँगूठी पर खुदवाया—

मरा लुत्फे जहाँगीरी जे ताईदाते रब्बानी ।  
दो बारः जिंदगी दादः दो बारः खानखानानी ॥

जब महाबत खॉ दरबार बुलाया गया तब उसने खानखानों से क्षमा माँगी और उनके लिए वाहनादि का प्रबंध कर यथाशक्ति उसके दिमाग से अपनी ओर से जो मालिन्य आ गया था, उसे मिटाने का प्रयत्न किया। ऐसा हुआ कि खानखानों ने अपनी जागीर पर जाने की छुट्टी ली थी और लाहौर में ठहरा हुआ था। जब महाबत खॉ ने विद्रोह किया और बादशाह से मिलने लाहौर आया तब खानखानों ने उसकी मिजाज पुर्सी नहीं की, जिससे महाबत खॉ को उससे इस कारण घृणा सी हो गई। जब वह भेलम के किनारे प्रधान बन बैठा तब उसने इन्हें लाहौर से लौट जाने को बाध्य किया। खानखानों दिल्ली लौट आए। इसी समय आकाश ने दूसरा रंग बदला। काबुल से लौटते समय महाबत खॉ भगैल हो गया। नूरजहाँ बेगम ने खानखानों को बुलाया और सेना सहित महाबत खॉ का पीछा करने पर नियत किया। उसने धारह लाख रुपये अपने खजाने से दिए और हाथी, घोड़े तथा ऊँट भी दिए। महाबत खॉ की जागीर भी इसे मिली पर समय ने साथ नहीं दिया। यह लाहौर में बीमार होकर दिल्ली आया और यहीं ७२ वर्ष की अवस्था में सन् १०२७ हि० ( सन् १६२७ ई० ) में जहाँगीर के २१ वें

वर्ष में मर गया । 'खाने सिपहसालार को' से मृत्यु की तारोख निकलती है । यह हुमायूँ के मकबरे के पास गाड़ा गया ।

खानखानों योग्यता में अपने समय में अद्वितीय था । यह अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी अच्छी तरह जानता था । यह काव्य मर्मज्ञ तथा कवि था । इसका उपनाम रहीम था । कहते हैं कि संसार की अधिकांश भाषाओं में यह बातचीत कर सकता था । इसकी उदारता तथा दानशीलता भारत में दृष्टांत हो गई है । इसकी बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं । कहते हैं कि एक दिन वह परतों पर हस्ताक्षर कर रहा था । एक पियादे की परत पर भूल से एक हजार दाम के स्थान पर एक हजार तनका ( रुपया ) लिख दिया पर बाद को उसे बदला नहीं । इसने कई बार कवियों को सोना उनके बराबर तौल कर दिया । एक दिन मुल्ला नजोरी ने कहा कि 'एक लाख रुपये का कितना बड़ा ढेर होता है, मैंने नहीं देखा है ।' खानखानों ने खजाने से उतना रुपया लाने को कहा । जब वह लाकर ढेर कर दिया गया तब नजोरी ने कहा कि 'खुदा को शुक्र है कि अपने नबाब के कारण मैंने इतना धन इकट्ठा देख लिया ।' नबाब ने वह सब रुपया मुल्ला को देने को कहा, जिसमें वह फिर से खुदा को धन्यवाद दे ।

यह बराबर प्रगट या गुप्त रूप से दरवेशों तथा विद्वानों को धन दिया करता था और दूर दूर तक लोगों को वार्षिकवृत्ति देता था । सुलतान हुसेन खॉँ और मोरअली शेर के समय के समान इसके यहाँ भी अनेक विषयों के विद्वानों का जमाव हुआ करता था ।

वास्तव में यह साहस, उदारता तथा 'राजनीति-कौशल में

अपने समय का अप्रणी था। पर यह ईर्ष्यालु, सांसारिक तथा अवसर देखकर काम करने वाला था। इसका सखुन तकिया था कि शत्रु के साथ शत्रुता भी मित्रता के रूप में निभाना चाहिए। यह शेर इसी के बारे में कहा गया है—

एक बित्ते का कद और दिल में सौ गाँठ,

एक मुट्ठी हड्डी और सौ शकलें।

दक्षिण में यह सब मिलाकर तीस वर्ष तक रहे। जब कभी कोई शाहजादा या अफसर इसका सहायक हो कर आया तभी उसने दक्षिणी सुलतानों की इसके प्रति अधीनता और मित्रता देखी। यह यहाँ तक स्पष्ट था कि अबुल्फज्ज ने कई बार इस पर विद्रोह का फतवा दे डाला। जहाँगीर के समय मलिक अंबर से इसकी मित्रता की शंका हुई और यह वहाँ से हटाए गए। खानखानों के एक विश्वस्त नौकर मुहम्मद मामूम ने स्वामिद्रोह कर बादशाह को सूचित किया कि मलिक अंबर के पत्र लखनऊ के शेख अब्दुस्सलाम के पास हैं, जो खानखानों का नौकर है। महाबत खॉ इस कार्य पर नियत हुआ और उसने उस बेचारे की इतनी दुर्दशा की कि वह बिना मुख खोले मर गया।

खानखानों साम्राज्य का एक उच्च पदस्थ अफसर था। इसका नाम उस समय की रचनाओं में सुरक्षित है। अकबर के समय इसने कई अच्छे कार्य किए, जिनमें तीन विशेष प्रसिद्ध हैं—गुजरात की विजय, सिंध पर अधिकार तथा सुहेल खॉ की पराजय। इन सब का वर्णन विस्तार से दिया जा चुका है। विद्वत्ता तथा योग्यता के होते भी इसे कष्ट उठाना पड़ा। बाह्याडंबर का प्रेम बराबर बना रहा। दरबारी खबर की इसको

ऐसी चाट पड़ गई थी कि प्रति दूसरे तीसरे दिन डाक से इसके पास खबर आती थी । इसके दूत अदालतों, आफिसों, चबूतरों, बाजारों तथा गलियों में रहते थे और समाचार संग्रह करते थे । संध्या के समय यह सब पढ़कर जला डालता था । कितनी बातें इसके वंश में चालू थीं जो और किसी में नहीं थीं, जैसे हुमा का पर, जिसे सिवा शाहजादों के कोई नहीं लगा सकता था ।

इसका पिता यद्यपि इमामिया था पर यह अपने को सुन्नी कहता था । लोग कहते कि यह इस बात को छिपाते थे । इसके पुत्र वास्तव में कट्टर सुन्नी थे । शाहनवाज ख़ाँ और दाराब ख़ाँ के सिवा भी अन्य पुत्र थे । एक रहमानदाद था, जिसकी माता अमर-कोट के सोदा जाति की थी । युवावस्था ही में इसने बहुत से गुण प्राप्त कर लिए थे, जिससे इस पर इसके पिता का बहुत स्नेह था । इसकी मेहकर में प्रायः शाहनवाज ख़ाँ के साथ साथ मृत्यु हुई । यह समाचार देने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी । बेगमों के कहने पर हजरत शाह ईसा सिंधी ने खानखाना के पास जा कर उससे हाल कहा और संतोष दिलाया । दूसरा पुत्र मिर्जा अमरुल्ला दासी से था । इसने शिक्षा नहीं पई और युवा ही मर गया ।

खानखाना के नौकरों में सब से अच्छा मियाँ फहीम था । यह दास कहा जाता था पर राजपूत था । इसको लड़के के समान पाला था और इसमें यांग्यता तथा दृढ़ता खूब थी । यह त्रिकाल की निमाज मरने तक बराबर करता रहा । इसे दर्वेशों से प्रेम था । सिपाहियों के साथ भाई की तरह खाता पीता पर तीव्र स्वभाव का था । कोड़े की आवाज तेज होती है ।

कहते हैं कि एक दिन इसने राजा विक्रमाजीत शाहजहानी को दाराश ख़ाँ के साथ उसी सोफा पर लेटे हुए देखा तब कहा कि 'तुम्हारा सा ब्राह्मण बैराम ख़ाँ के पौत्र के साथ बराबर बैठे । मिर्जा परिज के बदले यही मर जाता तो अच्छा होता ।' दोनों ने क्षमा याचना की । जब खानखानाँ उसकी ओर से खफा हो गया, तब विजयगढ़ सरकार की फौजदारी का हिसाब उस से मँगा गया । उसने नवाब से ठीक बर्ताव नहीं किया और उसके दीवान हाफिज नसरुल्ला को थप्पड़ जड़ कर शहर से चंपत हो गया । कहते हैं कि अर्द्धरात्रि को जाकर खानखानाँ उसे लिवा लाया । वह अपने साहस तथा बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था । जब महाबत ख़ाँ खानखानाँ को कैद करने का उपाय कर रहा था तब पहिले फहीम को उसने ऊँचा मंसब आदि दिखाने की आशा देकर मिलाना चाहा पर उसने स्वीकार नहीं किया । महाबत ख़ाँ ने कहा कि कब तक तुम सिपाही बने रहोगे ? फहीम ने खानखानाँ से कहा कि 'धोखाधड़ी चल रही है और उसे अप्रतिष्ठा तथा मान हानि से बचे रहने का प्रबंध रखना चाहिए । खानखानाँ को इधियार सहित बादशाह के सामने जाना चाहिए ।' पर इसने यह स्वीकार नहीं किया । जब यह पकड़े गए तब महाबत ख़ाँ ने उसके पहिले ही बादशाही मनुष्य फहीम को कैद करने भेज दिया था । फहीम ने अपने पुत्र फीरोज ख़ाँ से कहा कि 'आदमियों को कुछ देर तक देखते रहो, जिसमें वजू कर दो निमाज पढ़ लें ।' इसे पूरा कर अपने पुत्र तथा चालीस नौकरों के साथ मान के लिए जान दे दिया ।

## ४५. अब्दुरहीम खॉ

इस्लाम खॉ मशहदी का पाँचवाँ पुत्र था। पिता की मृत्यु के बाद इसे योग्य मंसब मिला और शाहजहाँ के ३० वें वर्ष में दारोगा खवास नियत हुआ। औरंगजेब के दूसरे वर्ष में इसे खॉ की पदवी मिली और हिम्मत खॉ बदर्शी के स्थान पर गुसल-खाना का दारोगा हुआ। २३ वें वर्ष में यह बहरमंद खॉ के बदले छुड़साल का दारोगा हुआ और २४ वें वर्ष में उस पद से हटाया जा कर तीसरा बदर्शी नियत हुआ तथा एक कलमदान पाया। २५ वें वर्ष में सन् १०९२ हि० ( १६८१ ई० ) में मर गया।

---

## ४६. अब्दुरहीम खाँ, ख्वाजा

इसके पूर्वज फर्गाना ( खोखंद ) के अंतर्गत अंदोजान के निवासी थे । इसका पिता अबुल्कासिम वहाँ का एक प्रधान शेर था और शाहजहाँ के समय भारत आया । अब्दुरहीम अपने यौवनकाल में दाराशिकोह का कृपापात्र था । औरंगजेब की राजगद्दी पर इसे भी नौकरो मिली । यह शरअ जानता था, इससे इसे योग्य मंसब और खाँ की पदवी मिली । २६ वें वर्ष में यह बीनापुर का नायब नियुक्त हुआ, जहाँ से लौटने पर इसे एक हाथी मिला । ३२ वें वर्ष में यह मुहसिन खाँ के स्थान पर बयूतात का निरीक्षक नियत हुआ । ३३ वें वर्ष में जब राहिली का दुर्ग लिया गया तब यह उसके सामान पर अधिकार करने भेजा गया । इसके अनंतर मोतमिद खाँ की मृत्यु पर यह दाग और तसहीह का दारोगा नियत हुआ । ३६ वें वर्ष में सन् ११०३ हि० ( १६९२ ई० ) में यह मर गया । इसे कई लड़के थे । दूसरा पुत्र मीर नोमान खाँ था, जिसका पुत्र मीर अबुल्मन्नान दक्षिण आकर कुछ दिन तक निजामुल्मुल्क आसफजाह के यहाँ नौकर रहा । अंत में यह घर ही बैठ रहा । यह कविता करता था और उपनाम 'इतरत' ( सुगंध का गेद ) रखा था । इसके एक शेर का अर्थ यों है—

किस प्रकार हम तुम्हारे

जंगली हरिण सी आँखों को पालतू बना सकेंगे ।

अपने हृदय की गोंठों से

उसके लिए एक जाल बनावेंगे ॥

अब्दुल् मन्जान का बड़ा पुत्र मोतमिदुद्दौला बहादुर सर्दार जंग था । यह सलाबत जंग का दीवान था और सन् ११८८ हि० ( १७७४ ई०-१७७५ ई० ) में मरा । द्वितीय पुत्र मीर नोमान खाँ मराठों के साथ के युद्ध में सलाबत जंग के समय मारा गया । तीसरा मीर अब्दुल्कादिर यौवन ही में रोग से मर गया । चौथा अहसनुद्दौला बहादुर शरजा जंग और पाँचवा मफवजुल्ला खाँ बहादुर जंग एकताज अभी जीवित है और लेखक का मित्र है ।

---



## ४७. अब्दुरहीम बेग उजबेग

बलख के शासक नजर मुहम्मद खॉ के बड़े पुत्र अब्दुल् अजीज खॉ के अभिभावक अब्दुरहमान बेग का यह भाई था। ११ वें वर्ष में शाहजहाँ के समय बलख से आकर सेवामें उपस्थित हुआ। बादशाह ने इसे खिलअत, जड़ाऊ खंजर, सोने पर मीना किए सामान सहित तलवार, एक हजारी ६०० सवार का मंसब और पच्चीस सहस्र नकद दिया। इसके अनंतर पाँच सदी २०० सवार बढ़ाया गया और बिहार में जागीर पाकर वहाँ चला गया। यहाँ आने पर उस प्रांत के शासक अब्दुल्ला खॉ बहादुर की कड़ाई के कारण दोनों में मनोमालिन्य हो गया और यह इससे अपनी मानहानि समझ कर कुछ दिन बीमारी का बहाना कर गूंगा हो जाना प्रदर्शित किया। एक वर्ष तक यह मौन रहा, यहाँ तक कि इसकी स्त्रियाँ भी न जान सकीं कि क्या रहस्य है। जब बादशाह को यह ज्ञात हुआ तब इसे दरबार में आने की आज्ञा हुई। १३ वें वर्ष यह दरबार में आया और बोलने लगा। जब इसने अपने गूंगेपन का कारण बतलाया, तब सुननेवाले चकित हो गए। बादशाह काश्मीर जा रहे थे, इसलिए इसे दो हजारी १००० सवार का मंसब देकर राजधानी में छोड़ा। २२ वें वर्ष में यह औरंगजेब के साथ कंधार पर नियत हुआ। वहाँ से कुलोज खॉ के साथ बुस्त गया और ईरानियों के साथ के युद्ध में अच्छा कार्य किया। इस पर २३ वें वर्ष में दई हजारी १०००

( २०५ )

सवार का मंसब मिला । २४ वें वर्ष में यह उस प्रांत के अय्यत्त जाफर खॉ के साथ बिहार गया । २६ वें वर्ष में यह दारा शिकोह के साथ कंधार गया और वहाँ से रुस्तम खॉ के साथ बुस्त लेने गया ।

---

## ४८. अब्दुरहीम लखनवी, शेख

यह लखनऊ का एक उच्च वंशीय शेखजादा था। यह अवध प्रांत में गोमती नदी के किनारे पर एक बड़ा नगर है। यह बैसवाड़ा भी कहलाता है। सौभाग्य से यह शेख अकबर की सेवा में पहुँचा और अपनी अच्छी चाल से सात सदी का मंसब पाया, जो उस समय एक उच्च पद था। यह जमाल बख्तियार का घनिष्ठ मित्र था, जिसकी बहिन अकबर की प्रेम पत्नी बेगम थी और इस मित्रता के कारण यह शराब अधिक पीने लगा। यह शराब में पागल हो चला और नशा आत्मा तथा विवेक दोनों को कुचल डालती है, इससे इसका दिमाग खराब हो गया और मूर्खता का काम करने लगा।

३० वें वर्ष में काबुल से लौटते समय, जब पड़ाव स्यालकोट में पड़ा हुआ था, तब यह हकीम अबुल् फतह के खेमों में पागल हो गया और हकीम के छुरे से अपने को घायल कर लिया। लोगों ने इसके हाथ से छुरा छीन लिया और इसके घाव में अकबर के सामने टोंका लगाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि बादशाह ने अपने हाथ से टोंका लगाया था।

यद्यपि अनुभवी हकीमों ने घाव को असाध्य बतलाया और वह इतना खराब भी हो गया कि दो महीने बाद इसको बिल्कुल आशा नहीं रही पर बादशाह इसे उम्मेद दिलाते रहे। मृत्यु के

मुख में जाते जाते यह बच कर कुछ दिन में अरुद्धा हो गया । बाद को समय आने पर यह अपने देश में मरा ।

कहते हैं कि कृष्णा नाम की एक ब्राह्मणी उसकी स्त्री थी । उस होशियार स्त्री ने शेख की मृत्यु पर मकान, बाग, सराय और तालाब बनवाए । उसने खेत भी लिए और उस बाग की तैयारी में दत्तचित्त रही, जिसमें शेख गाड़ा गया था । साधारण सैनिक से पाँच हजारी मंसबदार तक जो कोई उधर से जाता, उसका उसके योग्य सत्कार होता । वह वृद्धा और अंधी हो गई पर उसने यह पुण्य कार्य नहीं छोड़ा और साठ वर्ष तक अपने पति का नाम जीवित रखा । मिसरा—

प्रत्येक स्त्री स्त्री नहीं है और न हर एक पुरुष पुरुष है ।

---

## ४६. अब्दुस्समद खॉ बहादुर दिलेर जंग, सैफुद्दौला

यह ख्वाजा अहरार का वंशज था। इसके चाचा ख्वाजा जिकरिया को दो पुत्रियी थीं, जिनमें से एक का विवाह इससे हुआ था और दूसरी का एतमादुद्दौला मुहम्मद अमीन खॉ बहादुर से हुआ था। सैफुद्दौला औरंगजेब के समय में पहिले पहिल भारत आया और चार सदी मंसब पाया। बहादुरशाह के समय सात सदी हो गया। बहादुर शाह के चारो लडकों के बीच में जो युद्ध हुए, उनमें यह जुल्फिकार खॉ के साथ बराबर रहा और सुलतान जहाँ शाह के मारने में वीरता दिखलाई थी। पुरस्कार में इसे ऊँचा मंसब मिला। फर्रुखसियर के समय इसका मंसब पाँच हजारो ५००० सवार का था और दिलेर खॉ की पदवी सहित लाहौर का प्रांताध्यक्ष नियत हुआ था। सिख गुरु के विरुद्ध युद्ध समाप्त करने के लिए यह भेजा गया था, जिसने बहादुर शाह के समय से हर प्रकार का अत्याचार मुसलमानों तथा हिंदुओं पर कर रखा था। खानखानों मुनइम खॉ तीस सहस्र सवारों के साथ उसे सजा देने को नियुक्त हुआ था और उसे लोह गढ़ में घेर लिया था तथा बादशाह स्वयं उस ओर गए थे पर गुरु दुर्ग से निकल भागे। इसके बाद मुहम्मद अमीन खॉ भारी सेना के साथ उसका पीछा करने को भेजा गया पर सफल नहीं हुआ।

सिखों का इतिहास इस प्रकार है। पहिले पहिल नानक

राम नामक फकीर उस प्रांत में सुप्रसिद्ध हुआ । उसने बहुतों को अपने मत में दीक्षित किया, जिनमें विशेषकर पंजाब के खत्री थे । उसके अवलम्बी सिख कहलाए । उनमें से बहुतेरे इकट्ठे हो कर गाँवों में लूट मार मचाने लगे । दिल्ली से लाहौर तक वे जिसे या जो पाते लूट लेते थे । कितने फौजदार थाने छोड़ दरबार चले आए और जो वहाँ ठहर गए उन सब ने अपना प्राण तथा सम्मान दोनों खो दिया । यह लिखते समय लाहौर का पूरा तथा मुलतान का आंशिक प्रांत इस जाति के अधीन हो गया था । दुर्रानी शाहों की सेनाएँ, जिसका काबुल तक अधिकार है, दो एक बार इनसे परास्त हो चुकी थीं और अब इन पर आक्रमण करना छोड़ दिया था ।

दिलेर जंग ने इस कार्य में साहस तथा योग्यता दिखलाई और भारी सेना के साथ गढ़ी ( गुर्दासपुर ) के पास डट गया, जो गुरु का निवास स्थान था । कई बार सिख बाहर लड़ने आए और द्रुढ़ युद्ध हुआ । उक्त खों ने हृदयता से घेरा कड़ा कर रसद जाना बंद कर दिया । बहुत दिनों के बाद अन्न कष्ट होने से जब बहुत से अत्यंत दुखित हुए तब प्राण रक्षा के लिए संदेश भेजा और अपने सर्दार ( बांदा ), उसके युवा पुत्र, दीवान तथा अन्य सभी को, जो युद्ध से बच गए थे, लिवा लाए । इसने बहुतों को मार डाला और गुरु तथा अन्य लोगों को दरबार ले गया । इस सेवा के लिए इसे सात हजारी ७००० सवार का मंसब तथा सैफुद्दौला की पदवी मिली । राजधानी पहुँचने पर आज्ञानुसार यह कुछ कैदियों को तख्ता और टोपी पहिरा कर शहर में लाया था । यह घटना सन् ११२७ हि० ( १७१५ ई० )

में घटी थी। फर्रुखसियर के ५ वें वर्ष में जब सैफुद्दौला पंजाब का प्रांताध्यक्ष था तब ईसा खॉ मुर्षी मारा गया, जिसने क्रमशः जर्मीदार से शाही नौकरी में उन्नति की और सर्दार हुआ पर धर्मद अधिक बढ़ गया। उसका विवरण उसकी जीवनी में अलग दिया हुआ है। जब हुसेन खॉ खेशगी ने, जो लाहौर से बारह कोस दूर मुल्तान के मार्ग पर स्थित कसूर का तल्लुकेदार था, विद्रोह किया और रफीउद्दौला के समय स्वतंत्र होना चाहा तब सैफुद्दौला ने उसके विरुद्ध रणयात्रा की और बहुत युद्ध के बाद उसे दमन किया। मुहम्मद शाह के ३२ वर्ष में यह दरबार आया और इसका अच्छा स्वागत हुआ। ७ वें वर्ष में जब लाहौर प्रांत इसके लड़के जिकरिया खॉ को दिया गया, जो एतमादुद्दौला कमरुद्दीन खॉ का सादू था, तब यह मुल्तान का प्रांताध्यक्ष नियत हुआ। यह सन् ११५० हि० ( १७३७-३८ ई० ) में मर गया। यह बहादुर सेनापति था और अपने देश के आदमियों को आश्रय देता था।

---

## ५०. अमानत खॉं द्वितीय

इसका नाम मीर हुसेन था और अमानत खॉं ख्वाफो का तृतीय पुत्र था। अपनी सत्य-निष्ठा तथा योग्यता के कारण अपने पिता का मित्र था। पिता की मृत्यु पर यह अपने अन्य भाइयों के साथ औरंगजेब का कृपापात्र हो गया और छोटे छोटे पदों पर नियुक्त होकर भी उसका विश्वास-पात्र रहा। यह बरमकस की बरकत के समान पिता के सम्मान का भी उत्तराधिकारी हो गया। उस वंश के छोटे बड़ों के साथ खान-जादों के समान बर्ताव होता था। कहते हैं कि एक दिन गुण-माहक बादशाह दरबार आम में थे कि अमानत खॉं द्वितीय अपने पुत्र के साथ सरापर्दा में जाने लगा। एक चोबदार ने, मनुष्यों का एक दल जो अपनी शरारत तथा दुष्टता के लिए बंडे का पात्र और सूली देने योग्य होता है, लड़के का हाथ पकड़ लिया तथा उसे रोक रखा। खॉं ने आवेश में दरबार के उपयुक्त सम्मान का ध्यान न कर घूम के उस दुष्ट को पकड़ लिया और सामने लाकर बादशाह से कहा कि 'यदि बर के लड़के ऐसे दुष्टों से तिरस्कृत होंगे तो वे बादशाह की सेवा में प्रसिद्धि तथा सम्मान पाने की क्या आशा रखेंगे?' बादशाह ने उसका सम्मान करने को उस दिन के कुल चोबदारों को निकाळ दिया।

बादशाह पर खॉं की योग्यता प्रकट हो चुकी थी इसलिए



३१ वें वर्ष के अंत में जब वह बीजापुर में था तब ३२ वें वर्ष के आरंभ में इसको पिता की पदवी देकर बीजापुर का दीवान नियत कर दिया। ३३ वें वर्ष के अंत में ( जून सन् ११६९ ई० ) जब बादशाह ने बंदी शहर छोड़ा, जो बीजापुर से १७ कोस उत्तर है, और तुरगल के अंतर्गत कुतबाबाद गलगला आया, जो बीजापुर से १२ कोस उत्तर कृष्णानदी के तट पर है तब खों को बीजापुर की दीवानी के पद से तरकी मिली और हाजी शफी खों के स्थान पर दफ्तरदार तन नियत हुआ। ३६ वें वर्ष में मामूर खों के स्थान पर औरंगाबाद का दुर्गाध्यक्ष हुआ और डेढ़ हजारी ९०० सवार का मंसब मिला। उसी वर्ष ख्वाजा अब्दुरहीम खों के स्थान पर दरबार बुलाया जाकर बयूताते रिकाब के पद पर नियत हुआ। इसी समय यह फिर औरंगाबाद का दुर्गाध्यक्ष बनाया गया। अंत में यह सूरत बंदर का मुत्सही नियुक्त हुआ। इसने ऐसा प्रबंध किया कि बादशाह की आय बढ़ी और प्रजा को भी आराम मिला, जिससे इसको मंसब में उन्नति मिली। ४३ वें वर्ष सन् ११११ हि० ( १६९९-०१ ई० ) में यह मर गया। यह नगर के बाहर चहार दीवारे के पास गाड़ा गया। इसके चार पुत्र थे। प्रथम मीर हसन की मुहम्मद मुराद खों वजबेग की पुत्री से शादी हुई थी। यह लेखक के माता का पिता था। यह बौबन में गलगला में महामारी से मर गया। इसका पुत्र कमालुद्दीन अली खों था, जो अपने समसामयिकों में प्रशंसनीय चरित्र तथा सचाई के लिए अत्यंत प्रिय था। लिखते समय आसफजाह की जागीर औरंगाबाद का प्रबंध करता था। द्वितीय मीर सैयद मुहम्मद इरादत मंद खों अपने चाचा दिया-

न्त खॉं मीर अब्दुल् कादिर का दामाद था । औरंगजेब के समय यह औरंगाबाद की बयूताती पर और बहादुरशाह के समय बुर्हानपुर की दीवानी पर नियुक्त हुआ । तृतीय मीर सैयद अहमद नियाजमंद खॉं था । यह बहुत दिनों तक बरार का दीवान रहा और वर्त्तमान बादशाहत ( मुहम्मदशाह ) के आरंभ में बंगाल गया । वहाँ के नाजिम जाफरखॉं ( मुर्शिद कुली ) ने इसके पिता के प्रेम के कारण इसका स्वागत किया और नौ-बेड़ा का इसे अध्यक्ष बना दिया, जो उस प्रांत में उच्चतम पद था तथा इसके लिए दरबार से अमानत खॉं की पदवी और मंसब में तरकीब दिलवाया । जाफर खॉं की मृत्यु पर उस प्रांत के महालों का यह फौजदार नियत हुआ और सन् ११५७ हि० (१७४४ ई०) में मर गया । चतुर्थ मीर मुहम्मद तकी फिदवियत खॉं था, जो लेखक की सगी बूआ को ब्याहा था । बहादुरशाह के समय वह बुर्हानपुर का बखशी नियुक्त हुआ । मराठों की लड़ाई में जब वहाँ का अध्यक्ष मीर अहमद खॉं मारा गया तब बहुत से मुत्सद्दी कैद हुए । सभी धूर्त्ता और चालाकी से निकल भागना चाहते थे । इसने अपनी सिघाई से अपनी अच्छी हालत बतला दी और इससे इसे बड़ी रकम देना पड़ा । अपनी स्थिति को कमकर बतलाना इसने ठोक नहीं समझा । इसके सब वंशज जीवित हैं ।

## ५१. अमानत खॉं मीरक मुईनुद्दीन अहमद

क्षमा किया हुआ खॉं का नाम मीरक मुईनुद्दीन अहमद अमानत खॉं खवाफी था। यह सच्चा तथा सचरित्र पुरुष था, सचाई को खूब समझता था, स्वभाव का नम्र था और स्वतंत्र प्रकृति का था। स्वर्गीय प्रकृति तथा पवित्र विचार का था। अच्छे चालचलन तथा प्रशंसनीय गुणों से युक्त था। विनय-शील होते भी अपने पदानुकूल उच्चता भी रखता था। मुख भी सुंदर था और प्रतिभावान भी था। स्वच्छ हृदय तथा बड़प्पनयुक्त था। विश्वास तथा भरोसा का स्तंभ और उदारता तथा दान का ठोस नाँव था। इसका विचार पुष्ट तथा ठोक सोचा हुआ होता था और यह घृणा कम और स्नेह अधिक करता था।

इसके सम्मानित पूर्वजों का निवासस्थान खुरासान की राजधानी हेरात था। इसका दादा मीर हसन किसी कारणवश दुःखित हो अपने पिता मीर हुसेन से अलग हो गया, जो उस नगर के प्रधान पुरुषों में से एक था, और खवाफ चला आया, जो उस राज्य का एक छोटा स्थान है और जहाँ के निवासी प्राचीन समय से विद्या बुद्धि के लिए प्रसिद्ध हैं। खवाजा अलाउद्दीन मुहम्मद ने, जो खवाफ का एक मुखिया था, इसके पूर्वजों के पुराने परिचय के नाते इस पर बड़ी दया कर प्रसन्नता से इसे अपने घर में रख लिया। इसके चरित्र रूपी कपाल पर बड़प्पन तथा उच्चता का प्रकाश था, इसलिए उसने अपनी पुत्री

का ब्याह इससे कर दिया । इस पर मीर हसन ने वहाँ अपना निवास-स्थान बनाया और एक परिवार का पिता बन गया । इसके बाद जब प्रसिद्ध ख्वाजा शम्सुद्दीन मुहम्मद ख्वाफो, जो उक्त ख्वाजा का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था, अकबर की सेवा में भर्ती हुआ और ऊँचा पद तथा सम्मान पाया तब मीर हसन का पुत्र मीरक कमाल भी अपने मामा के पास अपने पुत्र मीरक हुसेन के साथ भारत चला आया और अपना दिन आराम तथा वैभव में व्यतीत करने लगा । यहाँ इसने भी अपने देश के एक सैयद की लड़की से शादी की, जिससे मीरक अताउल्ला पैदा हुआ । बलख की चढ़ाई पर यह शाहजादा औरंगजेब का बखशी होकर गया और सम्मान तथा पुरस्कार पाया । किसी कारणवश यह औरंगजेब से अलग होकर बादशाही सेवक हो गया और सात सदी मंसब पाया । यह पहिले काबुल के अहदियों का बखशी हुआ और बाद को पटना का दीवान नियत हुआ । यहीं शाहजहाँ के राज्य के अंत समय इसकी मृत्यु हुई । मीरक हुसेन ( पहिले विवाह का पुत्र ) जहाँगीर के समय ही अपने कौशल तथा ज्ञान के लिए ख्याति पा चुका था और ऊँचे पद पर था । ८ वें वर्ष सुलतान खुर्रम के साथ राणा की चढ़ाई पर गया और उदयपुर लिए जाने पर जब राणा के राज्य में थाने बिठाए गए तब मीरक हुसेन कुंभलमेर का बखशी और बाकेआनवीस बनाया गया । इसके बाद वह दक्षिण का बखशी नियत हुआ और शाहजहाँ के गद्दी पर बैठने पर यह दक्षिण का दीवान हुआ । उस दिन से अब तक अर्थात् एक शताब्दी से अधिक यह पद इस वंश में बराबर रहा । ८ वें वर्ष इसे दस सहस्र रुपये,

खिलखत और घोड़ा मिला तथा यह बलख के शासक नअ मुहम्मद खॉ के यहाँ उक्त खॉ के दूत पार्यदाबे के साथ सवा लाख का भेंट लेकर भेजा गया। शाही पत्र में इसका वल्लेख जोरदार भाषा में इस प्रकार किया गया था कि यह सच्चे वंश का सैयद है तथा इसकी योग्यता ज्ञात हो चुकी है। तूरान से लौटने पर कुछ कारण से इसकी भर्त्सना की गई थी। जब यह मरा तब इसके उत्तराधिकारी शाही रूपए के लिए उत्तरदायी थे। खानदौरों नसरत जंग ने प्राचीन मित्रता का विचार कर उनको छुट्टी दिलाई। मृत का योग्य पुत्र मीरक मुईतुद्दीन अहमद पूर्ण युवा था। चलती विद्या का भर्जन कर यह शाही सेना में भर्त्सी हो गया और सन् १०५० हि० ( सन् १६४० ई० ) में यह अजमेर का बखशी और घटना-लेखक नियत हुआ। इसके बाद स्यात् यह सेवा कार्य से दक्षिण गया। इसी पर शेख मारुक भकरी अपने जखीरतुलखवानीन में, जो सन् १०६० हि० ( सन् १६५० ई० ) में तैयार हुआ था, लिखता है कि 'मीरक हुसेन खवाफी का पुत्र मीरक मुईतुद्दीन, जिसके पिता और पितामह बड़प्पन तथा वंश में सूर्य से बढ़कर थे, वंश के विचार से, बुद्धि, विद्या, योग्यता तथा लिपि लेखन में बढ़कर है और दक्षिण में प्रतिष्ठा के साथ कार्य कर रहा है।' शाहजहाँ के २८ वें वर्ष में यह कंधार की चढ़ाई में शाहजादा दारा शिकोह के साथ गया था और वहाँ से लौटने पर उसी वर्ष सन् १०६४ हि० ( १६५४ ई० ) में यह मुलतान प्रांत का दीवान, बखशी और घटना-लेखक नियत किया गया। उस ओर यह बहुत दिनों तक रहा। बड़े-छोटे, ऊँचे-नीचे सभी ने इसकी सत्यप्रियता,

ईमानदारी, दृढ़ता और सम्मति देने में इसकी कुशलता देखी तथा इसके भक्त होकर शिष्य के समान इससे बर्ताव किया। आज तक मीरकजी का नाम वहाँ सबके मुख पर है। नगर से दो कोस पर इसने बाग और गृह बनवाया, जो मीरक जी का कोठिला के नाम से प्रसिद्ध है। आलमगीर के समय यह काबुल का सूबेदार नियत हुआ और अमानत खॉ की पदवी पाई।

यद्यपि शाही सेवा का पदवी-वितरण पात्र की योग्यता पर निर्भर है, और पात्र को उस पदवी के अनुकूल रहना चाहिए पर इसके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसका नाम व्यक्तित्व के अनुकूल ही था। या यों कहिए कि व्यक्ति नाम से सहस्र गुणा उच्च तथा मूल्यवान है। इस सृष्टि में गुण सत्यता तथा ईमानदारी से बढ़कर नहीं है। ये मूल्यवान तथा कष्ट प्राप्य हैं। जहाँ ये खिलते हैं वहाँ सदा बसंत है। ये उच्च पदवियों के स्रोत और सौभाग्य तथा सुख की सुधा हैं। संसार के हाट में सत्यता की दलाली से माल बिकता है और जीवन के बाग में सफलता का फल विश्वास के वृक्ष से मिलता है।

आलमगीर के १४ वें वर्ष में इसका एक हजारी २०० सवार का मंसब हो गया और इनायत खॉ के स्थान पर इसे खालसा की दीवानो मिली तथा स्फटिक की दावात पाई। १६ वें वर्ष में जब असद खॉ, जो जाफर की मृत्यु पर वज़ीर का कार्य प्रतिनिधि रूप में कर रहा था, उससे हटा तब अमानत खॉ और दीवानेतन दोनों आह्वानुसार अपने आफिस के कागजों पर अपने हस्ताक्षर तथा मुहर करते थे।

प्रतिष्ठित पुरुषों का विचार, जिनमें घोखाबड़ी या स्वार्थ नहीं होता, ईश्वर की ओर तथा स्वामी की भलाई में रहता है और वे आलोचकों के छिद्रान्वेषण की परवाह नहीं करते। इसी समय महल की बेगमों तथा विश्वासी खोजों ने, जो बादशाह के पार्श्ववर्त्ती होने से घमंडी हो रहे थे, नीच लोभ के कारण अनुचित कार्य करते थे और बराबर अनुचित प्रस्ताव भी करते थे। अब उन लोगों को ऐसा करने का स्थान नहीं था और जो कुछ सम्राज्य या खुदा की प्रजा के लाभ का था वही बिना किसी की राय के होता था, इस लिए उनके शान की तलवार नहीं चलती थी। अतः वे इसे दिक् करने को तैयार हुए और जब उनका षड्यंत्र नहीं चला तब अब्दुल हकीम को इसका सहकारी नियत कराया। अमानत खॉं बराबर की सिफारिश से बबड़ा उठा था और त्यागपत्र देने के लिए बहाना खोज रहा था इस लिए इसने इस बात का उपयोग कर १८ वें वर्ष में हसन अब्दाल में त्यागपत्र दे दिया। यद्यपि बादशाह ने कहा भी कि सहकारी की नियुक्ति तो त्याग का कारण नहीं है पर अमानत ने नहीं स्वीकार किया। इसकी सचाई और योग्यता की बादशाह के हृदय पर छाप थी इस लिए इसे तुरंत लाहौर नगर और दुर्ग की अध्यक्षता पर नियत कर दिया। यह उस प्रांत का दीवान भी नियत हुआ। यद्यपि इसने कोष का कार्य अपने ऊपर नहीं लिया पर बादशाह ने वह इसके बड़े पुत्र अब्दुल्कादिर को सौंपा। चौक के पास ख्वाफी पुरा की इमारतों के पास इसने बड़ा गृह तथा इम्माम बनवाया, जो संसार-प्रसिद्ध है। २२ वें वर्ष में जब बादशाह अजमेर में थे, अमानत खॉं ने दक्षिण के प्रांतों का दीवान नियुक्त हो-

कर खिलभत पाया । उस समय से अब तक यह पद अधिकतर इसी वंश में रहा ।

जब २५ वें वर्ष में औरंगाबाद में बादशाह आए तब निजाम शाह के सब्ज बँगला में, जो अब सूबेदार का निवासस्थान है, ठहरे । यह शाहजादा मुहम्मद आजम का था । अमानत खॉ हरसल की गद्दी, जो नगर से दो कोस पर है, खरीद कर मुलतान की चाल पर अपना वासस्थान बनाना चाहता था । बादशाह ने मलिक अंबर का स्थान पसंद किया, जो शाहगंज के पास है पर अमानत खॉ उसे किराये पर लेकर संतुष्ट नहीं था इस लिए उसे सरकार से खरीद लिया । यह भी अमानत के कोटिला के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।

२७ वें वर्ष के आरंभ में जब बादशाह अहमदनगर गए, क्योंकि बीजापुर और हैदराबाद विजय करने का उसका विचार था, तब अमानत खॉ ने मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध न करना उचित समझ कर त्यागपत्र दे दिया, जो वह बराबर तैयार रखता था । तीव्र बुद्धि बादशाह ने इसके विचार समझ कर इसे साथ नहीं लिया और औरंगाबाद का अध्यक्ष बनाकर छोड़ गया । इसके कुछ महीने बीतने पर सन् १०९५ हि० ( सन् १६८४ ई० ) में यह मर गया । शाह नूर हमामी के मकबरे के पास नगर के दक्षिण में गाड़ा गया । 'सैयद बिहिश्ती शुद' (सैयद स्वर्गीय हुआ, १०९५ हि० ) से तारीख निकलती है । वास्तव में मृत्यु शब्द ऐसे सदा जागृत आत्माओं के लिए, जो बाह्य गुणों को इकट्ठा करते, आध्यात्मिक पुरस्कार संबित करते और सदा जीवित रहते हैं, केवल व्यावहारिक मात्र है ।



आत्मायुक्त मनुष्य न मरे और न मरेंगे ।

मृत्यु ऐसे लोगों के लिए केवल एक नाम है ॥

सत्य ज्ञानी मियाँ शाहनूर हमामी दर्वेश, जो पूर्णता का मालिक था, बहुधा कहता 'जो मनुष्य हमसे चाहते हैं वह इस युवा पीर में हैं' और यह कहकर इस हृदय-ज्ञानी अमानत की ओर ईंगित करता ।

लुब्बेलुबाब इतिहास का लेखक खफोखाँ, जो सत्यवक्ता और न्यायान्वेषक था, लिखता है कि वास्तव में ईमानदार मनुष्य, जो अपनी सन्नति न चाहे और प्रजा की भलाई को सरकारी लाभ से विशेष महत्त्व दे तथा जिसके शासन में किसी एक भी मनुष्य के जान और जायदाद को हानि न पहुँचा हो, अमानत ख़ाँ को छोड़ कर बिरले ही देखने और सुनने में आते हैं । गबन किए हुए करोड़ी तथा दरिद्र जर्मीदारों का प्रायः कैद में जान देने का मिसाल मिलता रहता है, जिससे अत्याचार बढ़ता है और जो राज्य शासन को बदनाम करता है । यह उनसे जितना माँगा जाता था उससे कम लेता और हर एक के लिए किस्त कर छोड़ देता था । इसी तरह लाहौर में एक बार वाकियानवीसों ने रिपोर्ट की कि इस कारण दो लाख रुपयों की हानि हुई । बादशाह पहिले क्रुद्ध हुए पर जब ठीक विवरण से ज्ञात हुए तब अमानत की प्रशंसा की । दक्षिण में लगभग दस बारह लाख रुपये पुराने हिसाब के अज्ञात रैयत के नाम पड़े हुए थे । प्रति वर्ष अहदी और मंसबदार नियत होते थे पर एक दाम भी न उगाहते थे, केवल बहुत सा बकाया हिसाब दिखला देते थे । इसने उसी तरह लेखनी के एक परिचालन से एक बड़ी रकम, जो इच्छुक

जमींदारों से भेंट के रूप में मिलने को थी, बट्टे खाते लिख दिया ।

एक दिन बादशाह संयोग से इसकी सत्यता की प्रशंसा कर रहे थे कि अमानत ने कहा कि 'हमारे ऐसा बेईमान कोई नहीं है क्योंकि प्रति वर्ष हम कुछ न कुछ अपने मालिक के धन को छोड़ देते हैं।' बादशाह ने कहा कि 'हाँ हम जानते हैं कि तुम अनंत कोष में हमारे लिए धन जमा कर रहे हो ।'

संक्षेप में इस महान पुरुष की राज्य सेवा, जो इसने छोटे पद पर रह कर किया था क्योंकि यह केवल दो हजारी था, विचित्र थी । बहुत से ऐसे कार्य, जो मनुष्यत्व से दूर थे पर सब शाही आज्ञाएँ थीं, इसने अपने हृदय की पवित्रता तथा कोमलता से नहीं किया । स्वामी की इच्छा के विरुद्ध काम करने से इसने कई बार त्यागपत्र दिए पर सहृदय बादशाह ने इसकी निस्वार्थता तथा सत्यता को समझ कर इन पर ध्यान नहीं दिया ।

कहते हैं कि मुखलिस खॉं बखशी बयान करता था कि अमानत खॉं के संबंध में बादशाह के दिमाग में विचित्र भाव था । जब बादशाह औरंगाबाद में थे तब शाहजादा मुहम्मदजीन ने प्रार्थना की कि 'स्थान की कमी के कारण हमारा कारखाना नगर के बाहर पड़ा है और इस वर्षा में सब सड़ रहा है । मृत संजर बेग के महल, जिसका हम्माम नगर में प्रसिद्ध है और जो अभी जब्त हुआ है, पर जिसे उसके उत्तराधिकारी ने खाली नहीं किया है, उसे दिया जाय ।' बादशाह ने मृत के संबंधियों को आज्ञापत्र भेज दिया पर उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया । शाहजादे का प्रार्थनापत्र फिर बादशाह के सामने रखा गया तब मुहम्मद अली खानसामाँ को, जो अपने प्रभाव तथा मुँह लगा होने में सबसे-

बढ़कर था, आज़ा मिलो कि वह किसी को अमानत ख़ाँ पर सजावल नियत कर दे, जो उक्त इमारत को शाहजादे के मनुष्यों को दिलवा दे। अमानत न्याय के पुजारीने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। अंत में एक दिन जलूस में जब दोनों उपस्थित थे तब मुहम्मद अली ख़ाँ ने कहा कि यद्यपि मकान दिलवा देने के लिए एक सजावल नियुक्त हुआ था पर कुछ हुआ नहीं। बादशाह ने अमानत ख़ाँ की ओर दृष्टि फेरी तब उसने स्पष्ट ही कहा कि 'इस वर्षा तथा बिजली के दिनों में संजर बेग के आदमी कहाँ शरण और छाया पावेंगे जब शाहजादे को नहीं मिल रहा है। मैं तो अपने ही लिए डर रहा हूँ क्योंकि हमें भी पुत्र कलत्र हैं, कल यही हालत उन सबकी होगी।' उसी समय इसने अपना त्यागपत्र दिया कि ऐसा कार्य किसी दूसरे को सौंपा जाय। बादशाह ने सिर नीचा कर लिया और चुप हो रहे।

अपनी जीवन चर्या में यह धनाढ्यों की किसी बात से समानता नहीं रखता था और सांसारिक कार्यों में लिप्त भी नहीं रहता था। वह विद्या प्रेमी था तथा प्रचलित गुणों का ज्ञाता था। इस्लाम धर्म पर एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें सब नियम संगृहीत थे। शिकस्त तथा नस्तालीक लिपियों के लेखन में दक्ष था। इसे सात पुत्र और आठ पुत्रियों थीं तथा उन सबको भी बहुत परिवार था। द्वितीय पुत्र बजारत ख़ाँ, जिसका उपनाम गिरामी था, योग्यता में सबसे बढ़कर था। वह कवि था और उसने एक दीवान लिखा है। उसका यह शैर प्रसिद्ध है।

( गुलाम अली की भूमिका भाग १ पृ० २२ पर शैर का अर्थ दिया है )

इसका एक पुत्र मीरक मुईन खॉ था, जो पिता के सामने ही निस्संतान मर गया। दूसरे पुत्रों का वृत्तांत जैसे मीर अब्दुल् कादिर दियानत खॉ, मीर हुसेन अमानत खॉ द्वितीय और काजिम खॉ का, जो इन पत्रों के लेखक का सगा पितामह था, अलग दिया गया है। इस बड़े आदमी के अच्छे गुणों के कारण इस परिवर्त्तनशील संसार में, जहाँ एक क्षण में बड़े २ वंश निर्बल और उपेक्षणीय हो जाते हैं, इसके वंशधर चार पीढ़ी तक लिखते समय सन् ११५९ हि० (सन् १७४६ ई०) तक दक्षिण के दीवान रहे तथा अन्य पद योग्यता तथा प्रतिष्ठा के साथ शोभित करते रहे। अन्य परिवारों में दुर्भाग्यों का ऐसा अभाव कम देखा जाता है।

---

## ५२. अमानुल्लाह खॉ

यह अलीवर्दी खॉ आलमगोरी का पौत्र था। इसका पिता स्यात अलीवर्दी का पुत्र अमानुल्लाह खॉ था, जो पिता की मृत्यु पर आगरा का फौजदार हुआ तथा खॉ की पदवी पाई। २२ वें वर्ष वह ग्वालियर का फौजदार हुआ और बीजापुर की खाइयों की लड़ाई में वीरता से लड़ कर मारा गया। इस जीवनी के नायक ने अपने पिता की पदवी पाई और एक हजार ५०० सवार का मंसब पाकर खानजादों में प्रसिद्ध हुआ। औरंगजेब के राज्य के अंत में यह साहस तथा स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध हो गया और अमीर बन गया। ४८ वें वर्ष के आरंभ में बादशाह गान्जी ने डॉकुओं के दुर्ग लेने का प्रयत्न आरंभ किया और राज गढ़ दुर्ग लेने के बाद तोरण दुर्ग को ओर गया, जो वहाँ से चार कोस पर है।

यह प्रसिद्ध है कि औरंगजेब के राज्य के अंत में बहुत से दुर्ग, जो शिवाजी के थे, उसके अध्यक्षों से लिए गए थे। शाही अफसरों द्वारा दुर्गाध्यक्षों को रुपये भेज कर ही वे लिए गए थे, जिससे वे उस कार्य से मुक्त हो जायँ। अध्यक्षों ने इस कारण उन्हें दे दिया था। बादशाह यह जानते थे और ऐसा बार बार हुआ कि जो धन दुर्ग दे देने के लिए दिया गया था उतना ही उसे ले लेने के बाद विजेता को पुरस्कार में दे दिया गया। पर इस दुर्ग पर शाही नौकरों का अधिकार उनके साहस तथा तलवार के जोर से हुआ था। इसका संक्षिप्त वृत्तांत यों है कि तरबियत खॉ ने फाटक की ओर से मोर्चा खोदवाया और

मुहम्मद अमीन खॉ बहादुर ने दुर्गवालों के आने जाने का दूसरी ओर का मार्ग रोका । सुलतान हुसेन, प्रसिद्ध नाम मीर मलंग, ने एक ओर और मीर अमानुल्लाह ने दूसरी ओर प्रयत्न की तैयारी की । अंत में १५ जुलकदा सन् १११५ हि० ( ११ मार्च सन् १७०४ ई० ) को रात्रि के समय अमानुल्लाह ने कुछ भावली पैदलों को दुर्ग पर चढ़ने के लिए बाध्य किया, जिनमें से जो पहिले ऊपर गया वह मानों अपनी जान से गया पर उसने ऊपर दुर्ग पर पहुँच कर रस्सा एक पत्थर से बाँध दिया । इसके बाद पच्चीस आदमी पहाड़ी पर रस्से से चढ़ गए और दुर्ग में पहुँच कर उन्होंने विजय का शोर मचाया । खॉ और उसका भाई अताउल्लाह खॉ तथा अन्य लोग उनके पीछे पीछे पहुँचे । हमीदुद्दीन खॉ, जो अबसर देख रहा था, यह समाचार सुन कर रस्सा अपने कमर में बाँध कर उन्हीं लोगों के समान ऊपर चढ़ गया । जिन काफिरों ने सामना किया वे मारे गए । दूसरे ऊपरी किले में चले गए और अमान भौंगने लगे । दुर्ग को फतूहुल्गैब नाम दिया और अमानुल्लाह खॉ का मंसब पाँच सदी बढ़ा, जिसके २०० घोड़े दो अस्पा थे ।

इसके अनंतर इस पर शाही कृपा हुई और इसने बहुत से अच्छे कार्य किए । इसको बराबर तरकी मिली और वाकिनकेरा के विजय के बाद इसको कार्य्य के पुरस्कार में डंका मिला । औरंग-जेंब की मृत्यु के बाद यह दक्षिण से उत्तरी भारत मुहम्मद आजम शाह के साथ चला आया और बहादुर शाह के साथ युद्ध में बड़ी वीरता से लड़ कर ऐसा घायल हुआ कि मर गया ।

## ५३. अमानुल्लाह खानजमाँ बहादुर

महाबत खॉँ जमाना बेग का यह पुत्र तथा उत्तराधिकारी था । इसकी माता मेवात की खानजादा वंश की थी । अपने पिता के विरुद्ध यह प्रशंसनीय गुणों से युक्त था और अपने समकालीन व्यक्तियों से गुणों में बढ़कर था । लोग आश्चर्य करते थे कि ऐसे पिता को ऐसा पुत्र हुआ । जब जहाँगीर के १७ वें वर्ष में शाह-जहाँ के भाग्य को उलटने का पासा महाबत खॉँ के नाम पड़ा तब वह काबुल से बुला लिया गया और वहाँ का प्रबंध मिर्जा अमानुल्लाह को अपने पिता के प्रतिनिधि रूप में मिला । इसे तीन हजारी मंसब और खानजाद खॉँ की पदवी मिली । जती नाम का उजबेग, जो अलमान खेल का था और बलख के शासक नअ्र मुहम्मद खॉँ का एक सेवक था, साधारणतया यलंगतेश कहलाया क्योंकि युद्ध में वह अपनी छाती नंगी रखता था । तुर्की में यलंग का अर्थ नम्र और तोश का अर्थ छाती है । वह खुरासान की सीमा तथा कंधार और गजनी के बीच प्रभावशाली हो रहा था तथा डाकू प्रसिद्ध हो गया था । उसने कई बार खुरासान पर आक्रमण किया, जिससे फारस के शाह डर गए थे । उसने हजारा जात में एक दुर्ग बनवाया, जिससे हजारा जाति को रोक सके, जिनका निवास गजनी की सीमा पर था और जो काबुल के शासक को पहिले से कर देते आते थे । उसने उन्हें धमकाने को अपने भांजे के अधीन सेना भेजा । इस

पर हजारों जाति के मुखिया ने खानजाद खॉं से सहायता को प्रार्थना की। यह सुसज्जित सेना के साथ उजबेगों पर चढ़ दौड़ा और युद्ध में उनका सर्दार बहुत से सैनिकों के साथ मारा गया। खानजाद खॉं ने दुर्ग तुड़वा दिया। यलंगतोश ने हठ करके नअ मुहम्मद खॉं से छुट्टी ले ली, जो शाही भूमि पर आक्रमण नहीं करना चाहता था। १९ वें वर्ष में यलंगतोश ने गजनी से दो कोस पर युद्ध की तैयारी की, जिसके साथ बहुत से उजबेग तथा अलमानची थे। खानजाद खॉं ने प्रांत की सहायक सेना के साथ इस युद्ध में प्रसिद्धि प्राप्त की तथा बहुत से शत्रुओं को मार कर और कैद कर राजभक्ति दिखलाई। कहते हैं कि इस युद्ध में हाथियों ने बहुत कार्य किया। जब-जब उजबेग सर्दार धावे करते थे हाथी उन पर रेल दिये जाते थे, जिससे घोड़े डर जाते थे। सन्धिप में उजबेग बढ़ न सके और यलंगतोश भागा। कहते हैं कि इस युद्ध में एक सवार पकड़ा गया, जिसे लोग मारना चाहते थे कि उसी ने कहा कि वह भौरत है। उसने कहा कि लगभग एक सहस्र स्त्रियों उसी के समान सेना में थीं तथा मर्दों के समान तलवार चलाती थीं। खानजाद खॉं ने छ कोस पीछा किया और तब विजयी होकर लौटा।

जब बंगाल का शासन महाबत खॉं को मिला तब उसके कहने पर खानजाद खॉं काबुल से बुला लिया गया। २० वें वर्ष में जब महाबत खॉं की भर्त्सना की गई और दरबार बुलाया गया तब बंगाल का प्रबंध खानजाद को दिया गया। जब बाद को महाबत खॉं अपने कार्य के बदले में भेलम के किनारे से भागा तब खानजाद खॉं बंगाल के शासन से हटाया गया और



दरबार आया। अपने सुव्यवहार से इसने अपना सम्मान स्थापित रखा और आसफ खॉं की अधीनता मानने में तनिक भी कमी नहीं की। जहाँगीर की मृत्यु पर जो कार्य हुआ था उसमें यह बराबर आसफ खॉं के साथ था। शाहजहाँ के राज्यारंभ में इसने लाहौर से आकर सेवा की और इसको पाँच हजारी ५००० सवार का मंसब, खानजमाँ की पदवी तथा मुजफ्फर खॉं मामूरी के स्थान पर मालवा की प्रांताध्यक्षता मिली। उसी वर्ष जब इसका पिता दक्षिण का सूबेदार नियत हुआ तब यह अपने पिता का प्रतिनिधि होकर वहाँ गया। इसके बाद जब २२ वर्ष दक्षिण का शासन इरादत खॉं को दिया गया, जिसका नाम आजम खॉं था, तब खानजमाँ ने चौखट चूमी और अपनी जागीर संभल गया। जब खानजहाँ लोदी को दमन करने के लिए शाहजहाँ दक्षिण चला तब खानजमाँ ने उसका अनुगमन किया और आसफ खॉं यमीनुद्दौला से जा मिला, जो बीजापुर के सुलतान मुहम्मद आदिलशाह को दंड देने पर नियत हुआ था। ५ वें वर्ष जब बादशाह बुरहानपुर से उत्तरी भारत को लौटे तब दक्षिण तथा खानदेश का शासन आजम खॉं से ले लिया गया और महाबत खॉं को दिया गया, जो उस समय दिल्ली का अध्यक्ष था। यमीनुद्दौला को आज्ञा मिली कि खानजमाँ और उसकी अधीनस्थ सेना को बुरहानपुर में छोड़कर वह आजम खॉं तथा अन्य अफसरों के साथ दरबार लौट आवे। इसी समय खानजमाँ का गालना दुर्ग पर अधिकार हो गया। उस दुर्ग का अध्यक्ष महमूद खॉं मलिक अंबर के पुत्र फतह खॉं से विरुद्ध हो गया क्योंकि उसने निजाम शाह को मार डाला था और वह दुर्ग को

साहू भोंसला को दे देना चाहता था। जब ६ ठे वर्ष खानजमों का पिता दौलताबाद के उच्छ दुर्ग को लेने का प्रयत्न करने लगा तब खानजमों ने पाँच सहस्र सवारों के साथ युद्ध की तैयारी की और जिस मोर्चे को सहायता की जरूरत होती वहाँ पहुँचता। उस समय बीस हजार पशु, अनाज तथा कुछ सहायक सेना जफर नगर में थी पर डोंकुओं के कारण सम्मिलित नहीं हो सकी थी। खानजमों वहाँ गया और साहू जी भोंसला तथा बहलोल खों ने उसे खिरकी से तीन कोस पर चकलथाना में घेर लिया। खानजमों अपनी जगह पर डट गया और भातिश-बाजी, गजनाल तथा बंदूक छोड़ने लगा। जिस किसी ओर से शत्रु आगे बढ़ते, वे हटा दिए जाते थे। रात्रि होने पर दोनों सेनाएँ युद्ध से हट गईं। खानजमों अपने स्थान ही पर रहा और बुद्धिमानी से सुबह तक सतर्क रहा। शत्रु, यह देखकर कि वे सफल न होंगे, निराश हो लौट गए। यह सामान अपने पिता के पास ले गया और बराबर मोर्चाबंदी तथा सामान लाने में बहादुरी दिखलाता रहा। दूसरी बार यह अन्न, धन और बारूद लाने गया, जो रोहनखेरा आ पहुँचा था पर आगे नहीं बढ़ सका था। रनदौला, साहू और याकूत हब्शी ने इसका पीछा किया कि स्यात् साथ का सामान लूटने का अवसर मिल जाय। खानखानों ने यह सुनकर नासिरी खों खानदौरों को सहायता के लिए भेजा। खानजमों अपने उत्साह तथा साहस के कारण सब सामान लेकर लौट रहा था और जब हरावल तथा चंदावल मध्य से एक एक कोस आगे और पीछे थे तथा खिरकी में पहुँचे थे कि शत्रु ने एकाएक आक्रमण किया। खूब युद्ध हुआ और शत्रु परास्त

हो कर भागे । दुर्गाविजय के उपरांत यह शुजाअ के कहने पर परंदा के दृढ़ दुर्ग के घेरे में भी नियुक्त हुआ । खानजमों आगे गया और खान खुदवाने तथा तोपखाने लगवाने में कम प्रयत्न नहीं किया पर अफसरों की दुरंगी चाल तथा वर्षा के कारण दुर्गाविजय रुक गया । शाहजादा, महाबत खॉ आदि कार्य न पूरा कर सकने पर लौट गए ।

यद्यपि महाबत खॉ का अन्य पुत्रों से इस पर अधिक प्रेम था और जब कभी वह सुनता कि अमानुल्लाह ने ऐसा किया है, तो लाखों रुपये का मामला होने पर भी वह कुछ नहीं बोलता था पर उजडूता तथा कठोरता के कारण आम दीवान में उसे गाली देता था । यद्यपि खानजमों ने खुले शब्दों में और इशारे से उसके पास संदेश भेजा कि उसे उसकी उम्र का अब ध्यान रखना चाहिए तथा उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहिए पर महाबत इस पर इसकी और भी अप्रतिष्ठा करता । खानजमों ने कई बार कहा कि मृत्यु हमारी शक्ति के बाहर है और चले जाने में क्या कठिनाता है पर तब हम दोनों प्रकार धार्मिक तथा नैतिक दृष्टि से गिर जाँयगे । जब इसकी आत्मा को विशेष कष्ट पहुँचा तब यह बिना आज्ञा लिए दरबार जाने की इच्छा से रोहिनखेरा घाट से चल दिया । पहिले दिन यह बुर्हानपुर पहुँच गया और रात्रि बीतने पर हाँडिया बतार से नदी चतरा । महाबत खॉ तब दुखी होकर कहने लगा कि यदि हमारे विरोधी दरबारीगण बादशाह से हमारी बुराई करते तो वह शत्रुता तथा द्वेष समझा जाता पर जब ऐसा पुत्र, जो संसार में भलापन के लिए प्रसिद्ध है, इस प्रकार चला जाय तब अवश्य ही हम पर लांछन लगेगा । उसने

मेरी बुढ़ापे में अप्रतिष्ठा की। तब वह ठंडी साँस लेकर और हाथ घुटनेपर रखकर कहता कि 'आह अमानुल्लाह तुम जवान ही मरोगे।' कहते हैं कि खानजमों के पहुँचने पर बादशाह ने यह शेर पढ़ा था—

जब प्रिय के साथ ऐसा व्यवहार है तब दूसरों के लिए शोक ही है।

देवात् जिस दिन खानजमों सेवा में उपस्थित होने को था, उसी दिन महाबत खॉ की मृत्यु का समाचार आया। शाहजहाँ ने यमीनुद्दौला तथा अन्य अफसरों को शोक मनाने के लिए भेजा और खानजमों को बुलाकर उस पर कई प्रकार से कृपा की। अब तक खानदेश तथा बरार का एक प्रांताध्यक्ष रहता था पर उसके बाद उसी के दो विभाग कर दिए गए। बालाघाट के अंतर्गत दौलताबाद, अहमदनगर, संगमनेर, जुनेर, पत्तन, जालनापुर, बीड, धारवार और बरार का कुछ भाग तथा पूरा तेलिगाना जिसकी तहसील इक्कीस करोड़ दाम थी इस पर खानजमों नियत किया जाकर वहाँ भेजा गया। जुम्हारसिंह बुंदेला को दंड देने में मालवा का शासन खानदौरों को सौंपा गया था इसलिए खानदेश पर अलीवर्दी नियत हुआ और बरार को बालाघाट में मिलाकर वह प्रांत खानजमों को सौंपा गया।

९ वें वर्ष जब बादशाह दौलताबाद दुर्ग देखने दक्षिण चले तब राव शत्रुसाल तथा अन्य राजपूतों को हरावल और बहादुर खॉ रुहेला तथा अफगानों को चंदावल नियत कर उनके साथ खानजमों को चमारगोंडा प्रांत, जो साहू का निवासस्थान है, और कोंकण, जो उसके अधिकार में है, विजय करने तथा बीजापुर राज्य लूटने के लिए, जो उस ओर था, भेजा। इसने साहू

को कई बार हराया और चमारगोंडा तथा अहमदनगर के अन्य स्थानों में थाने बैठाए। जब आदिल शाह ने अधीनता स्वीकार कर ली तब यह लौटा और बहादुर को पदवी पाई। इसके बाद यह जुनेर लेने भेजा गया, जो निजामशाही के बड़े दुर्गों में से एक है। खानजमों ने साहू को दंड देना और पीछा करना अधिक महत्व का कार्य समझ कर कोंकण तक पीछा किया। जहाँ वह जाता यह उसका पीछा करना नहीं छोड़ता था। साहू ने अपना घर और सामान लुट जाने दिया तथा माहुली दुर्ग में शरण ली। आदिल शाह की ओर से रनदौला खों को आज्ञा मिली थी कि खानजमों बहादुर का सहयोग करे और जिन दुर्गों पर साहू अधिकृत है, उसे विजय कर शाही साम्राज्य में मिलाए, इसलिए उसने माहुली को एक ओर से और खानजमों ने दूसरी ओर से घेर लिया। साहू ने ऊबकर १० वें वर्ष सन् १०४६ हि० ( सन् १६३६-३७ ई० ) में जुनेर, त्रिगलवाड़ी, त्र्यंबक, हरीस, जोधन और हरसल दुर्ग तथा निजाम शाह के संबंधी को, जो उसके साथ था, खानजमों को सौंप दिया। जब दक्षिण के चारों प्रांतों की सूबेदारी शाहजादा औरंगजेब को मिली तब खानजमों दौलताबाद लौट आया और शाहजादे की सेवा में उपस्थित हुआ। यह बहुत दिनों से कई रोगों से पीड़ित था, कभी अच्छा हो जाता था और कभी रोग दुहरा जाता था। अंत में वर्ष बीतते-बीतते यह मर गया। तारीख निकली कि 'रुस्तमें जमों मुर्द' ( अपने समय का रुस्तम मर गया, १०४७ हि० )। कहते हैं कि मृत्यु के समय जब इसे चेतना हुई तब उसने यह प्रसिद्ध शेर पढ़ा—

शौर

अमानी, जीवन भोंठ पर, सुबह के दीपक के समान, आ लगा है।  
मैं वह इशारा चाहता हूँ कि जिससे सब समाप्त हो जाय ॥

साहस तथा युद्धीय योग्यता में यह अपने समय में अद्वितीय था। यह क्रोधी तथा ईर्ष्यालु था पर इसपर भी नम्र तथा शीलवान था, जिससे इसके पिता के घोर शत्रुओं ने भी इससे प्रेम पूर्वक व्यवहार किया। यद्यपि महाबत खॉ कहता था कि 'उनका प्रेम मुझसे शत्रुता मात्र है और यदि हमारे मरने पर भी यही मेळ तथा मित्रता रहे तब तुम लोग हमें गाली दे सकते हो'। यह बुद्धि तथा अनुभव में भी एक ही था। संसार के सभी राजाओं का इसने एक इतिहास लिखा था। 'गंजेबादावद्' संग्रह भी इसी का बनाया है। 'अमानी' उपनाम से इसने एक दीवान तैयार किया था। ये शौर उसके हैं—

प्याले के किनारे पर हमारा नाम लिखो।

जिसमें दौर के समय वह भी साथ रहे ॥

जैसा हम चाहते हैं यदि गोला न फिरे तो कहो 'न फिरे'।

यदि हमारे इच्छानुसार प्याला फिरे तो काफी है ॥

इसे एक लड़का था। उसका नाम शुक्रुला था। वह योग्य तथा बादशाह का परिचित था। जब उसका पिता जुनेर की सहायता को गया तब वह उसका प्रतिनिधि होकर बुर्हानपुर की रक्षा को गया।

---

## ५४. अमीन खाँ दक्खिनी

खानजमाँ शोख नीजाम का यह पुत्र था। मुहम्मद आजमशाह के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें यह और इसका सौतेला भाई फरीद अगल में और इसके सगे भाई खानआलम और मुनौअर हराबल में थे। इसने उसमें बड़ी वीरता दिखाई, जो इसके नाम तथा जाति के उपयुक्त थी। इसका अभी जीवन कुछ बाकी था, इसलिए यह घावरहित बच गया। कहते हैं कि जब खान-आलम और मुनौअर खाँ ने अजीमुरशान पर आक्रमण किया तब वे उक्त शाहजादे के बाएँ भाग पर जा टूटे, अपने सामने की सेना को भगा दिया और चंदाबल तक जा पहुँचे। जब उक्त लोगों ने अपने बाएँ देखा तब शाहजादे का हौदा दिखाई पड़ा। वे धूमकर केवल तीस सवारों के साथ फतिगों के समान उस ओर जा टूटे। बहादुरशाह ने विजयोपरांत अमीन खाँ पर कृपा की और यद्यपि यह शत्रु पक्ष में था पर एक वीर वंश का बचा हुआ बहादुर समझकर इस पर दया दिखाई। इसके बाद इसे सरा का फौजदार बनाया, जो बीजापुरी कर्णाटक का पर्याय था। यह विस्तृत तथा उपजाऊ प्रांत था। इसके आसपास बहुत से जमींदारों की जमीन थी, जो अपने अधिकार के अनुसार कर दिया करते थे। इन्हीं में सेरिंगापत्तन का जमाँदार मैसूरिया था, जो चार करोड़ रुपये कर देता था। दक्षिण में इसके समान कोई दूसरा जमाँदार ऐश्वर्य, राज्य-विस्तार और कोष में नहीं था या

यों कहिए कि कोई उसके शतांश को नहीं पहुँचता था । इसका कर निश्चित था । सरा का फौजदार अपनी शक्ति के अनुसार कम या अधिक कर उगाहता था और अधिक मॉंगने में युद्ध छिड़ जाता । इसी प्रकार अमीन खॉ के समय दलवा अर्थात् प्रधान सेनापति के अधीन बड़ी सेना नियत हुई, जिससे खूब युद्ध करने के बाद शत्रु की सैन्य-शक्ति के अधिक होने से खॉ की सेना भागी । यह स्वयं ३०० सैनिकों के साथ डटा रहा और मरने ही को था कि इसके हाथ की गोली से दूसरे पक्ष का सर्दार मारा गया तथा पराजय विजय में परिणत हो गई । इसका शासन प्रबल हो गया । हर ओर के आदमी आतंक में आ गए और दूर तक के लोगों ने इसकी शक्ति तथा प्रभाव को मान लिया । इसके बाद कर्नौड़ की फौजदारी इसे मिली और फरुखसियर के समय दक्षिण के मुख्य दीवान हैदर कुली खॉ ने इसको बरार की सूबेदारी दिला दी । इसके नायब ने अधिकार ले लिया था और वह बालकंदा ही में था, जो उसकी पुरानी जागीर थी, कि अमीरुल् उमरा हुसेन अली खॉ के आने का समाचार मिला । अदूरदृशिता तथा घमंड के कारण खॉ ने जाकर उसका स्वागत करने में देर की । दाऊद खॉ पर विजय प्राप्त करने के बाद अमीरुल् उमरा ने अपने एक साथी असद अली खॉ जौलाक को, जिसका दादा अलीमर्दान के तुर्कों में से था, बरार पर अधिकार करने भेजा पर जब अमीन खॉ ने अधीनता मान ली तब उसी को फेर दिया । जब एवज खॉ बहादुर दरबार से वहाँ के शासन पर भेजा गया तब खॉ नानदेर का प्रबंधक हो वहाँ गया । लालच तथा अन्याय के कारण और



नानदेर के अंतर्गत बोधन परगना के जमींदारों के बहकाने पर मांघाता नाम के जागीरदार से, जिसका पिता कान्हो जी सरकिया पाँच हजारी मराठा था और औरंगजेब के समय बहुत कार्य कर चुका था, अन्यायपूर्ण युद्ध छिड़ गया। अमीन खॉं ने उसको प्रतिज्ञा तथा प्रण करके अपने अधिकार में लाया और उसे नष्ट कर डाला। इसके बाद पुराने भगड़े के कारण उसने जगपत यलमा को भी नष्ट करना चाहा, जिसने निर्मळ पर अधिकार कर लिया था। इसने राजा साहू के दत्तक पुत्र फतह सिंह से सहायता माँगी, जो उस जिले का मकासदार था। दैवान्त एक अन्य घटना ने उस दुष्ट के औद्धत्य को और भी बढ़ाया। इसका विवरण यों है कि इस समय मराठों से संधि हो चुकी थी, जिससे अमीरुल् उमरा के नाम पर ऐसा धब्बा पड़ा जो प्रलय तक न मिटेगा। शर्त यह थी कि जिन जिन राज्यों में उनकी स्थिति के प्राबल्य तथा जमींदारों के युद्ध को सन्नद्ध रहने से चौथ नहीं मिलती वहाँ अमीरुल् उमरा मराठों की सहायता करेगा। उक्त खॉं के शासन के अंतर्गत ताल्लुकों में मराठों के उन्नततम काल में कहीं कहीं एक दम भी चौथ नहीं वसूल हुआ था और अमीरुल् उमरा के पत्रों के मिलने पर भी खॉं ने ऐसी अप्रतिष्ठा में मदद करना उचित न समझा और चौथ एकत्र नहीं की। वह प्रांत इससे ले लिया गया और मिर्जा अली यूसुफ खॉं को दिया गया, जो अपने समय का एक वीर पुरुष था। यह खॉं, जिसका प्रभाव इस सूचना से कि वह उतार दिया गया घट गया था, अपनी पुत्री की शादी पर बालकंदा चला गया। एकाएक फतह सिंह और जगपत ने इस पर धावा किया। इसने अपने वंश तथा कीर्ति का

विचार कर और शत्रु की संख्या का ध्यान न कर थोड़े आदिमियों के साथ उनसे युद्ध करने गया। इस परिवर्तनशील संसार में विजय-पराजय होता रहा है और सौभाग्य तथा दुर्भाग्य साथी हैं। खॉ इन अयोग्य मनुष्यों के विरुद्ध लड़ कर अपनी अमीरी तथा वर्षों की अर्जित कीर्ति खोते हुए प्राण बचा कर बालकंदा भाग गया। इसके बाद जब सैयद आलम अली खॉ बहादुर दक्षिण का शासक था तब उसने इसे नानदेर प्रांत में फिर नियत किया तथा उस युद्ध में, जो नवाब फतहजंग आसफजाह से हुआ था, बाएँ भाग का अध्यक्ष बनाया। इस अयोग्य पुरुषने कादर सा कार्य किया और युद्ध में योग न देकर दर्शक की तरह खड़ा रह कर अपने पूर्वजों के कार्यों पर हरताल फेर दी। विजयोपरांत फतहजंग ने इसको ताल्लुकों पर भेज दिया पर इसका प्रभाव तथा प्रसिद्धि नष्ट हो चुकी थी। इसी समय एबज खॉ बहादुर ने लोभ से इसका बरार लौटना ठीक न समझकर इसके स्थान पर मुहव्वर खॉ खेशगी को नियुक्त करा दिया। यह सुनते ही नवाब फतहजंग के पास, जो अदोनी की ओर गया था, गया पर उसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। यह लौट कर परबनी ग्राम में जा बसा, जो उसकी जागीर में था और पाथरी से बरह कोस पर था। नानदेर के मिले हुए महालों में इसने करोड़ी का सामना किया। यद्यपि उक्त खॉ ने इसे उचित मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया पर इसने अपनी मूर्खता नहीं छोड़ी। अंत में यह पकड़ा गया और बहुत दिन तक कारागार में रहा। जब इसके पुत्र मुकर्ब खॉ ने, जिसकी जीवनी में इस सबका उल्लेख है, सेवा में तरकी पाई, यह उसकी प्रार्थना पर मुक्त हुआ। बालकंदा में पचास सहस्र

वार्षिक की जागीर इसके व्यय के लिए दी गई और यह बहुत दिनों तक पुत्र की रक्षा में रहा। उसके अधिकार से दुःखित होकर यह मुहम्मदशाह के ६ ठे वर्ष में औरंगाबाद चला आया और एवजखॉ बहादुर की सहायता से अपनी जागीर आदि लौटाने की आशा में रहा। इसी समय आसफजाह उत्तरी भारत से आया और मुबारिज खॉ से युद्ध हुआ। समय की आवश्यकता के कारण इसे नया प्रोत्साहन मिला और प्रयत्न करने के लिए कमर बाँध कर औरंगाबाद ही में कुछ दिन ठहरकर तैयारी कर यह बाहर निकला। कुछ पराजयों तथा दोषों से जब इसकी बुद्धि फिर गई और नीचता पर उतारू हो गया तब यह नए सिरे से काम करने के लिए मुबारिज खॉ से रात्रि में जा मिला, जिससे गुप्तरूप से प्रतिज्ञा की जा चुकी थी। युद्ध के दिन बिना कुछ किए ही यह शत्रु की तलवार से मारा गया। ऐसा सन् ११३७ हि० ( १७२४ ई० ) में हुआ।

---

## ५५. अमीन खाँ मीर मुहम्मद अमीन

यह मुअज्जम खाँ मीर जुमला अर्दिस्तानी का पुत्र था। तैलंग के शासक कुतुबशाह का इसके पिता पर अत्याचार जब शाहजादा औरंगजेब के प्रयास से रुक गया तब यह कारागार से छूट कर सुलतान मुहम्मद के यहाँ उपस्थित हुआ, जो उस प्रांत पर आगे भेजा गया था। यह सुलतान मुहम्मद से हैदराबाद से बारह कोस पर मिला और इसका भय छूट गया। शाहजहाँ के ३० वें वर्ष में यह अपने पिता के साथ शाही सेवा में भर्ती हो गया। जब यह बुर्हानपुर आया तब वर्षा और बीमारी से यह पीछे रह गया। इसके अनंतर यह दरबार आया और खिलअत तथा खाँ की पदवी पाई। उसी वर्ष मुअज्जम खाँ मीर जुमला को शाहजादा औरंगजेब के पास जाकर आदिलशाही राज्य नष्ट करने की आज्ञा मिली और मुहम्मद अमीन को एक हजार जात उन्नति मिली तथा इसका पद तीन हजारी १००० सवार का हो गया। इसे इसके पिता के लौटने तक नाएब वजीर का कार्य करने की आज्ञा मिली। ३१ वें वर्ष में कुछ ऐसे कार्यों से, जो पसंद नहीं किए गए, मुअज्जम खाँ दीवानी से उतार दिया गया तो मुहम्मद अमीन खाँ भी अपने पद से हटाया गया। पर इसकी सत्यता तथा योग्यता शाहजहाँ समझ गया था इस लिए ५०० सवार की तरफ़ी और जड़ाऊ कलमदान देकर उसे दानिशमंद खाँ के स्थान पर, जिसने त्यागपत्र दे दिया था, मीरबख़शी नियत कर दिया।

जब शाहजादा औरंगजेब ने मुअज्जम खॉं को कैद कर लिया, जो आझानुसार अपनी सेना के साथ दरबार जा रहा था और किसी तरह वहाँ रुक रहा था, और दक्षिण में अपनी नजर कैद में रोक रखा तब दाराशिकोह ने यह सुन कर निश्चयतः समझ लिया कि यह कार्य खॉं तथा औरंगजेब की राय से हुआ है और यही शाहजहाँ को समझा दिया। मुहम्मद अमीन पर अकारण शंका की गई और दारा ने कैद करने की आज्ञा बादशाह से लेकर उसे घर से बुला कैद कर दिया। तीन चार दिन बाद उसकी निर्दोषता साबित होने पर बादशाह ने दारा की कैद से उसको छुट्टी दिला दी। दारा के पराजय के बाद विजय का झंडा फहराने के दूसरे दिन मुहम्मद अमीन अभिवादन करने पहुँचा, जब औरंगजेब की उपस्थिति से सामूगढ़ का शिकारगाह चमक उठा था। इसका अच्छा स्वागत हुआ और इसे चार हजारी ३००० सवार का मंसब मिला। उसी महीने में यह मीरबखशी नियत हुआ। शुजाअ के साथ के युद्ध में जब राजा जसवंत सिंह ने कपटाचरण किया और औरंगजेब की सेना से हट कर दारा से मिलने के लिए जल्दी से स्वदेश चला गया तब युद्ध के अनंतर वहाँ से लौटने पर मुहम्मद अमीन उसे दंड देने के लिए सुसज्जित सेना के साथ भेजा गया। पर दारा, जो अहमदाबाद से अजमेर आ रहा था, पास था पहुँचा तब मुहम्मद अमीन पुष्कर से लौट कर बादशाही सेना से आ मिला। २ रे वर्ष इसका मंसब पाँच हजारी ४००० सवार का हो गया और ५ वें वर्ष १००० सवार और बढ़े।

जब ६ ठे वर्ष के आरंभ में मीर जुमला बंगाल में मर गया

तब शाहजादा मुहम्मद मुअज्जम शोक मनाने तथा सांत्वना देने मुहम्मद अमीन के घर गया और इसे बादशाह के पास लिखा लाया । इसे खिलअत दी गई । १० वें वर्ष में यूसुफजई खेल की सेना ओहिंद में जमा हुई, जो उस पार्वत्य देश का मुख है, और गड़बड़ मचाई तब मुहम्मद अमीन योग्य सेना के साथ उन्हें दंड देने भेजा गया । खों के पहुँचने के पहिले यद्यपि शमशेर खों तरिी उस जाति को परास्त कर दंड दे चुका था पर तब भी खों उस प्रांत में गया और उसे लूट पाट कर बादशाही आज्ञानुसार लौट आया । इस पर यह इब्राहीम खों के स्थान पर बाहौर का सूबेदार नियत हुआ । १३ वें वर्ष में यह महाबत खों द्वितीय के स्थान पर नियुक्त हुआ । इसी वर्ष प्रधान मंत्री जाफर खों मरा और असद खों उसका नाएब होकर काम करता रहा । बादशाह ने यह समझ कर कि केवल प्रथम कोटि का अफसर ही यह काम कर सकता है, मुहम्मद अमीन को दरबार बुलाया । १४ वें वर्ष यह आया और इसका शाहजादों के समान स्वागत हुआ । यद्यपि यह अपनी कार्य-क्षमता तथा अनुभव के लिए प्रसिद्ध था पर इसमें कुछ दोष भी थे और इसने मंत्रित्व कुछ शर्तों पर स्वीकार किया जो बादशाह के स्वभाव के विरुद्ध थीं तथा इसके विरोध और कथन से उसको कष्ट पहुँचता था ।

भाग्य के लेखानुसार कि इस पर बुरे दिन आवें इसने काबुल जाने तथा वहाँ शांति स्थापित करने की छुट्टी ले ली । इसे शाही उपहार मिले, जिसमें चाँदी के साज सहित आलम गुमान नामक हाथी भी था । घमंड का रंग कुछ न कर केवल मुख को पीला कर देता है, अहंता के मोछ की हवा भाग्य पर पराजय की धूल

हालती है और अहम्मन्यता से शत्रु प्रसन्न होता है तथा उसका फल पराजय होता है एवं औद्धत्य घृणोत्पादक होकर अंत बुरा कर देता है । खॉं ने हठ पूर्वक ऐश्वर्य तथा वैभव का कुल सामान लेकर पेशावर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल जाने और अपद्रवी अफगानों को दमन करने का निश्चय किया ।

१५ वें वर्ष ३ मुहर्रम सन् १०८३ हि० ( २१ अप्रैल १६७२ ई० ) को खैबर पार करने के पहिले समाचार मिला कि अफगानों ने इसका विचार जान कर रास्ते बंद कर दिए हैं और चींटी तथा टिड्डी से संख्या में बढ़ गए हैं । खॉं ने अपने चर्मंड में उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ा । कूब में सतर्कता की कमी तथा कपट के कारण वही घटना घटी, जो अकबर के समय जैन खॉं कोका, हकीम अबुल् फतह और राजा बीरबल पर घटी थी । अफगानों ने चारों ओर से आक्रमण किया और तीर तथा पत्थर की बौछार करने लगे । सेनाएँ गड़बड़ा गईं और मनुष्य, घोड़े तथा हाथी एक दूसरे पर दौड़ पड़े । कई सहस्र ऊँचे से गड्ढों में गिर कर मर गए । मुहम्मद अमीन अहंकार से मरना चाहता था पर इसके सेवक इसकी लगाम पकड़कर उसे लौटा लाए । अपने सम्मान का कुछ विचार न कर यह उसी बुरी हालत में पेशावर फुर्ती से चला गया । इसका योग्य पुत्र अब्दुल्ला खॉं उसी गड़बड़ में मारा गया । इसका सामान लुट गया और बहुत से आदमियों की स्त्रियों कैद हो गईं । मुहम्मद अमीन की युवा लड़की और इसकी कई स्त्रियों भारी रकम देने पर छूटीं ।

कहते हैं कि इस घटना के बाद खॉं ने बादशाह को लिखा

कि जो भानव में लिखा था वह हुआ पर यदि वह कार्य इसे फिर सौंपा जाय तो यह उस कार्य को ठीक कर लेगा। बादशाह ने राय की तब अमीर खॉं ने कहा कि 'बौटैल सूअर की तरह मुहम्मद अमीन शत्रु पर जा दूटेगा, चाहे अबसर उपयुक्त हो या न हो।' इस पर इसका मंसब, जो छः हजारी ५००० सवार का था, एक हजार जात से घटाया गया और यह गुजरात का शासक नियत हुआ। इसे आज्ञा हुई कि वह दरबार में न उपस्थित होकर सीधा वहाँ चला जाय। वहाँ यह बहुत दिनों तक रहा और २३ वें वर्ष में जब औरंगजेब अजमेर में था तब यह बुलाया गया और सेवा की। यह राणा के साथ उदयपुर गया और शाही कृपाएँ पाकर बित्तौड़ से छुट्टी पाई। यह २५ वें वर्ष ८ जमादिउल् आखिर सन् १०९३ हि० ( ४ जून १६८२ ई० ) को अहमदाबाद में मर गया। सत्तर लाख रुपये, एक लाख पैंतीस हजार अशर्फी और इत्राहीमी तथा ७६ हाथी और दूसरे सामान जन्त हुए। इसके आगे कोई लड़का नहीं था। सैयद मुहम्मद इसका भौजा था और इसका दामाद सैयद सुलतान कर्बलाई उस पवित्र स्थान का एक प्रमुख सैयद था। वह पहिले हैदराबाद आया। वहाँ के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने उसे अपना दामाद चुना। जिस दिन निकाह होने को था उस दिन बड़ा दामाद मीर अहमद अरब, जिसके हाथ में कुल प्रबंध था और जो इस कार्य का मध्यस्थ था, सैयद से कहा सुनी करने लगा और यह बात यहाँ तक बढ़ी कि उस अंचारें सैयद ने कुल सामान में आग लगा दी और चला आया।

यद्यपि मुहम्मद अमीन घमंडी और आत्मश्लाघापूर्ण था



पर सचाई और ईमानदारी में अपने समय का एक ही था ।  
इसने बराबर न्याय करने का प्रयास किया । इसकी स्मरण-  
शक्ति तीव्र थी । जीवन के अंतिम अंश में, जब यह गुजरात का  
शासक था, यह बहुत ही थोड़े समय में पवित्र ग्रंथ का हाफिज  
हो गया । यह कट्टर इमामिया था । यह हिंदुओं को अपने  
अंतःपुर में नहीं आने देता था । यदि कोई बड़ा राजा इसे  
देखने आता, जिसे भीतर आने से नहीं रोक सकता था, तो यह  
घर धुलवाता, शतरंजी हटवा देता और अपने कपड़े बदलता ।

---

## ५६. अमीनुद्दौला अमीनुद्दीन खॉ बहादुर संभली

यह संभल का एक शेखजादा था, जो राजधानी के उत्तर-पूर्व है। इसका वंश तमीम अनसारी तक पहुँचता था। इसने जहाँदार शाह की सेवा आरंभ की और फर्रुखसियर के समय यह एक यसावल नियत हुआ। मुहम्मद शाह के समय में यह मीर-तुजुक के पद तक पहुँच गया। क्रमशः यह चार हजारी और बाद को छः हजारी ६००० सवार के मंसब तक पहुँच गया तथा इसको अमीनुद्दौला की पदवी और संभल की जागीर मिली, जिसकी आय तीन लाख थी। उसी राज्य-काल में नादिर शाह के भारत से चले जाने पर यह मर गया। इसने कई मकान, बाग और सराय अपने देश में बनवाए। इसके पुत्रों में अमीनुद्दीन खॉ और अशरफ खॉ प्रसिद्ध हुए।

---

## ५७. अमीर खॉ खवाफी

इसका नाम सैयद मीर था और यह शेख मीर का छोटा भाई था। जब औरंगजेब दारा के प्रथम युद्ध के बाद आगरे से दिल्ली जा रहा था और मार्ग में मुरादबख्श को कैद कर, जिसने घमंड दिखाया था, दिल्ली दुर्ग में भेज दिया, तब उसने अमीर खॉ को दुर्गाध्यक्ष नियत कर खिलअत, घोड़ा, अमीर खॉ की पदवी, सात सहस्र रुपये और दो हजारी ५०० सवार का मंसब दिया। १ म वर्ष में यह मुरादबख्श को ग्वालियर दुर्ग में पहुँचा कर शाही सेना में लौट आया। अजमेर के पास के युद्ध में जब शेख मीर शाही सेना में मारा गया तब अमीर खॉ को चार हजारी ३००० सवार का मंसब मिला। ३ रे वर्ष यह योग्य सेना के साथ बीकानेर के भूम्याधिकारी राव कर्ण को दंड देने पर नियत हुआ, जो शाहजहाँ के समय दक्षिण की सेना में नियत था पर औरंगजेब तथा दारा शिकोह के युद्ध में वहाँ से बिना आज्ञा के अपने देश चला गया था। जब यह बीकानेर की सीमा पर पहुँचा तब राव कर्ण को, जो सम्मानपूर्वक आकर उपस्थित हो गया था, दरबार लिया लाया। ४ थे वर्ष यह महाबत खॉ के स्थान पर काबुल का शासक नियत हुआ और इसे खिलअत, खास तलवार और मोती जड़ी कटार, एक फारसी घोड़ा, खास हाथी और पाँच हजारी ५००० सवार का मंसब, जिसमें एक सहस्र दो अस्प: सेह

अस्प: थे, मिला । ६ ठे बर्ष में बादशाही लवाजिमे के काश्मीर से लाहौर आने पर यह दरबार बुलाया गया और कुछ दिन बाद इसे उक्त प्रांत पर जाने की छुट्टी मिली । ८ वें वर्ष यह दूसरी बार दरबार आज्ञानुसार आया, इस पर कृपा हुई और काबुल लौट गया । ११ वें वर्ष यह वहाँ से हटाया गया तथा दरबार आया । इसने त्यागपत्र दे दिया था, इसलिए राजधानी में रहने लगा । १३ वें वर्ष सन् १०८० हि० ( १६६९-७० ई० ) में यह मर गया । इसे कोई लड़का न था इसलिए शोक के खिलभत इसके भाई शेख मीर खवाफी के लड़कों को दी गई ।

---

## ५८. अमीर खॉ मीर इसहाक, उमदतुल् मुल्क

यह अमीर खॉ मीरमीरान का लड़का था। आरंभ में इसकी पदवी अजीजुल्ला खॉ थी। महम्मद फर्रुखसियर के साथ जहाँदार शाह के युद्ध में अच्छी सेवा की, जिससे विजय के बाद शब्दाध्यक्ष और शिकारी चिड़िया घर का दारोगा नियत हुआ। महम्मद शाह के दूसरे वर्ष जब हुसेन अली खॉ बादशाह के साथ दक्षिण को रवाना हुआ तब यह कुतुबुल्मुल्क के साथ दिल्ली चला आया। इसके अनंतर जब कुतुबुल्मुल्क सुलतान इब्राहीम को साथ लेकर बादशाह का सामना करने पहुँचा तब उक्त खॉ हरावल में नियत था। कुतुबुल्मुल्क के पकड़े जाने पर यह एक बाग में जा छिपा। इसी समय यह सुन कर कि सुलतान इब्राहीम बड़ी दुर्दशा में उसी घाटी में घूम रहा है तब इसने उसको बाग में लाकर बादशाह को प्रार्थना पत्र लिखा और उक्त सुलतान को अपने साथ ले जाकर कृपापात्र बन गया। उक्त राज्य में बहुत दिनों तक तीसरा बख्शो रहा। बादशाह विषय वासना में मस्त था इसलिए इसकी रंगीन बातें बादशाह को बहुत पसंद आई और इस कारण बादशाही मजलिस का एक सभ्य हो गया। क्रमशः इसको अच्छा मंसब और उमदतुल् मुल्क की पदवी मिल गई। बादशाह स्वयं कुछ काम नहीं देखते थे इसलिए दूसरे सरदारों ने इससे ईर्ष्या करके बादशाह से बहुत सी चुगली खाई, जिससे यह सन् ११५२ हि० में इलाहाबाद का शासक

नियत हो गया । सन् ११५६ हि० (१७४३ ई०) में बुलाए जाने पर वहाँ से लौटा और इस पर शाही कृपा अधिक हुई । इसकी प्रार्थना पर अवध का सूबेदार सफदर जंग, जिन दोनों में बड़ी मित्रता थी, दरबार बुलाया जाकर तोपखाने का दारोगा नियत हुआ । ये दोनों एक मत होकर मुहम्मद शाह को अली मुहम्मद खॉं रुहेला पर चढ़ा ले गए, जिसका वृत्तांत अलग दिया गया है, परंतु एतमादुद्दौला कमरुद्दीन खॉं के वैमनस्य के कारण कुछ न कर सके । उस समय सबके मुख पर यही था कि यह वजीर हो । २३ जीहिज्जा सन् ११५९ हि० को यह बुलाए जाने पर दरबार गया । जब दीवान खास के दरवाजे पर पहुँचा तब इसके एक नए नौकर ने इसको जमघर से मार डाला । यह हाजिर जवाबी और विनोद में एक था । बादशाह की मुसाहिबत किसी को भी काम नहीं आती । बहुत से गुणों में यह कुशल था । शैर भी कहता था और अपना उपनाम 'अंजाम' रखा था । उसका एक शैर यों है—  
सुखी लोगों के समूह के विषय में मैं खाक जानता हूँ ।  
कि आराम से सोने के लिए ईंट के सिवा दूसरा तकिया नहीं है ॥



## ५६. अमीर ख़ाँ मीर मीरान

यह खलीलुल्ला ख़ाँ यज्दी का लड़का था। इसकी माता हमीदा बानू बेगम सैफ ख़ाँ की पुत्री और यमीनुद्दौला आसफ ख़ाँ की दौहित्री थी। शाहजहाँ के १९ वें वर्ष में पॉच सदी १०० सवार की तरकी होकर इसका मंसब डेढ़ हजारी ५०० सवार का हो गया और यह मोर-तुजुक नियत हुआ। ३१ वें वर्ष में खलीलुल्ला ख़ाँ जब दिल्ली का अध्यक्ष नियत हुआ तब इसे मोर ख़ाँ की पदवी और पिता के साथ जाने की आज्ञा मिली। औरंगजेब के राज्यकाल में यह अपने पिता की मृत्यु पर मंसब में तरकी पाकर जम्मू के पार्वत्य प्रांत का फौजदार नियत हुआ। १० वें वर्ष में यह मुहम्मद अमीन ख़ाँ मोर बख़शी के साथ नियत हुआ, जो यूसुफ जई की बहाई पर जा रहा था। सेनापति ने इसे एक टुकड़ी के साथ लंगर कोट के पास शहबाज गढ़ के प्रांत में भेजा और इसने यूसुफजइओं के गाँवों को लूट लिया और तब कड़ामार पहाड़ के मैदान में आकर अन्य कई ग्रामों में आग लगा दी। यह बहुत से पशुओं के साथ पड़ाव पर लौटा। १२ वें वर्ष में यह हसन अली ख़ाँ के स्थान पर मंसबदारों का दारोगा नियत हुआ। इसी वर्ष अलीवर्दी ख़ाँ आलमगीरी की मृत्यु पर यह इलाहाबाद का अध्यक्ष नियत हुआ और इसको चार हजारी ३००० सवार का मंसब मिला, जिसमें सवार दो अम्पा थे। १४ वें वर्ष में यह अपने पद से हटाया जाने पर दरबार आया और उसी कारण-

वरा यह कुछ दिन के लिए मंसब से भी हटाया गया। वसो वर्ष यह फिर बहाल हुआ और इस पर फिर कृपा हुई। १७ वें वर्ष में इसे एरिज के फौजदारी की नियुक्ति मिली पर इसने अस्वीकार कर दिया, जिससे इसका मंसब छिन गया और यह एकांतवास करने लगा। १८ वें वर्ष में यह फिर कृपा में लिया गया, अमीर खॉ की पदवी पाई और मंसब बढ़ा। इसे बिहार का शासन मिला। वहाँ इसने शाहजहाँपुर और कांतगोला के आलम, इस्माइल और अन्य अफगानों को दंड देने में प्रयत्न किया और जब वे एक दुर्ग में छिपे हुए थे तब उनको पकड़ लिया। १९ वें वर्ष यह दरबार आया और शाह आलम बहादुर की काबुल पर चढ़ाई में साथ गया।

बहुत दिनों से यह प्रांत अफगानों के बस जाने के कारण उपद्रवों का स्थल बन गया था। अकबर के समय यह ऐसा विशेष रूप से हो गया था। प्रत्येक अवसर पर यहाँ विद्रोह हो जाता। इन विद्रोहात्मक जीवों को नष्ट करने के लिए कई बार शाही सेनाओं ने अपने घोड़ों के खुरों से इसे कुचला। जब बदला और रक्तपात से यह भर उठता तब यद्यपि इनमें से बहुत से दूर चले जाते पर बिनगारी नहीं बुझती थी और पुरानी बातें फिर उठ जाती थीं। सईद खॉ बहादुर जफर जंग ने बहुतसे कांटे जड़ से निकाल दिये और बाद को शाहजहाँ की सेना राजधानी काबुल आई तथा बलख वदख्शों को विजय करने को बराबर सेनाएँ यहाँ से होकर जाती आती रहीं। यहीं से कंधार की चढ़ाई पर की सेनाएँ गईं। इन अवसरों पर बहुत से अफगानों ने उपद्रव करना छोड़ कर अधीनता के अंचल के नीचे सम्मान का पैर रखा। बहुत से



उपद्रवियों ने, जो अपनी भूमि में रहते थे और जिन्होंने कभी  
 कर देना स्वीकार नहीं किया था, अधीनता स्वीकार कर ली।  
 संक्षेप में यह हुआ कि उस प्रांत का कार्य शांत रूप से चलने  
 लगा और प्रकट रूप में वहाँ शांति रहने लगी। इसके बाद  
 औरंगजेब के समय में जब प्रांताध्यक्षगण आलसी तथा आराम-  
 पसंद होने लगे तब अफगानों ने फिर सिर उठाया और बर्रे के  
 खोते बन बैठे। वे चींटियों तथा टिड्डियों से संख्या में बढ़ कर  
 थे और कौबों तथा चीलों के समान उस प्रांत पर टूट पड़े  
 क्योंकि शाही सेनाओं ने इन बलवाइयों से लुट जाना स्वीकार  
 कर लिया और सब अफसरगण इनसे सामना होने पर अपने  
 को लुट जाने या मरने देते थे पर सामना नहीं करते थे। अंत में  
 शाही सेना का झंडा हसन अब्दाल पहुँचा और बहुत से उपाय  
 सोचे गए पर वैमनस्य का सूत्र नहीं निकल सका। लाहौर लौटने  
 पर शाहजादा मुहम्मद मुअज्जम शाह आलम बहादुर इस कार्य के  
 लिए चुने गए। शाहजादे ने अपनी दूरदर्शिता से या गुप्त ज्ञान से,  
 जैसा कि भाग्यवानों को बहुधा होता है, यह निश्चय कर कि उस  
 प्रांत की शांति-स्थापन अमीर खॉ की नियुक्ति से संबद्ध है, इस  
 बात को दरबार को लिखा। २० वें वर्ष में ४ मुहर्रम सन् १०८८  
 हि० ( २१ फरवरी सन् १६७७ ई० ) को आजम खॉ कोका  
 के स्थान पर उक्त खॉ प्रांताध्यक्ष नियत हुआ। अगर खॉ हरावल  
 में था और पेशावर के पास ही से अफगानों को दंड देना आरंभ  
 किया गया। इसके बाद सेना लमगानात पहुँची। अगर खॉ ने उस  
 स्थान के आसपास अफगानों को मारने के बड़ी त्तमता दिखलाई  
 और एमल खॉ से दृढ़ युद्ध किया, जिसने शाह की पदवी

धारण कर पहाड़ों में अपने नाम का सिक्का ढाला था। इसने अपना साहस हृदय से डँटे रहने में दिखलाया, जब कि उसके साथी भाग गए थे। करीब था कि वह मारा जाता पर उसके कुछ हितैषियों ने उसका हित साधन कर उसकी बाग पकड़ ली और उस भयानक स्थान से उसे निकाल ले गए। अमीर खॉं ने अपनी सेना की शक्ति दिखला कर क्रमशः उन सभ्यता के राज्य के अजनबियों के प्रति ऐसी शांति-पूर्ण तथा सद्य कार्यवाही की कि उन जातियों के मुखियों ने अपना बहशीपन तथा जंगलीपन छोड़ दिया और बिना भय के इससे आकर मिलने लगे। उन सबका हिसाब ठीक कर लिया और अपने बाईस वर्ष के शासन में वह कभी किसी घटना में नहीं पड़ा और न कभी नीचा देखा। ४२ वें वर्ष के १७ शव्वाल सन् ११०९ हि० ( २७ अप्रैल सन् १६९८ ई० ) को यह मर गया। यह इमामिया धर्म का था और ईरान के विद्वानों तथा साधुओं के लिए बहुत धन भेजता था। यह राजधानी में अपने पिता के मकबरे में गाड़ा गया। यह बुद्धि तथा दूरदर्शिता से पूर्ण अफसर था। अच्छा होता यदि इसके समय के मुंशी और विचारवान लोग इसके हृदय के हाशिए से उपायों के चित्र, पूरे या अधूरे ले सकते। उसकी विचार-शक्ति राज्य के हृदय से उपद्रव का ओछापन हटा देती और उसकी अनुक्रम-ढँगली समय की नाड़ी पहचान लेती तथा नस को पकड़ लेती, जिससे विद्रोह सो जाता। उसके योग्य हाथों ने अत्याचारियों के हाथों को अधीनता स्वीकार करायी और उसके कम रूपी पैरों ने डांकेजनी के पैरों को दबा दिया। उसने शक्ति की नीवें गिरा दी। उसने अत्याचार के डैनों को काट डाला। ऊँचा भाग

भी सुप्राप्ति है। अपने विचारों के बाग में उसने जो कलम लगाने सभी फल देने वाले पेड़ हो गए। उसकी कार्य-पट्टी पर ऐसा कुछ न लिखा, जो सफल न हुआ हो। उसकी आशाओं के पृष्ठ पर ऐसा कुछ नहीं दिखलाया, जो पूरा न हुआ हो। इसने कृपा की डोरी से अफगान मुखियों को, जो अपने गर्दन तथा शिर आकाश से भी ऊँचा रखते थे, ऐसा खींचा कि वे आज्ञाकारी हो गए और सचाई तथा मित्रता से उन जंगलियों को ऐसा वश किया कि वे उसके शासन के शिकारबंद के स्वतः अनुगामी हो गए। अपने सत्य विचार के जादू से उस जाति के मुखियों में आपसकी लड़ाई की शतरंज बिछ गई और वे एक दूसरे पर दूट पड़े। आश्चर्य तो यह था कि ये सभी अपना कार्य ठीक करने में अमीर खॉं से राय लेते थे।

कहते हैं कि एक बार कुछ अफगान जाति एमल खॉं के झंडे के नीचे नहीं आईं। उस पार्वत्य प्रांत के हर एक आदमी कई दिन का खाना लेकर उपस्थित हो गए। बड़ा शोरगुल मचा और बहुत लोग जमा हो गए। काबुल के सूबेदार की सेना को इसका सामना करना असंभव था। अमीर खॉं कष्ट में पड़ गया और अबदुल्ला खॉं खेशगी से, जो मंसबदारों तथा सहायकों का एक मुखिया था और चालाकी तथा धूर्तता में प्रसिद्ध था, प्रत्येक जाति के मुखियों को भूटे पत्र इस आशय के लिखवाए कि 'हमलोग बहुत दिनों से किसी गुप्त भलाई के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि साम्राज्य अफगानों को मिल जाय। ईश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए कि वह आशा पूरी हो रही है। शरतु जिस मनुष्य को गद्दी पर बैठाना चाहते हो उसके स्वभाव

से हम लोग परिचित नहीं है। यदि वह साम्राज्य के योग्य हो तो हमें लिखिए, हम भी उसके पास चले क्योंकि मुगलों की सेवा लाभ-रहित है।' उत्तर में उन सब ने एमल खॉ की प्रशंसा लिख कर इसे आने को बहुत तरह से लिखा। अब्दुल्ला खॉ ने प्रत्युत्तर में फिर लिखा कि 'ये गुण उत्तम हैं पर राज्य-कार्य में सर्वोत्तम गुण हर जाति की प्रजा के लिए समान न्याय तथा विचार है। इसकी जाँच के लिए कृपा कर पूछिए कि यह प्रांत विजय करने पर वह उसे किस प्रकार सब जातियों में वितरित करेगा। यदि ऐसा करने में वह हिचके या पक्षपात करे तो वह बात प्रत्यक्ष हो जायगी।' जातियों के मुखियों ने इस राय पर कार्य करना आरंभ किया और एमल खॉ को समाचार भेजा। वह एक छोटे से प्रांत को इतने आदमियों में किस प्रकार बाँटे, इसी विचार में पड़ गया, जिससे उससे झगड़ा हो गया। बहुत सी मूर्ख तथा साधारण प्रजा चल दी। अंत में उसे बाध्य होकर अँटवारा आरंभ करना पड़ा। इसमें भी प्रकृत्या अपने दलवालों का उसने पक्ष लिया तथा संबंधियों पर कृपा की, जिससे झगड़ा बढ़ गया। हर एक मुखिया अपने देश को चला गया और अब्दुल्ला खॉ को न मिलने के लिए लिखता गया।

अमीर खॉ की स्त्री का नाम साहिब जी था, जो अलीमर्दान खॉ अमीरुल् उमरा की पुत्री थी। वह अपनी बुद्धिमत्ता तथा कार्यज्ञान के लिए अजीब स्त्री थी। राजनीति तथा कोष-कार्य में भाग लेती और काम करने में अच्छे योग्यता दिखलाती। कहते हैं कि जिस रात्रि को अमीर खॉ की मृत्यु का समाचार औरंगजेब को मिला, उसने तत्काल अर्शाद खॉ को बुलाया, जो

बहुत दिन काबुल में दीवान रह चुका था और अब खालसा का दीवान था, और कहा कि बड़ी दुःखप्रद घटना अर्थात् अमीर खॉ की मृत्यु हो गई है। वह प्रांत जो किसी भी सीमा तक विद्रोह तथा उपद्रव के लिए तैयार रहता है, अरक्षित पड़ा है और यह भय है कि दूसरे शासक के पहुँचने तक वहाँ बलबा हो जाय। अर्शाद खॉ ने हठ किया कि अमीर खॉ जीवित है, तब बादशाह ने शाही रिपोर्ट उसके हाथ में दे दिया तब उसने कहा कि 'मैं यह स्वीकार करता हूँ पर उस प्रांत का शासन साहिब जी ही का है। जब तक यह जीवित है तब तक उपद्रव की आशंका नहीं।' औरंगजेब ने तुरंत उस योग्य प्रबंधकर्त्ता को लिखा कि शाहजादा शाह भालम के पहुँचने तक वह प्रबंधकार्य देखे।

कहते हैं कि उस अशांत प्रांत में शासकों का आना जाना खतरे से खाली नहीं था, तब एक मृत प्रांताध्यक्ष के पड़ाव का सुरक्षित निकल जाना असंभव था। इस कारण साहिब जी ने अमीर खॉ की मृत्यु इस प्रकार छिपा ली कि उसकी कुछ भी खबर न उड़ी। उसने अमीर खॉ से मिलते जुलते एक आदमी को पेनादार पालकी में बैठा दिया और मंजिल मंजिल कूच आरंभ कर दिया। प्रतिदिन सैनिकगण उसे सलाम करते और छुट्टी लेते। जब पार्वत्य प्रांत से बाहर आ गए तब शोक कार्य पूरा किया गया।

कहते हैं कि बहादुर शाह के पहुँचने तक, और इसमें बहुत समय लग भी गया था, साहिब जी ने उस प्रांत के शासन का बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा था। अमीर खॉ का शोक मनाने के लिए बहुत से मुखिये आए थे। उसने उन

सबको बड़े सम्मान से अपने पास ठहरा रखा था और अफगानों के पास समाचार भेजा कि 'वे अपनी प्रथा के अनुसार कार्य करें और उपद्रव तथा डाँकूपन से दूर रहें और अपने स्थान से न बढ़ें। नहीं तो गेंद तथा मैदान प्रस्तुत है। यदि मैं जीती तो मेरा नाम प्रलय तक बना रहेगा।' उन सबने इसका औचित्य समझ लिया और अपनी प्रतिज्ञा तथा शपथ दुहराया और अधीनता से अलग नहीं हुए।

विश्वासपात्र आदमियों की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि यह पवित्र स्त्री अपने यौवन में एक तंग गली में पालकी पर जा रही थी कि एक शाही हाथी, जो सबमें मुखिया था, अपने पूर्ण घंमड़ में उसके सामने आ पहुँचा। शांति रक्षकों ने उसे लौटाना चाहा पर महावत ने नहीं रोका, क्योंकि उसकी जाति घंमड़ से खाली नहीं और उसपर हाथी के बादशाही होने से उसका घंमड़ और भी बढ़ गया था। उसने हाथी को आगे बढ़ाया और यद्यपि इधर के मनुष्यों ने अपने हाथ तूणीरों पर रक्खे पर हाथी ने अपनी सूँड़ पालकी पर रख दिया और उसे मरोड़ कर कुचळ डालना चाहा। वाहकगण पालकी भूमि पर रख कर भाग गए। वह बहादुर स्त्री पास के एक सर्राफ की दूकान पर चढ़ गई और उसे बंद कर लिया। अमीर खॉ कई दिनों तक भारतीय लज्जा के कारण क्रुद्ध रहा और उससे अलग होना चाहा पर शाहजहाँ ने उसकी भर्त्सना की और कहा कि 'उसने मर्दाना काम किया और अपनी तथा तुम्हारी प्रतिष्ठा बचाई। यदि हाथी उसको अपने सूँड़ में लपेट कर तमाम संसार को दिखाता तो कैसे उसकी प्रतिष्ठा बच रहती।'

अमीर खॉ को साहिब जी से कोई संतान नहीं थी और

उसकी इसपर पूरी हुकूमत थी इसलिए यह बहुत छिपा कर रखे ली रखे था, जिनसे बहुत संतान थी। अंत में साहिबजी को यह मालूम हुआ और उसने उनपर दया कर उनका पालन किया। अमीर खॉं की मृत्यु के दो वर्ष बाद काबुल का कार्य संपादित कर वह बुर्हानपुर आई। उसे मक्का जाने की आज्ञा मिल चुकी थी इस लिए वह अमीर खॉं के पुत्रों को दरबार भेज कर सूरत बंदर की ओर चल दी। इसके बाद जब अमीर खॉं की संपत्ति जौंची गई तब साहिब जी को दरबार आने की आज्ञा भेजी गई पर आज्ञा पहुँचने के पहिले उसका जहाज छूट चुका था। उसने मक्का में बहुत धन बाँटा था इसलिए वहाँ के शासक तथा अन्य लोग इसकी बड़ी प्रतिष्ठा करते। अमीर खॉं के बड़े पुत्र को मीर खॉं की पदवी और एक हजारी ६०० सवार का मंसब मिला तथा उसका विवाह बहरमंद खॉं मीर बख्शी की पुत्री के साथ हुआ। बहादुर शाह के समय में यह आसफुद्दौला का नायब होकर लाहौर का शासक नियत हुआ। उसका एक दूसरा पुत्र मिरजा जाफर भकीदत खॉं था, जो बहादुर शाह के समय में पटना का शासक और बाद को शाहजादा अजीमुद्दौला का बख्शी नियत हुआ था। मिरजा इब्राहीम, मरहमत खॉं और मिरजा इसहाक अमीर खॉं की जीवनी, जो अपने अन्य भाइयों से विशेष प्रसिद्ध हुए और ये दोनों तथा रुहुल्ला खॉं द्वितीय की स्त्री खदीजा बेगम एक माता से थे, अलग दी गई है। अन्य पुत्रों ने इतनी भी प्रसिद्धि नहीं प्राप्त की। जैसे हादी खॉं मरहमत खॉं की नायबी में पटने गया, सैफ खॉं पुर्निया का फौजदार हुआ और असदुल्ला खॉं निजामुलमुल्क आसफजाह की प्रार्थना पर दक्षिण का बख्शी बनाया गया।

## ६०. अमीर खॉ सिंधी

इसका नाम अब्दुल् करीम था और यह अमीर अबुल्कासिम नमकीन के पुत्र अमीर खॉ का लड़का था। जब इसका पितामह भक्कर में शासन करते समय वहीं रह गया तब अपना समाधि स्थल वहीं बनवाया। इसका पिता भी ठट्टा प्रांत में मरा और अपने पिता के पास गाड़ा गया। इस कारण इस वंश के बहुत से आदिमियों का वह प्रांत जन्मस्थान तथा शिक्षालय रहा। इसी लिए इसने नाम में सिंधी अल्ल लगाया। ये वास्तव में हिरात के सैयद थे, जैसा कि इसके पूर्वजों के वृत्तांत में लिखा जा चुका है। अमीर खॉ की जीवनी में भी यह लिखा जा चुका है कि उसे भी अपने पिता के समान बहुत सी संतान थी। सो वर्ष की अवस्था में भी वह लड़के पैदा करने में न चूका। मीर अब्दुल् करीम भाइयों में सबसे छोटा था। केवल अमीरों के लड़के या खान:जाद ही बादशाहों की खास सेवा में रह सकते थे और इसी लिए खवास कहलाते थे। अमीर खॉ पहिले एक खवास हुआ और बाद को खवासों का दारोगा हुआ। इसकी जन्म पत्री में उन्नति तथा सम्मान लिखा था, इससे यह २६ वें वर्ष में जब बादशाह के आने से औरंगाबाद खुजिस्ता-बुनियाद कहलाया, तब यह निमाज के स्थान का दारोगा नियत हुआ। इसके बाद इस कार्य के साथ सात चौकी का रत्नक नियत हुआ। बादशाह ने इसको और तरक्की देने के विचार से इसे नक्काश-



खाने का दारोगा नियुक्त कर दिया। २८ वें वर्ष के अंत में इसका दोष पाया गया और यह निमाज स्थान की दारोगा-गिरी से हटाया गया। २९ वें वर्ष में जब शाहजादा शाहआलम बहादुर और खानजहाँ ने तैलंग के सुलतान अबुल्हसन की सेना को परास्त कर हैदराबाद नगर पर अधिकार कर लिया तब अमीर खॉं शाहजादे तथा सर्दारों के लिए खिलअत और रत्न आदि लेकर भेजा गया। कुछ और खास लोग भी मार्ग में साथ हो गए। जब वे हैदराबाद से चार कोस पर पहुँचे तब शेख निजाम हैदराबादी उन पर ससैन्य टूट पड़ा। नजाबत खॉं और असालत खॉं, जिन्हें जफराबाद के अध्यक्ष कुलीज खॉं ने मार्ग प्रदर्शक के रूप में दिया था, शत्रु से पहिचान रहने के कारण उनसे जा मिले। रत्न, खिलअत और दूसरी वस्तु तथा व्यापार का सामान और साथ के आदिमियों का कुल असबाब कारवों के सामान सहित लुट गया। मीर अब्दुल्करीम घायल होकर मैदान में गिरा और कैद होकर अबुल्हसन के सामने लाया गया। चार दिन बाद इसे गोलकुंडा से शाहजादे के पड़ाव तक, जो हैदराबाद के पास था, पहुँचा कर लानेवाले लौट गए। मुहम्मद मुराद खॉं हाजिब यह सुन कर इसे अपने घर लाया और उससे अच्छा बर्ताव किया। जब इसके घाव अच्छे हुए तब यह शाहजादे के पास उपस्थित हुआ और जो जबानी समाचार इससे कहे गए थे उसे कहा। यहाँ से छुट्टी लेने पर यह खानजहाँ बहादुर के साथ गया, जो दरबार बुलाया गया था और साम्राज्य की चौखट पर सिर रगड़ा। गोलकुंडा के घेरे में कंप-कोष का करोड़ी शरीफ खॉं दक्षिण के चारो प्रांतों का कर उगाहने पर नियत हुआ तब

अमीर खॉ उसका नायब नियुक्त हुआ। उसी समय यह दंड का अभ्यक्ष भी नियत हुआ। ३३ वें वर्ष में दरबार आने पर कोष करोड़ी के कार्यके पुरस्कार में, जिसमें इसने कमी तथा मँहगी के स्थान पर आबिन्त्य और सस्ती दिखलाई थी, इसे मुलतफत खॉ की पदवी मिली। इसके बाद ख्वाजा ह्यात खॉ के स्थान पर यह आबदार-खाना का अभ्यक्ष हुआ। ३६ वें वर्ष में यह वजीर खॉ शाहजहानी के पुत्र अनवर खॉ के स्थान पर ख्वासों का दारोगा नियत हुआ और एक हजारी मंसब पाया। यह औरंगजेब के मुँह लगापन तथा उसकी प्रकृति समझने के कारण अपने समय के लोगों की ईर्ष्या का पात्र हो गया। ४५ वें वर्ष में इसे खानजाद खॉ की पदवी मिली और बाद को उसमें मीर भी जोड़ा गया। इसके अनंतर मीर खॉ की पदवी हुई। ४८ वें वर्ष में तोरण दुर्ग विजय पर इसे अपने पिता की पदवी अमीर खॉ मिली। उस समय बादशाह ने कहा कि 'तुम्हारे पिता मीर खॉ ने अमीर खॉ होने पर एक अक्षर "अलिफ" जोड़ने के कारण एक लाख रुपया शाहजहाँ को नजर दिया था, तुम क्या देते हो?' उसने उत्तर दिया कि 'पवित्र व्यक्तित्व के लिए हजारों हजारों जीवन बलिदान हों। मेरा जीवन तथा संपत्ति बादशाह के लिए ही है।' दूसरे दिन उसने याकूत लिपि में लिखा कुरान उपहार दिया, जिस पर बादशाह ने कहा कि 'तुमने ऐसी वस्तु भेंट दी है कि यह पृथ्वी और इसमें का कुल सामान मिल कर उसकी बराबरी नहीं कर सकता।' वाकिनकेरा लेने पर इसका मंसब पाँच सौ बढ़ कर तीन हजारी हो गया। औरंगजेब के राज्य के अंत काल में यह उसका साथी था और मुसाहिबी तथा विश्वास

में, जो इस पर था, इससे कोई बढ़ कर नहीं था। दिन रात यह साथ रहता। मन्नासिरे-आलमगोरी में लिखा है कि बाकिनकेरा से तीन फ़ोस पर देवापुर में बादशाह बीमार हुआ और रोग इतना तीव्र था कि कभी-कभी वह प्रलाप करने लगता। उसकी अवस्था नब्बे तक पहुँच गई थी, इस लिए सब निराश होने लगे और देश भर इस विचार से कि क्या होगा घबड़ा उठा।

अमीर खॉ कहता है कि 'किस प्रकार उसने एक दिन बादशाह को, जब वह बहुत निर्बल था, यह शैर बहुत धीरे धीरे कहते सुना—

जब तुम अस्सी या नब्बे वर्ष को पहुँच गए।

तब इस समय में तुम बहुत कष्ट पा चुके ॥

जब तुम सौ वर्ष की अवस्था को पहुँचो।

तब जीवन के रूप में यह मृत्यु है ॥

जब यह मेरे कान में पड़ा तब मैंने झट कहा कि बादशाह जीवित रहें, शेख गंजवी निजामी ने ये शैर कहे थे पर वे इस शैर की भूमिका थे—

तब यह बेहतर है कि तुम प्रसन्नता रखो।

और उस प्रसन्नता में ईश्वर का ध्यान करो ॥

बादशाह ने कहा कि 'शैर को तुहराओ।' मैंने ऐसा कई बार किया तब उन्होंने लिख कर देने का इशारा किया। मैंने लिख कर दिया और उन्होंने देर तक पढ़ा। शक्तिदाता ने उन्हें शक्ति दी और सुबह वह अदालत में आए। बादशाह ने कहा कि तुम्हारे शैर ने हमें पूर्ण स्वस्थता दी और निर्बलता के बदले ताकत दी।'

खॉ तीव्र मेधाशक्ति तथा अच्छी विचार शक्ति का पुरुष

था। बीजापुर के घेरे के लिए एक दिन बादशाह तख्ते रखाँ पर एक दमदमा देखने जा रहे थे, जो दीवाल के बराबर ऊँचा किया गया था और किले से गोले उस नालकी पर से निकल जा रहे थे। उस समय अमीर खाँ ने, जो केवल जाय निमाज खाने का दारोगा मात्र था और प्रसिद्ध नहीं हुआ था, यह तारीख तुरंत बताया और कागज के एक टुकड़े पर पेन्सिल से लिख कर भेंट किया। 'फत्हे बीजापुर जूदे मीशवद' अर्थात् बीजापुर शीघ्र विजय होगा। ( सन् १०९९ हि० सन् १६८८ ई० )। बादशाह ने इसको शुभ सगुन माना और कहा। 'खुदा करे ऐसा हो' उसी सम्राट में दुर्ग वालों ने अधिकार दे दिया। गोलकुंडा दुर्ग लेने पर अमीर खाँ ने यह तारीख कहा, 'फत्हे किला गोलकुंडा मुबारक बाद' अर्थात् गोलकुंडा दुर्ग की विजय मुबारक हो (सन् १०९९ हि०)। इसकी भी बादशाह ने प्रशंसा की। इसमें घमंड तथा ऐंठ के दुर्गुण थे इसलिए इसने अहंकार की टोपी की चोटी अपने अविनय के शिर पर टेढ़ी रखा। यद्यपि यह छोटे मंसब का था पर मुख्य अफसरों से भी अपने को ऊँचा समझता था। उसका ऐसा प्रभाव बढ़ गया था कि उच्चतम अफसर भी इसकी प्रार्थना करता था। जब यह आज्ञा दी गई कि उनके सिवा, जिन्हें शाही सरकार से पालकी दी गई थी, कोई शाहजादा या अफसर, जिन्हें पालकी में सवार होने का स्वत्व प्राप्त है, गुलालवार में भीतर न आवे, तब इसको जिसे उस समय मुत्तफत खाँ की पदवी मिली थी और जुम्लतुल मुल्क असद खाँ दोनों को थोड़े ही दिनों बाद पालकी पर भीतर आने की आज्ञा मिल गई। इसके बाद बहरमंद खाँ, मुखलिस खाँ और रुहुला खाँ को

भी आज्ञा मिल गई। इससे ज्ञात हो जाता है कि इसका कितना प्रभाव था और बादशाह के हृदय में इसका कैसा स्थान था। इसका विश्वास भी बहुत था। इसकी आज्ञा पर व्यापारी लोग हर एक प्रांत का माल आधे और तिहाई दाम पर भेज देते थे। यह इसे समझ जाता और गुप्त रूप से जाँच कर ठीक दाम मालूम कर लेता था। औरंगजेब की मृत्यु पर इसने मुहम्मद आजमशाह का साथ दिया पर इसके पास सेना तो थी ही नहीं इसलिए यह सामान के साथ ग्वालियर में रह गया। जब बहादुर शाह बादशाह हुआ और पहिले के अफसरों को चाहे वे अनुगामी या विरोधी थे, तरक्की मिली तब अमीर खों को भी तीन हजारी ५०० सवार का मंसब मिला पर इसका वह प्रभाव तथा ऐश्वर्य नहीं रह गया। यह निराश्रय सा हो गया और आगरा दुर्ग की अध्यक्षता स्वीकार कर एकांतवासी हो गया और न देखने योग्य को नहीं देखा। मुनइम खों खानखानों ने, जो गुण तथा सद्गुणता में अपने समय का अद्वितीय था, इसके पुराने समय का विचार कर इसे आगरा की अध्यक्षता दी। बाद को उस पद से हटाया जाकर यह केवल दुर्ग का अध्यक्ष रह गया।

मुहम्मद फरुखसियर के राज्य के मध्य में बारहा के सैयदों के कारण जब राज्य प्रबंध में ढिलाई पड़ने लगी और औरंगजेब के अफसरों से राय लेने की आवश्यकता पड़ी तब इनायतुल्ला खों, हमीदुद्दीन खों बहादुर और मुहम्मद नियाज खों सभी पर फिर कृपा हुई तथा अमीर खों भी आगरे से बुलाया गया और खवासों का दारोगा नियुक्त हुआ। बादशाह के गह्वे से उतारे जाने पर जब बारहा के सैयदों के हाथ में राज्य की बागडोर

चली गई तब अमीर खॉं अफजल खॉं के स्थान पर सदरुसुदूर नियत हुआ। कहते हैं कि कुतुबुल् मुल्क इसके पहिले प्रभाव का विचार कर इसकी प्रतिष्ठा करता रहा और अपने मसनद के कोने पर बैठाता था। इसी समय इसकी मृत्यु हुई। इसके एक भी पुत्र ने ख्याति नहीं पाई। वे अपने पिता की कमाई ही से संतुष्ट थे। केवल अबुल् खैर खॉं ने खानदौरों ख्वाजा आसिम के संबंध के कारण मृत बादशाह के समय खॉं की पदवी पाई और अपना ऐश्वर्य बनाए रखा। यह उक्त खानदौरों के साथ ही रहता था। अमीर खॉं के बड़े भाई जियाउद्दीन खॉं का पौत्र मीर अबुल्लूफा इसके लड़कों से अधिक प्रसिद्ध हुआ। औरंगजेब के राज्य के अंत में यह जायनिमाज खाना का दारोगा नियत होकर सम्मानित हुआ। बादशाह इसकी योग्यता तथा बुद्धि की तीव्रता को समझता था। इसीसे एक दिन शाहजादा बहादुर शाह का प्रार्थना पत्र, जो संकेताक्षरों में लिखा था, बादशाह के पास आया, पर वह संकेत ज्ञात नहीं था, इससे बादशाह ने अपनी खास डायरी मीर को देकर कहा कि 'इसमें दो तीन संकेतों का विवरण हमने लिखा है, जिनसे मिलान कर इसका अर्थ लिख लाओ, मीर ने अपनी बुद्धि तथा शीघ्रता से संकेताक्षर का पता लगा उसे लिख डाला और बादशाह को दे दिया, जिसने उसकी प्रशंसा की।

## ६१. अरब खाँ

इसका नाम नूरमहम्मद था। शाहजहाँ के राज्य-काल में इसे मंसब मिला और तीसरे वर्ष में जब बुर्हानपुर में बादशाह थे और तीन सेनाएँ तीन सेनापतियों के अधीन खानजहाँ लोदी को दंड देने के लिए और निजामुल्मुल्क दक्षिणी के राज्य को लूटने के लिए भेजी गईं, जिसने खानजहाँ को शरण दी थी, तब यह आजम खाँ के साथ भेजा गया था। इसके बाद यह दक्षिण की सेना में नियुक्त हुआ और ७ वें वर्ष में जब शाहजादा शुजाब परदेदा लेने के लिए दक्षिण आया और खानजहाँ आगे भेजा गया तब यह जफर नगर में ५०० सवारों के साथ मार्ग की रक्षा के लिए नियत हुआ। उस वर्ष के अंत में इसे अरब खाँ की पदवी और डेढ़ हजारी ८०० सवार का मंसब मिला। ९ वें वर्ष जब फिर बादशाह दक्षिण गए और साहू भोंसला को दंड देने और आदिलशाह का राज्य लूटने को सेना भेजी गई तब यह खानदौरों के साथ गया और आदिल खाँ के मनुष्यों को दंड देने में अच्छा कार्य किया। १० वें वर्ष दो हजारी १५०० सवार दो अस्पा सेह अस्पा का मंसब हो गया और फतहाबाद धारवर का दुर्गाध्यक्ष नियत हुआ। इसके बाद ५०० सवार की तरफ़ी हुई। २४ वें वर्ष में डंका मिला। इसके अनंतर जब धारवर दुर्ग की रक्षा करते हुए इसको सत्रह वर्ष हो गए तब यह २७ वें वर्ष सन् १०६३ हि० (१६५३ ई०) में मर गया। इसका पुत्र किलेदार खाँ था, जिसका वृत्तांत अलग दिया हुआ है।

---

## ६२. अरब बहादुर

अकबर के समय में यह पूर्वीय जिलों में एक अफसर था और अपनी बहादुरी तथा लाभदायक सेवा के लिए इसने नाम कमाया। बिहार में पर्गना सहस्रावें इसे जागीर में मिला था। उस और के अफसरों ने जब बलवा किया तब इसने भी राज-द्रोह को घूल अपने माथे पर डाली और विद्रोह कर दिया। २५ वें वर्ष में जब बंगाल के प्रांताध्यक्ष मुजफ्फर खॉं ने खान-जहाँ हुसेन कुली का सामान दरबार भेजा और बहुत से सैनिक तथा व्यापारी साथ थे, तब मुहिब्ब अलीखॉं ने कारवाँ के बिहार पहुँचने पर ह्श खॉं को कुछ सैनिकों के साथ उसकी रक्षा को भेजा। अरब ने कारवाँ का पीछा किया और चौसाघाट से उसके पार होने पर उन हाथियों को जो पीछे पड़ गए थे, इसने लूट लिया। इसके बाद इसने उक्त प्रांत के दीवान राय पुरुषोत्तम पर उस समय आक्रमण किया, जो बक्सर में सिपाही भर्ती कर रहा था और जब वह गंगा के किनारे पूजा कर रहा था। उसने अपनी रक्षा की, पर घायल होकर मैदान में गिर पड़ा और दूसरे दिन मर गया। मुहिब्बअली ने जब यह सुना तब वह आकर अरब से लड़ा और उसे भगा दिया। इसके अनंतर दरबार से शहबाज खॉं वहाँ भेजा गया और उसने दलपत उज्जैनिया के राज्य में पहुँच इसे परास्त कर सआदत अली खॉं को कंतिर के दुर्ग में नियत किया, जो रोहतास के अंतर्गत है। अरब ने दलपत से मिलकर दुर्ग पर आक्रमण किया। घोर युद्ध हुआ, जिसमें सआदत अली खॉं अपना कार्य करते हुए



मारा गया। अरब बहादुर ने नीचता से उसका कुछ खून पिया और कुछ अपने सिर में लगाया। इसके बाद यह मासूम खॉं फरखुंदी से जा मिला और शहबाज खॉं के साथ के दो युद्धों में योग दिया। उसके परास्त होने पर अलग हो संभल में उपद्रव मचाने लगा। वहाँ के जागीरदारों ने मिलकर इससे युद्ध किया, जिससे यह परास्त हो गया। तब यह बिहार गया और खानआजम कोका की भेजी हुई सेना से हार कर भागा। इसके बाद यह जौनपुर गया। जब राजा टोडरमल का पुत्र गोवर्द्धन अकबर की आज्ञा से इसे दंड देने गया तब यह पहाड़ों में चला गया। इसके अनंतर बहराइच के पार्वत्य भाग में दुर्ग बनाकर यह रहने लगा। लूटमार कर लौटने पर यहीं माल जमा करता। एक दिन यह धावे में गया हुआ था। भूम्याधिकारी खड्गाराय ने अपने पुत्र दूलहराय को दुर्ग पर भेजा। अरब बहादुर के दरबानों ने इसे अरब ही समझा और नहीं रोका। जमींदार के सैनिकों ने सब माल लूट लिया। वे लौट रहे थे कि अरब, जो घात में बैठा हुआ था, उनके पहुँचते ही उन्हें छितर बितर कर दिया। दूलहराय, जो पीछे रह गया था, आ पहुँचा और इसे परास्त कर दिया। अरब और दो आदमी एक स्थान पर गिरे तथा जमींदार ने वहाँ पहुँच कर अरब को समाप्त कर दिया। यह घटना ३१ वें वर्ष सन् १९४ हि० ( १५८६ ई० ) में हुई थी। शेख अबुल फजल अकबरनामे में लिखता है कि इसके तीन दिन पहिले अरब नामक मीर शिकार भेतम में गिर गया था, तब बादशाह दोआब में चिनहट में थे और वहाँ कहा कि 'मैं समझता हूँ कि अरब के दिन समाप्त हुए।' \_\_\_\_\_

## ६३. अर्शद खाँ मीर अबुल् अला

यह अमानत खाँ खवाफी का भौजा और संबंधी था और बहुत दिनों तक काबुल प्रांत में नियत था। औरंगजेब के ४२ वें वर्ष में दरबार आकर क़िफ़ायत खाँ के स्थान पर खालसा का दीवान हुआ। अपनी सचाई, दियानतदारी और कार्य-कुशलता से बादशाह का विश्वासपात्र हो गया, जिससे और लोग इससे ईर्ष्या करने लगे। द्वेषी आकाश किसी की सफलता को प्रसन्न आँखों से नहीं देख सकता और सदा मनुष्य की इच्छारूपी शीशे के घर पर पत्थर फेंकता रहता है। इसने कुछ दिन भी आराम से व्यतीत नहीं किये थे कि ४५ वें वर्ष सन् १११२ हिजरी ( सन् १७०१ ई० ) में मर गया। इसके बड़े पुत्र मीर गुलाम हुसेन को क़िफ़ायत खाँ की पदवी मिली थी। इसके दो लड़के थे, जिनमें से एक मीर हैदर था, जिसको अंत में पिता की पदवी मिली और दूसरे मीर सैयद मुहम्मद को उसके दादा की पदवी मिली।

---

## ६४. अर्सलॉ खॉ

यह अलावर्दी खॉ प्रथम का पुत्र था और इसका नाम अर्सलॉ कुली था। औरंगजेब के ५ वें वर्ष में यह ख्वाजा सादिक बख्शी के स्थान पर बनारस का फौजदार हुआ। ७ वें वर्ष ठट्टा प्रांत में यह सिबिस्तान के फौजदार जियाउद्दीन खॉ के स्थान पर नियत हुआ और एक हजारी ९०० सवार का मंसब बढ़ा कर मिला, जिसमें ७०० दो अस्पा सेह अस्पा थे, तथा अर्सलॉ खॉ की पदवी मिली। १० वें वर्ष में यह सुलतानपुर बिलहरी का फौजदार हुआ और दो हजारी ८०० सवार दो अस्पा सेह अस्पा का मंसबदार हुआ। ४० वें वर्ष में ५०० सवार बढ़े। इससे अधिक वृत्तांत नहीं मिला।

---

## ६५. मुल्ला अलाउलमुल्क तूनी उर्फ फ्राजिल खाँ

यह प्रकृति संबंधी तथा मस्तिष्क के विषयों में अपने समय के अद्वितीय पुरुषों में से था। भूगोल तथा ज्योतिष के ज्ञान में सबसे बड़ा-बड़ा था। अपने गुणों के आधिक्य और अपने सुव्यवहार के कारण यह विद्वानों में मान्य समझा जाता था। शाहजहाँ के ७ वें वर्ष में फारस से हिन्दुस्तान आकर नवाब आसफजाह के पास पहुँचा, जो स्वयं अनेक गुणों का कोष था और उसकी मुसाहिबी में रहने लगा। उस सद्गुरु की मृत्यु पर १५ वें वर्ष बादशाही सेवा में भर्ती हो पाँच सदी ५० सवार का मंसबदार हुआ।

लाहौर की साढ़े अड़तालीस कोस लंबी नहर अलीमरदान खाँ के एक अनुयायी द्वारा, जो इस काम को अच्छी तरह जानता था, रावी नदी के उद्गम के पास से उक्त खाँ की तत्त्वावधानता में एक लाख रुपये व्यय करके लाई गई थी पर उस शहर के आस पास तक पानी नहीं पहुँचता था इसलिए एक लाख रुपया और इस काम के लिए दिया गया। इसमें से भी काम के न जानने के कारण पचास सहस्र रुपये मरम्मत में खर्च हो गए और लाभ कुछ भी न हुआ। मुल्ला अलाउलमुल्क ने, जो अन्य विद्याओं के साथ इस काम को भी जानता था, पुराने नहर के पाँच कोस को उसी प्रकार रहने देकर तीस कोस नया खुदवाया और तब लाहौर में बिना रुकावट के काफी पानी आने

लगा । १६ वें वर्ष यह दीवान तन नियत हुआ । १९ वें वर्ष दारोगा अर्ज नियत हुआ । इसके अनंतर खानसामों नियत हुआ और बराबर तरकी होती रही । बलख और बदख्शां पर अधिकार होने के पहिले उस प्रांत के विजय होने का नजूम से पता लगाकर शाहजहाँ से कह चुका था । उक्त प्रांत के विजय होने पर इसका मंसब बढ़कर दो हजारी ४०० सवार का हो गया । २३ वें वर्ष फाजिल खॉं पदवी मिली । २८ वें वर्ष तीन हजारी मंसब-दार हो गया ।

७ रमजान सन् १०६८ हि० ( १६५८ ई० ) को ३२ वें वर्ष में जब दाराशिकोह आलमगीर से युद्ध कर लौटा और विजयी शाहजादा युद्ध-स्थल से दो कूच पर नूरमंजिल बाग में, जो आगरे के पास है, आकर ठहरा तब शाहजहाँ ने फाजिल खॉं को अत्यंत विश्वासपात्र और उस समय इसे अपना खास आदमी समझकर लिखित फरमान के साथ जबानी संदेश देकर औरंगजेब के पास भेजा । इसका विवरण संक्षेप में यह है कि 'जो कुछ भाग्य में लिखा था वही हुआ । उन सब निश्चय रूप से होने वाले कार्यों को ध्यान में न रखना अपने को पहचानना और खुदा को जानना है । कठिन रोग से मुक्ति मिली है और वास्तव में दूसरा जीवन मिला है, इसलिए मिलने की बड़ी इच्छा है, जल्दी भेंट करने आओ ।' फाजिल खॉं ने अच्छे विचार और दोनों पक्ष की भलाई की इच्छा से बादशाही फरमान और संदेश देकर इस प्रकार मीठी बातों की कि शाहजादा पिता की सेवा में जाने के लिए तैयार हो गया और प्रणाम करने तथा सेवा में पहुँचने के बारे में प्रार्थना-पत्र लिख भेजा । फाजिल खॉं के जाने के बाद

कुछ सर्दारों ने उसके विचार बदलवा दिए। जब दूसरी बार उक्त खॉं आनंददायक संदेश शाहजहाँ की ओर से लाया तब यहाँ का दूसरा रंग देखा और उसके बहुत कुछ समझाने पर भी कोई आशा नहीं पाई गई। अंत में जो होनेवाला था वही हुआ। औरंगजेब को फाजिल खॉं की बुद्धिमानी और राजभक्ति पर पूरा विश्वास था इसलिए शाहजहाँ के जीवन ही में स्वभाव पहचानने और भाषा ज्ञान के कारण बादशाह की पेशकारी और बयूतात का काम उसे सौंपा। द्वितीय जुलूस के दूसरे वर्ष इसका मंसब चार हजारी २००० सवार का हो गया और दीवान-कुल तथा प्रधान मंत्री के संबंध के बड़े बड़े कागज तथा फरमान इसके प्रबंध में रहने लगे। इसके अनंतर कुछ संदेशों के साथ शाहजहाँ के पास भेजा गया। चौथे वर्ष शाहजहाँ के भेजे हुए रत्नों और जड़ाऊ बर्तनों को औरंगजेब के पास ले गया। पाँचवें वर्ष पाँच हजारी मंसबदार हो गया। ६ ठे वर्ष जब बादशाह काश्मीर में थे तब दीवानी कार्यों के मुतसद्दी रघुनाथ के समय में मर गया।

उक्त खॉं अपने गुणों, बुद्धिमत्ता तथा गांभीर्य के कारण मंत्री के उच्च पद के योग्य था। १५ जीकदः सन् १०७३ हि० को उस उच्च पद पर नियत हुआ। यह ईर्ष्यालु आकाश, जो पुराना शत्रु और संसार को कष्टकर है तथा सदा योग्य पुरुषों से वैमनस्य रखता है, उक्त खॉं को जैन नहीं लेने दिया, जिसे मंत्रित्व का खिलअत अच्छी तरह शोभा देता था। इस सेवा के स्वीकार कर लेने के बाद इसके पेट में शूल उठा और थोड़े समय में बहुत तीव्र हो गया। इसकी अवस्था बहुत ही चुकी थी और

इसमें बीमारी के सहन करने के लिए शक्ति नहीं रह गई थी, इसलिए कोई दवा लाभदायक न हुई। उसी महीने की २७ को केवला सत्रह दिन मंत्री रहकर यह मर गया। इसकी वसीयत के अनुसार शव लाहौर भेजकर इसके बनवाए हुए मकबरे में बाग के बीच गाड़ा गया। कहते हैं कि मंत्री होने के कुछ दिन पहिले इसने कहा था कि मैं वजीर हूँगा परंतु अवस्था साथ न देगी। दीवान होने के बाद प्रायः यह शौर कहता—

शौर

बाँधकर उम्मीद निकला पर नहीं कुछ फायदा।

है नहीं उम्मीद फिर लौटेगी बीती उम्र अब ॥

कहते हैं कि फाजिल खॉं ने नजूम से शाहजहाँ और औरंगजेब के विषय में जो कुछ लिखा था वह प्रायः ठीक उतरा। कहते हैं कि उस घटना की भी, जो ४० वें वर्ष के अंत में खवासपुर में आलमगीर को पहुँची थी, सूचना दे दी थी और उसको दमन करने में किसी ने कुछ नहीं छोड़ा था। यह हर एक को अपनी शक्ति और योग्यता से कुछ न समझता था। कहते हैं कि एक दिन शाहजहाँ 'बेहबिहिशत' नामक नहर को सौर को निकला, जो नई खुदकर दिल्ली पहुँची थी। सादुल्ला खॉं भी साथ था। बातचीत में जैसा साधारणतः कहा जाता है उसने नहर कहा। फाजिल खॉं ने कहा कि नह कहना चाहिए। सादुल्ला खॉं ने जवाब में कलमा 'अनल्लाहो मुबतलैकुमबिअहर' पढ़ा। फाजिल खॉं ने अन्याय-पूर्वक हठकर कहा कि अरबी का एक शौर इसका गवाह है। बादशाह ने कहा कि क्या कुरान की

( २७५ )

मान्यता शैर से कम है । फाजिल खॉ चुप हो रहा । इसे संतान नहीं थी इसलिये इसकी मृत्यु पर इसके भतीजे बुरहानुद्दीन को, जो इसी बीच ईरान से अपने चचा के पास आया था, योग्य मंसब मिला । उसका वृत्तांत अलग लिखा जायगा ।

---



## ६६. अलिफ खॉँ अमान बेग

यह वंश परंपरा से चगत्ताई बर्लास था। इसके पूर्वजों ने तैमूरी वंश की सेवा की थी। तैमूर का एक विश्वासी अफसर अली शेर खॉँ इस का पूर्वज था। इसका पिता मिर्जा जान बेग, जिसका स्वभाव ऐसा बिगड़ा कि उसका चरित्र खराब हो गया, खानखानों मिर्जा अब्दुरहीम की सेवा में था और अच्छा पद पा चुका था। जब वह मरा तब अमान बेग ने अपने पूर्वजों की प्रथा को पुनर्जीवित किया और शाहजहाँ का सेवक हो गया। इसे डेढ़ हजारी १५०० सवार का मंसब मिला और यह कंधार का दुर्गाध्यक्ष नियत हुआ। यह इस पद पर बहुत दिन रहा और २६ वें वर्ष में इसे अलिफ खॉँ की पदवी मिली। उसी वर्ष सन् १०६३ हि० ( १६५३ ई० ) के अंत में यह मर गया। इसे युवा योग्य लड़के थे। इनमें एक कलंदर बेग था, जिसे पहिले शाहजहाँ के समय छः सदी मंसब मिला था। दाराशिकोह के साथ के पहिले युद्ध के बाद, जो आगरा जिले में इमादपुर के पास सामूगढ़ में हुआ था, इसे औरंगजेब से खॉँ की पदवी मिली और बीदर प्रांत के कल्याण दुर्ग का अध्यक्ष नियत हो कर यह दक्षिण चला गया। यह मानों वैसा था कि यह वंश दरबार में दुर्गाध्यता के लिए नियत किया गया था। खॉँ तथा उसके लड़के दक्षिण के दुर्गों की रक्षा में जीवन व्यतीत करते रहे। कल्याण में बहुत दिनों तक रह कर यह अहमदनगर में नियत हुआ और १५ वें वर्ष में मुख्तार खॉँ के स्थान पर यह जफराबाद बीदर दुर्ग का फौजदार तथा अध्यक्ष नियत हुआ।

जब नल दुर्ग शाही सेवकों के हाथ में आया तब यह उसका अध्यक्ष नियत हुआ । इसके बाद अंत में यह गुलबर्गा दुर्ग का अध्यक्ष हुआ और सैयद मुहम्मद गेसू दराज के मकबरे के रक्त से जरा सी बात पर बिगड़ गया, जिसमें मार काट तक नौबत पहुँच गई । बीजापुर विजय के एक वर्ष पहिले यह मर गया । इसके लड़कों में, जो सब अपने काम में लगे थे, मिर्जा पर्वेज बेग मुलखेड़ ( मुजफ्फरनगर ) दुर्ग का अध्यक्ष था, जो गुलबर्गा से आठ कोस पर है । दूसरा नूरुलअग्रॉ था, जिसे जानबाज खॉ की पदवी मिली थी और जो बाद को पहिले दादा की और फिर पिता की पदवी से प्रसिद्ध हुआ । यह आरंभ में मुर्तजाबाद मिरिच दुर्ग का अध्यक्ष हुआ और इसके बाद बंकापुर के अंतर्गत नसीराबाद धारवर की अध्यक्षता के समय इसकी मृत्यु हुई । परंतु पर्वेज बेग सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ । पहिले इसे भी जानबाज खॉ की पदवी मिली पर बाद को बेगलर खॉ कहलाया । यह कई दुर्गों का अध्यक्ष रहा । जब आँकर फीरोज गढ़ विजय हुआ तब यह उसका अध्यक्ष नियत हुआ पर एक वर्ष भी न हुआ कि मर गया । इसके लड़कों में बेग मुहम्मद खॉ अदौनी का और मिर्जा मन्नाली गुलबर्गा का अध्यक्ष नियत हुआ । यहाँ से यह कंधार गया और मर गया । इसका पुत्र बुर्हानुद्दीन कलंदर बहुत दिनों तक मुलखेड़ का दुर्गाध्यक्ष रहा । यह किसी वस्तु को मूल्यवान नहीं समझता था और सीधा सदा कलंदर था । यह नश्वर पीले पत्थर को अनित्य चार दीवारों ही से संतुष्ट था, जिसे ईश्वर ने बनाया था ।

---

## ६७. अली अकबर मूसवी

यह मीर मुइज्जुल्मुल्क मराहदी का छोटा भाई था। अकबर के राज्यकाल में यह भी तीन हजारी मंसब पाकर अपने बड़े भाई के साथ बादशाही कार्य करता रहा। २२ वें वर्ष में इसने अकबर के सामने उसके जन्म की कहानी अर्थात् मौलूद नामा पेश किया, जिसे काजी गियासुद्दीन जामी ने लिखा था और जो अभिव्यक्ति तथा अन्यगुणों से विभूषित था और हुमायूँ के समय में सदर था। उसमें लिखा था कि बादशाह के जन्म की रात्रि में हुमायूँ ने स्वप्न देखा था कि खुदा ने उसे एक पुत्र प्रदान किया है और जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर नाम रखने को आज्ञा दी है। अकबर उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और मीर को कृपाओं से पुरस्कृत किया तथा नदिया पर्मना उसे दिया। उसके भाई की जागीर बिहार (आरा) में थी, उसमें इसे भी सभ्नी कर दिया। २४ वें वर्ष जब बिहार के बहुत से सरदार विद्रोही हो गए तब इन दोनों भाइयों ने पहिले उनका साथ दिया पर दूरदर्शिता से शीघ्र उनका साथ छोड़कर मुइज्जुल्मुल्क जौनपुर आया और मीर अली अकबर गाजीपुर से छः कोस पर जमानिया में ठहर गया। इस पर भी संदेशों और षड्यंत्रों से विद्रोह की ज्वाला भड़काती रही। जब इसके भाई की नाव २४ वें वर्ष में जमुना में डूब गई तब खानआजम को, जो बंगाल और बिहार का अध्यक्ष था, आज्ञा गई कि मीर अली

अकबर को कैद कर हथकड़ी बेड़ी सहित भेज दे । इसने कोक-लताश को चापलूसी तथा चालाकी से धोखा देना चाहा पर उस अनुभवी मनुष्य ने उसकी कहानियों का विश्वास न कर रत्नकों के अर्घीन दरबार भेज दिया । बादशाह ने दया कर प्राणदंड न दे उसे कैदखाने भेज दिया ।

---

## ६८. अली कुली खॉ अंदराबी

हुमायूँ का एक कृपापात्र था। जिस वर्ष में हुमायूँ ने बैराम खॉ के विषय में झूठी बातें सुनी थीं और काबुल से कंधार आया था, तभी अली कुली को काबुल का अध्यक्ष नियत किया था। इसके बाद यह हुमायूँ के साथ भारत आया और अकबर के राज्यांभ में अली कुली खानेजमों के साथ हेमू बक्काल की लड़ाई में उपस्थित था। इसके बाद ख्वाजा खिफ़ खॉ के साथ सिकंदर सूर की लड़ाई पर नियत हुआ और ६९ वें वर्ष में यह शम्शुद्दीन मुहम्मद खॉ अतगा के साथ बैराम खॉ का सामना करने गया। इसके सिवा और कुछ ज्ञात नहीं हुआ।

---

## ६९. अली कुली खानजमाँ

इसका पिता हैदर सुलतान उजबेक शैबानी था। जाम के युद्ध में इसने फारस वालों का साथ दिया था, जिससे वह एक अमीर बन गया। हुमायूँ के फारस से लौटने पर यह अपने दो पुत्रों अली कुली तथा बहादुर के साथ नौकर हो गया और कंधार लेने में अच्छा कार्य किया। जब बादशाह काबुल की ओर चले तब मार्ग में जल-वायु के वैपरीत्य से पड़ाव में महामारी फैली और बहुत से आदमी मर गए। इन्हीं में हैदर सुलतान भी था। अली कुली बराबर युद्धों में अच्छा कार्य करता रहा था और विशेषतः भारत विजय में खूब वीरता दिखलाई, जिससे अमीर पद पाया। जब कंबर कीबाना दोआब और संभल में कुछ आदमी एकत्र कर लूट मार करने लगा तब अली कुली उसे दमन करने को वहाँ नियत हुआ। इसने शीघ्र उसे पकड़ लिया और उसका सिर दरबार भेज दिया। अकबर के गद्दी पर बैठने के बाद अली कुली खौँ एक भारी अफगान सर्दार शाही खौँ से लड़ रहा था पर इसने जब हेमू के दिल्ली की ओर प्रस्थान करने का समाचार सुना, तब उसे अधिक महत्व का समझ कर दिल्ली की ओर चला गया। इसके पहुँचने के पहिले तर्ही बेग खौँ बरास्त हो चुका था। यह समाचार इसे मेरठ में मिला तब यह बादशाह के पास चला गया। अकबर भी हेमू के इस घमंड-पूर्ण कार्य को सुन कर पंजाब से लौट रहा था। अली कुली

हाजिर होकर दस सहस्र सवार के साथ हरावल नियत हो सरहिंद से आगे भेजा गया। दैवात् पानीपत में, जहाँ बाबर तथा सुलतान इब्राहीम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, घोर युद्ध हुआ और एकाएक एक तोर हेमू की आँख में धँस गया, जिससे उसकी सेना साहस छोड़कर भागी और अकबर तथा बैराम खॉं युद्ध-स्थल में पहुँचे थे कि उन्हें विजय का समाचार मिला। जिन अफसरों ने युद्ध में ख्याति पाई थी उन्हें योग्य पदवियाँ मिलीं और अली कुली को खानजमों पदवी तथा मंसब और जागीर में तरकी मिली। इसके बाद संभल के सीमाप्रांत में कई भारी विजय पाई और उस ओर लखनऊ तक के विद्रोही शांत हो गए। इसने बहुत संपत्ति तथा हाथी प्राप्त किये। ३ रे वर्ष एक ऊँटवान का लड़का शाहम बेग, जिसके शरीर का गठन सुंदर था और जिस कारण वह हुमायूँ के शरीर रक्षकों में नियत था तथा जिससे खानजमों का कुवृत्ति के कारण बहुत दिन से प्रेम था, दरबार से भागकर खानजमों के पास चला आया। खानजमों ने साम्राज्य के महस्व का ध्यान न कर और मावरुन्नहर की कुप्रथा के अनुसार उसे बादशाहम् ( मेरे राजा ) कहा करता तथा उसके आगे झुककर सलाम करता था। जब इन बातों का पता दरबार में लगा तब यह बुलाया गया और ऊँटवान के लड़के के विषय में इसे आज्ञाएँ दी गईं पर उनका इस पर कुछ असर नहीं हुआ। अली कुली के विषय में बादशाह के हृदय में मालिन्य आने का यहीं से आरंभ होता है। उसने इसकी कई जागीरों को दूसरे आदमियों को दे दिया पर खानजमों घर्मह तथा अहंता से हठी बन बैठा। बैराम खॉं ने उच्चाशयता से इस पर ध्यान नहीं

दिया पर मुल्ला पीर मुहम्मद खॉं शरबानी, जो खानखानों का वकील और सब अधिकारी था, खानजमा से चिढ़ता था। ४ थे वर्ष इसकी बची जागीर जब्त कर जलायर सरदारों को दे दी गई और यह जौनपुर में नियत किया, जहाँ अफगान षड्यंत्र रच रहे थे।

खानजमा ने अपने विश्वासी सेवक बुर्ज अली को क्षमा याचना करने तथा दरबार को शांत करने भेजा। प्रथम दिन पीर मुहम्मद खॉं ने, जो फिरोजाबाद दुर्ग में था, बुर्ज अली से झगड़ा करना शुरू किया और अंत में कहा कि 'इसे दुर्ग के मीनार से नीचे फेंक दें'। इससे उसका सिर फट गया। खानजमा ने समझा कि उसके शत्रु शाहम बेग के बहाने उसे नष्ट करना चाहते हैं। इसपर इसने उस निर्दोष को बिदा कर दिया और जौनपुर जाकर कई युद्ध कर उस विस्तृत प्रांत में शांति फैलाई। जब बैराम खॉं हटाया गया तब उस प्रांत के अफगानों ने यह समझ कर कि अब अवसर आ गया है, अदली के लड़के को गद्दी पर बिठा कर उसे शेरशाह की उपाधि दी। भारी सेना तथा ५०० हाथी के साथ जौनपुर पर आक्रमण किया। खानजमा ने चारों ओर से अफसरों को एकत्र कर युद्ध किया पर शत्रु विजयी होकर नगर को गलियों में घुस गए। खानजमा ने पीछे से आकर जो खोया था उसे पुनः प्राप्त कर लिया। शत्रु को भगाकर बहुत हाथी तथा लूट पाया। पर इसने इन दैवो विजयों में प्राप्त लूट को दरबार नहीं भेजा और साथ ही इसका घमंड बहुत बढ़ गया। अकबर पूर्वीय प्रांत की ओर ६ ठे वर्ष के जोकदा महीने ( जुलाई सन् १५६२ ई० ) में रवाना हुआ ।



खानजमों अपने भाई बहादुर खॉ के साथ कड़ा में, जो गंगा पार है, बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ और उस प्रांत की अमूल्य वस्तुएँ तथा प्रसिद्ध हाथी भेंट दिया, जिस पर उसे छोट जाने की आज्ञा मिली ।

इसी वर्ष फतह खॉ पटनी या पन्नी तथा दूसरों ने सलीम शाह के पुत्र को युद्ध की जड़ बनाकर बिहार में भारी सेना एकत्र की और खानजमों की जागीर पर अधिकार कर लिया । खानजमों दूसरे अफसरों के साथ वहाँ गया और युद्ध करने का अनवसर समझ कर सोन के किनारे दुर्ग को नींव डाली और मोर्चा बाँधा । अफगानों ने आक्रमण किया तब इसे बाध्य होकर बाहर निकल युद्ध करना पड़ा । युद्ध होते ही उन सब ने शाही सेना को परास्त कर दिया । खानजमों दीवाल की आड़ में था और यह मरना निश्चित कर एक बुर्ज पर गढ़ा तथा एक तोप छोड़ी । दैवात् वह गोला हसन खॉ पटनी के हाथी को लगा, जिससे सेना में बड़ा शोर मचा और सैनिक गण भागे । खानजमों को वह विजय प्राप्त हुई, जिसकी उसे आशा नहीं थी । संसार कैसा मदिरा के समान काम करता है । मिसरा— जो जैसा है वैसा ही होता है ।

खानजमों ने ऐश्वर्य तथा धन के बमंड में स्वामी का स्वत्व नहीं समझा और १० वें वर्ष उजबेग सर्दारों के साथ मिल कर विद्रोह कर दिया और उस प्रांत के जागीरदारों से लड़ाई आरंभ कर दी । बादशाही सेना के आने की खबर सुनकर गंगा पार गाजीपुर में पड़ाव डाला । अकबर जौनपुर आया और खानखानों मुनइम खॉ को उसपर भेजा । उस ईमानदार तुर्क ने खानजमों

की बनावटी क्षमा याचना स्वीकार कर ली और इसके लिए प्रार्थना की। ख्वाजाजहाँ के साथ, जो उसकी प्रार्थना पर खानजमाँ को शांत करने के लिए दरबार से भेजा गया था, यह एक नाव में बैठकर खानजमाँ से मिला पर उसने धूर्तता से स्वयं अकबर के सामने जाना स्वीकार नहीं किया और इब्राहीम खॉ को, जो रजबेगों में सबसे बड़ा था, अपनी माता तथा प्रसिद्ध हाथियों के साथ भेजा। यह भी उसी समय निश्चय हुआ था कि जब तक बादशाह लौटें तब तक वह गंगा पार न करे। पर उस अहममन्य आदमी ने बादशाह के लौटने की प्रतीक्षा नहीं किया और गंगा उतर कर अपनी जागीर पर अधिकार करने चला गया। अकबर मुनइम खॉ की भर्त्सना कर स्वयं उस पर रवाना हुआ। खानजमाँ यह सुनकर अपना खेमा, सामान आदि छोड़कर बाहर चल दिया। इसने वहाँ से फिर खान-खानों से क्षमा-प्रार्थना की और एक बार पुनः वह खॉ के द्वारा क्षमा किया गया। मीर मुर्तजा शरीफी और मौलाना अब्दुल्ला मखदूमुल्क खानजमाँ के पास गए और उससे दृढ़ तोबा कराया।

इसके बाद जब अकबर मुहम्मद हकीम की गड़बड़ी को दमन करने लाहौर गया तब खानजमाँ ने जिसकी नार ही विद्रोह में कटी थी, फिर विद्रोह किया और मुहम्मद हकीम के नाम खुतबा पढ़ा। उसने अबध सिकंदर खॉ और इब्राहीम खॉ को दिया तथा अपने भाई बहादुर खॉ को कड़ा मानिकपुर में आसफ खॉ और मजनुँ खॉ को रोकने भेजा। इसने स्वयं गंगा जी के किनारे तक के प्रांत पर अधिकार कर लिया और कन्नौज पहुँचा। इसने वहाँ के जागीरदार मुहम्मद यूसुफ खॉ मराहदी को शेरगढ़

में घेर लिया, जो कन्नौज से चार कोस पर है। इन भयानक समाचारों को सुन कर अकबर पंजाब से आगरा आया और तब पूर्व की ओर चला। खानजमाँ ने जब यह सुना तब इस बात पर कि उसने यह नहीं समझा था कि बादशाह इतनी शीघ्रता से लौटेंगे, यह शैर पढ़ा—

उसका सुनहले नाल वाला तेज घोड़ा सूर्य के समान है। कि पूर्व से पश्चिम पहुँच गया और बीच में केवल एक रात बीती।

यह निरुपाय होकर दुर्ग छोड़ बहादुर खाँ के पास मानिकपुर गया। यहाँ से परगना सिंगरौर की सीमा पर गंगा पर पुल बाँधकर उसे पार किया। बादशाह ने बरिया कस्बा से रवाना हो मानिकपुर में दस बारह आदमियों के साथ हाथी पर सवार हो गंगा पार किया। वह थोड़े मनुष्यों के साथ, जो लगभग एक सौ सवार के थे, शत्रु के पड़ाव के आध कोस पर पहुँच कर रात्रि के लिए ठहर गया। मजनुँ खाँ और आसफ खाँ अपनी सेना के साथ आ पहुँचे, जो हरावल था, और अकबर को बराबर एक के बाद दूसरा समाचार भेजते रहे। दैवयोग से उस रात्रि खानजमाँ और बहादुर खाँ एकदम असतर्क थे और अपना समय मदिरा पान करने में व्यतीत कर रहे थे। जो कोई बादशाह के शीघ्र कूच करने या पार पहुँचने का समाचार लाता वह कहानी कहता हुआ समझा जाता था। सुबह सोमवार १ ली हिज्जा सन् ९७४ हि० ( ९ जून १५६७ ई० ) को मजनुँ खाँ को दाईं ओर और आसफ खाँ को बाईं ओर रखकर सकरावल गाँव के मैदान में, जो इलाहाबाद के अंतर्गत है और बाद को फतहपुर कहलाया, खानजमाँ पर जा पहुँचे। अकबर बालसुंदर

हाथी पर सवार था। उसने मिर्जा कोका को अमारो में बिठा दिया और स्वयं महावत के स्थान पर जा बैठा। बाबा खॉं काकशाल ने पहिले घावे में शत्रु को भगा दिया और खानजमों पर जा पहुँचा। इस गड़बड़ी में एक भगैल खानजमों से टकरा गया, जिससे उसकी पगड़ी गिर गई। बहादुर खॉं ने बाबा खॉं पर आक्रमण कर उसे हटा दिया। इसी बीच बादशाह घोड़े पर सवार हुए। स्वामिद्रोही असफल होता है, इस कारण बहादुर पकड़ा गया और उसकी सेना भागी। खानजमों कुछ देर तक हटा रहा और अपने भाई का हाल पूछ ही रहा था कि एकाएक एक तीर उसे लगा। दूसरा तीर उसके घोड़े को लगा और वह गिर पड़ा। वह पैदल खड़ा होकर तीर निकाल रहा था कि मध्य के शाही हाथी आ पहुँचे। महावत सोमनाथ ने नरसिंह हाथी को उस पर रेला। खानजमों ने कहा कि 'हम सेना के सर्दार हैं, बादशाह के पास ले चलो, तुम्हें सम्मान मिलेगा।' महावत ने कहा 'तुम्हारे से हजारों आदमी बिना नाम या ख्याति के मर रहे हैं। राजद्रोही का मरना ही अच्छा है।' तब उसने इसको हाथी के पाँव के नीचे कुचल डाला। खानजमों के विषय में कोई कुछ नहीं जानता था, इसलिए बादशाह ने युद्ध स्थल ही में कहा कि जो कोई मुगल का एक सिर लावेगा उसे एक अशर्फी और एक हिंदुस्तानी का सिर लावेगा उसे एक रुपया मिलेगा। एक लुटेरा खानजमों का सिर काटकर लिए था कि मार्ग में दूसरे ने अशर्फी के लोभ से उससे उसे ले लिया। कहते हैं कि अर्जानी नामक एक हिंदू, जो खानजमों का प्रिय सेवक था, कैदियों में खड़ा सिरों को देख रहा था। जब उसने खानजमों

का सिर देखा तब उसे उठा लिया और अपने सिर पर उसे पटक कर बादशाह के घोड़े के पैर के पास उसे डाल कर कहा कि 'यही अली कुली का सिर है'। अकबर घोड़े से उतर पड़ा और ईश्वर को धन्यवाद दिया। दोनों भाइयों के सिर आगरे तथा अन्य स्थानों में दिखलाने के लिए भेजे गए।

किता का अर्थ:—

तुम्हारे शत्रुओं का सिर बख्शा जाय क्योंकि आप ही उनको सिर नहीं है। तुम्हारे शत्रु के सिर पर कविता किता किया (अर्थात् किता बनाया या काटा) क्योंकि उससे अच्छा वधस्थल नहीं है।

'फतह अकबर मुबारक' से तारीख निकली ( ९७४ हि० )।

दूसरे ने यह किता कहा है—

आकाश के अत्याचार से अली कुली और बहादुर मारे गए। ऐ प्रिय मुझ हृदयहीन से मत पूछो कि यह कैसे हुआ। उनके मारे जाने की तारीख अपनी वृद्ध-बुद्धि से पूछा तो हृदय ने 'आह खींची और कहा कि 'दो खून शुद' ( दो खून हुए )।

खानजमों का पाँच हजारी मंसब था और वह प्रसिद्ध तथा ऐश्वर्यशाली पुरुष था। साहस, कार्य शक्ति और युद्ध-कला के लिए वह विख्यात था। यद्यपि यह रजबेग था पर फारस में पालन होने तथा माता के ईरानी होने से यह शीआ था। यह इसके लिए कोई बहाना नहीं करता था। यह कविता करता था और इसका उपनाम 'सुलतान' था।

---

## ७०. अली ख़ाँ, मीरजादा

यह मुहतरिम बेग का लड़का और अकबर का एक अफसर था। इसे एक हजारी मंसब मिला और ९ वें वर्ष में यह अन्य अफसरों के साथ अब्दुल्ला ख़ाँ उजबेग का पीछा करने भेजा गया जो मालवा से गुजरात भाग गया था। १७ वें वर्ष में जब बादशाह गुजरात गए और खानकलों आगे भेजा गया तब अली ख़ाँ इसके साथ था। १९ वें वर्ष में जब बादशाह पूर्वीय प्रांत की ओर गए तब यह उसके साथ था। इसके बाद यह सेना के साथ कासिम ख़ाँ उर्फ कासू का पीछा करने भेजा गया, जो बिहार में अफगानों के एक दल के सहित उपद्रव मचा रहा था। इसने अच्छा कार्य किया और इसके बाद मुजफ्फर ख़ाँ के साथ प्रसिद्धि प्राप्त की। २१ वें वर्ष यह दरबार आया। २३ वें वर्ष जब शाहबाज ख़ाँ राणा प्रताप (कोका) को दमन करने गया तब यह भी उसके सहायकों में था। २५ वें वर्ष में खान आजम के साथ पूर्वीय जिलों में नियत हुआ। यहाँ इसने अच्छा कार्य नहीं किया, इसलिए ३१ वें वर्ष में कश्मीर के अध्यक्ष कासिम ख़ाँ के यहाँ भेजा गया। ३२ वें वर्ष में कश्मीरियों के साथ युद्ध करने में, जब सैयद अब्दुल्ला की पारी थी और शाही सेना परास्त हुई थी, यह सन् ९९५ हि० (१५८७ ई०) में मारा गया।

## ७१. अली गीलानी, हकीम

यह विज्ञानों का और मुख्यकर तिब तथा गणित का पूर्ण विद्वान था। यह अपने समय के योग्यतम हकीमों में से था। कहते हैं कि यह विदेश से बड़ी दरिद्रता में भारत आया। सौभाग्य से यह अकबर के सेवकों में भर्ती हो गया। एक दिन अकबर की आज्ञा से बहुत से रोगियों तथा पशु गद्दे का पेशाब शीशियों में इसके पास जाँच करने के लिए लाया गया। इसने सबका मिलान अपनी विद्वत्ता से किया और उस समय से इसकी प्रसिद्धि तथा प्रभाव बढ़ा, यहाँ तक कि यह बादशाह का अंतरंग मित्र हो गया। इसका प्रभुत्व बढ़ा और यह उच्चतम अफसरों के बराबर हो गया। इसके बाद यह बीजापुर राजदूत बनाकर भेजा गया। वहाँ का शासक अली आदिल शाह इसके स्वागत के लिए आया और इसे बड़े समारोह से नगर में ले गया। अपने राज्य की अलभ्य वस्तुएँ इसे भेंट दीं और बिदा करना चाहता था कि एकाएक सन् १८८ हि०, १५८० ई० ( २३ सफर, १२ अप्रैल ) को उसके जीवन का प्याला भर गया। यद्यपि फरिश्ता लिखता है कि इस घटना के पहिले हकीम अली गीलानी प्राप्त हुए योग्य भेंट को लेकर बिदा हो चुका था और उस समय हकीम ऐनुल-मुल्क शीराजी राजदूत होकर आया था तथा इस अवश्यम्भावी घटना के कारण बिना उपहार के लौट गया था। परन्तु इस ग्रंथ के लेखक की सम्मति में अत्यंत विद्वान् अबुल्लफजल का वर्णन ही ठीक है।

अली आदिल शाह के मारे जाने की घटना वैश्वित्र्य से रिक्त नहीं है, इसलिए उसका वर्णन यहाँ दे दिया जाता है। वह अपने वंश में अत्यंत न्याय प्रिय और उदार था पर इन उत्तम गुणों के होते वह व्यभिचारी भी था। सुंदर मुखों पर बहुत मत्त रहने के कारण बहुत प्रयत्नों के बाद बीदर के शासक से दो सुंदर खोजे माँग लिए। जब एकांत कमरे के अंधकार में उसकी विषय वासना प्रायः संतुष्ट हो चली थी तब उसने इन दोनों में से बड़े से अपनी कामवासना पूरी करने के लिए कहा। पवित्रता के उस रत्न ने अपनी प्रतिष्ठा तथा पवित्रता का विचार कर अपना शरीर उसे देना ठीक नहीं समझा और छूरे से सुलतान को मार डाला, जिसे उसने दूरदर्शिता से छिपा रखा था। यह आश्चर्यजनक है कि मौलाना मुहम्मद रजा मशाहदी 'रजाई' ने 'शाहजहाँ शुद्द शहीद' (सुलतान शहीद हुआ ९६८) में तारीख निकाली।

हकीम अली ने ३५ वें वर्ष में एक अजीब बड़ा तालाब बनवाया, जिसमें से होकर एक रास्ता भीतरी कमरे में जाता था। आश्चर्य यह था कि तालाब का पानी कमरे में नहीं जाता था। मनुष्य नीचे जाते और उसकी परीक्षा करने में कष्ट सहते तथा कितने इतना कष्ट पाते कि आधे रास्ते से लौट आते। अकबर भी देखने गया और कमरे में पहुँचा। यह तालाब के एक कोने में पानी के नीचे दो तीन सीढ़ी उतरा था कि वह कमरे में पहुँच गया। यह सुसज्जित तथा प्रकाशित था और उसमें दस बारह आदमियों के लिए स्थान था। सोने के लिए गद्दे, कपड़े आदि रखे थे। कुछ पुस्तकें भी रखी हुई थीं। हवा, जल का एक बूंद



भी भीतर नहीं आने देती थी। बादशाह कुछ देर तक भीतर रह गए, इससे बाहर वालों में विचित्र ख्याल पैदा होने लगा। ४० वें वर्ष तक हकीम को सात सदी का मंसब मिल चुका था। इसके सफल उपचार से संसार चकित हो जाता था। जब अकबर पेट चली रोग से ग्रसित था तब हकीम के उपाय निष्फल हो गए। बादशाह ने क्रुद्ध होकर उससे कहा कि 'तुम एक विदेशी पसारी मात्र थे। यहाँ तुम दरिद्रता का जूता उतार रहे हो। हमने तुमको इस पदवी तक इसीलिए पहुँचाया था कि तुम किसी दिन काम आवोगे।' इसके अनंतर अत्यधिक क्रुद्ध होने से दो बंद उस पर मारे। हकीम ने भोले में से कुछ निकाल कर पानी की एक सुराही में डाल दिया, जो तुरंत जम गया। उसने कहा 'हमारे पास ऐसी दवा है पर वह किस काम की जब वर्तमान रोग में लाभ ही नहीं पहुँचता।' बीमारी के कारण घबराहट तथा बेचैनी में बादशाह ने कहा कि 'चाहे जो हो यही दवा दे दो।' इस पर इस दवा के कारण शरीर में कब्जियत हो गई। इससे पेट में दर्द होने लगा और बेचैनी बढ़ गई। इस पर हकीमों ने फिर रेचक दिया, जिससे दस्त आने लगे और वह मर गया।

अकबर की इस बीमारी का आरंभ भी एक आश्चर्यजनक बात है। कहते हैं कि जहाँगीर के पास गिराँबार नामक एक हाथी था, जिसकी बराबरी शाही फौलखाने का कोई हाथी नहीं कर सकता था। सुलतान खुसरो के पास एक हाथी आपरूप था, जो युद्ध में प्रथम कोटि का था। इस पर अकबर ने आह्ला दी कि दोनों भारी पहाड़ लड़ें।

शौर—

दो लोहे के पहाड़ अपने अपने स्थान पर से हिले ।  
तुमने कहा कि पृथ्वी एक छोर से दूसरे छोर तक हिल गई ॥

बादशाह ने अपना एक खास हाथी रणथंभन सहायक नियत किया कि उनमें से यदि एक विजयी हो और महावत उसे न रोक सके तो यह आड़ से निकल कर पराजित की सहायता करे । ऐसे सहायक हाथी को तपांचा कहते हैं और यह बादशाह के आविष्कारों में से है । अकबर भरोखे में बैठकर तमाशा देखता था और शाहजादा सलीम तथा खुसरो घोड़ों पर सवार हो कर देख रहे थे । ऐसा हुआ कि गिराँवार ने खूब युद्ध के बाद प्रतिद्वंद्वी को दबा दिया । अकबर चाहता था कि तपांचा सहायता को आवे पर सलीम के मनुष्यों ने उसे रोका और रणथंभन पर पत्थर मारने लगे, जिससे महावत को जो बहादुरी से उसे आगे बढ़ा रहा था, एक पत्थर खिर पर लग गया और रक्त बहने लगा । दरबारियों ने जल्दी मचा कर बादशाह को घबड़ा दिया, जिससे उसने सुलतान खुर्रम को, जो पास में था, उसके पिता के पास भेजा कि जाकर कहे कि 'शाहबाबा कहते हैं कि वास्तव में सभी हाथी तुम्हारे हैं, तब क्यों यह असंतोष है ।' शाहजादे ने उत्तर दिया कि 'मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता और महावत को मारना हम भी नहीं उचित समझते ।' सुलतान खुर्रम ने कहा कि 'तब हम जाकर हाथियों को अतिशबाजी से अलग करा देते हैं ।' पर सब प्रयत्न असफल रहे । अंत में रणथंभन भी हार गया और आपरूप के साथ जमुना में घुस गया । सुलतान खुर्रम लौटा

और अकबर को मीठी बातों से शांत किया। इसी बीच सुलतान खुसरो शोर मचाता आया और अकबर से अपने पिता के विषय में कुवचन कहे, जिससे उसका क्रोध भड़क उठा। रात्रि भर वह ज्वर से बेचैन रहा और स्वास्थ्य बिगड़ गया। सुबह हकीम अली गीलानी बुलाया गया और अकबर ने कहा 'खुसरो के कुवाच्यों से हम क्रुद्ध हो गए और इस अवस्था को पहुँच गए।' अंत में ज्वर से पेट चली हो गया और उसकी मृत्यु का कारण हुआ।

कहते हैं कि बीमारी के अंत में हकीम अली ने तरबूज का पथ्य बतलाया था, इसलिए जहाँगीर ने राजगद्दी होने पर उसे बदनाम किया कि उसी के नुसखे ने उसके पिता को मारा है।

अपने राज्य के ३२ वर्ष ( सन् १०१८ हि०, १६०९ ई० ) में जहाँगीर भी हकीम अली के घर गया और तालाब देखा। उसका निरीक्षण कर लौटने के बाद हकीम अली पर फिर कृपा हुई और उसे दो हजारी मंसब मिला। इसके कुछ दिन बाद यह मर गया। कहते हैं कि यह प्रति वर्ष ६ सहस्र रुपये की दवा और पथ्य गरीबों में बाँटता था। इसके पुत्र हकीम अब्दुल् वहाब ने १५ वें वर्ष में लाहौर के कुछ सैयदों के विरुद्ध अस्सी हजार रुपयों का दावा किया, जिसे उसके पिता ने उन्हें ऋण दिया था। इसने एक काजी के मुहर सहित एक दस्तावेज तथा दो गवाह कानून के अनुसार दावा साबित करने को पेश किया। सैयदों ने इनकार किया पर उस दावे से बचना संभव नहीं था। आसफ खॉं इसे निपटाने को नियत हुआ। धूर्त डरता है, इसके अनुसार अब्दुल् वहाब ने

( २९५ )

सैयदों से संधि का प्रस्ताव किया। आसफ खॉ ने भी जॉच किया, जिससे अब्दुल्ल वहाब को सच्ची बात कहनी पड़ी कि उसका दावा मूठा है। इसपर उसका पद और जागीर छिन गई।

---

## ७२. अलीबेग अकबर शाही, मिर्जा

इसका जन्म तथा पालन बदरुशाँ में हुआ था और यह अच्छे गुणों से विभूषित था। जब यह भारत आया तब इसकी राजभक्ति का सिक्का अकबर के हृदय में जम गया और यह अकबर शाही को पदवी से सम्मानित हुआ। युद्ध में इसने प्रसिद्धि प्राप्त की। दक्षिण की चढ़ाई में यह शाहजादा सुलतान मुराद के साथ था। जब शाहजादा संधि कर अहमद नगर से लौटा तब ४१ वें वर्ष में सादिक खॉं ने बुद्धिमानी से महंकर में अपना निवासस्थान बनाया। अजदर खॉं और ऐन खॉं तथा अन्य दक्षिणियों ने उपद्रव मचाया। सादिक खॉं ने मिर्जा के अधीन चुनी सेना भेजी, जो एकाएक उनके पड़ाव पर टूट पड़ी और अखाड़ा के हाथी, स्त्रियों तथा बहुत सा लूट पाया। इस सफलता पर खुदावंद खॉं तथा अन्य निजाम शाही अफसरों ने दस सहस्र सवारों के साथ युद्ध करना निश्चय किया। गंगा के किनारे सादिक खॉं ने मिर्जा अलीबेग को हरावल में नियत कर पाथरी से आठ कोस पर युद्ध किया। मिर्जा ने एक दिवस बड़ी वीरता दिखाई और खुदावंद खॉं को परास्त कर दिया, जिसने पाँच सहस्र सेना के साथ आक्रमण किया था। ४३ वें वर्ष में दौलताबाद के अंतर्गत राहूतरा दुर्ग को एक महीने के घेरे पर ले लिया। इसी वर्ष में पत्तन कस्बा को इसने अपने प्रयत्न से विजय किया, जो गोदावरी के तट पर एक प्राचीन नगर है।

इसी वर्ष के अंत में लोहगढ़ दौलताबाद दुर्ग भी निजा प्रयास से ले लिया । ये दोनों दुर्ग पानी के अभाव से गिरा कर छोड़ दिए गए और अब तक वे उसी हाल में हैं । शेख अबुल् फजल के सेनापतित्व-काल की चढ़ाइयों में मिर्जा भी लड़ा था और अच्छा कार्य किया था । अहमदनगर के घेरे में शाहजादा दानियाल के सेवकों की बहुत सहायता की । ४६ वें वर्ष में इसे पुरस्कार में डंका-निशान मिला । इसके बाद खानखानों के साथ साथ बहुत दिनों तक दक्षिण में रहा । जहाँगीर के समय में चार हजारी मंसब के साथ काश्मीर का अध्यक्ष हुआ । इसके बाद इसे अवध की जागीर मिली और जब जहाँगीर अजमेर में था तब यह दरबार आया और मुईनुद्दीन के दरगाह की जियारत की । यह शाहबाज खों कंबू की कब्र में चिपट गया, जो उसके भीतर थी, और कहा कि यह हमारा पुराना मित्र था । इसके बाद वहीं मर गया और उसी स्थान पर गाड़ा गया । यह घटना ११ वें वर्ष के २२ रबीउल अठवल सन् १०२५ हि० ( ३० मार्च १६१६ ई० ) को हुई थी ।

यद्यपि यह कम नौकर रखता था पर वे सभी अच्छे होते और पूरी वेतन पाते । यह विद्वानों तथा पवित्र मनुष्यों का प्रेमी था । यह अफीमची था, इससे इसका मिष्टान्न विभाग अत्यंत सुव्यवस्थित था । इसके जलसों में अनेक प्रकार की मिठाइयों, पेय पदार्थ तथा पकान्न दिखलाई पड़ते थे । यह कविता प्रेमी था और कविता बनाता भी था ।

---

## ७३. अली मर्दान खाँ, अमीरुल् उमरा

इसका पिता गंज अली खाँ जिग कुर्दिस्तान-निवासी था। यह शाह अब्बास प्रथम का पुराना सेवक था। जब शाह अब्बास बच्चा था और हिरात में रहता था तब गंज अली मुख्य सेवक था और उसके राज्य में अच्छी सेवा तथा साहस से, जो उसने उजबेगों के साथ के युद्धों में दिखलाया था, उच्चपद पाया और अर्जुमंद बाबा पदवी मिली। यह तीस वर्ष तक किर्मान का शासक रहा। इसने बराबर न्याय तथा प्रजाप्रियता दिखलाई। जहाँगीर के समय जब शाह ने कंधार घेर लिया और पैंतालीस दिन में अब्दुल् अजीज खाँ नक़्शबंद से उसे ले लिया, तब उसका अधिकार इसी को मिला। एक रात्रि सन् १०३४ हि० ( १६२५ ई० ) में यह कंधार दुर्ग के बरामदे में सोया था और कोच बरामदे की रेलिंग से सटी हुई थी। रेलिंग टूटी और यह सोते तथा कुछ जागते बिना किसी के जाने हुए नीचे गिर पड़ा। कुछ देर के बाद इसके कुछ सेवक उधर आ गए और इसे मरा हुआ पाया। शाह ने उसके पुत्र अली मर्दान को खाँ की पदवी सहित कंधार का अध्यक्ष बनाया और उसे बाबा द्वितीय पुकारता।

शाह की मृत्यु पर जब उसका पौत्र शाह सफी गद्दी पर बैठा तब निरावार शंकाओं पर अब्बासी अफसरों को नीचे गिराया। अली मर्दान भी इस कारण डर गया और उसने यह सोचकर कि शाहजहाँ से मिल जाने ही में अपनी रक्षा है काबुल के



अमीरुलुमरा अली मर्दान खाँ

( पेज २६८ )





शासक सर्ईद खॉं से पत्र व्यवहार करने लगा । इसने दुर्ग की दीवारों तथा बुर्जों को दृढ़ किया और कोहलकः पर, जो कंधार दुर्ग का एक अंश है, एक दुर्ग चालीस दिन में बनवाया । जब शाह ने इसे सुना तब इसको नष्ट करने का विचार कर पहिले इसके पुत्र को बुला भेजा । अली मर्दान भेजने को बाध्य हुआ पर जब शाह ने जिन जिन पर शक था सबको मार डाला तब यह प्रकट में विद्रोही हो गया । शाह ने सियावश कुल्लर काशी को, जो मशहद भेजा गया था, इसके विरुद्ध भेजा । अलीमर्दान ने शाहजहाँ को प्रार्थना पत्र भेजा कि शाह उसका प्राण लेना चाहता है और यदि बादशाह अपने एक अफसर को भेज दें तो वह दुर्ग उसे सौंप कर दरबार आवे ।

११ वें वर्ष में सन् १०४७ हि० (१६३७—३८ ई०) में काबुल का अध्यक्ष सर्ईद खॉं, लाहौर का अध्यक्ष कुलीज खॉं तथा गजनी, भक्कर और सिविस्तान के अध्यक्ष आझानुसार कंधार चले । कुलीज खॉं के पहिले पहुँच जाने पर सर्ईद खॉं ने यह निश्चय किया कि जब तक सियावश कंधार के आसपास रहेगा तब तक लोग ठीक ठीक अनुगत न होंगे, इसलिए बचपि अलीमर्दान के साथ इसकी कुछ सेना आठ सहस्र सवार थी पर कंधार से एक फर्सख दूर पर इसने सियावश पर आक्रमण कर दिया, जिसके अधीन पाँच छः सहस्र सेना थी । घोर युद्ध हुआ और पारसीक ऐसे भागे कि उन सब ने तब तक बाग नहीं खींची जब तक वे अर्गन्दाब नदी के उस पार अपने पड़ाव तक नहीं पहुँच गए । सर्ईद खॉं ने उन्हें ठहरने का समय नहीं दिया और उन पर आक्रमण कर दिया, जिससे सब सामान छोड़कर वे चले गए । पारसियों के खेमों में

बहादुरों ने रात्रि व्यतीत की और सुबह सब सामान समेट कंधार लौट आए । कुलीज खों के पहुँचने पर, जो कंधार का अध्यक्ष नियत हुआ था, अली मर्दान दरबार गया और १२ वें वर्ष लाहौर में चौखट चूमी । आने के पहिले ही इसे पाँच हजारी ५००० सवार का मंसब, डंका तथा झंडा मिल चुका था, इसलिए उस दिन उसे छ हजारी ६००० सवार का मंसब दिया गया और एतमादुद्दौला का महल, जो अब खालसा हो गया था, मिला । इसके दस मुख्य सेवकों को योग्य मंसब मिले । विशेष कृपा के कारण अली मर्दान को, जो फारस के जलवायु में पला था और भारत की गर्मी नहीं सह सकता था, कश्मीर की अध्यक्षता मिली । जब बादशाह काबुल की ओर चले, तब अली मर्दान छुट्टी लेकर अपने पद पर गया । १३ वें वर्ष सन् १०४९ हि० ( सन् १६३९-४० ई० ) के आरंभ में लाहौर में जब बादशाह रहने लगे तब अली मर्दान को वहाँ बुला लिया और उसका मंसब सात हजारी ७००० सवार करके कश्मीर की अध्यक्षता के साथ पंजाब का भी प्रांताध्यक्ष नियत किया, जिसमें गर्मी तथा सर्दी दोनों ऋतुओं को वह आराम से ठंडे तथा गर्म स्थानों में व्यतीत कर सके । १४ वें वर्ष ( सन् १०५० हि० ) आश्विन सं० १६९८ में यह सर्ईद खों के स्थान पर काबुल का प्रांताध्यक्ष नियत हुआ । १६ वें वर्ष जब बादशाह आगरे में था तब यह वहाँ बुलाया गया और इसे अमीरुल् उमरा की पदवी दी गई तथा एक करोड़ दाम ( दार्द लाख रुपये ) और एतकाद खों का गृह इनाम में दिया गया । जमुना के किनारे अफसरों के बनवाए गृहों में यह सबसे अच्छा था और इसे एतकाद ने

कादशाह के कहने पर पेशकश के रूप में भेंट कर दिया था। इसके बाद इसे काबुल लौट जाने की आज्ञा मिली।

१८ वें वर्ष तर्दी अली कतगान ने, जो नज़र मुहम्मद ख़ाँ के पुत्र सुभान कुली ख़ाँ का अमिभावक था और जिसे नज़र मुहम्मद ख़ाँ ने यलंग तोश के स्थान पर कहमर्द तथा उसके पास के प्रांत का अध्यक्ष नियत किया था, जमींदावर के बिल्खियों पर दुष्टता से आक्रमण किया और हलमर्द के किनारे बसे हुए हजारों जाति को लूट लिया। इसके बाद बामियान से चौदह कोस पर ठहर गया कि अबसर मिलने पर दूसरा आक्रमण करे। अली मर्दान ने अपने विश्वासी सेवकों फरेंदू और फर्हाद को उस पर भेजा और वे कुर्ती से कूच कर उजबेग पड़ाव पर जा दूटे। कतगान लड़भिड़ कर भाग गया। उसकी स्त्री, उसके संबंधी और उसका कुल सामान छिन गया। इसी वर्ष अमीरुल् उमरा दरबार आया और बदख़शाँ जाकर उसे विजय करने की आज्ञा पाई, जहाँ नज़र मुहम्मद ख़ाँ अपने लड़के तथा सेवकों के विरुद्ध हो गया था। असाहत ख़ाँ मीर बख़शी उसके साथ नियत हुआ। अलीमर्दान ख़ाँ ने १९ वें वर्ष में एक सेना काबुल से कहमर्द पर भेजी। उस दुर्ग में बहुत कम आदमी थे, इसलिए वे बिना तीर-तलवार खोंचे भाग गए और उस पर अधिकार हो गया। यह सुनकर अमीरुल् उमरा काबुल की सेना के साथ रवाना हुआ। मार्ग में मालूम हुआ कि कहमर्द की सेना ने कादरता से उजबेग सेना के पहुँचते ही दुर्ग उसे दे दिया और रास्ते में एमाक आदि जातियों द्वारा लूट भी ली गई। ऐसी हालत में खाद्य पदार्थ तथा घास आदि की कमी से सेना का आगे बढ़ना कठिन ही :

नहीं असंभव था, इसलिए उक्त दुर्ग पर फिर से अधिकार करना अन्य अवसर के लिए छोड़ कर अली मर्दान ने बदख्शा की ओर दृष्टि की। जब वह गुलबिहार पहुँचा तब पंजशोर के थानेदार ( दौलतबेग ) ने, जो मार्ग जानता था, कहा कि भारी सेना को घाटियों तथा दर्रे को पार करना कठिन होगा। साथ ही पंजशोर नदी को ग्यारह स्थानों पर पार करना होगा, जो बिना पुल बनाए नहीं हो सकता। तब अमीरुल् उमरा ने असाहत खॉ को खंजान पर भेजा। वह गया और सोलह दिन में लौट आया तथा अलीमर्दान के साथ काबुल गया। ऐसे समय जब तूरान में गड़बड़ मची थी इस प्रकार जाना और आना शाहजहाँ को पसंद नहीं आया।

उसी वर्ष १०५६ हि० ( १६४६ ई० )के आरंभ में शाहजादा मुराद, अलीमर्दान, अन्य सर्दारगण और पचास सहस्र सवार बलखबदख्शाँ लेने तथा उजबेगों और अलमानों को दंड देने को नियत हुए। इसी समय शाह सफी की मृत्यु पर शोक मनाने और अब्बास द्वितीय की राजगद्दी पर बधाई देने के लिए जान निसार खॉ फारस भेजा गया था, जिसके साथ यह भी लिखा गया था कि अमीरुल् उमरा के बड़े पुत्र को लौटा दिया जाय, जो शाह के पास जमानत में था। शाह ने पुरानी मित्रता नहीं तोड़ी और उसे भेज दिया। अमीरुल् उमरा मुराद बख्श के साथ तूल दर्रे से गया। जब वे सरआब पहुँचे तब नज़ मुहम्मद खॉ का द्वितीय पुत्र सुलतान खुसरो, जो कंदज का अश्वत्थ था, अलमान डॉकुओं के प्रभाव के कारण वहाँ ठहर न सका और शाहजादे से आ मिला। इसके बाद जब शाहजादा

खुरम पहुँचा, जहाँ से बलख तीन पड़ाव पर है, तब उसने बादशाह का पत्र नज़र मुहम्मद ख़ॉ को भेजा, जिसमें संतोषग्रह समाचार थे और अपने आने का कारण उसके सहायतार्थ प्रकट किया। उसके उत्तर में उसने कहा कि कुल प्रांत साम्राज्य का है और वह भी सेवा कर मका जाना चाहता है पर संभव है कि उजबेग दुष्टता से उसे मार डालें और उसका सामान लूट लें। अभीरुल् उमरा फुर्ती से शाहजादा के साथ कूच कर जब मजार के पास पहुँचा तब ज्ञात हुआ कि नज़र मुहम्मद ख़ॉ इस प्रकार बहाने कर समय ले रहा है। उसने बलख से दो कोस पर पड़ाव ढाला। संध्या को नज़र मुहम्मद के लड़के बहराम सुलतान और सुभान कुली सुलतान कई सदर्दारों के साथ आए तथा अधीनता स्वीकार कर छुट्टी ले लौट गए। सुबह नज़र मुहम्मद से मिलने बलख गए और वह बाग मुराद में जलसा की तैयारी करने गया। वह कुछ रत्न तथा भशर्फी लेकर वहाँ से भागा और शिरगान में सेना एकत्र करने का प्रबंध करने लगा। बहादुर ख़ॉ रुहेला तथा भसालत ख़ॉ ने उसका पीछा किया और लड़े। नज़र मुहम्मद उनकी शक्ति देख कर अंदखूद भागा और वहाँ से फारस चला गया। २० वें वर्ष शाहजहाँ के नाम खुतबा पढ़ा गया और सिका ढाला गया। बारह लाख रुपये के मूल्य के सोने चाँदी के बर्तन, २५०० घोड़े तथा ३०० ऊंट मिले। लेखकों से ज्ञात हुआ कि नज़र मुहम्मद के पास सत्तर लाख नगद और सामान था। इसमें से कुछ नज़र मुहम्मद के बड़े लड़के अब्दुल् अजीज ने ले लिया, बहुत सा धन उजबेगों ने लूट लिया और कुछ नज़र मुहम्मद के हाथ लग गया। खुसरो के सिवा, जो दरबार जा चुका था,

बहराम और अब्दुर्रहमान दो लड़के और तीन लड़कियाँ तथा तीन स्त्रियाँ काबुल में बादशाह की कृपा में रहीं ।

बारीख का मुअम्मा यों है—

नज़ मुहम्मद बलखबदख़शा का ख़ाँ था । वहीं उसने अपना सोना, ख़ियाँ तथा भूमि छोड़ी ।

नवविजित देश के पूरी तौर शान्त होने के पहिले ही शाहजादा मुराद बख़श ने लौटने का विचार किया और बादशाह के मना करने पर भी जब नहीं माना तब उस देश का कार्य गड़बड़ हो गया । इस पर शाहजहाँ ने शाहजादे पर क्रोध प्रदर्शित कर उसकी जागीर तथा पद छोन लिया और सादुल्ला ख़ाँ को उक्त देश शान्त करने की आज्ञा दी । अमीरुल् उमरा को आदेश मिला कि कंदज के विद्रोहियों को दंड दे और बदख़शा के प्रांताध्यक्ष के पहुँचने पर काबुल लौट आवे । उसी वर्ष सन् १०५७ हि० ( सन् १६४७ ई० ) में शाहजादा औरंगजेब उस प्रांत का अध्यक्ष नियत होकर वहाँ भेजा गया । अमीरुल् उमरा भी साथ गया । जब ये बलख पहुँचे तब ज्ञात हुआ कि नज़ मुहम्मद ख़ाँ का बड़ा पुत्र अब्दुल् अजीज ख़ाँ, जो बोखारा का अध्यक्ष था, कर्शी से जैहून नदी तक बढ़ आया है और बेग ओगली के अधीन तूरान की सेना आगे भेजी है । उसने आमूयः नदी पार कर आकचा में डेरा डाला है । कतलक मुहम्मद सुलतान, जो मुहम्मद सुलतान का दूसरा पुत्र था, उससे आ मिला है । शाहजादा बलख में न जाकर उसी ओर मुड़ा । तैमूराबाद में युद्ध हुआ और अमीरुल् उमरा शत्रु को परास्त कर कतलक मुहम्मद सुलतान के पड़ाव पर पहुँचा, जो ओगली से बहुत दूर

था । इसने कतलक के और उसके आदिमियों के खेमे, सामान, पशु आदि लूट लिए और उन्हें लेकर बचकर लौट गया । दूसरे दिन बेग ओगली ने अपनी कुछ सेना के साथ अमीरुल् उमरा पर आक्रमण किया । यह दृढ़ रहा और शाहजादा स्वयं इसकी सहायता को आया । बहुत से उजबेग सर्दार मारे गए और दूसरे भाग गए । इसी समय अब्दुल् अजीज खॉ और उसका भाई सुभान कुली सुलतान, जो छोटे खॉ के नाम से प्रसिद्ध था, बहुत से उजबेगों के साथ आ मिला और अच्छे बुरे घोड़ों को छाँट लिया । जिसके पास अच्छे घोड़े थे, वे लड़ने निकले । यादगार टुकरिया ने एकताजों के साथ अमीरुल् उमरा पर आक्रमण कर दिया और करीब करीब उसके पास पहुँच गया । अमीरुल् उमरा ने यह देख कर तलवार खींच ली और घोड़े को पड़ मारी । और लोग भी साथ हुए और युद्ध होने लगा । अंत में यादगार मुख पर तलवार खाकर घायल हुआ और उसका घोड़ा गोली से चोट खाकर गिरा, जिससे वह अमीरुल् उमरा के नौकरों द्वारा पकड़ा गया । यह उसे शाहजादे के सामने लाया, जिससे इसकी प्रशंसा हुई ।

सात दिन खूब युद्ध हुआ और पाँच छः सहस्र उजबेग मारे गए । शाहजादा लड़ते लड़ते बलख आया और अपना पड़ाव उसी नगर में छोड़ कर शत्रु का पूरे वेग से पीछा करना निश्चित किया । अब्दुल् अजीज ने बाग मोड़ी और एक दिन में जैहून नदी को पार कर लिया । उसके बहुत से अनुगामी डूब मरे । इसके बाद जब बलख बदखशाँ नज़ मुहम्मद को मिल गया तब अमीरुल् उमरा काबुल आया और वहाँ का कार्य देखने लगा । २३ वें वर्ष में यह दरबार आया और इसे लाहौर प्रांत का शासन



मिला। कुछ दिन बाद इसे काश्मीर जाने की आज्ञा मिली, जहाँ का जलवायु इसके अनुकूल था। जब शाहजादा द्वारा शिकोह कंधार के कार्य पर नियुक्त हुआ तब काबुल प्रांत यद्यपि उसके बड़े पुत्र सुलेमान शिकोह को मिला था पर उसकी रक्षा के लिए अमीरुल उमरा वहाँ भेजा गया। इसके बाद यह फिर काश्मीर गया। ३० वें वर्ष के अंत में यह दरबार बुलाया गया पर वहाँ पहुँचने के बाद इसे पेटवली रोग हो गया, जिससे ३१ वें वर्ष के आरंभ में ( सन् १०६७, १६५७ ई० ) इसे काश्मीर लौट जाने की आज्ञा मिल गई। मच्छीवाड़ा पड़ाव पर (१६ अप्रैल सन् १६५७ ई० को) मर गया और इसका शव लाहौर में इसकी माता के मकबरे में गाड़ा गया। इसकी लगभग एक करोड़ की संपत्ति नगद तथा सामान जब्त हुआ। यद्यपि फारस में सफवी वंश के नौकरों की चाल के विरुद्ध इसने बर्ताव किया और राजद्रोह तथा नमकहरामोपन के दोष किए पर भारत में अपनी राजभक्ति, साहस तथा योग्यता से बहुत सम्मान पाया और सब अफसरों से बढ़कर प्रतिष्ठित हुआ। शाहजहाँ से इसका ऐसा बर्ताव था कि इसे वह यार वफादार कहता था।

इसका एक कार्य, जो समय के पृष्ठ पर बराबर रहेगा, लाहौर में नहर लाना था, जो उस नगर की शोभा है। १३ वें वर्ष सन् १०४९ हि० ( १६६९-७० ई० ) में अली मर्दान खाँ ने बादशाह से प्रार्थना की कि उसका एक सेवक, जो नहर खुदाने के कार्य का पूर्ण ज्ञाता है, लाहौर में नहर लाने को तैयार है। एक लाख व्यय का अनुमान किया गया, जो स्वीकार कर लिया गया। उस आश्मी ने रावी नदी के किनारे से, जो

उत्तरी पार्वत्य प्रांत में है, उस स्थान की समतल भूमि से लाहौर तक माप किया, जो पचास कोस था । उसने नहर खुदवाना आरंभ किया और एक वर्ष से कुछ अधिक में उसे समाप्त कर दिया । १४ वें वर्ष उस नहर के किनारे तथा नगर के पास नीची ऊँची भूमि पर इसने एक बाग लगवाया, जो शालामार कहलाया और जिसमें तालाब, नहर तथा फुहारे थे । यह आठ लाख रुपये में १६ वें वर्ष में खलीलुल्ला खॉं हसन के निरीक्षण में तैयार हुआ । वास्तव में भारत में ऐसा दूसरा बाग नहीं था—

और

यदि पृथ्वी पर स्वर्ग है, तो यही है, यही है, यही है ।

जल काफी नहीं आता था, इसलिए एक लाख रुपया और कारीगरों को व्यय करने को मिला । मुख्य कारीगर ने अनुभवहीनता से पचास सहस्र रुपये मरम्मत में व्यर्थ व्यय कर दिये तब कुछ लोगों की सम्मति से, जो नहर आदि के कार्य जानते थे, पुरानी नहर पॉंच कोस तक रहने दी गई और बत्तीस कोस नई बनाई गई । इससे जल बिना रुकावट के बाग में आने लगा ।

जब भली मर्दान खॉं लाहौर का शासक था, तब इसने उन फकीरों को, जो निमाज और रोजा नहीं मानते थे तथा अपने को निरंकुश कह कर व्यभिचार तथा नीचता के कारण हो रहे थे, कैद कर काबुल भेजा । इसका ऐश्वर्य, शक्ति तथा कर्मठता हिंदुस्तान में प्रसिद्ध थी । कहते हैं कि बादशाह को जलसा देने में एक बार एक सौ सोने की रिकाबियाँ मै ढकने के और वसी प्रकार तीन सौ चाँदी की काम आई थीं । इसके पुत्रों में इज़ाहीम खॉं का,

( ३०८ )

जिसने ऊँची पदवी पाई थी, और अब्दुल्ला बेग का, जिसे औरंगजेब के समय गंज अली खॉ की पदवी मिली थी, अलग वृत्तांत दिया है। इसके दो अन्य लड़के इसहाक बेग और इस्माइल बेग थे, जिन्हें पिता की मृत्यु के बाद प्रत्येक को डेढ़ हजारी ८०० सवार के मंसब मिले थे। ये दोनों सामूगढ़ युद्ध में बादशाही सेवा में मारे गए, जो दारा शिकोह की ओर थे।

---

## ७४. अली मर्दान खॉ हैदराबादी

इसका नाम मीरहुसेनो था और हैदराबाद के शासक अबुल्हसन का एक मुख्य सेवक था। औरंगजेब के ३० वें वर्ष में गोलकुंडा विजय के बाद यह बादशाह का सेवक हो गया और छः हजारी मंसब के साथ अली मर्दान खॉ की पदवी पाई। यह हैदराबाद कर्णाटक में कांची (कांजीवरम) में नियत हुआ। ३५ वें वर्ष में जब संता जी घोरपदे जिंजी के सहायतार्थ आया, जिसे शाही सेना ने घेर रखा था, तब इसने उसे परास्त करने में प्रयत्न किया। युद्ध में यह कैद हो गया और इसके हाथी आदि लुट गए। दो वर्ष बाद भारी दंड देने पर छूटा। इस अनुपस्थिति में इसे पौष हजारी ५००० सवार का मंसब मिला। इसके बाद यह कुछ दिन बरार का शासक रहा और फिर मुहम्मद बेदार बख्त का बुर्हानपुर में प्रतिनिधि रहा। यह ४९ वें वर्ष में मरा। इसका पुत्र मुहम्मद रजा इसकी मृत्यु पर रामगढ़ दुर्ग का अध्यक्ष और एक हजारी ४०० सवार का मंसबदार हुआ।

---

## ७५. अली मर्दान बहादुर

यह अकबर का एक सरदार था। ४० वें वर्ष में इसका मंसब साढ़े तीन सदी था। ठट्टा के कार्य में पहिले पहिल इसकी नियुक्ति खानखानों अब्दुरहीम के साथ हुई और इसने वहाँ अच्छा काम किया। ३८ वें वर्ष में खानखानों के साथ दरबार आया और सेवा में उपस्थित हुआ। इसके बाद यह दक्षिण में नियत हुआ और ४१ वें वर्ष में उस युद्ध में, जो मिर्जा शाहरुख तथा खानखानों के साथ दक्षिणी सर्दारों का हुआ था, यह अल्तमश में नियुक्त था। इसके अनंतर इसे तेलिंगाना सेना की अध्यक्षता मिली। ४६ वें वर्ष में यह अपने वत्साह से पाथरी के पास शेर ख्वाजा की सहायता को आया। इसी बीच इसने सुना कि बहादुर खॉं गीलानी परास्त हो गया, जिसे वह कुछ सेना के साथ तेलिंगाना में छोड़ आया था और इस लिए तुरंत उधर लौटा। शत्रु का सामना हो गया और इसके बहुत से मनुष्य भाग गए पर यह डटा रहा और कैद हो गया। उसी वर्ष जब राजनैतिक कारणों से अबुल्फज्जल ने दक्षिणी सर्दारों से संधि कर ली तब यह छूटा और शाही सर्दारों में आ मिला। ४७ वें वर्ष में मिर्जा एरिज तथा मलिक अंबर के बीच के युद्ध में यह बाएँ भाग का अध्यक्ष था और इसमें शाही सेवकों ने भारी विजय प्राप्त की। जहाँगीर के ७ वें वर्ष में यह अब्दुल्ला खॉं फीरोज जंग के अधीन नियत हुआ। आज्ञा दी गई थी कि वे गुजरात की सेना के साथ नासिक के मार्ग से

दक्षिण जायँ और द्वितीय सेना के साथ, जो खानजहाँ लोदी के अधीन है, संपर्क बनाए रखें तथा शाही कार्य मिल कर करें। जब अब्दुल्ला खॉं हठ से शत्रु के देश में पहुँचा और दूसरी सेना का उसे बिन्ह तक न मिला तब वह गुजरात लौट चला। अलीमर्दान खॉं ने मरना निश्चय किया और पीछा करती शत्रु सेना से लड़ गया। यह घायल हो कर कैद हो गया और अंबर के बर्गियों द्वारा पकड़ा गया। यद्यपि जर्जरों का उपचार हुआ पर दो दिन बाद सन् १०२१ हि० ( १६११ ई० ) में यह मर गया। इसकी एक कहावत प्रसिद्ध है। किसी ने एक अवसर पर कहा कि 'फतह आसमानी है' जिस पर इस बहादुर ने उत्तर दिया कि 'ठीक, फतह अवश्य आसमानी है पर मैदान हमारा है।' इसका पुत्र करमुल्ला शाहजहाँ के समय एक हजारी १००० सवार का मंसबदार था और वह कुछ समय के लिए दक्षिण में उदगिरि का अध्यक्ष रहा। यह २१ वें वर्ष में मरा।

---

## ७६. अली मुराद खानजहाँ बहादुर कोकल्लाश खाँ जफर जंग

इसका नाम अली मुराद था और यह मुलतान जहाँदार शाह का घाय भाई था। यह एक ऊँचे वंश का था। जब जहाँदार शाह शाहजादा था, तभी इसने उसके हृदय में स्थान प्राप्त कर लिया था और जब वह मुलतान प्रांत का शासक था तब यह वहाँ का प्रबंध करता था। बहादुर शाह के समय कोकल्लाश खाँ की पदवी मिली। बहादुर शाह की मृत्यु पर और तीन शाहजादों के मारे जाने पर जब भारत की सल्तनत जहाँदार शाह के हाथों में आई तब इसको नौ हजार ९००० सवार का मंसब, खानजहाँ बहादुर जफर जंग पदवी और मीर बख्शी का पद मिला। इसका छोटा भाई मुहम्मद माह, जिसकी पदवी जफर खाँ थी, और साठू ख्वाजा हुसेन खाँ दोनों को आठ हजार मंसब मिले। पहिले को आजम खाँ की पदवी और आगरा की अध्यक्षता मिली। दूसरे को खानदौरों की पदवी और द्वितीय बख्शीगिरी मिली। यही खानदौरों जहाँदार शाह के लड़के मुहम्मद इज्जुद्दीन का अभिभावक नियत हुआ था, जो मुहम्मद फरुखसियर का सामना करने भेजा गया था। अपनी कायरता के कारण मियान से बिना तलवार खींचे और सैनिक की नाक से बिना एक बूँद रक्त गिरे यह रात्रि के समय शाहजादे के साथ पड़ाव छोड़कर आगरे चल दिया।

कोकलाश खाँ स्वामिभक्ति में कम नहीं था पर इसके तथा जुल्फिकार खाँ के बीच प्रतिद्वंद्विता के कारण द्वेष बढ़ गया और सम्मतियों में वे एक दूसरे की बात काटते थे तथा कभी किसी कार्य के लिए एक मत हो कर कुछ निश्चय नहीं करते थे । इस पर बादशाह लालकुँभर पर फिदा थे, विचार तथा बुद्धिमत्ता को त्याग दिया था और राज्य कार्य नहीं देखते थे । सफलता की कली खिली नहीं और इच्छा के पत्तों ने पतझड़ का रुख पकड़ा । सन् ११२३ हि० ( सन् १७११-१२ ई० ) में आगरा के पास फर्रुखसियर से जो युद्ध हुआ उसमें खानजहाँ दृढ़ता से जमा रहा और स्वामि कार्य में मारा गया ।

---



## ७७. अली मुहम्मद खाँ रहेला

कहते हैं कि यह वास्तव में अफगान नहीं था। उस खेल के एक आदमी के साथ यह बहुत दिनों तक रहा जो अमीर और निस्सतान था तथा इस लिए उसने इसे सब का मालिक बना दिया। अली मुहम्मद ने संपत्ति लेकर पहिले आँबला और वंकर में निवास किया, जो पर्गने कमायूँ की तराई में दिल्ली के उत्तर हैं। इसने कुछ दिन वहाँ के जर्मींदारों तथा फौजदारों की सेवा की और उसके बाद लूट मार करते बाँस बरेली और मुरादाबाद नष्ट:प्राय कर दिया, जो एतमादुद्दौला कमरुद्दीन खॉ की जागीर थी। एतमादुद्दौला ने अपने मुतसद्दी हीरानंद को वहाँ शांति स्थापित करने भेजा, जिसका अली मुहम्मद ने सामना कर पूर्णतया पराजित कर दिया और बहुत सा लूट तथा भारी तोपखाना पाया। एतमादुद्दौला इसका कुछ उपाय न कर सका। इसके अनंतर अली मुहम्मद विद्रोही हो गया और रुह से, जो अफगानों का घर है, बहुत से आदमियों को बुला लिया तथा बादशाही और कमायूँ नरेश की बहुत सी भूमि पर अधिकार कर लिया। इसने हिंदुस्तान के बादशाह के समान बहुत बड़ा लाल खेमा तैयार कराया, जिस पर बादशाह स्वयं इसको दमन करने रवाना हुए। शाही सेना के दुष्टगण ने आगे बढ़ कर आँबला में आग लगा दिया। अंत में वजीर के मध्यस्थ होने पर, जो अपने मुतसद्दी हीरानंद के लुट जाने पर भी

समृद्धतुल्य तथा सफदर जंग से ईश्या रखने के कारण इसका पक्ष लेता था, संधि हो गई और इसने आकर सेवा की। इसको यहाँ की जागीर के बदले सरहिंद सरकार मिला। जब सन् ११६१ हि० (१७४८ ई०) में अहमद शाह दुर्रानी आया, तब यह भी सरहिंद से चला आया और आँवला तथा बंकर पुरानी जागीर पर अधिकृत हो गया। उसी वर्ष यह मर गया। इसके लड़के सादुल्ला खॉँ, अब्दुल्ला खॉँ, फैजुल्ला खॉँ आदि थे। प्रथम (सन् १७६४ ई० में) रोग से मर गया। दूसरा हाफिज रहमतुल्ला के साथ (१७७४ ई० में) मारा गया और तीसरा लिखते समय रामगढ़ में था। उसके साथियों में हाफिज रहमत खॉँ और दूँदी खॉँ थे, जो चचेरे भाई थे, और पहिले का उस अफगान (दाऊद) से पास का संबंध था, जो अली मुहम्मद का स्वामी था। उसने अली मुहम्मद के राज्य पर अधिकार कर लिया और मुखिया होने का नाम कमाया। दूँदी (सन् १७७४ ई० के पहिले) मर गया। पहिला रहमत खॉँ बहुत दिन जीवित रहा। जब सफदर जंग अबुल् मंसूर के लड़के शुजाउद्दौला ने सन् ११८८ हि० (१७७४-७५ ई०) में उस पर चढ़ाई की तब वह युद्ध में मारा गया। इसके बाद उसकी जाति के किसी पुरुष ने प्रसिद्धि नहीं प्राप्त की।

---

## ७८. अली वर्दी खाँ मिर्जा बंदी

कहते हैं कि यह और हाजी अहमद दो भाई थे और दोनों हाजी मुहम्मद के पुत्र थे, जो शाहजादा मुहम्मद आजम शाह का बाबर्ची था। अलीवर्दी का दरिद्रावस्था में बंगाल के नाजिम शुजाउद्दौला से परिचय था, इस लिए मुहम्मद शाह के राज्यकाल में वह हाजी अहमद के साथ घर छोड़ कर बंगाल चला गया। शुजाउद्दौला ने दोनों भाइयों पर कृपा कर उनको वृत्तियाँ दी। उसने इन्हें मित्र बना लिया और हर कार्य में इनसे सलाह लेता। उसने दरबार को लिख कर अलीवर्दी के लिए योग्य मंसब तथा खाँ की पदवी मँगा दी। जब पटना का प्रांत बंगाल से संयुक्त होने से उसे मिला तब अलीवर्दी को वहाँ अपना प्रतिनिधि नियत कर दिया। इसने शुजाउद्दौला के समय ही पटना में घमंड का बर्ताव किया और बादशाह से महाबत खाँ की पदवी तथा अपने लिए पटना की स्वतंत्र सूबेदारी ले ली। शुजाउद्दौला उस प्रांत का अधिकार छोड़ने को बाध्य हुआ। शुजाउद्दौला की मृत्यु पर उसका पुत्र अलाउद्दौला सरफराज खाँ बंगाल का शासक हुआ और उसने कंजूसी से, जो सर्दारी के विरुद्ध है, बहुत से सैनिकों को निकाल दिया। अलीवर्दी ने सन् ११५२ हि० ( १७३९ ई० ) में बंगाल विजय करने का निश्चय कर दृढ़ सेना के साथ मुर्शिदाबाद को सरफराज से भेंट करने के बहाने चला। इसने अपने भाई हाजी अहमद से, जो सरफराज की सेवा में था,

अपनी इच्छा कह दी, जिसने इसकी इसमें सहायता की। जब महाबत जंग पास पहुँचा तब सफ़राज ख़ाँ की निद्रा टूटी और वह थोड़ी सेना के साथ उससे मिलने गया। वह साधारण बुद्ध कर सन् ११५३ हि० ( १७४० ई० ) में मारा गया। मुर्शिद कुली ख़ाँ, जिसका उपनाम मख़मूर था और जो शुजाउद्दौला का दामाद था, उस समय उड़ीसा का सूबेदार था। उसने एक सेना एकत्र की और अलीवर्दी से लड़ने आया पर ( बालासोर के पास ) परास्त हो कर दक्षिण में आसफ़जाह के पास चला गया। मीर हबीब अर्दिस्तानी, जो मुर्शिद कुली ख़ाँ का बख़्शी था, रघूमोंसला के पास गया, जो बरार का मुकासदार था और उसे बंगाल विजय करने पर बाध्य किया। रघूजी ने एक भारी सेना अपने दीवान भास्कर पंडित तथा अपने योग्यतम सेनापति अली करावल के अधीन मीर हबीब के साथ अलीवर्दी पर बंगाल भेजा। एक महीने युद्ध होता रहा और तब अलीवर्दी ने संधि प्रस्ताव किया। उसने भास्कर पंडित, अली करावल तथा बाईस दूसरे सदाँरों को निमंत्रण दे कर अपने खेमे में बुलाया और सब को मरवा डाला। सेना भाग गई। रघू और मीर हबीब असफल लौट गए पर प्रति वर्ष बंगाल में लूट मार करने को सेना जाती थी। अंत में अलीवर्दी ने रघू को चौथ देना निश्चित किया और उसके बदले उड़ीसा दे कर प्रांत को नष्ट होने से बचाया। इसने तेरह वर्ष शासन किया। इसकी मृत्यु पर इसका दौहित्र सिराजुद्दौला दस महीने गद्दी पर रहा। इस बीच इसने फलकत्ता लूटा। इसके अनंतर यह फिरंगी टोफ़-वालों की सेना से परास्त हुआ और नाव में बैठ कर भागा।

जब यह राजमहल पहुँचा तब इसके एक सेवक निजाम ने इसे कैद कर लिया और इसके बरूशी मीर जाफर के पास इसे भेज दिया, जो फिरंगियों से मिला हुआ था और जिसका अलीवर्दी खॉ की बहिन से विवाह हुआ था। इसका सिर काट लिया गया और फिरंगियों की सहायता से मीरजाफर शम्शुद्दौला जाफर अली खॉ की पदवी प्राप्त कर बंगाल का शासक बन बैठा। सन् ११७२ हि० (सन् १७५८-९ ई०) में सुलतान अली गौहर की सेना जब पटना आई और उसे घेर लिया तब मीरजाफर का पुत्र सादिक अली खॉ प्रसिद्ध नाम मीरन उसको उठाने के लिए भेजा गया। यह युद्ध में हड़ रहा और घायल हुआ। जब शाहजादा मुर्शिदाबाद की ओर चला तब मीरन जल्दी लौट कर अपने पिता से जा मिला। इसके बाद यह पुर्निया गया जहाँ का नाएब सूबा खादिम हसन खॉ बिद्रोही हो रहा था। जब वह बेतिया के पास पहुँचा, जो पुर्निया के अंतर्गत है, तब सन् ११७३ हि० (जुलाई १७६०) की एक रात्रि को उस पर बिजली गिरी और वह मर गया। तारीख है 'बनागह बर्क' उफ्ताद: ब मीरन' (एकाएक बिजली मीरन पर गिरी, ११७३ हि०)।

इस घटना के बाद जाफर अली के दामाद कासिम अला खॉ ने अपने स्वसुर को हटा कर गद्दी पर अधिकार कर लिया। इस पर जाफर अली कलकत्ता चला गया। परंतु कासिम अली की ईसाइयों से नहीं बनी और जाफर अली द्वितीय बार शासक हुआ। कासिम अली चला आया और बादशाह तथा शुजाउद्दौला को बिहार पर चढ़ा लाया पर कुछ सफलता नहीं हुई।

बहुत दिनों तक यह अवसर की आशा में बादशाह के साथ रहा । जब सफलता नहीं मिली तब बाहरी प्रांत को चल दिया । यह नहीं पता कि उसका अंत कैसे हुआ । जाफरअली सन् ११७८ हि० ( १७६५ ई० ) में मरा और उसका लड़का नजमुद्दौला गद्दी पर बैठा पर दूसरे ही वर्ष ११७९ हि० में वह भी मर गया । इसके अनंतर सैफुद्दौला कुछ वर्षों तक और मुबारकुद्दौला कुछ महीने तक शासक रहे । सन् ११८५ हि० ( १७७१-७२ ई० ) में कुल बंगाल और बिहार टोपवालों के हाथ में चला गया ।

---

## ७१. अल्लाह कुली खाँ उजबेग

यह प्रसिद्ध अलंगतोश का पुत्र था, जो तूरान का कज्जाक और मशहूर घुड़सवार था। यह अलअमान खेल का था और जत्ती नाम था। एक युद्ध में इसने खुली छाती से आक्रमण किया था, जिससे अलंगतोश कहलाया, क्योंकि तुर्की में अलंग का अर्थ नम्र और तोश का अर्थ छाती है। यह बलख के शासक नअ मुहम्मद खाँ का सेवक था और इसे जागोर में कहमर्द, उसका प्रांत तथा हजारा जात वगैरह मिला था। इसे वेतन कम मिलता था, इस लिए यह लुटेरा हो गया था और कंधार तथा गजनी तक लूट मार कर कालयापन करता था। खुरासान में भी यह बराबर घावे मारता था। फारस के शाह अपने खेतिहरों की इससे रक्षा नहीं कर सकते थे। क्रमशः यह डकैती से सैनिक कार्य करने लगा और अपनी शक्ति दूर तक फैलाई। हजारा जाति को दमन करने के लिए, जिनका निवास गजनी की सीमा के भीतर था और जो पहिले से गजनी के शासक को कर देते आए थे, इसने एक दुर्ग बनवाया। जहाँगीर के १९ वें वर्ष में इससे तथा खानजादा खाँ खानजमाँ से युद्ध हुआ, जो अपने पिता महाबत खाँ की ओर से काबुल में उसका प्रतिनिधि अध्यक्ष था। बहुत से उजबेग तथा अलअमान मारे गए और अलंगतोश परास्त हुआ। जहाँगीर की मृत्यु पर और शाहजहाँ के राज्य के आरंभ में नअ मुहम्मद ने यह विचार कर कि काबुल विजय

करने का यह अवसर है, एक सेना बढ़ाई के लिए तैयार की। अलंगतोश ने काबुल के पास के निवासियों को लूटने में कुछ उठा नहीं रखा। अंत में जब नअ मुहम्मद की शक्ति का अंत होने को था और उसका सौभाग्य पस्त हो रहा था तब उसने बिना किसी दोष के अलंगतोश की जागीर लेकर अपने पुत्र सुमान कुली को दे दी। इसी प्रकार उसने अपने कई अफसरों को कष्ट दिया, जिससे अंत में वही हुआ जो होना था। नअमुहम्मद खॉ के अपने बड़े भाई इमाम कुली खॉ को गद्दी से हटाने तथा समरकंद और बुखारा को बलख में मिलाने के पहिले अल्लाह कुली अपने पिता से अलग हो कर शाहजहॉ की सेवा करने के विचार से १३ वें वर्ष में काबुल चला आया। बादशाह ने अपनी उदारता से उसको अटक के खजाने पर पाँच सहस्र रुपये का वेतन दिया और पाँच सहस्र रुपये काबुल के अध्यक्ष सईद खॉ को भेजा, जिसने उसको अगाऊ दिया था। १४ वें वर्ष यह जब सेवा में उपस्थित हुआ तब इसे एक हजारी मंसब मिला। शाहजहॉ ने बराबर तरक्की दे कर दो हजारी कर दिया। २२ वें वर्ष में रुस्तम खॉ तथा कुलीज खॉ के साथ कंधार में पारसीकों से युद्ध में प्रसिद्धि प्राप्त करने पर इसका पाँच सदी मंसब बढ़ाया गया। २४ वें वर्ष जब जाफर खॉ बिहार का प्रांताध्यक्ष हुआ तब यह भी उसी प्रांत में नियत हुआ। २६ वें वर्ष में यह दरबार आया और ढाई हजार १५०० सवार का मंसबदार हुआ।



## ८०. अल्लह यार खॉ

इसका पिता इफ्तखार खॉ तुर्कमान था, जो जहाँगीर के समय बंगाल में नियत था। जब इस्माइल खॉ बिश्ती उस प्रांत का अध्यक्ष हुआ तब उसने शुजाअत खॉ शेर कबीर के अधीन एक सेना उसमान खॉ लोहानी पर भेजी, जो वहाँ विद्रोह मचाए हुए था। इफ्तखार खॉ बाएँ भाग का सर्दार नियत हुआ। जब युद्ध होने ही को था और दोनों सेना आमने सामने थीं तब उसमान ने एक लड़ाकू हाथी शाही हरावल पर रैला और उसे परास्त कर वह इफ्तखार खॉ पर आया। यह डटा रहा और लड़ने लगा। अपने कई सैनिकों तथा सेवकों के मारे जाने पर यह भी मारा गया।

अल्लह यार अपने पिता की वीरता के कारण जहाँगीर का कृपापात्र हो गया और कुछ समय में अमीर बन गया। उस बादशाह के राज्य के अंत में और शाहजहाँ के आरंभ में इसका मंसब ढाई हजार था तथा पुरानी चाल पर बंगाल की सहायक सेना में यह नियत हुआ। बंगाल के प्रांताध्यक्ष कासिम खॉ ने अपने लड़के इनायतुल्ला को उक्त खॉ के साथ हुगली बंदर लेने भेजा, जो बंगाल का एक प्रधान बंदर है। अधिकार तथा अध्यक्षता खॉ को मिली थी। इस विजय में इसने अच्छा कार्य किया और अपनी वीरता तथा सेनापतित्व से ५ वें वर्ष में कुफ्र की जड़ और फिरंगियों की हुकूमत खोद डाली, जिसने उस प्रांत में अपने रगोरेशा

तक फैला रखा था और नाकूस की जगह खुदा का अर्जो पुकारी जाने लगी। इसके पुरस्कार में सवार और पदवी में तरकी हुई। इसके बाद इस्लाम खॉ ( मशाहदी ) के शासनकाल में उस के भाई मीर जैनुद्दीन अली सयादत खॉ के साथ बंगाल के उत्तर कूच हाजू एक सेना ले गया और आसामियों को नष्ट करने में अच्छा प्रयत्न किया, जो कूच हाजू के राजा की सहायता करना चाहते थे तथा जिसने शाही राज्य की सीमा के कुछ महालों पर अधिकार कर लिया था। यह विद्रोहियों को अधोन कर छूट सहित सकुशल लौट आया। इसका मंसब तीन हजारी ३००० सवार का हो गया। २३ वें वर्ष सन् १०६० हि० ( १६५० ई० ) के आरंभ में उसी प्रांत में मरा। इसके लड़के तथा संबंधी थे। इसके पुत्रों असफ़दियार, माहयार और जुल्फिकार को उस प्रांत में योग्य जागीर तथा नियुक्ति मिली थी। द्वितीय पुत्र अपने पिता के सामने ही २२ वें वर्ष में मर गया और तीसरा बाद को २६ वें वर्ष में मरा। अल्लह यार के भाई रहमान यार को २५ वें वर्ष में उस प्रांत के शासक शाहजादा मुहम्मद शुजाअ के कहने पर डेढ़ हजारी १००० सवार का मंसब और जहाँगीर नगर ( ढाका ) की फौजदारी मिली। इसके बाद इसे रशीद खॉ की पदवी मिली और २९ वें वर्ष में यह उड़ीसा में मुहम्मद शुजाअ का प्रतिनिधि नियत हुआ। इसने जाने में ढिलाई की और पहिले ही काम में दत्तबिन्त रहा। जब शुजाअ औरंगजेब के आगे से भागा तथा वह दरिद्र हालत में बंगाल आया और मुअज़्जम खॉ खानखानों को रोकने का व्यर्थ प्रयास किया तथा औरंगजेब के २२ वर्ष

में वर्षा बिताने के लिए टांडा में ठहर गया, तब उसने सुना कि रशीद खॉं अलग हो रहा है और उस प्रांत के बहुत से जमींदार उससे मिल गए हैं तथा वह शाही बेड़ा लेकर मुअज्जम खॉं से मिलना चाहता है। इस पर उसने अपने बड़े लड़के जैनुद्दीन को सैयद आलम बारहा के साथ भेजा कि ढाका पहुँचने पर रहमान यार को मार डाले। बहाने तथा धोखे से एक दिन उसने उसको दरबार में बुलाया और अपने आदमियों को इशारा किया। वे अपने शस्त्र लेकर रहमान यार पर टूट पड़े और उसे मार डाला।

---

## ८१. अल्लह यार खॉ मीर तुजुक

यह औरंगजेब का उसकी शाहजादगी के समय से सेवक था और महाराज जसवंत सिंह के साथ के युद्ध में यह भी था। दाराशिकोह की पहिली लड़ाई में इसने ख्याति पाई। राज्य के प्रथम वर्ष में इसे खॉ की पदवी मिली और यह शाही पड़ाव से मुलतान के सेना-व्यय के लिए कोष ले गया, जो खलीलुल्लाह खॉ के अधीन दाराशिकोह का पीछा कर रही थी। मुहम्मद जुजाअ के साथ युद्ध होने पर यह साथ रहनेवाले सेवकों का दारोगा नियत हुआ और डेढ़ हजारी १५०० सवार का मंसब पाया। ५ वें वर्ष में होशदर खॉ के स्थान पर यह गुसलखाने का दारोगा बनाया गया तथा झंडा पाया। ६ ठे वर्ष सन् १०७३ हि० ( १६६३ ई० ) में मर गया।

---

## ८२. अशरफ खॉ ख्वाजा वखुरदार

यह महाबत खॉ का दामाद और नकशबंदी मत का एक ख्वाजाजादा था। कहते हैं कि जब महाबत खॉ ने जहाँगीर को बिना सूचना दिए अपनी पुत्री का ख्वाजा से विवाह कर दिया तब उसने क्रुद्ध होकर ख्वाजा को अपने सामने बुलाकर काँटेदार कोड़े से पिटाया था। जब महाबत खॉ शाहजहाँ से जा मिला तब ख्वाजा भी उसके साथ था और उसकी सेवा में भर्ती हो गया। शाहजहाँ के १ ले वर्ष में इसे एक हजारी ५०० सवार का मंसब मिला। ८ वें वर्ष में डेढ़ हजारी ८०० सवार का मंसब मिला। २३ वें वर्ष में ७०० घोड़े की वृद्धि होकर उसके जाती मंसब के बराबर हो गया। २८ वें वर्ष में यह दक्षिण के ऊसा दुर्ग का अध्यक्ष नियत हुआ और इसे दो हजारी २००० सवार का मंसब मिला। औरंगजेब के राज्यारंभ में इसे अशरफ खॉ की पदवी मिली। दूसरे वर्ष यह उक्त दुर्ग की अध्यक्षता से हटाए जाने पर दरबार आया। इसकी मृत्यु का सन् नहीं ज्ञात हुआ।

---

## ८३. अशरफ ख़ाँ मीर मुंशी

इसका नाम मुहम्मद असगर था और यह मशहद के हुसेनी सैयदों में था। तबक़ाते अक़बरी का लेखक इसे अरब शाही सैयद लिखता है और इन दोनों वर्णन में विशेष भेद भी नहीं है। अबुल्फजल का यह लिखना कि यह सब्जवार का था, अवश्य ही भ्रम है। वह पत्र-लेखन तथा शब्द-सौंदर्य समझने में कुशल था और शुद्धता से बाल भर भी नहीं हटा। यह सात प्रकार के खुशख़त लिख सकता था। यह तआलीक तथा नस्ख तआलीक में विशेष कुशल तथा अद्वितीय था। जादू विज्ञान को काम में लाता था। यह हुमायूँ की सेवा में रहता था और मीर मुंशी कहलाता था। हिंदुस्तान के विजय पर यह मीर अर्ज और मीर माल नियत हुआ। तर्दी बेग ख़ाँ तथा हेमू बकाल के युद्ध में यह और दूसरे सर्दार भाग गए। जिस दिन तर्दी बेग ख़ाँ को प्राणदंड मिला उसी दिन यह सुलतान अली अफजल ख़ाँ के साथ बैरम ख़ाँ द्वारा कैद किया गया और बाद को मका गया। ५ वें वर्ष सन् ९६८ हि० (१५६० ई०) में यह अकबर के पास उपस्थित हुआ जब वह मच्छीवाड़ा से बैरम ख़ाँ का कार्य निपटाकर सिवालिक जा रहा था। इसके बाद इससे अच्छा व्यवहार हुआ और तरकी होती रही। ६ ठे वर्ष अकबर के मालवा से लौटने पर इसे अशरफ ख़ाँ की पदवी मिली। यह मुनइम ख़ाँ खानखानों के साथ बंगाल जा गया। यह ९८३ हि०

( सन् १५७५-७६ ई० ) में गौड़ में मलेरिया से मर गया, जो जलवायु की खराबी से कितने ही अच्छे सर्दारों का मृत्युस्थल हो चुका था। यह दो हजारी मंसब तक पहुँचा था। कविता को ओर इसकी रुचि थी और यह कभी-कभी कविता भी करता था। निम्नलिखित पद उसके हैं—

ऐ खुदा, क्रोध की आग में न मुझे जला।  
मेरे हृदय-रूपी गृह में ईमान का दीपक प्रकाशित कर ॥  
यह सेवा-बख्त दोषों से फट गया है ॥  
क्षमा रूपी सूत्र से कृपापूर्वक सी दे।

आगरे में मौलाना मीर द्वारा बनवाए कूप पर इसने यह तारीख कही—

ईश्वर के मार्ग पर मुल्ला मीर ने दरिद्रों तथा याचकों की सहायता को कूप बनवाया। यदि कोई प्यासा कूप बनाने का साल पूछे तो कहो कि पवित्र स्थान का जल लो।

इसके पुत्र मीर मुजफ्फर ने अकबर के राज्य में योग्य मंसब पाया और ४८ वें वर्ष में अबध के शासन पर नियत हुआ। अक्षरफ खॉ के पौत्र हुसेनी और बुर्हानी शाहजहाँ के समय छोटे-छोटे पदों पर थे।

---

## ८४. अशरफ ख़ाँ मीर मुहम्मद अशरफ

यह इस्लाम ख़ाँ मशाहदी का सबसे बड़ा पुत्र था। इसमें धार्मिक गुण भरे थे और मानवी गुणों के लिए भी यह प्रसिद्ध था। जब इसका पिता दक्षिण का नाजिम था तब उसने इसे बुर्हानपुर का अध्यक्ष नियुक्त किया था। जब इसके पिता की मृत्यु हुई तब पाँच सदी २०० सवार की वृद्धि हुई और इसका मंसब डेढ़ हजारी ५०० सवार का हो गया। २६ वें वर्ष यह दाग का दारोगा हुआ। जब २७ वें वर्ष में शाहजादा दारा शिकोह भारी सेना के साथ कंधार गया तब अशरफ को ५०० की वृद्धि मिली और यह पतमाद ख़ाँ की पदवी के साथ उस सेना का दीवान नियत हुआ। इसके बाद शाही पुस्तकालय का अध्यक्ष हुआ। ३१ वें वर्ष के अंत में जब शाहजहाँ के राज्य का प्रायः अंत था तब यह सुलेमान शिकोह की सेना का बखशी और दीवान नियत हुआ। वह मिर्जा राजा जयसिंह की अभिभावकता में शुजाअ के विरुद्ध भेजा गया था। सामू गढ़ युद्ध तथा दारा शिकोह के पराजय के बाद जब आलमगीर का संसार-विजय के लिए झंडा फहराने लगा तब अशरफ सुलेमान शिकोह का साथ छोड़कर इस्लामाबाद मथुरा से सेवा में उपस्थित हुआ और मंसब में वृद्धि पाई। उसी समय जब शाही सेना दारा शिकोह का पीछा करते हुए सतलज पार गई तब अशरफ लश्कर ख़ाँ के स्थान पर काश्मीर का प्रांताध्यक्ष नियत हुआ।



१० वें वर्ष में इसे खिलअत मिला और रिजवी खॉं बुखारी के स्थान पर यह बेगम साहिबा की रियासत का दीवान हुआ। १३ वें वर्ष में इसे तीन हजारी मंसब मिला और यह खानसामों नियत हुआ। इस कार्य पर यह बहुत दिन रहा और २१ वें वर्ष में बाकेआस्वाँ नियुक्त हुआ। २४ वें वर्ष में जब हिम्मत खॉं मीर बख्शी मर गया तब अशरफ प्रथम बख्शी नियत किया गया और इसने अच्छा कार्य किया। ९ जौकदा सन् १०९७ हि० ( १७ सितम्बर सन् १६८६ ई० ) को ३० वें वर्ष में यह मर गया, जब बीजापुर के विजय को पाँच दिन बीत चुके थे। यह शांति, दातृत्व तथा पवित्रता के गुणों से सुशोभित था। इसका सूफीमत की ओर मुकाब था इसलिए मौलाना की मसनवी से इसने एक संग्रह चुना था और उसको पढ़ने में आनंद पाता था। यह नस्ख, शिकस्त, तआलीक और नस्तालीक अच्छा लिखता था। इसके शिकस्त लेख को छोटे बड़े अपने लेखन का आदर्श मानते थे। इसके पुत्र न थे।

---

## ८५. असकर खाँ नज्मसानी

इसका नाम अब्दुल्ला बेग था। शाहजहाँ के राज्यकाल के १२ वें वर्ष में इसे योग्य मंसब तथा कालिंजर दुर्ग की अध्यक्षता मिली। इसके बाद यह दारा शिकोह की ओर हो गया और मीर बरूशी नियत हुआ। ३० वें वर्ष इसे असकर खाँ की पदवी मिली और जब महाराज जसवंत सिंह को पराजय कर औरंगजेब आगरा को चला तब यह दारा शिकोह की ओर से खलीलुल्ला खाँ के साथ धौलपुर उतार की रक्षा पर नियत हुआ और युद्ध के दिन यह हरावल में था। दूसरे युद्ध में यह गढ़ा पथली के पास खाई में था। जब दारा शिकोह बिना सूचना दिए घबड़ा कर गुजरात को चला गया तब अब्दुल्ला बेग ने यह समाचार रात्रि के अंत में सुना और सफशिकन खाँ से अमान पाकर उससे आ मिला। यह सेवा में ले लिया गया और इसे खिलअत मिला। इसके बाद यह खानखानों मुअज्जम खाँ के सहायकों में नियत होकर बंगाल गया। औरंगजेब के ८ वें वर्ष में यह बुजुर्ग उमेद खाँ के साथ चटगाँव लेने गया। इससे अधिक कुछ नहीं ज्ञात हुआ।

---

## ८६. असद खॉ आसफुद्दौला जुम्लतुल्मुल्क

इसका नाम मुहम्मद इब्राहीम था और यह जुल्फिकार खॉ करामानलू का पुत्र था । यह सादिक खॉ मीर बख्शी का दौहित्र और यमीनुद्दौला आसफ खॉ का दामाद था । अपने यौवनकाल ही से सौंदर्य तथा वाह्य गुणों के कारण यह शाहजहाँ का कृपा पात्र था और अपने समसामयिकों में विशिष्ट स्थान रखता था । २७ वें वर्ष में इसे असद खॉ को पदवी मिली और पहिले मीर बख्तःबेगी तथा बाद को द्वितीय बख्शी नियत हुआ ।

जब आलमगीर बादशाह हुआ तब इस पर बहुत कृपा हुई और द्वितीय बख्शी का कार्य बहुत दिनों तक करने पर ५ वें वर्ष में यह चार हजारों २००० सवार का मंसबदार हुआ । १३ वें वर्ष में मुअज्जम जाफर खॉ दीवान की मृत्यु पर यह नाएब दीवान नियत हुआ और जड़ाऊ छूरा तथा दो बीड़ा पान बादशाह के हाथ से पाया । आज्ञा दी गई कि यह शाहजादा मुहम्मद मुअज्जम का रिसाला लिखे और दियानत खॉ नजूमी उसका मुहर किया करे । उसी वर्ष यह द्वितीय बख्शी के पद पर से हटाया गया और १४ वें वर्ष लश्कर खॉ के स्थान पर यह मीर बख्शी नियत हुआ । १६ वें वर्ष के जी हिज्जा के प्रथम दिन असद खॉ ने नाएब दीवानी से त्यागपत्र दे दिया तब आज्ञा हुई कि खालसा का दीवान अमानत खॉ और दीवान-तन किरफायत खॉ दोनों मुख्य दीवान के हस्ताक्षर के नीचे हस्ताक्षर कर दीवानी का कार्य

संपन्न करें। १९ वें वर्ष के १० श्रावण को खों को जड़ाऊ द्वात मिली और यह प्रधान अमात्य नियत हुआ। २० वें वर्ष के अंत में जब खानजहाँ बहादुर कोकलाश की भर्त्सना हुई और दक्षिण से हटाया गया तब वहाँ का कार्य दिलेर खों को अस्थायी रूप से तब तक के लिए सौंपा गया, जब तक नया प्रांताध्यक्ष नियत न हो। जुम्लतुलमुल्क भारी सेना तथा उपयुक्त सामान के साथ दक्षिण भेजा गया और औरंगाबाद पहुँचा। उस समय वहाँ का बहुत सा उपद्रव का वृत्तान्त बादशाह को लिखा गया तब शाह आलम वहाँ का नाजिम नियत कर भेजा गया और असद खों लौटते हुए २२ वें वर्ष के आरंभ में अजमेर प्रांत के किशन गढ़ में बादशाह के पास उपस्थित हुआ। २५ वें वर्ष जब औरंगजेब शंभा जी भोसला को दंड देने के लिए दक्षिण गया, जिसने शाहजादा अकबर को शरण दिया था, तब जुम्लतुलमुल्क शाहजादा अजीमुद्दीन के साथ अजमेर में छोड़ा गया कि वहाँ के राजपूत कोई उपद्रव न मचावें। इसके बाद २७ वें वर्ष में इसने अहमदनगर में सेवा की और बीजापुर विजय के बाद वजीर नियत हुआ। तारीख है कि 'जेबाशुदः मसनदे वजारत' अर्थात् अमात्य की गद्दी सुशोभित हुई (सन् १०९७ हि०, १६८६ ई०)। गोलकुंडा पर अधिकार हो जाने पर एक हजार सवार बढ़ाए गए और इसका मंसब सात हजारों सवार का हो गया।

३४ वें वर्ष में यह कृष्णा नदी के उस पार के शत्रुओं को दंड देने, दुर्ग नंदबाल अर्थात् गाजीपुर लेने और हैदराबाद कर्णाटक के बालाघाट प्रांत के शासन का प्रबंध करने को नियत हुआ। नंदबाल लेने पर जुम्लतुलमुल्क ने कृष्णा में पड़ाव डाला जो कर्णाटक

की सीमा पर है। शाहजादा कामबख्श को वाकिनकेरा दुर्ग लेने की आज्ञा हुई। जब उस कार्य पर रूहुल्ला खॉं नियत हुआ, तब वह जुम्लतुलमुल्क की सहायता को वाकिनकेरा गया। बादशाही सेना के कढ़प्पा पहुँचने पर २७ वें वर्ष में आज्ञा मिली कि दोनों सेनाएँ जुल्फिकार खॉं की सहायता को जायँ, जो जिंजी घेरे हुए है। वहाँ पहुँचने के बाद शाहजादा और जुम्लतुलमुल्क में कुछ बातों पर मनो-मालिन्य हो गया। कुप्रवृत्ति वाले कुछ मनुष्यों के प्रयास से यह और भी बढ़ा। कुछ गुप्त-व्यवहार के लिखित सबूत के जोर पर, जिन्हें फल न सोचने वाले मनुष्यों के द्वारा दुर्ग के अध्यक्ष रामाई के पास शाहजादे ने भेजे थे, जुम्लतुलमुल्क ने बादशाह को लिखा और उसे अधिकार मिल गया कि वह राव दलपत बुंदेला को बराबर शाहजादे के पास रक्षा के लिए रखे और सवारियों, दीवान तथा अजनबियों के आने जाने को रोके। इसी समय दुर्ग में जाने वाले चरों से ज्ञात हुआ कि कामबख्श ने जुम्लतुलमुल्क के द्वेष के कारण अंधेरी रात्रि में दुर्ग में चले जाने का निश्चय किया है। इस पर असद खॉं ने अपने पुत्र जुल्फिकार खॉं तथा अन्य अफसरों से राय कर शाहजादे के निवासस्थान में घमंड के साथ गया और उसे नजर कैद कर लिया। यह आज्ञानुसार जिंजी से हट गया और शाहजादे को दरबार भेज दिया। स्वयं यह सक्कर में ठहर गया। इसके बाद दरबार बुलाए जाने पर इसे शाहजादे के कारण कई बातों का भय हुआ। उपस्थित होने के दिन जब यह सलाम करने के स्थान पर गया तब खत्रासों के शारोगा मुलतफात खॉं ने, जो तरूत के पास खड़ा था, धीरे से

कहा कि 'तुम्हारे करने में जो प्रसन्नता है वह बदले में नहीं है।' बादशाह ने कहा कि 'तुमने अवसर पर ठीक कहा।' इसे बंदगी करने की आज्ञा दे दी और इसपर कृपा किया।

जब ४३ वें वर्ष सन् १११० हि० ( १६९८-९९ ई० ) में औरंगजेब ने इस्लामपुरी प्रसिद्ध नाम ब्रह्मपुरी में चार वर्ष तक ठहरने के बाद अपना संसार-विजयी पैर संसार-भ्रमणकारी घोड़े की रिकाब में धार्मिक युद्ध रूपी प्रशंसनीय विचार से रखा कि शिवा भोसला के दुर्गों पर अधिकार करे और उसके राज्य को लूटपाट कर नष्ट कर दे, उस समय अपनी पुत्री नवाब जीन-तुमिसा बेगम को हरम के साथ वहीं छोड़ा और जुमलतुलमुल्क को रक्षा का भार दिया। ४५ वें वर्ष में खेलना के कार्य के आरंभ में यह दरबार बुद्धा छिया गया और इसे अभीरुल्-उमरा की पदवी मिली। फतहुल्ला खॉं, हमीदुद्दीन खॉं और राजा जयसिंह खेलना दुर्ग लेने में इसके अधीन नियत हुए। इसके विजय होने पर अभीरुल्-उमरा की बीमारी के कारण आज्ञा निकली कि यह दीवाने अदालत के भीतर से, जिसे दीवाने मजालिम नाम दिया गया था, जाकर हुजरा से एक हाथ हटकर कठघरे में बैठे। तीन दिन यह वहाँ बैठा था, जिसके बाद इसे छोड़ी मिली।

औरंगजेब की मृत्यु पर शाहजादा मुहम्मद आजमशाह ने भी असद खॉं की प्रतिष्ठा की और इसे वजीर बनाया। जब बहादुर शाह से लड़ने के लिए यह ग्वालियर से निकला तब इसे सम्मान के साथ वहीं छोड़ा और अपनी सहोदरा भगिनी

जीनतुन्निसा बेगम को भी वहीं रहने दिया, जिसे बाद को बहादुर शाह ने बेगम साहिबा की पदवी दी। जब ईश्वर की कृपा से विजय की हवा बहादुर शाह के झंडों को फहराने लगी तब उस नम्र बादशाह ने असद खों को उसकी पुरानी सेवा और विश्वसनीय पद का विचार कर दो बार बुला भेजा। कुछ दरबारियों ने कहा भी कि यह आजमशाह का मुख्य साथी था। बादशाह ने उत्तर दिया कि 'उस उपद्रव-काल में यदि मेरे लड़के दक्षिण में होते तो उन्हें भी अपने चचा का साथ देना पड़ता।' सेवा में उपस्थित होने पर इसे निजामुल्मुल्क आसफुद्दौला की पदवी मिली, वकील नियत हुआ, जो पहिले समय में नैतिक तथा कोष के कुल कार्य का स्वामी होता था, और बादशाह के सामने तक बाजा बजवाने का अधिकार पाया। मुनइम खों खानखानों को, जो स्थायी वजीर आजम अपने अनेक स्वत्वों को साबित कर हो चुका था, संतुष्ट रखना भी अत्यंत महत्व का कार्य था और यह उचित था कि वजीर दीवान के सिरे पर खड़े रह कर हस्ताक्षर के लिए कागजात वकील मुतलक को दे, जैसा कि अन्य विभागों के मुख्य अफसर करते थे, पर खानखानों को यह ठीक नहीं जँचा। तब यह प्रबंध हुआ कि आसफुद्दौला वृद्ध हो गए और आराम करते हैं इसलिए वह दिल्ली जायँ जहाँ शांति से दिन व्यतीत करें और जुल्फिकार खों वकालत का कार्य उसका प्रतिनिधि बन कर करें। खानखानों का मान भी अक्षुण्ण रखने के लिए वजारत की मुहर के बाद वकालत की मुहर कागजात और आज्ञाओं पर करने के सिवा और कोई वकालत का कार्य नहीं सँपा गया। आसफुद्दौला ने राजधानी में पौष

बार सफलता का बाजा बजाया और घनी जीवन व्यतीत करने के लिए उसके पास खूब संपत्ति थी ।

जब जहाँदार शाह बादशाह हुआ और जुल्फिकार खॉं साम्राज्य के सब कार्यों का प्रधान हो गया तब असद खॉं ने अपने पद के सब चिह्न त्याग दिए । दो तीन बार यह जब दरबार में गया तब इसकी पालकी दीवाने आम तक गई और वह तख्त के पास बैठा । बादशाह बातचीत में उसे चाचा कहते थे । जहाँदार शाह पराजित होने और आगरे से भागने पर आसफुद्दौला के घर आया और सेना एकत्र कर दूसरा प्रयत्न करने का विचार किया । जुल्फिकार खॉं भी आया और वह भी यही चाहता था पर असद खॉं ने, जो अनुभवी वृद्ध, अच्छी प्रकृति तथा आराम पसंद था, इसका समर्थन नहीं किया और पुत्र से कहा कि 'मुइज्जुद्दीन पियकड़, व्यसनी, कुसंग-सेवी तथा अगुणप्राहक है और राज्य करने योग्य नहीं है । ऐसे आदमी का साथ देना, सोए हुए ऋगड़े को जगाना और देश को हानि पहुँचाना तथा दुनिया को नष्ट करना है । ईश्वर जानता है कि अंत क्या होगा ? यही उचित है कि तैमूरी वंश का जो कोई राज्य के योग्य हो उसका साथ दें ।' उसी दिन इसने जहाँदार शाह को कैद कर दुर्ग में भेज दिया । वह नहीं जानता था कि भाग्य उसके कार्य पर हँस रहा है तथा यह विचार और स्वार्थ-पर बुद्धि ही उसके पुत्र के प्राणहानि और घर के ऐश्वर्य तथा मान के नाश का कारण होगी । भाग्य और उसके रहस्य को समझना मनुष्य की शक्ति के परे है, इसलिए ऐसे विचार के लिए निर्बल मनुष्य क्यों निंदनीय या भर्त्सना-योग्य हो ? समय के



उपयुक्त कार्य और अंत के लिए जो सर्वोत्तम हो वह एक ही वस्तु है। पर लोग कहते हैं कि आत्म-सम्मान और प्रसिद्धि का ध्यान, न्याय तथा मानवीयता भी नहीं चाहती थी कि जब हिंदुस्तान का बादशाह, अपने पूरे स्वत्वों के साथ, जिस पर उसने बहुत सी कृपाएँ की थीं, उसके घर पर विश्वास के साथ ऐसे कष्ट के समय आवे और उससे आगे के कार्य में सम्मति ले तब वह उसे पकड़ कर शत्रु के हाथ कुव्यवहार के लिए दे दे। यदि वह स्वयं वार्द्धन्य के कारण अशक्त था तो उसे अपने अनुगामियों के साथ चले जाने देता। उसके बाद उसका नष्ट भाग्य उसे चाहे जिस जंगल या रेगिस्तान में ले जाता। असद खों को उसे जिस मार्ग पर वह जा रहा था उसपर ढकेल देना नहीं चाहता था।

अस्तु, जब मुहम्मद फरुखसियर ने देखा कि पराजित बादशाह तथा वजीर राजधानी चले गए, तब उसे संशय हुआ कि वे फिर न लौटें और युद्ध हो। इसलिए उसने भीर जुमला समरकंदी के हाथ पिता-पुत्र को सान्त्वना के पत्र भेजे और चापलूसी तथा प्रतिज्ञा से उनके घबड़ाए दिमाग को शांति पहुँचाई। कहते हैं कि बारहा सैयद इस बारे में बादशाह की सम्मति में शरीक नहीं थे और इस विषय में वे कुछ नहीं जानते थे। इसके विरुद्ध वे समझते थे कि पिता-पुत्र कुछ देर में आवेंगे, इसलिए क्यों न उन्हें अपना कृतज्ञ बनाया जाय। इन दोनों ने उनको समाचार भेजा कि वे उनकी मध्यस्थता में सेवा में आ जाँय, जिससे उनको कुछ भी हानि न पहुँचेगी। भाग्य के दूत कुछ और चाहते थे इसलिए पिता-पुत्र बादशाह की मूठी प्रतिज्ञा में

भूले रह गए और सैयदों की बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया प्रत्युत उनके द्वारा प्रार्थना करने में अपनी हानि समझी । मीर जुमला ने जब सैयदों के समाचार की बात सुनी तो तुरंत तकरूब खॉं शोराजी को आसफुद्दौला के पास भेजा कि यदि वे अपने को बादशाह का कृपापात्र बनाना चाहते हैं तो वे कुतुबुल मुल्क और अमीरुल् उमरा का पक्ष प्रहण करने से अलग रहें । कहते हैं कि उसने कुरान पर शपथ तक खाया था । संक्षेपतः जब बादशाह बारः पुलः दिल्ली पहुँचे तब आसफुद्दौला और जुल्फिकार खॉं दोनों उसके पास गए और गंभीरता के साथ सेवा में उपस्थित हुए । बादशाह ने इन दोनों को जवाहिरात और खिल-अत दिए और अच्छे अच्छे शब्दों से इनकी खातिर कर छुट्टी दे दी । उसने जुल्फिकार खॉं को आज्ञा दी कि कुछ कार्य के लिए वह थोड़ी देर ठहर जाय । आसफुद्दौला ने समझ लिया कि कुछ अनिष्ट होने वाला है और वह दुखित हृदय तथा फूली आँखों के साथ घर आया । उसी दिन जुल्फिकार खॉं मारा गया, जैसा कि उसके जीवन वृत्तांत में लिखा गया है । दूसरे दिन आसफ खॉं कैद हुआ और इसका घर जन्त हो गया । इसके पास कुछ नहीं बच गया था केवल कोष से सौ रुपये रोज इसे कालयापन को मिलते थे । राजगद्दी के दिन इसको रत्न और खिलअत भेजना चाहते थे पर हुसेन अली अमीरुल् उमरा ने उसे स्वयं ले जाने का विचार प्रकट किया । कहते हैं कि जब अमीरुल् उमरा ने पुरानी प्रथानुसार अभिवादन किया तब असद खॉं ने भी पुराने चाल के अनुसार उसके आते और जाते अपना हाथ छाती पर रखा और अपने हाथ से पान देकर विदा किया । ५ वें वर्ष

सन् ११२९ हि० ( १७१७ ई० ) में ९४ वर्ष की अवस्था में इस दुःखमय संसार से बिदा हुआ। ऐसे अच्छे स्वभाव का दूसरा अमीर, जिससे बहुत कम हानि किसी को पहुँची हो और जो सहिष्णु, बाह्य सौंदर्य तथा शील से विभूषित हो और जो अपने छोटों से प्रेम पूर्ण तथा नम्र व्यवहार और समान से हृद तथा सम्मान-पूर्ण व्यवहार करता हो, इसके समसामयिकों में नहीं मिल सकता। अपनी संसार यात्रा के आरंभ ही से यह सफल होता आया और अपने इच्छा रूपी प्यालों में बराबर छक्के डालता रहा। उस कपटपूर्ण पासेवाले आकाश ने अंतिम हाथ कपट का खेला और दुरंगे कब्जाक ने दो घोड़ों का आक्रमण उसके शांतिमय गृह पर करा दिया जब वह उस तक पहुँच चुका था। कठोर आकाश से प्रसन्नता का प्रातः काल नहीं चमकता जब तक कि संध्या अंधकारमय नहीं होती। मीठा प्रास थाली में नहीं दीखता जब तक कि उसमें सैकड़ों प्रास विष न मिले हों। उस कृतघ्नी ने किस मिले हुए को दूर नहीं कर दिया। जिसके साथ बैठा उसे मूट चठा दिया।

### शैर

आकाश शीघ्र अपनी कृपाओं के लिए पश्चात्ताप करता है।

सूर्य सुबह एक रोटी देता है और संध्या को ले लेता है ॥

जुस्तलुल् मुल्क के गुणों के विषय में कहा जाता है कि जब औरंगजेब ४७ वें वर्ष में कोंदाना दुर्ग, जिसका बर्हिशदए बल्श नाम रखा गया था, लिए जाने पर मुहिआबाद पूना वर्ष व्यतीत करने आया तब दैवात् अमीरुल् उमरा के खेमे नीची

भूमि पर थे और खालसा तथा तन के दीवान इनायतुल्ला खॉ का ऊँची भूमि पर था। कुछ दिन बीतने पर जब एक खॉ ने अपने जनाने भाग के चारों ओर कनात खिचवाई, तब अमीरुल् उमरा के खोजा बसंत ने, जो अंतःपुर का दारोगा था, इनायतुल्ला खॉ को समाचार भेजा कि वह उस स्थान को खाली कर दे क्योंकि नवाब के खेमे वहाँ लगेंगे। खॉ ने कहा कि 'ठीक है, पर कुछ समय दो तो दूसरा स्थान ढूँढ लूँ।' खोजे ने, जो हठी तुर्क था, कहा कि नहीं अभी खाली कर दो। लाचार इनायतुल्ला खॉ दूसरे स्थान पर चला गया। बादशाह को जब यह मालूम हुआ तो हमीदुद्दीन खॉ के द्वारा जुम्लतुल् मुल्क को यह आज्ञा भेजी कि इनायत खॉ को वही स्थान दे और स्वयं दूसरे स्थान पर हट जाय। असद खॉ ने कुछ देर की तब आज्ञा हुई कि वह इनायतुल्ला के यहाँ जाकर क्षमा माँगे। उस समय दैवयोग से इनायतुल्ला हम्भाम में था। जुम्लतुल् मुल्क आकर दीवान खाने में बैठ रहा और जब इनायतुल्ला खॉ जल्दी से बाहर आया तब अमीरुल् उमरा उसे हाथ पकड़ कर अपने खेमे में लाया और नौ थान कपड़े भेंट देकर उससे क्षमा माँगली। इसने उसपर कृपा तथा मित्रता दिखलाई और बाद को भी कभी अप्रसन्नता या रंज नहीं प्रगट किया प्रत्युत् अधिक कृपा दिखलाता रहा। ऐसे भी मनुष्य आकाश के नीचे रहे। कहते हैं कि इसके हरम तथा गाने बजाने वालों का व्यय इतना अधिक था कि इसकी आय से पूरा नहीं पड़ता था। यह अर्श रोग के कारण कभी, जहाँ तक हो सकता था, जमीन पर नहीं बैठता था। मृद् पर यह सदा कोब पर पड़ा रहता। जुल्फिकार खॉ के सिवा नवल बाई से, जो रानी

कहलाती थी, इसे एक लड़का इनायत खों था । यह अच्छी लिपि लिखता था । यह रत्नागार का निरीक्षक हुआ तथा इसे उपयुक्त मंसब मिला । बादशाह को आज्ञा से इसने हैदराबाद के अबुल् हसन की लड़की से ब्याह किया पर यह कुमार्ग में पड़ गया और पागल हो गया । इसे राजधानी जाने की आज्ञा मिली और वहाँ अयोग्य कार्य किया । दिल्ली से बराबर इसकी बुराई लिखकर आती । वहाँ यह इसी हालत में मर गया । इसके पुत्र सालिह खों को जहाँदार शाह के समय एतकाद खों की पदवी और अच्छा मंसब मिला । इसका भाई मिर्जा काजिम नाचने गाने वालों का साथ कर नाम खो बैठा और कुकर्मों से जीवन के लिए अप्रतिष्ठा का द्वार खोल दिया ।

---

## ८७. असद खॉं मामूरी

यह अब्दुल् वहाब खॉं का पुत्र था, जिसका 'इनायती' उप-नाम था और जो मुजफ्फर खॉं मामूरी का छोटा भाई था । यह भी अच्छे लेखन कला के कारण उच्चपदस्थ हुआ था और इसने एक दीवान लिखा है । जहाँगीर के समय में असद खॉं बहिले कंधार का अध्यक्ष था । इसके बाद जब खुसरो का पुत्र सुलतान दावर बख्श खान-आजम की अभिभावकता में गुजरात का शासक नियत हुआ तब यह उसका बख्शी हुआ और वहीं मर गया । असद खॉं सैनिक कार्य पसंद करता था । जब यह अपने चाचा मुजफ्फर के साथ ठट्टा गया तब अंगूनीया जाति के युवकों को अपनी सेवा में लेकर साहस के लिए प्रसिद्ध हुआ । बादशाह की भी इस पर इच्छा पड़ चुकी थी और जब महाबत खॉं की अभिभावकता में सुलतान पर्वेज शाहजहाँ का पीछा करने गया तब यह भी सहायकों में था । महाबत खॉं ने बुर्हानपुर लौटने पर इसे एलिचपुर का अध्यक्ष बनाया । जब दक्षिणके अन्य अफसर और मंसबदार मुल्ला मुहम्मद लारी आदिल शाही की सहायता को नियत हुए तब यह भी उनमें था । दैवात् भातुरी की लड़ाई में आदिल शाह पूर्णतया परास्त हुआ, जो मुल्ला मुहम्मद और मलिक अंबर के बीच हुई थी और कुछ शाही अफसर कैद हो गए । असद खॉं अपनी फुर्ती से मैदान से निकल आया और बुर्हानपुर पहुँचा । जब शाहजहाँ ने बंगाल से लौटकर इस दुर्ग को घेर लिया तब

राव रत्न के साथ इसने उसकी रक्षा की। शाहजादा को घेरा चठाना पड़ा और असद खॉं दक्षिण का बखरी बनाया गया।

कहते हैं कि खानजहाँ लोदी, जो सुलतान पर्वेज की मृत्यु पर दक्षिण का प्रांताध्यक्ष नियुक्त हुआ, फाजिल खॉं आका अफजल को अभ्युत्थान देता था पर असद खॉं के लिए नहीं चठता था, जिससे इसको बहुत अप्रसन्नता हुई और कहता कि 'एक मुगल को अभ्युत्थान देता है पर मुझ सैयद को नहीं देता।' शाहजहाँ के राक्षारंभ में यह उस पद से हटाया गया और १४ हाथी पेशकश देकर दरबार पहुँचा। बुर्हानपुर के घेरे के समय इसके आदमी शाहजहाँ के सैनिकों के सामने गाली बके थे, जिससे यह बहुत डरा हुआ था पर शाहजहाँ दया तथा क्षमा का सागर था इसलिए इसका अच्छा स्वागत किया और सांत्वना दी। २२ वर्ष यह लक्खी जंगल का फौजदार नियत हुआ और ढाई हजार २५०० सवार का मंसबदार ५०० जाती तरकी मिलने से हो गया ४ थे वर्ष सन् १०४१ हि० ( १६३२ ई० ) में लाहौर में मरा।

---

## ८८. असालत खाँ मिर्जा मुहम्मद

यह मशाहद के मिर्जा बदीअ का पुत्र था, जो उस पवित्र स्थान के बड़े सैयदों में से था। इसके पूर्वज पवित्र आठवें इमाम अली बिन मूसा रजा के मकबरे के रक्षक थे। मिर्जा १९ वें वर्ष में हिंदुस्तान आया और शाहजहाँ की सेवा में भर्ती हो गया। इसे योग्य पद मिला और इसका विवाह शाहनवाज खाँ सफवी की पुत्री से हुआ। २२ वें वर्ष जब शाहजादा मुरादबख्श दक्षिण का प्रांताध्यक्ष नियत होकर वहाँ गया तब शाहनवाज खाँ सफवी, जो इस्लाम खाँ की मृत्यु के बाद उस प्रांत की रक्षा को नियत हुआ था, शाहजादे का वकील तथा अभिभावक नियुक्त हुआ। मिर्जा भी अपने विवाह के कारण शाहनवाज के साथ गया और शाहजादा की प्रार्थना पर इसे दो हजारी १००० सवार का मंसब मिला। शाहनवाज खाँ ने इसे दक्षिण का सेनापति बनाकर देवगढ़ के राजा पर भेजा। मिर्जा पहिले पारसीय शाहों के दरबारी नियम का मानने वाला था, जिसे बादशाही सेवक, जो अपने को इसके बराबर समझते थे तथा साथी-सेवक मानते थे, इससे अप्रसन्न थे। इसके बाद इसने हिंदुस्तानी चाल पकड़ी और अपनी पहिली नापसंदी को ठीक करने का प्रयत्न किया। यह बुद्धिमान था इसलिए इसने शीघ्र एक प्रांत को विजय कर वहाँ शांति स्थापित की। इसके बाद शाहनवाज खाँ वहाँ पहुँचा और मिर्जा के विचारानुसार देवगढ़ का प्रबंध किया। जब यह बुर्हान-पुर लौटा तब पुत्र होने के कारण बड़ी मजलिस की, जिसमें



शाहजादा मुराद बरखा तथा सभी अफसरों को निर्मंत्रित किया और खूब सोना लुटाया। जब २३ वें वर्ष में मालवा की सूबेदारी शाहनवाज खॉं की मिली तब मिर्जा उस प्रांत में नियत हुआ और उसे मंदसोर की फौजदारी तथा जागीर मिली। २५ वें वर्ष यह मांडू का फौजदार हुआ। जब ३० वें वर्ष शाहजादा औरंगजेब को आदिलशाही राज्य चौपट करने की आज्ञा मिली तब मिर्जा उसी के साथ नियत हुआ। वह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था कि समय पलटा और भारी बादशाहत में उपद्रव तथा अशांति मच गई। मिर्जा दक्षिण में रह गया। जब औरंगजेब बुर्हानपुर से आगरे को चला तब मिर्जा को अखिलत खॉं की पदवी और चार हजारी २००० सवार की पदवी, डंका तथा निशान दिया। राज्य का आरंभ हो जाने पर ५०० सवार मंसब में बढ़े और यह दक्षिण भेजा गया। यह शाहजादे मुहम्मद अकबर को, जो दूध पीता बच्चा था, महलसरा के साथ राजधानी ले गया। इसी समय यह एकांतवासो हो गया पर ३२ वर्ष फिर कृपापात्र हो गया और पाँच हजारी ३००० सवार का मंसब पाकर कासिम खॉं के स्थान पर मुरादाबाद का फौजदार नियत हुआ। ७ वें वर्ष १००० सवार और बढ़े। बहुत बीमार रह कर ९ वें वर्ष सन् १०७९ हि० (१६६९ ई०) के अंत में यह मरा। इसका भाई मीर महमूद १४ वें वर्ष आलमगोरी में फारस से दरबार आया और पाँच हजारी ४००० सवार का मंसब तथा अकादत खॉं की पदवी पाई। रूहुल्ला खॉं प्रथम की पुत्री काबुली बेगम का इससे विवाह हुआ पर यह शीघ्र ही मर गया।

## ८६. असालत खाँ मीर अब्दुल् हादी

जहाँगीर के राज्य के २ रे वर्ष मीर मीरान यब्दी अपने पिता खलीलुल्ला के साथ फारस से वहाँ के अत्याचार के कारण शांति-निकेतन भारत चला आया। मीर खलीलुल्ला से शाह अब्बास सफवी अप्रसन्न हो गया और इससे ऐसा क्रुद्ध हुआ कि मीर का सौभाग्य दिवस अंधकारमय रात्रि में बदल गया। निराश्रय होकर वह विदेश भागा। जब वह खतरे की जगह से अर्द्ध जीवित अवस्था में निकल भागा तब वह अपने पौत्रों अब्दुल्हादी और खलीलुल्ला को उनके सुकुमार वय तथा समय के अभाव के कारण नहीं ला सका। इसलिए वे फारस ही में रह गए। जब खानआलम राजदूत होकर फारस गया तब जहाँगीर ने मीर मीरान पर अपनी कृपा तथा स्नेह के कारण पत्र में इन लड़कों के विषय में लिखा और खानआलम को उन्हें लाने के लिए कह दिया। शाह ने उन दो पीड़ितों को हिंदुस्तान भेज दिया और इनके कष्ट चौखट चूमने पर धुल गए।

शाहजहाँ के ३ रे वर्ष में मीर अब्दुल् हादी कृपापात्र हो गया और असालत खाँ की पदवी पाई। अपने अच्छे गुणों, राजभक्ति तथा उत्साह के कारण यह विश्वासपात्र हो गया और ५ वें वर्ष में यमीनुद्दौला के साथ आदिल शाह को दंड देने और बीजापुर लूटने भेजा गया। जब वे भालकी पहुँचे और उसे घेर लिया तब दुर्गवाले तोप बंदूक दिन में छोड़ कर रात्रि के अंधकार

में वह स्थान त्याग कर ऐसी जगह से चले गए जहाँ मोर्चा नहीं था। असालत खॉं, जो इस चढ़ाई में प्रधान था, दुर्ग के ऊपर चढ़ गया, जहाँ लकड़ी का मचान बना था और जिसके नीचे आतिशबाजी के सामान भरे थे। एकाएक आग लग जाने से असालत खॉं मचान सहित आकाश में उड़ गया और एक बड़े मकान में जा गिरा। उसके एक हाथ तथा मुख का कुछ अंश जल गया पर वह ईश्वर की कृपा से बच गया। ६ ठे वर्ष इसका डेढ़ हजारी ५०० सवार का मंसब हो गया और यह उस सेना का बखशी नियत हुआ, जो शाह शुजाब के अधीन परेदा दुर्ग जा रही थी। उसमें अपनी कार्य शक्ति से ऐसी ख्याति पाई कि महाबत खॉं अमीरुल् उमरा अपनी टेढ़ी प्रकृति के होते भी इसकी ओर आकृष्ट हुआ और इसे रसीद तथा आज्ञाओं पर हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया और अपना सहकारी बना लिया। जब यह उस चढ़ाई पर से दरबार आया तब ८ वें वर्ष बाकिर खॉं नम्मसानी के स्थान पर दिल्ली का अध्यक्ष नियत हुआ। इसके मंसब में डेढ़हजारी जात और १७०० सवार बढ़ाकर, जो उस प्रांत के प्रबंध के लिए आवश्यक था, इसे तीन हजारी २५०० सवार का मंसबदार बनाकर झंडा, एक हाथी और खास खिलबत दिया। जब मऊ के भूम्याधिकारी जगता ने कृतघ्न हो कर विद्रोह किया तब तीस सहस्र सवार की तीन सेनाएँ उसपर भेजी गईं, जिनमें एक का सेनाध्यक्ष असालत खॉं था। खॉं ने नूरपुर घेर लिया और प्रतिदिन घेरा अधिक कड़ा होता जाता था। मऊ के ले लिए जाने पर, जिस पर जगता का पूरा विश्वास था, नूरपुर की भी सेना अर्द्धरात्रि को भाग गई और उस पर सहज ही अधिकार हो

गया। इसके बाद असालत खॉ औरों के साथ तारागढ़ लेने गया। यह कार्य भी पूरा हो गया। १८ वें वर्ष यह सलाबत खॉ के स्थान पर मीर बख्शी के ऊँचे पद पर नियत हुआ।

जब बादशाह ने बलख विजय करना निश्चय किया तब अमीरुल् उमरा को, जो काबुल का प्रांताध्यक्ष था, आज्ञा भेजी कि बख्शी की सेना के पहुँचने के पहिले जितने भाग पर हो सके अधिकार कर ले। सन् १०५५ हि० ( १६४५ ई० ) में असालत खॉ और कई अन्य मंसबदार तथा अहदी काबुल भेजे गए कि चगत्ता, काबुल तथा दरों की जातियों से काम करनेवाले आदमी सेना के लिए भर्ती करें। अमीरुल् उमरा उनकी जाँच करे और कुछ को मंसब देकर बाकी को अहदियों में भर्ती कर ले। इन लोगों को यह भी काम मिला था कि तूरान के रास्तों को देखकर सबसे सुगम मार्ग को ठीक करें। असालत खॉ के यह सब कार्य कर लेने तथा शाही सेना के पहुँचने पर १९ वें वर्ष में अमीरुल् उमरा इसके साथ गोरबंद गया और बख्शी पर एक प्रयत्न करना चाहा। जब वे कुल्हार पहुँचे तब अत्यंत दुर्गम मार्ग मिला और वहाँ सामान भी नहीं मिल सकता था। अमीरुल् उमरा की राय से असालत खॉ दस सहस्र सवारों तथा आठ दिन के सामान के साथ खनजान और अंदराब पर आक्रमण करने गया। हिंदू कोह पार कर अंदराब पहुँच कर वहाँ के निवासियों के असंख्य पशु तथा दूसरे सामान लूट लिया। अली दानिश मंदी तथा यलाक करमकी के कुछ लोगों को और इस्माइल अताई तथा मौद्दी के ख्वाजा जादों और अंदराब के हजारों के मीर कासिम बेग को साथ लेकर उतनी ही फुर्ती से लौट आया।

जब इस वर्ष शाहजादा मुराद बख्श विजयी सेना के साथ बलख भेजा गया तब असालत खॉं दाएँ भाग के मध्य में नियत हुआ । इसने काबुल से आगे शीघ्रता से कूब किया और मार्ग के संकुचित भागों को चौड़ा करने में उत्साह तथा शक्ति से काम लिया । शाही सेना के बलख पहुँचने पर २०वें वर्षके आरंभ में इसने बहादुर खॉं रुहेला के साथ तूरान के शासक नजर मुहम्मद खॉं का पीछा किया और रेगिस्तान के आवारों को भगा दिया । इसका मंसब एक हजार बढ़कर पाँच हजारी हो गया । जब शाहजादे ने उस प्रांत में रहना ठीक नहीं समझा तब वह लौट गया और वहाँ का प्रबंध बहादुर खॉं तथा असालत खॉं को सौंप गया । पहिले को विद्रोहियों को दंड देने का तथा दूसरे को सेना और कोष का कार्य तथा किसानों की रक्षा का भार दिया गया । २० वें वर्ष के अंत में सन् १०५७ हि० ( १६९७ ई० ) में खूशी लबचाक पाँच सहस्र अलअमान सवारों के साथ बुखारा के शासक अब्दुल् अजीज खॉं की आज्ञा से दर्रागज और शादमान पर आक्रमण करने के लिए अज्ञात उतार से पार उतरा, जहाँ शाही सेना के पशु चरते थे । असालत खॉं ने इनको दंड देना अपना कार्य समझा और इसलिए फुर्ती से चलकर उनपर जा पहुँचा, जब वे कुछ पशु लेकर जा रहे थे । उसने रुस्तम की तरह आक्रमण किया और बहुतों को मार कर पशुओं को छुड़ा लिया । इसके बाद तलवार से बचे हुआ का पीछा किया । रात्रि हो जाने पर यह दर्रागज में ठहर गया और स्नान के लिए अपना चिल्ला उतार डाला । हवा लग जाने से ज्वर आ गया और तब बलख लौटा । इससे यह निर्बल हो खाट पर पड़ गया

और दो सप्ताह में मर गया। वह जीवन्मार्ग पर चालीस मंजिल नहीं पूरी कर चुका था पर इसी बीच बहुत से अच्छे कार्य किए थे इसलिए बादशाह ने इसकी मृत्यु पर शोक प्रकाश किया और कहा कि यदि मृत्यु उसे समय देती तो वह और बड़ा कार्य करता और ऊँचे पद पर पहुँचता। असालत खॉ अपने गुणों तथा सञ्चरित्रता के लिए प्रसिद्ध था और नम्रता तथा सुशीलता के लिए अद्वितीय था। इसने कड़ी भाषा कभी नहीं निकाली और किसी को हानि नहीं पहुँचाई। साहस और सुसम्मति साथ साथ रहती। इसके लड़के सुलतान हुसेन इफ्तखार खॉ, मुहम्मद इब्राहीम सुस्तफ्त खॉ और बहाउद्दीन थे। उनका यथा स्थान उल्लेख हुआ है। अंतिम ने विशेष प्रसिद्धि नहीं पाई।

---

## ६०. अहमद नायता, मुस्ला

नवाएत खेले नवागंतुक था और अरब के अच्छे वंशों में से था। नवागंतुक से बिगाड़ कर नवाएत हो गया। कामूस का लेखक कहता है कि नवाती समुद्री मल्लाह हैं और उसका एक-बचन होती है। पर यह स्पष्ट है कि व्याकरण के अनुसार नायत या नायतः का बहुवचन नवाएत है। नवाती से नवाएत का कोई संबंध नहीं है। इसलिए साधारण लोग जो नवाएत को मल्लाह कहते हैं और कामूस पर भरोसा करते हैं भूल करते हैं। कहते हैं कि यूसुफ के पुत्र अत्याचारी हज्जाज ने वहाँ के वंशजात, पवित्र तथा विद्वान पुरुषों को नष्ट भ्रष्ट करने का निश्चय किया तब बहुत से मनुष्य जिन्हें जहाँ सुरक्षित स्थान मिला चले गए। कुरेश खेल के कुछ लोग सन् १५२ हि० ( सन् ७६९ ई० ) में मदीना छोड़कर जहाज पर चले आए और भारत समुद्र के तटस्थ दक्षिण प्रांत में कोंकण में उतरे और उसे अपना घर बनाया। समय बीतने पर वे फैले और गाँव बसा लिया। हर एक ने अपनी भिन्नता प्रकट करने को नए नए अल्ल किसी भी वस्तु से, जिससे जरा भी संबंध था, ग्रहण कर लिया। विचित्र अल्ल प्रचलित हो गए।

मुस्ला अहमद विद्वत्ता तथा अन्य गुणों से विभूषित था और एक विशेषज्ञ था। भाग्य से यह बीजापुर के सुलतान अली आदिल शाह का कृपापात्र हो गया और कुछ ही समय में अपनी

बुद्धि तथा विवेक से राज्य का एक स्तंभ हो गया । कुछ दिन बाद अली आदिल शाह कारण-वश इस पर कम कृपा रखने लगा या स्यात् इसीने अपनी अहम्मन्यता में बीजापुरी सेवा से उच्चतर आकांक्षा रखकर औरंगजेब की सेवा में चले आने का विचार किया । यह अवसर देख रहा था कि ८ वें वर्ष में मिर्जाराजा जयसिंह शिवा जी का काम निपटा कर भारी सेना के साथ बीजापुर पर आक्रमण करने आए । आदिलशाह अपने दोषों को समझ कर बेकारी की गहरी निद्रा से जागा और मुल्ला को, जो अन्य अफसरों से योग्यता में बढ़कर था, राजा के पास संधि के लिए भेजा । मुल्ला ने, जिसकी पुरानी इच्छा अब पूर्ण हुई, इसे सुअवसर समझा और सन् १०७६ हि० ( १६६५-६६ ई० ) में पुरंधर दुर्ग के पास राजा से मिल कर अपनी गुप्त आकांक्षा प्रगट कर दी । बादशाह को इसकी सूचना मिलने पर यह आज्ञा हुई कि वह दरबार भेज दिया जाय । इसे छ हजारों ६००० सवार का मंसब मिला । कहते हैं कि मिर्जाराजा को गुप्त रूप से कहा गया था कि मुल्ला के दरबार पहुँचने पर उसकी पदवी सादुल्ला खॉ होगी और वह योग्य पद पर नियत किया जायगा ।

आज्ञानुसार राजा ने इसे सरकारी कोष से दो लाख रुपये और इसके पुत्र को पचास सहस्र रुपये देकर दरबार विदा किया । भाग्य से, जिससे कोई नहीं बच सकता, मुल्ला मार्ग में बीमार होकर अहमदनगर में मर गया । ज्ञात होता है कि पुराने नमक का इसने विचार नहीं किया, इसीलिए नए ऐश्वर्य से यह लाभ नहीं उठा सका । इसका पुत्र मुहम्मद असद शाही आज्ञानुसार ९ वें वर्ष के आरंभ में दरबार आया और डेढ़ हजारों १०००



सवार का मंसब और इकराम खॉ को पदवी पाई। मुल्ला अहमद का छोटा भाई मुल्ला यहिया, जो अपने भाई से पहिले ६ ठे वर्ष में बीजापुर से दरबार आकर दो हजारी १००० सवार का मंसब पा चुका था, दक्षिण में नियत हुआ। मिर्जाराजा के साथ बीजापुर राज्य को नष्ट करने में इसने अच्छी सेवा की। इसके बाद इसे मुखलिस खॉ की पदवी मिली और औरंगाबाद में रहने लगा। इसके पुत्र जैनुद्दीन अली खॉ और दामाद अब्दुल्कादिर मातबर खॉ को योग्य मंसब मिला।

जब मातबर खॉ कोंकण का फौजदार हुआ तब उस प्रांत को, जिसमें दुष्ट मराठे बसे हुए थे, इसने शांत करके दरबार में नाम पैदा कर लिया। इसका ऐसा विश्वास हो गया था कि यह जा करता वही ठीक मान लिया जाता था। बादशाह जब उस विद्रोही प्रांत से सुचित्त हुए तब बहुधा कहते कि मातबर खॉ सा सेवक रहना ठीक है। इसे पुत्र नहीं था पर इसने एक संबन्धी के पुत्र अबू मुहम्मद को अपना पुत्र मान लिया था। इसका ताल्लुका इसके साले जैनुद्दीन अली खॉ को मिला। अंतिम के पास यह ताल्लुका बहुत दिन रहा और मुहम्मद शाह के समय यही दूसरी बार इसे मिला। फर्रुखसियर के राज्य के आरंभ में हैदर कुली खॉ खुरासानी दक्षिण का दीवान नियत होकर औरंगाबाद आया। साधारण दीवानों से इसका प्रभुत्व हजार गुणा बढ़कर था इसलिए इसने जैनुद्दीन खॉ से खालसा भूमि के कर का हिसाब माँगा, जो इसके पास रह गया था। हुसेन अली खॉ अमीरुल उमरा के प्रबंध-काल में यह सआदतुल्ला खॉ नायता के यहाँ अर्काट चला गया। उछी खेल का होने से और पुराने खानदान

के विचार से उसने इसका आना सम्मान समझा । उस भले आदमी की सहायता से इसने अपनी बची आयु शांति से व्यतीत कर दी । इसके पुत्र ने पिता की पदवी पाई और कर्णाटक में मौजूद है । मुल्ला यहिया का गृह औरंगाबाद के प्रसिद्ध गृहों में से है । यह प्रांताध्यक्षों के निवासस्थान के पास था इसलिए आसफजाह ने सआदतुल्ला खॉं से क्रय करने का प्रस्ताव किया, जिस पर उसने अपने उत्तराधिकारी से राय कर उसके पास बख्शिशांनामा लिख कर भेज दिया ।

---

## ११. अहमद खाँ नियाजी

यह मुहम्मद खाँ नियाजी का पुत्र था और अपनी वीरता तथा उदारता के लिए प्रसिद्ध था। इसमें बहुत से अच्छे गुण थे। जहाँगीर के राज्यकाल में निजाम शाह के एक अफसर रहीम खाँ दक्षिणी ने भारी सेना के साथ एलिचपुर आकर उस पर अधिकार कर लिया। यद्यपि वहाँ शाही सेना काफी नहीं थी पर अहमद खाँ ने, जिसका यौवन काल था, थोड़ी सेना के साथ उससे कई युद्ध कर उसे नगर से निकाल दिया और प्रसिद्धि प्राप्त की। उस समय से दक्षिण के युद्धों में यह बराबर ख्याति पाता रहा। दौलताबाद के घेरे में यह खानजमाँ बहादुर के साथ कोष और सामान लाने के लिए रोहनखेड़ा दर्रे गया, जहाँ वह सब बुर्हानपुर से आ पहुँचा था। खानजमाँ ने अहमद खाँ को, जो अस्वस्थ था, जफर नगर में पहाड़ सिंह बुंदेला के पास छोड़ दिया। ऐसा हुआ कि इन दोनों सदर्नों ने गाँव के पास पहुँचने पर अपनी सेनाएँ खानजमाँ के साथ भेज दिया और एकाएक याकूब खाँ हब्शी ने, जिसने आदिलशाह का साथ दिया था तथा जो भारी सेना के साथ खानजमाँ पर आक्रमण करने जा रहा था, इन पर मैदान में मिलते ही धावा कर दिया। अहमद खाँ और पहाड़ सिंह थोड़े सैनिकों के साथ ऐसा डटकर लड़े कि दुष्ट शत्रु आश्चर्य की उँगली काटकर भाग गए। अंबर कोट लेने में भी अहमद ने प्रसिद्धि पाई और इसके बहुत से अच्छे

सैनिक मारे गए। महाबत खॉं कहा करते थे कि इस विजय में अहमद खॉं मुख्य साभोदार था। परेदा की चढ़ाई में जिस दिन महाबत खॉं ने शत्रु पर विजय पाया, उसमें अहमद खॉं ने भी वीरता के लिए नाम पाया था। सेनापति खॉं ने उसको सम्मान तथा तरक्की दिलाने में प्रयत्न किया था इसलिए इसने खानाजाद की पदवी स्वीकार की।

९ वें वर्ष में जब शाहजहाँ दौलताबाद आया तब अहमद खॉं का मंसब पाँच सदी ५०० सवार बढ़कर ढाई हजारी २००० सवार का हो गया और यह शायस्ता खॉं के साथ संगमनेर और नासिक लेने भेजा गया। उत्साह के कारण सेनापति की आज्ञा लेकर यह रामसेज दुर्ग लेने गया और साहू के आदमियों से उसे ले लिया। इसके बाद इसे डंका मिला और शाही रिकाब के साथ हुआ। यह गुलशनाबाद का फौजदार नियत हुआ। यह वहीं पला था, इसलिए प्रसन्नता-पूर्वक वहाँ चला गया। २३ वें वर्ष में इसका मंसब तीन हजारी ३००० सवार का हो गया और अहमदनगर का यह दुर्गाध्यक्ष नियत हुआ। सन् १०६१ हि० ( १६५१ ई० ) में २५ वें वर्ष के आरंभ में यह मर गया। साहस तथा औदार्य वंशपरंपरा में मिली और इसमें दूसरे भी गुण पूर्ण रूप से थे। इसके आफिस में कोई वेतनभोगी निकाल बाहर नहीं किया जाता था और जिसको एक बार जीविका में जमीन मिल गई वह उसकी संपत्ति हो जाती थी। यदि उसका मूल्य दूना भी हो जाता तब भी कोई कुलन बोलता। ऐश्वर्य का आडम्बर होते हुए भी यह प्रत्येक से नम्र रहता और अपने दिन नम्रता तथा दान पुण्य में बिताता। अपने बहुत से संतान तथा संबंधियों का

( ३५८ )

अच्छा प्रबंधक था । इसके पिता ने बरार के अंतर्गत आष्टी को अपना निवासस्थान और कबरिस्तान बनाया था, इसलिये अहमद खॉं ने उक्त स्थान को उन्नति में प्रयत्न किया और एक बाग बनवाया । इसने एक ऊँची मसजिद और पिता के लिए मकबरा बनवाया । बहुत दिनों तक यहाँ निमाज होती रही और जन-साधारण का तीर्थ रहा । इस समय कुछ पुराने मकबरों को छोड़कर प्रसिद्ध निवासियों तथा उनके घरों का चिन्ह भी नहीं रह गया है ।

—

## १२. अहमद ख़ाँ बारहा सैयद

सैयद महमूद ख़ाँ बारहा का छोटा भाई था। अकबर के राज्य के १७ वें वर्ष में यह भाई के साथ, खानकलों के अधीन नियत हुआ, जो अगल सेना के साथ गुजरात जाता था। अहमदाबाद विजय के अनंतर बादशाह ने इसको शेर ख़ाँ फौलादी के पुत्रों का पीछा करने भेजा, जो पत्तन से निकल कर अपने परिवार तथा संपत्ति के साथ ईंडर की ओर जा रहे थे। यद्यपि वे बड़े वेग से भाग रहे थे और पहाड़ी दर्रे में चले भी गए थे पर उनका बहुत सा सामान शाही सैनिकों के हाथ में पड़ गया। ख़ाँ ने लौट कर सेवा की। इसके बाद जब शाही पड़ाव पत्तन में था तब यह मिर्जा ख़ाँ को सौंपा गया और वहाँ का प्रबंध-कार्य सैयद अहमद को मिला। उसी वर्ष मुहम्मद हुसेन मिर्जा और शाह मिर्जा ने विद्रोह का झंडा उठाया और शेर ख़ाँ के साथ आकर पत्तन घेर लिया। ख़ाँ ने दुर्ग को दृढ़ कर उसकी इतने दिन रक्षा की कि खानआजम कोका भारी सेना के साथ आ पहुँचा और मिर्जा ने घेरा उठा दिया। २० वें वर्ष में यह अपने भतीजों सैयद कासिम और सैयद हाशिम के साथ उन विद्रोहियों को दमन करने भेजा गया, जिनका राणा से संबंध था और जिसने जलाल ख़ाँ कोची को मार कर बलवा मचा रखा था। अच्छी सेवा के कारण इस पर ख़ूब कृपा हुई। सन् ९८० हि० ( १५७२-७३ ) में यह मरा। यह दो

( ३६० )

हजारी मंसब तक पहुँचा था । इसके पुत्र जमालुद्दीन को बादशाह जानते थे । चितौड़ के घेरे में जब दो खानों बारूद से भरी जा कर उड़ाई गईं तब एक रुक कर उड़ी, जिसमें बहुत भादमी मरे । इसने भी अपने यौवन पुष्प को उसमें जला दिया ।

---

## ६३. अहमद बेग ख़ाँ

इब्राहीम ख़ाँ फतहजंग का भतीजा था। जब इसका चाचा बंगाल का शासक था तब यह उड़ीसा का शासक था। जहाँगीर के १९ वें वर्ष में यह करधा के जर्मींदार को दंड देने भेजा गया, जिसने विद्रोह किया था। एकाएक समाचार मिला कि शाहजहाँ तेलिंगाना होते हुए बंगाल आ रहा है। अहमद बेग ख़ाँ इस चढ़ाई से लौटने को बाध्य हुआ और उस प्रांत को राजधानी पिपली को चला गया। इसमें सामना करने की सामर्थ्य नहीं थी इसलिए यह अपनी संपत्ति सहित कटक चला गया, जो बंगाल की ओर बारह कोस दूर था। यहाँ भी अपनी रक्षा न देखकर बर्दवान के फौजदार सालेह बेग के पास चला गया। वहाँ से भी रवाने होकर अपने चाचा से जा मिला। शाहजहाँ की सेना से जिस दिन इब्राहीम ख़ाँ ने युद्ध किया उस दिन सात सौ सवारों के साथ अहमद पीछे के भाग में था। जब घोर युद्ध होने लगा और इब्राहीम का हरावल टूटा तथा अहमद की सेना में आ मिला, तब यह वीरता से लड़कर घायल हुआ। युद्ध भूमि में इब्राहीम के मारे जाने पर अहमद चोटों के रहते भी वीरता से ढाका चला गया, जहाँ इसके चाचा की संपत्ति तथा परिवार था। शाहजहाँ की सेना नदी से इसका पीछा करती हुई वहाँ पहुँची और इसको अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। शाहजादे के दरबारियों के कहने से इसने सेवा स्वीकार कर



लो । जब शाहजहाँ बादशाह हुआ तब उसने अहमद ख़ाँ को दो हजारी १५०० सवार का मंसब देकर सिबिस्तान का फौजदार और तयूलदार नियत किया । इसके बाद यह यमीनुद्दौला का सहकारी नियत होकर मुलतान का फौजदार हुआ । वहाँ से हटने पर यह बादशाह के पास उपस्थित हुआ और लखनऊ के अंतर्गत अमेठी तथा जायस परगनों का जागीरदार नियुक्त किया गया । २५ वें वर्ष में यह मकरम ख़ाँ सफवी के स्थान पर बैसवाड़ा का फौजदार हुआ और पाँच सदी ५०० सवार मंसब में बढ़े । २८ वें वर्ष में कुछ काम के कारण यह पद से हटाया गया और कुछ दिन मंसब तथा जागीर से रहित रहा । ३० वें वर्ष में फिर बहाल हुआ ।

---

## ६४. अहमद बेग खाँ काबुली

यह चगताई था और इसके पूर्वज वंश परंपरा से तैमूर के वंश की सेवा करते आए थे। इसका पूर्वज मीर गियासुद्दीन तख्तान तैमूर का एक सर्दार था। इसने स्वयं काबुल में बहुत दिनों तक मिर्जा मुहम्मद हक़ीम की सेवा की और यह मिर्जा के यकताजों में समझा जाता था। जो नवयुवक वीरता के लिए प्रसिद्ध थे और मिर्जा के साथियों में से थे, इसी नाम से पुकारे जाते थे। मिर्जा की मृत्यु पर यह अकबर के दरबार में आया और इसे सात सदी मंसब मिला। सन् १००२ हि० (१५९४ ई०) में जब कश्मीर मुहम्मद यूसुफ़ खाँ रिजवी से ले लिया गया और भिन्न २ जागीरदारों में बाँट दिया गया, तब यह उनमें मुखिया था। बाद को जब मुहम्मद जाफ़र आसफ़ खाँ की बहिन से इसने विवाह किया तब अहमद बेग का महत्व और प्रभुत्व बढ़ा। जहाँगीर के समय में यह एक बड़ा अफसर हो गया और तीन हजारी मंसब के साथ खाँ को पदवी पाई। यह कश्मीर का प्रांताध्यक्ष भी नियत हुआ। १३ वें वर्ष में यह उस पद से हटाया गया और दरबार आया। इसके कुछ दिन बाद यह मर गया। यह साहसी और योग्य था तथा सात सौ चुने हुए सवार तैयार रखता था। इसके लड़के सैनिक और वीर थे। इनमें अप्रणो सईद खाँ बहादुर जफरजंग था, जो उच्चतम मंसब को पहुँचा और अपने वंश का यश था। इसने

अपने पूर्वजों का नाम जीवित रखा। वर्तमान समय तक बहुत सी बातें भारत में इसके नाम से संबंध रखती हैं। बड़े छोटे सभी इसके विषय में बात करते हैं। इसका विवरण अलग दिया गया है। सब से बड़ा लड़का मुहम्मद मसऊद अफगानों के विरुद्ध तीरा की चढ़ाई में मारा गया था। दूसरा पुत्र मुखलिसुल्ला खॉ इफितखार खॉ शाहजहॉ के राज्य के आरंभ में पाँच सदी २५० सवार की तरक्की पा कर दो हजारी १००० सवार का मंसबदार हो गया और उक्त पदवी पाई। २ रे वर्ष १००० सवार की तरक्की के साथ जम्मू का फौजदार हुआ। इसमें पाँच सदी और बढ़ा तथा ४ थे वर्ष में यह मर गया। एक और पुत्र अबुल्बका ने अपने (सहोदर) बड़े भाई सईद खॉ बहादुर का साथ दिया। ५ वें वर्ष में यह नीचे बंगश का थानेदार हुआ और १५ वें वर्ष में जब कंधार शाही अधिकार में आ गया, तब सईद खॉ को कजिलबाशों के विरुद्ध युद्ध करने के उपलक्ष में बहादुर जफरजंग पदवी मिली और इसको डेढ़ हजारी १००० सवार का मंसब तथा इफतखार खॉ की पदवी मिली।

---

## ६५. अहमद खाँ मीर

ख्वाजा अब्दुरहीम खाने बयूतात का यह दामाद था। यह सच्चा सैनिक था। औरंगजेब के समय यह बल्शी और शाह आलीजाह मुहम्मद आजम शाह का वाकेआनवीस नियत हुआ, जो गुजरात का शासक था। यद्यपि यह सत्यता तथा ईमानदारी के साथ कड़ाई तथा उहंडता के लिए ख्याति पा चुका था पर शाहजादा, जो लेखकों को नापसंद करता था, इसपर प्रसन्न था और कृपा रखता था। इसके बाद यह मुहम्मद बेदार बख्त की सेना का दीवान नियत हुआ और ४८ वें वर्ष में यह शाहजादे का प्रतिनिधि होकर खानदेश में नियुक्त हुआ। जिस समय शाह आलम कामबखश के साथ युद्ध करने के बाद लौटा और बुर्हानपुर में पड़ाव डाला, उस समय उसकी इच्छा करारा के रमने को देखने और अहेर खेलने की हुई, जो आनंददायक तथा अहेर के योग्य स्थान था। यह बुर्हानपुर से तीन कोस पर है और एक अत्यंत स्वच्छ जल की नदी उसमें बहती है। पहिले करारा के सामने एक बाँध था, जो सौ गज चौड़ा और दो गज ऊँचा था तथा जिस पर से भरना गिरता था। शाहजहाँ ने, जब शाहजादगी में दक्षिण का शासक होकर इस स्थान में ठहरा हुआ था, तब एक बाँध अस्सी गज और ऊपर बनवाया, जिससे बीच में एक झील सौ गज लम्बी तथा अस्सी गज चौड़ी बन गई। इस दूसरे बाँध के ऊपर से भी भरना

गिरता था। झोल के किनारे दोनों ओर इमारतें बन गईं और एक छोटा बाग भी उसके पास बन गया। परंतु राजपूतों तथा सिखों के विद्रोह का जब समाचार आया तब वह बिना रुके ३ रे वर्ष सन् ११२१ हि० ( सितम्बर सन् १७०९ ) के शाबान महीने के आरंभ में रवाना हो गया और उक्त खों को नगर की रक्षा के लिए छोड़ गया। ४ थे वर्ष में एकाएक एक मराठा सर्दार को पत्नी तुलसी बाई ने भारी सेना लेकर इस पर आक्रमण कर दिया और राबीर नगर को छूट कर, जो बुर्हानपुर से सात कोस पर है, दुर्गाध्यक्ष को घेर लिया, जो सम्मुख युद्ध नहीं कर सकने के कारण दुर्ग में जा बैठा था। दुर्ग हट नहीं था, इस लिए करीब था कि यह कैद हो जाय पर अपने घमंड और प्रतिष्ठा के सूक्ष्म विचार से शहीद होने से जीवन बचाना उचित नहीं समझा और स्त्री-शत्रु से युद्ध करने में पीछे हटना नहीं चाहा। मिसरा—

वह पुरुषार्थ ही क्या जो स्त्रीत्व से कम हो ?

इसने स्वाधिकार की बाग एक दम छोड़ दिया और बिना सेना एकत्र किए तथा आक्रमण और भागने का प्रबंध किए ही यह बहादुरपुर आया और युद्ध को निकला। इसने दूतों को मंसबदारों तथा सेवकों को बुलाने को भेजा। जो लोग खों के साहस और बड़बंटा को जानते थे, उन सबने प्राण से प्रतिष्ठा को बढ़कर समझा और अपने अनुयायी एकत्र किए, जो अधिकतर पियादे या लेखक थे। दूसरे दिन खों केवल सात सौ सवारों के साथ दायें बायें भाग ठीक कर युद्ध को निकल पड़ा। मार्ग ही में सामना हो गया और युद्ध होने लगा। सेनापति के

पौत्र तथा अन्य संबंधी गण ने मरने का निश्चय कर लिया और शत्रुओं को मारा पर ढाँकुओं ने अपने लंबे भालों से बहुतेरे बहादुरों को मार डाला और घायल किया। गोलियों से सेनापति भी पिंढली में दो बार घायल हुआ। इसी बीच शेख इस्माइल जफर मंद खॉं, जो जामूद का फौजदार था और बची हुई सेना का अध्यक्ष था, आ पहुँचा और काफिरों के विजयी ज्वाला को तलवार के पानी से बुझा दिया। मुसलमान सेना रावीर दुर्ग पहुँची। दो दिन और रात तीर गोलियाँ चलीं। जब ढाँकुओं ने देखा कि प्रतिद्वंद्वियों की दृढ़ता नहीं कम हो सकती तब वे नगर में चले गए। नगर के काजी और रईसों ने रक्षा के लिए बहुत प्रयत्न किया पर बाहरी भाग लूट की भाँडू से साफ हो गया और अन्याय की अधि में जल गया। १० वीं सफर को खॉं रात्रि में आक्रमण करने निकला और रावीर दुर्ग से आगे बढ़ा। अनुभवी मनुष्यों ने शुभ-चिंतन से रात्रि के समय जाने से मना किया पर इसने नहीं सुना। यह जब नगर के पास आया तब दुष्ट जान गए और मार्ग रोका। युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ओर के बहादुर वीरता दिखलाने लगे। मीर अहमद खॉं अपने अधिकांश पुत्रों तथा संबंधियों और दो तिहाई सैनिकों के साथ युद्ध-स्थल में मारा गया। जफरमंद खॉं वायु से वेग में बढ़ गया और ऐसी स्थिति में जब धूल भी वायु मार्ग से नगर में नहीं पहुँच सकती थी तब वह नगर में मृत खॉं के एक पुत्र तथा कुछ अन्य लोगों के साथ पहुँचा। बचे हुए में कुछ घायल हुए और कुछ कैद हुए। खॉं के बाद दो पुत्र जीवित रहे। एक मीर सैयद मुहम्मद था, जो दर्वेश की चाल पर

( ३६८ )

रहता था और इसी विचार से सम्मानित भी होता था । दूसरा मीर मुहामिद था, जिसे पिता की पदवी मिली । इसका अलग वृत्तांत दिया गया है ।

---

## ६६. मीर अहमद खॉं द्वितीय

मृत मीर अहमद खॉं का यह पुत्र था, जिसने बुर्हानपुर की अध्यक्षता के समय मराठा काफ़िरों से युद्ध करते प्राण खोया था। इसका पहिला खिताब महामिद खॉं था और इसने बाद को पिता की पदवी पाई थी। कुछ समय तक यह पंजाब के बकला अमनाबाद का फौजदार था। भाग्यवशात् इसकी स्त्री, जिस पर उसका अधिक प्रेम था, यहीं मर गई और यह रोने में लग गया। यह हृदय-विदारक घाव इसके हृदय में तर्बूज के कतरे के समान था। यह उसके मकबरे के बनवाने और सजाने में लग गया तथा बाग लगवाया। इसके बाद इनायतुल्ला खॉं कश्मीरी का प्रतिनिधि हो कर काश्मीर का प्रांताध्यक्ष हुआ। वहाँ सफल न हुआ और इसका जीवन अप्रतिष्ठा में समाप्त हुआ। विवरण यों है कि महतवी खॉं मुत्ता अब्दुन्नबी, जो अपने समय का एक विद्वान और मंसबदार था, सदा अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को पूरी करने के लिए इस्लाम की रक्षा की ओट में अक्सर देखता रहता था। कट्टरता तथा भगदाल् प्रकृति के कारण यह कभी कभी उस प्रांत के हिंदुओं पर जाँच के रूप में अत्याचार करता था।

साम्राज्य के विप्लव तथा अशांति के कारण घर्मडियों तथा विद्रोहियों के उपद्रव हो रहे थे, इससे उस बलवाई ने मुहम्मद शाह के राज्य के २ रे वर्ष ( सन् १७२० ई० ) में नगर के नीचों और मूर्खों को धार्मिक बातें समझ कर अपना अनुयायी बना लिया। क्रमशः इसने नाएब सूबेदार तथा काजी पर आक्रमण किया



और जिम्मियों के नियमों को चलाने के लिए उन्हें बाध्य करना चाहा, जैसे घोड़ों पर सवारी करने से और कवच पहिरने से मना करना आदि। साथ ही काफिरों को जनसाधारण में अपना पाखंड-पूजन करने से रोकने को कहा। उन दोनों ने उत्तर दिया कि हिंदुस्तान की राजधानी तथा अन्य नगरों के नियम ही यहाँ माने जायेंगे। वर्तमान सम्राट् की आज्ञा बिना नए नियम नहीं चलाए जा सकते। उस उपद्रवी ने शासकों से अलग होकर हिंदुओं का जब अवसर पाता अपमान करता। देवात् इसी समय नगर का एक प्रधान मनुष्य मजलिस राय ब्राह्मणों के साथ एक बाग में आया और वहाँ ब्रह्मभोज करने लगा। उस ओछे आदमी ने वहाँ आकर 'पकड़ो बाँधो' का शोर मचाया और तुरंत उन्हें मारने और बाँधने लगा। मजलिस राय भाग कर मीर अहमद के घर आया कि वहाँ उसकी रक्षा होगी पर उस अन्यायी ने लौट कर नगर के हिंदू भाग में आग लगा कर उसे नष्ट कर दिया। इतने से भी संतुष्ट न होकर उसने खों के घर को घेर लिया। जिसे पकड़ पाता उसे अपमानित करता। खों ने अपने को उस दिन बेहज्जती से किसी प्रकार बचा लिया। दूसरे दिन यह कुछ सैनिक एकत्र कर शाही बख्शी तथा मंसबदारों को साथ लेकर उसे दमन करने चला। उस विद्रोही ने अपने आदमी इकट्ठा कर तीर चलाना और तलवार मारना आरंभ किया। उसके इशारे पर शहर के मुसलमानों ने भी विद्रोह कर दिया। कुछ ने उस पुल को जला दिया, जिससे खों उतरा था। सड़क तथा बाजार के दोनों ओर से तीर गोली और पत्थर चलाए जा रहे थे तथा ईटें फेंकी जाती थीं।

औरतें तथा लड़के जो पाते उसीको छत और दरवाजे से फेंकते थे । इस भयंकर शोर में खों का भौंजा और कई मनुष्य मारे गए । खों इस मारकाट से उदास होकर प्रार्थी हुआ क्योंकि यह न आगे बढ़ सकता था और न पीछे हट सकता था और घृणा-युक्त जीवन बचा लेना ही लाभ समझता था । इसके बाद उस उपद्रवी अब्दुल्लाही ने हिंदुओं के बचे मकान लूट और नष्ट कर दिए और मजलिस राय तथा बहुतों को रक्षा-स्थल से बाहर लाकर उनके अंग भंग किए । सुन्नत करते समय उनके अंग ही काट दिए गए । दूसरे दिन महतवी खों जुम्मा मसजिद में गया और मुसलमानों को एकत्र कर मीर अहमद खों को शासक पद से उतार कर दीनदार खों को पदवी से स्वयं शासक बन गया । पाँच महीने तक, जिस बीच दरबार से कोई प्रांताध्यक्ष नहीं आया, यह अपनी आज्ञाएँ निकालता रहा । यह मसजिद में बैठकर आर्थिक और नैतिक कार्य देखता था । जब इनायतुल्ला खों का प्रतिनिधि मोमिन खों नज्मसानी शांति स्थापन करने को और नया प्रबंध करने को नियत होकर काश्मीर से तीन कोस पर शब्वाल महीने के अंत में पहुँचा तब महतवी खों, जो अपने कुकर्मों से लज्जित था, नगर के कुछ विद्वान् तथा मुख्य आदिमियों के साथ मंसबदार ख्वाजा अब्दुल्ला को लेकर, जो वहाँ का प्रसिद्ध मनुष्य था, स्वागत करने आया और आदर के साथ नगर में ले गया । ख्वाजा ने मित्रता से या शरारत से, जो उस प्रांत के निवासियों की प्रकृति है, उसे सम्मति दी कि पहिले मीर शाहपूर खों बख्शी के गृह जाकर जो कुझ हो चुका है उसके लिए क्षमा माँगे, जिसके बाद तुम्हें क्षमा मिल जायगी ।

उसके पाप-प्रक्षालन का समय आ चुका था, इसलिए मृत्यु-दूत को बात सुन ली और तुरंत वहाँ गया। गृह स्वामी, जिसने कुछ गक्खर मंसबदारों आदि तथा जूदी मली ओर के मनुष्यों को घर के कोने में छिपा रखा था, जब कुछ कार्य के बहाने बाहर चला गया तब वे सब उस मनुष्य पर दूट पड़े और पहिले उसके दो युवा पुत्रों को मार डाला, जो सर्वदा उसके आगे आगे मुहम्मद के जन्म-गीत गाते चलते थे, तथा उसके बाद उसे भी कष्ट के साथ मार डाला। दूसरे दिन उसके अनुयायियों ने अपने सर्दार का बदला लेने को युद्ध की तैयारी की और जूदी मली मुहल्ले पर, जिसके निवासी शीआ थे, तथा हरनाबाद मुहल्ले पर धावा कर दिया। दो दिन तक युद्ध होता रहा पर इस ओर ( महतबी पक्ष ) आम बलवा था, इसलिए ये विजयी हुए और उन दोनों भाग के दो तीन सहस्र मनुष्यों तथा कुछ मुगल-यात्रियों को मार डाला। इन सब ने स्त्रियों की इज्जत लूटी और दो तीन दिन तक धन और सामान आदि लूटते रहे। इसके अनंतर वे काजी और बखशी के गृह पर गए। एक तो किसी कोने में ऐसा छिपा कि पता न लगा और दूसरा निकल भागा। उन मकानों का बलवाइयों ने इक ईटा साबूत नहीं छोड़ा। जब मोमिन खॉ नगर में आया तब उसने 'डालुआ हो जाओ और बहाओ मत' सिद्धांत ग्रहण किया और मीर अहमद खॉ को रक्षकों के साथ बिदा कर दिया, जो राजधानी पहुँच गया। इसके बाद कमरुद्दीन खॉ बहादुर एतमादुद्दीला ने इसे मुरादाबाद की फौजदारी दी। यहाँ इसने बहुत कष्ट पाया, इसका मृत्यु समय नहीं मिला।

## ६७. शेख अहमद

फतहपुर के शेख सलीम बिश्ती का द्वितीय पुत्र था, जिसका वंश देहली का था। इसका पिता शेख बहाउद्दीन फरीद शकर गंज था। शेख अरब में बहुत दिन तक रहा और बहुधा यात्रा करता रहा तथा शेखुल् हिंद के नाम से उस प्रांत में प्रसिद्ध था। भारत में लौटने पर यह सीकरी में बस गया, जो आगरे से बारह कोस पर बिआना के अंतर्गत है। इस आनंददायक स्थान में बाबर ने राणा साँगा पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसने उसका शुकरि नाम रखा। उस ग्राम के पास की एक पहाड़ी पर शेख सलीम ने एक मसजिद तथा खानकाह बनवाया और फकीरी करने लगा। यह आश्रय की बात थी कि अकबर को जो चौदहवें वर्ष में गद्दी पर बैठा था, दूसरे चौदह वर्ष तक अर्थात् अट्ठाईस वर्ष की अवस्था तक जो संतान हुई वह जीवित न रही। जब उसने शेख के विषय में सुना तब उसी अवस्था में उसे इच्छा हुई कि उससे सहायता लें। शेख ने उसे सुसमाचार दिया कि तुम्हें तीन पुत्र होंगे। उसी समय जहाँगीर की माता में गर्भ के लक्षण दीख पड़े। ऐसी हालत में निवास-स्थान का परिवर्तन शुभ माना जाता है। वह पवित्र स्त्री आगरे से शेख के गृह पर भेजी गई और बुधवार १७ रबीउल अख्बर सन् ९७३ हि० ( ३१ अगस्त सन् १५६९ ई० ) को जहाँगीर पैदा हुआ। शेख के नाम पर इसका सुलतान मुहम्मद सलीम नामकरण हुआ।

जन्म की तारीख 'दुर्रें शहवार लज्हे अकबर' से ( एक उज्वल मोती बड़े समुद्र से ) निकलती है । इसके बाद जब सुलतान मुराद और सुलतान दानियाल का जन्म हुआ तथा शेख का प्रभाव मान्य हुआ तब सीकरी शहर हो गया और उच्च खानकाह तथा मदरसा पाँच लाख खर्च कर बनवाया गया । तारीख हुई 'ब लायरा फिल बुलाद सानीहा' ( नगरों में कोई दूसरा ऐसा नहीं मिलेगा, ९८२ = १५७४-५ ) । आनंददायक महल, प्रस्तर-निर्मित बड़े बाजार और सुंदर बाग तैयार हुए । जब नगर बस रहा था तभी गुजरात का उर्वर प्रांत विजय हुआ । अकबर इसका नाम फतेहाबाद रखना चाहता था पर फतहपुर नाम पड़ गया और उसे बादशाह ने पसंद किया । शेख सन् ९७९ हि० ( १५७१-२ ई० ) में मरा । तारीख हुई 'शेख हिंदी' । शेख और अकबर में जो सत्यनिष्ठा और सम्मान था उसके कारण उसके पुत्र, दामाद, पौत्रादि ने अच्छे पद पाए और उसकी स्त्री तथा पुत्रियों का दूध के नाते सुलतान सलीम से संबंध था । शेख के वंशज उसके धाय भाई हुए और उसके राज्य में कई पाँच हजारों मंसब तक पहुँचे तथा डंका निशान पाया ।

तात्पर्य यह कि शेख अहमद में कई अच्छे सांसारिक गुण थे । यह जनसाधारण को गाली नहीं देता था और कितनी अश्लील बातों को देखकर भी शोक में निमग्न नहीं हो जाता था । राजभक्ति तथा शाहजादे के धाय भाई होने से यह प्रसिद्ध हो गया और बड़े अफसरों में गिना जाने लगा । यद्यपि यह पाँच सदी मंसब ही तक पहुँचा था पर इसका बहुत प्रभाव था । २२ वें वर्ष मालवा की चढ़ाई में इसे ठंड लग गई और राजधानी

( ३७५ )

लौटने पर कुछ अपथ्य करने से वहीं लकवा हो गया । उसी वर्ष यह उस दिन मरा जब अकबर अजमेर को रवाना हुआ और इसे बुला भेजा था । इसने अपनी अंतिम बिदाई ली और गृह पहुँचने पर सन् ९८५ हि० ( १५७७ ई० ) में मर गया ।

---

## ६८. अहसन खाँ, सुलतान हसन

इसका दूसरा नाम मीर मलंग था और यह मुहम्मद मुराद खाँ का भोजा था। यह भौरंगजेब के समय के प्रसिद्ध पुरुषों में था और योग्य पद पर नियत था। ५१ वें वर्ष में जब बादशाह ने अपने में निर्बलता देखी और मुहम्मद आजमशाह के, जो साहस के लिए प्रसिद्ध था और प्रधान अफसरों को जिसने मिला लिया था, कामबख्श पर कुदृष्टि रखने का उसे ज्ञान हुआ तब उसने अहसन खाँ को कामबख्श का बखशी नियत कर इसे उसका काम सौंपा क्योंकि इस शाहजादे पर उसका प्रेम अधिक था। इसी कारण यह बराबर उसके आने जाने पर ध्यान रखता था। मुहम्मद आजमशाह बराबर कामबख्श के विरुद्ध बादशाह से कहा करता था पर उसका कुछ असर नहीं होता था। अंत में उसने अपनी सगी बहिन जीनतुन्निसा बेगम को पत्र में लिखा कि 'उस उहड़ की मूर्खता का दंड देना कोई बड़ी बात नहीं है पर बादशाह की प्रतिष्ठा मुझे रोकती है।' यह पत्र पढ़ने पर बादशाह ने लिखा कि 'इस सबके लिए मत घबड़ाओ। हम कामबख्श को बिदा कर रहे हैं।' इसके बाद उस शाहजादे को शाही चिन्ह देकर बीजापुर भेज दिया। उसके परेदा दुर्ग पहुँचने के बाद भौरंगजेब की मृत्यु का समाचार मिला और बहुत से अफसर उसे बिला सूचना दिए ही चले गए। सुलतान हसन ने बचे हुए लोगों को मिलाकर रखने का प्रयत्न किया और बीजापुर

पहुँचने पर उसी के प्रयास से अध्यक्ष सयद नियाज खॉं ने दुर्ग की ताली दे दी तथा शाहजादे का साथ दिया। शाहजादे ने मुलतान हसन को पाँच हजारी मंसब, अहसन खॉं को पदवी और मीर बरूशी का पद दिया। जब शाहजादे ने बीजापुर से कूच कर गुलबर्गा पर अधिकार कर लिया तब वह बाकिनकेरा आया, जिस पर पीरमा नायक जर्मीदार अधिकृत हो गया था। अहसन खॉं ने इसे लेने का प्रयत्न किया। इसके बाद शाहजादे के पुत्र को प्रथानुसार साथ लेकर यह कर्नूल गया। वहाँ से धन लेकर यह अर्काट गया जहाँ दाऊद खॉं पट्टनी फौजदार था। जरा-जरा सी बात पर, जो शाहजादे के लिए लाभदायक था, इसने ध्यान रखा और धन की कमी तथा अन्य अड़चनों के रहते भी काम बराबर चलाने में दत्तचित्त रहा। यह फिर शाहजादे से जा मिला। जब यह हैदराबाद से चार मंजिल पर था तब वहाँ के अध्यक्ष रुस्तम दिल खॉं सब्जबारी को प्रसन्न कर शाहजादे की सेवा में लिवा आया। हकीम मुहसिन खॉं, जिसे तकर्हब खॉं की पदवी मिली थी और जो वजीर था, अहसन खॉं से ईर्ष्या कर, जिससे पुराने समय से राज्य चौपट होते आए, शाहजादे को बराबर उल्टी बातें समझाता रहा और उसको इसके विरुद्ध कर दिया। जिस समय अहसन खॉं और रुस्तमदिल खॉं के बीच शाहजादे के प्रति भक्ति बढ़ रही थी, उसी समय तकर्हब खॉं ने समझाया कि वे शाहजादे को कैद करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। शाहजादा की प्रकृति कुछ पागलपन की और भ्रमसर हो रही थी और उस समय चिंताओं के कारण वह घबरा भी रहा था, इससे रुस्तम दिल को मार कर, जैसा कि उसकी जीवनी



( ३७८ )

में लिखा गया है, खों को बुला भेजा और इसे भी कैद कर बड़े कष्ट से मार डाला । कहते हैं कि यद्यपि लोगों ने इसे सूचित किया कि शाहजादा उसे कैद करना चाहता है पर इसने, जो सदा उसका हितेच्छु रहा, इस पर विश्वास नहीं किया । यह घटना सन् ११२० हि० ( १७०८ ई० ) में घटी । इसका बड़ा भाई मीर सुलतान हुसेन बहादुरशाह के द्वितीय वर्ष में बहादुरशाह की सेवा में पहुँचा और एक हजार २०० सवार का मंसब तथा तालायार खों की पदवी पाई ।

---

## ६६. आकिल खाँ इनायतुल्ला खाँ

अफजल खाँ मुल्ला शुक्रुल्ला का यह भ्रातृपुत्र तथा गोद लिया हुआ था। इसके पिता का नाम अब्दुल् हक था, जो शाहजहाँ के राज्य-काल में एक हजारी २०० सवार का मंसबदार था तथा अमानत खाँ कहलाता था। वह नस्ख लिपि बहुत अच्छी लिखता था। १५ वें वर्ष में मुमताजुज्जमानी के गुबंद पर लेख लिखने के पुरस्कार में इसने एक हाथी पाया। वह १६ वें वर्ष में मर गया। उक्त खाँ १२ वें वर्ष में 'अर्जमुकरर' नियत हुआ और बाद को आकिल खाँ की पदवी पाई। मुल्तफत खाँ का स्थानापन्न होकर यह बयूतात का दीवान नियुक्त हुआ। १५ वें वर्ष में इसका मंसब दो हजारी ५०० सवार का हो गया तथा भीर सामान नियत हुआ। १७ वें वर्ष में मूसवी खाँ की मृत्यु पर यह प्रांतों का तथा उपहार-विभाग का अर्ज विक्राया नियत हुआ, जिस पद पर मूसवी खाँ भी था। १८ वें वर्ष में २०० सवार बढ़ाए गए और प्रांतों के अर्ज विक्राया का पद मुल्ला अलावल् मुल्क को दिया गया। १९ वें वर्ष में इसका मंसब ढाई हजारी ८०० सवार का हो गया। इसके अनंतर जब इसके स्थान पर अलावल् मुल्क तूनी खानसामों नियत हुआ तब इसके मंसब में २०० सवार बढ़ाए गए और वह दूसरा बखशी और प्रांतों का अर्ज विक्राया बनाया गया। २० वें वर्ष में यह कुछ सेना के साथ गोर के थानेदार शाहबेग खाँ के पास पच्चीस लाख रुपये पहुँचाने को

भेजा गया। उसी वर्ष इसका मंसब तीन हजारी १००० सवार का हो गया और इसे झंडा मिला। २२ वें वर्ष सन् १०५९ हि० ( १६४९ ई० ) के अंत में जब बादशाह काबुल में थे तभी यह एकाएक मर गया। यह कविता तथा हिसाब किताब में दक्ष था। सती खानम की, जिसके हाथ में बादशाह का हरम था, पोष्य-पुत्री से इसका विवाह हुआ था।

वह खानम माजिंदरान के एक परिवार की थी और तालिब अमली की बहिन थी, जिसे जहाँगीर के समय मलिकुशशाबरा की पदवी मिली थी। काशान के हकीम रुकना के भाई नसीरा अपने पति की मृत्यु पर वह सौभाग्य से मुमताजुज्जमानी की सेवा में चली आई। बोलने में तेज, कायदों की जानकार तथा गृहस्थी और दवा की ज्ञाता होने के कारण वह शीघ्र अन्य सेविकाओं से बढ़ गई और मुहरदार नियत हुई। कुरान पढ़ना तथा फारसी साहित्य के जानने के कारण वह बेगम साहिबा की गुरुआइन नियत हुई और सातवें आसमान शनीचर तक ऊँची हो गई। मुमताजुज्जमानी की मृत्यु पर बादशाह ने उसके गुणों को जानकर उसे हरम का सरदार बना दिया। इसे कोई संतान नहीं थी इसलिए तालिब की मृत्यु पर उसकी दोनों पुत्रियों को गोद ले लिया। बड़ी आकिल खों को और छोटी जियाउद्दीन को व्याही गई, जिसे रहमत खों की पदवी मिली थी और जो हकीम रुकना के भाई हकीम कुतबा का लड़का था। २० वें वर्ष में जब बादशाह लाहौर में थे तब छोटी पुत्री, जिसे खानम बहुत प्यार करती थी, प्रसूति में मर गई। खानम घर गई और कुछ दिन शोक मनाया। इसके बाद बादशाह ने उसे बुलाया और महल

के भीतर उस गृह में, जो उसका था, उसे बैठवाकर स्वयं वहाँ आया तथा उसे महल में लिवा गया। बादशाह का सब कार्य पूरा करने पर अपने नियत स्थान पर गई और वहीं मर गई। बादशाह ने कोष से दस सहस्र रुपये उसके संस्कार तथा गाड़ने के लिए दिए और आज्ञा दी कि वह अस्थायी कब्र में रखी जाय। एक वर्ष के ऊपर हो जाने के बाद उसका शव आगरे गया और वहाँ तीस सहस्र व्यय कर महद अलिया के मकबरे के चौक में पश्चिम की ओर बने मकबरे में गाड़ा गया। तीन सहस्र वार्षिक आय का गाँव उसकी रक्षा के लिए दिया गया।

---

## १००. आकिल खॉ मीर असाकरी

यह खवाफ का रहने वाला था और औरंगजेब का एक बाळाशाही सैनिक था। जब वह शाहजादा था तब यह उसका द्वितीय बखशी था। अपने पिता की बीमारी के समय जब शाहजादा दक्षिण से उत्तरी भारत आ रहा था तब आकिल खॉ को औरंगाबाद नगर की रक्षा को छोड़ दिया गया था। औरंगजेब की राजगद्दी पर यह दरबार आया और आकिल खॉ की पदवी पाकर मध्य दोआब का फौजदार नियत हुआ। ४ थे वर्ष यह हटा दिया गया और बीमारी के कारण दस सहस्र वार्षिक पेंशन पर लाहौर जाकर एकांतवास करने लगा। ६ ठे वर्ष जब बादशाह काश्मीर से लाहौर लौटे तब इस पर दया हुई और यह एकांत से बाहर निकला। इसे खिलअत और दो हजारी ७०० सवार का मंसब मिला। इसके बाद यह गुसलखाना का दारोगा नियत हुआ। ९ वें वर्ष पाँच सौ जात बढ़ा और १२ वें वर्ष में यह फिर एकांतवास में रहने लगा, तब इसे बारह सहस्र वार्षिक वृत्ति मिलती थी। इसके ऊपर फिर कृपा हुई और २२ वें वर्ष में यह सैफ खॉ के स्थान पर बखशी-तन नियुक्त हुआ। २४ वें वर्ष यह दिल्ली प्रांत का अध्यक्ष नियुक्त हो सम्मानित हुआ। ४० वें वर्ष, सन् ११०७ हि० ( १६९५-९६ ) में यह मर गया। यह दरिद्र होते स्वतंत्र प्रकृति का था और हड़ चित्त भी था।

इसने बड़े सम्मान के साथ सेवा की और अपने समकक्षों से घमंड रखता था ।

जब महाबत खॉं मुहम्मद इब्राहीम लाहौर का शासक नियत हुआ तब उसने दुर्ग तथा शाही इमारतों को देखने की आज्ञा माँगी । उसकी प्रार्थना स्वीकृत हुई और आफिल खॉं को इस कार्य के लिए आज्ञा भेजी गई । इसने उत्तर में लिख भेजा कि कुछ कारणों से वह महाबत खॉं को नहीं दिखला सकता, क्योंकि पहिले हैदराबादी मनुष्य शाही इमारतें देखने याग्य नहीं है और दूसरे दरवाजे रक्षा के लिए बंद पड़े हैं तथा कमरे में दरियाँ नहीं बिछी हैं । केवल उसके निरीक्षण के लिए उन सबकी सफाई कराना तथा दरी बिछवाना उचित नहीं है । तीसरे वह जैसा व्यवहार मुझसे चाहेगा वह नहीं दिखलाया जायगा । इन सब कारणों से उसे भीतर नहीं आने दिया जायगा । महाबत के खॉं दिल्ली आने पर तथा संदेशा भेजने पर इसने इनकार कर दिया । बादशाह ने भी इसकी पुरानी सेवा, विश्वास तथा राजभक्ति का विचार कर इसकी इस अहंता तथा हठ की उपेक्षा की और ऊँचे पद इसे दिए । यह बाह्यगुण-विहीन नहीं था । यह बुर्हानुद्दीन राजे-इलाही का शिष्य था, इसलिए राजी उपनाम रखा था । इसका दीवान और मसनवी प्रसिद्ध हैं । मौलाना रूम की मसनवी की खूबियों को समझाने की योग्यता में अपने को अद्वितीय समझता था । यह उदार प्रकृति और सहृदय था । यह इसका शेर है, जिसे इसने जब औरंगजेब जैनाबादी की मृत्यु के दिन घोड़े पर सवार होकर जा रहा था तब पड़ा था—

इस्क था आसान कितना ? आह, अब दुश्वार है ।

( ३८४ )

हिअ्र था दुश्वार, आसॉं यार ने समझा उसे ॥

शाहजादे ने इस शैर को दो तीन बार पढ़ने के लिए कहा और तब पूछा कि यह किसका कहा हुआ है । आकिल ने उत्तर दिया कि 'यह उसके बनाए हैं, जो अपने स्वामी की सेवा में रह कर अपने को कवि नहीं कहना चाहता ।'

---

## १०१. आजम खॉं कोका

इसका नाम मुज़फ्फरहुसेन था पर यह फिदाई खॉं कोका के नाम से प्रसिद्ध था। यह खानजहाँ बहादुर कोकल्लाश का बड़ा भाई था। शाहजहाँ के राज्य-काल में अपनी सेवाओं के कारण विशेष सनमान और विश्वास का पात्र हो गया था। आरंभ में अदालत का दारोगा नियत हुआ और उसके बाद बीजापुर के राजदूत के साथ शाहजहाँ की भेंट लेकर वहाँ के शासक आदिलशाह के यहाँ गया। २२ वें वर्ष तुजुक का काम इसे सौंपा गया और २३ वें वर्ष अहदियों का बख्शी हुआ। २४ वें वर्ष इसका मंसब बढ़कर एक हजारी ४०० सवार का हो गया और काबुल के मंसबदारों का बख्शी और वहाँ के तोपखाने का दारोगा नियत हुआ। २६ वें वर्ष यह दरबार आकर मीर तुजुक हुआ। इसके अनंतर खास फीलखाने का दारोगा हुआ और उसके अनंतर कुल फीलखाने का दारोगा हो गया। २९ वें वर्ष गुर्जवरदारों का दारोगा हुआ और तरबियत खॉं के स्थान पर फिर मीर तुजुक का काम करने लगा। बादशाह ने कृपा करके इसका मंसब पाँच सदी २०० सवार बढ़ाकर ३० वें वर्ष के आरंभ में फिदाई खॉं की पदवी दी थी। इसके बाद जब औरंगजेब बादशाह हुआ तब घाय-भाई के संबंध के कारण यह बादशाह का कृपापात्र हुआ। जिस समय दारा शिकोह का पीछा करते हुए दिल्ली के पास एब्जा बाद बाग में बादशाह ठहरे हुए थे, उस समय इसको डंका



देकर अमीरुल् उमरा शायस्ता खॉ के साथ सुलेमान शिकोह पर, जो लखनऊ से फुर्ती से चलता हुआ पिता के पास जाने की इच्छा रखता था, नियत हुआ। उक्त खॉ ने अमीरुल् उमरा से आगे बोरिया की ओर जाकर पता लगाया कि सुलेमान शिकोह चाहता है कि श्रीनगर के राजा पृथ्वी सिंह को सहायता से हरिद्वार पतर कर लाहौर की ओर जाय। एक दिन रात में अस्सी कोस का धावा कर ये लोग हरिद्वार पहुँचे। खॉ के वहाँ पहुँचने पर विद्रोही हैरान होकर पार न जा सका और श्रीनगर के पहाड़ी देश में चला गया। फिदाई खॉ वहाँ से लौट कर दरबार आया और वहाँ से खली-लुल्ला खॉ के पास भेजा गया, जो दारा शिकोह का पीछा कर रहा था। इसी समय जब औरंगज़ेब मुलतान जाने का इच्छा से कसूर ग्राम में ठहरा हुआ था तब यह आज्ञानुसार दरबार आकर इरादत खॉ के स्थान पर अवध का सूबेदार हुआ और वहाँ की तथा गोरखपुर की फौजदारी भी इसे भिजी। शुजाअ के युद्ध तथा उसके भागने पर यह मुअज्जम खॉ भीर जुमला के साथ नियत हुआ कि मुलतान मुहम्मद के साथ रहकर उस भगैल का पीछा करे। यहाँ से जब मुलतान मुहम्मद अपने चाचा के साथ खूब युद्ध करते समय मोअज्जम खॉ की हुकूमत से घबड़ा कर शुजाअ के पास चला गया पर वहाँ से उसकी दरिद्रता और खराब हालत देखकर लज्जित हो बादशाही सेना में फिर लौट आया तब मुअज्जम खॉ ने आज्ञानुसार फिदाई खॉ को कुछ सेना के साथ उक्त अदूरदर्शी शाहजादे को अपनी रक्षा में लेकर दरबार पहुँचाने को भेजा। ४ थे वर्ष सफशिकन खॉ के

स्थान पर यह मीर आतिश हुआ। ६ ठे वर्ष के आरंभ में औरंग-जेब कश्मीर की ओर रवाना हुआ। नियाजी अफगानों की जातियों में एक सम्भल जाति होती है, जो सिंध नदी के उस पार बसती है। उनमें से कुछ पहिले धनकोट बर्फ मुजब्बम नगर में, जो नदी के इस पार है, आकर उपद्रव मचाते थे। फौजदारों तथा अधिकारियों ने आजा के अनुसार उन्हें इस तरफ से उधर भगा दिया। इसी समय उस जाति ने अपनी मूर्खता से फिर सिंध नदी के इस पार आकर बादशाही थाने पर अधिकार कर लिया। उक्त खॉं ने, जो तोपखाने के साथ चिनाब नदी के किनारे ठहरा हुआ था, उस झुंड को दमन करने के लिए नियुक्त होकर बहुत जल्द उनको नष्ट कर डाला। यह उस प्रांत को प्रबंध ठीक कर खंजर खॉं को, जो वहाँ का फौजदार था, सौंप कर लौट गया। इसी वर्ष बादशाह लाहौर से दिल्ली लौटते समय जब कुछ दिन तक कानवाधन शिकार गाह में ठहरे तब फिदाई खॉं को जालंधर के विद्रोहियों को दंड देने के लिए नियत किया, जिन्होंने मूर्खता से उपद्रव मचा रखा था। ७ वें वर्ष इसका मंसब चार हजारी २५०० सवार का हो गया। १० वें वर्ष इसका मंसब ५०० सवार बढ़ने से चार हजारी ४००० सवार का हो गया और यह गोरखपुर का फौजदार तथा इसके बाद अबध का सूबेदार भी हो गया। १३ वें वर्ष यह दरबार आकर लाहौर का सूबेदार हुआ। जब रास्ते में काबुल के सूबेदार महम्मद अमीन खॉं के पराजय का विचित्र हाल मिला तब यह लाहौर से पेशावर जाकर वहाँ का प्रबंधक नियत हुआ और उसके बाद

जम्मू की चढ़ाई पर गया। जब उसी समय १७ वें वर्ष बादशाह हसन अब्दाल की ओर चला तब फिदाई ख़ाँ महाबत ख़ाँ के स्थान पर काबुल का सूबेदार होकर भारी सेना और बहुत से सामान के साथ वहाँ गया। अगर ख़ाँ को हरावल नियत कर उपद्रवी अफगानों को दंड देने के लिए बाजारक और सेह-चोबा के मार्ग से युद्ध करते हुए पेशावर से जलालाबाद पहुँचा और वहाँ से काबुल गया। लौटने के समय बहुत से अफगानों ने एकत्र होकर इसका रास्ता रोका और गहरा युद्ध हुआ। हरावल की फौज के पीछे हटने पर बहुत सा तोपखाना और सामान लुट गया और पास था कि भारी पराजय हो परंतु इसने बड़ी वीरता से मध्य की सेना को दृढ़ रखा। अगर ख़ाँ को गंदमक थाने से बुलाकर हरावल नियत किया और दूसरी बार दुर्गम घाटी कतल जलक पर लड़ाई का प्रबंध हुआ। तीर और गोली के सिवा हाथी के बराबर बड़े बड़े पत्थर पहाड़ की चोटियों से लुढ़काए गए कि बादशाही सेना तंग आ गई। केवल ईश्वर की कृपा से कुछ वीरता-पूर्ण धावों से अफगान भाग खड़े हुए। फिदाई ख़ाँ विजय के साथ जलालाबाद पहुँच कर थाने बैठाने में लगा और उस उपद्रवी जाति को दमन करने में जहाँ तक संभव था प्रयत्न किया कि वे लूट मार न करने पावें। दरबार से इन सेवाओं के पुरस्कार में इसे आजम ख़ाँ कोका की पदवी मिली। २० वें वर्ष दरबार आकर अमीरुल उमरा के स्थान पर बंगाल प्रांत का नाजिम हुआ। १२ वें वर्ष जब उक्त प्रांत का शासन शाहजादा महम्मद आजम शाह को मिला तब यह उक्त शाहजादा के वकीलों के स्थान पर बिहार का प्रांताध्यक्ष

हुआ । यहीं ९ रबीउल आखिर सन् १०८९ हि० (सन् १६७८-९ ई०)को मर गया । उक्त खॉ की हवेली लाहौर की अच्छी इमारतों में से है और बहुत दिनों तक वह सूबेदारों का निवास-स्थान रही । इसके बड़े पुत्र सालह खॉ का वृत्तांत, जिसे फिदाई खॉ की पदवी मिली, अलग दिया हुआ है । दूसरा पुत्र सफदर खॉ खान-जहाँ बहादुर का दामाद था और औरंगजेब के ३३ वें वर्ष ग्वालियर की फौजदारी करते समय गढ़ी पर आक्रमण करने में तीर लगने से मर गया ।

---

## १०२. आजम खाँ मीर महम्मद बाकर उर्फ़ इरादत खाँ

यह सावा के अख्खे सैयदों में से था, जो एराक का एक पुराना नगर है। मुहम्मद के द्वारा वहाँ के समुद्र का सूखना प्रसिद्ध है। मीर आरंभ में जब हिंदुस्तान आया तब आसफ़ खाँ मीर जाफर की ओर से स्यालकोट, गुजरात और पंजाब का फौजदार हुआ। इसके अनंतर उक्त खाँ का दामाद होकर प्रसिद्ध हुआ और जहाँगीर से इसका परिचय हुआ। इसके अनंतर तरक्की कर यमीनुद्दौला आसफ़ खाँ के द्वारा अच्छा मनसब और खानसामों का पद पाया। इस काम में राजभक्ति और कार्य-कौशल अधिक दिखलाने से बादशाह का कृपापात्र होकर १५ वें वर्ष खानसामों से काश्मीर का सूबेदार हो गया। वहाँ से लौटने पर भारी मनसब पाकर मीर बख्शी हुआ। जहाँगीर के मरने पर शहरयार के उपद्रव के समय यमीनुद्दौला का हर काम में साथी होकर राजभक्ति दिखलाई और यमीनुद्दौला से पहिले लाहौर से आगरे आकर शाहजहाँ की सेवा में पहुँचा। इसका मनसब पाँच सदी १००० सवार बढ़ने से पाँच हज़ारी ५००० सवार का हो गया और डंका तथा झंडा पाकर मीरबख्शी के पद पर नियत हो गया। इसके अनंतर यमीनुद्दौला की प्रार्थना पर पहिले वर्ष के ५ रज्जब को दीवान आला का वजीर नियत हुआ। दूसरे वर्ष दक्षिण के सूबों का प्रबंधक नियत हुआ। तीसरे वर्ष के

आरंभ में जब शाहजहाँ बुर्हानपुर पहुँचा तब इरादत खॉं ने सेवा में पहुँचकर आजम खॉं की पदवी पाई और पचास सहस्र सवार की सेना का अध्यक्ष होकर खानजहाँ लोदी को दंड देने और निजामशाह के राज्य पर अधिकार करने को नियत हुआ। एक खॉं ने वर्षा ऋतु देवल गाँव में बितकर गंगा के किनारे भोजा रामपुर में पड़ाव डाला। जब मालूम हुआ कि अभी खानजहाँ बीर से बाहर नहीं निकला है तब पड़ाव को मछलीगाँव में छोड़कर रात्रि में चढ़ाई की और खानजहाँ के सिर पर पकाएक पहुँच गया। उसने भागने का रास्ता बंद देखकर लड़ाई की तैयारी की, लेकिन जब बादशाही सेना के आदमी लूटमार में लगे हुए थे और सेना नियमित नहीं थी तब खानजहाँ अबसर पाकर पहाड़ से निकला और लड़ने की हिम्मत न करके भाग गया। यद्यपि ऐसी प्रबल फौज से बाहर निकल जाना कठिन था और बहादुर खॉं रुहेला तथा कुछ राजपूतों ने परिश्रम करने में कसर नहीं किया पर बादशाही सेना तीस कोस से अधिक चल चुकी थी इसलिए पीछा नहीं कर सकी। इसके अनंतर वह दौलताबाद चला गया, इसलिये आजम खॉं निजामशाह के राज्य में अधिकार करने गया। जब यह धारवर से तीन कोस पर पहुँचा तब इसकी इच्छा थी कि केवल कस्बे पर आक्रमण करें और दुर्ग को दूसरे किसी समय विजय करें। यह दुर्ग अपनी अजेयता और अपनी सामान की अधिकता के लिए दक्षिण में प्रसिद्ध था। यह ऊँचे पर बना हुआ था, जिसके दोनों ओर गहरी दुर्गम खाई थी। दुर्गवालों ने तीर और गोली मारकर इन लोगों को रोका और बस्ती के आदमियों ने अपने असबाब और

माल को खाई के भीतर सुरक्षित कर युद्ध का प्रयत्न किया । लाचार होकर कुछ सेना खंडक में पहुँची और बहुत माल लूट लाई । आजम खॉं ने बड़ी वीरता से रात में पैदल खंडक में पहुँचकर निरीक्षण कर मालूम किया कि एक ओर एक खिड़की है, जो पत्थर और मसाले से बन्द की हुई है और जिसको खोलकर दुर्ग में जा सकते हैं । इसके पास पत्थर फेंकनेवाले अस्त्र नहीं थे और यह किलेदारी की चाल को भी अच्छी तरह नहीं जानता था परंतु दुर्ग लेने की इच्छा की । दुर्ग के रक्षक इनकी कार्य दक्षता और युद्ध की वीरता देखकर घबड़ा गए । २३ जमादिउल् आखीर सन् १०४० हि० के चौथे वर्ष आक्रमण कर आजम खॉं सरदारों के साथ उस खिड़की से भीतर चला गया । दुर्गाध्यक्ष सीदी सालम, एतबार राव का परिवार और मलिकबदन का चाचा शम्स तथा निजामशाह की दादी बहुत लोगों के साथ गिरफ्तार हुई । बहुत सामान लूट में मिला । दुर्ग का नाम फतेहाबाद रखकर मीर अब्दुल्ला रिजवी को उसका अध्यक्ष नियत किया । आजम खॉं को छः हजारी ६००० सवार का संसब मिला । इस प्रकार जब निजामशाह का काम बिगड़ गया और उसका सेनापति मोकर्रब खॉं आजम खॉं से क्षमा प्रार्थी होकर बादशाही सेवा में चला आया तब उक्त खॉं रनदौला खॉं बीजापुरी के इस संदेश पर कि यदि तुम्हारे द्वारा आदिलशाह के दोष क्षमा हो जायेंगे तो प्रतिज्ञा करते हैं कि फिर उसके विरुद्ध बह न चलेंगे, मांजरा नदी के किनारे पहुँच कर ठहर गया । दैवात् एक दिन शत्रुओं के झुंड ने धावा किया और बहादुर खॉं रुहेजा और यूसुफ महम्मद खॉं ताशकंदी को घायल कर पकड़ ले गए ।

बादशाही सेना के बहुत से सैनिक मारे गए तथा कैद हुए । आजम खॉं चतकोषा, भालकी और बीदर के तरफ गया कि स्यात् उन सब को छोड़ाने का अवसर मिल जाय । चूँकि खाने पीने का सामान चुक गया था इसलिए गंगा के पार उतर गया । जब इसे मालूम हुआ कि निजामशाह वाले बीजापुरियों से संबंध करने के लिए बालाघाट से दुर्ग परिन्दः की ओर जा रहे हैं तो यह भी उसी तरफ चला और उक्त दुर्ग को घेर लिया । उसके चारों ओर २० कोस तक चारा नहीं मिलता था और बिना हाथी के काम नहीं चलता था इसलिए यह धारवर चला गया । उसी वर्ष आह्वानुसार दरबार गया । शाहजहाँ ने इससे कहा कि इस चढ़ाई में दो काम अच्छे हुए हैं—एक खानजहाँ को भगा देना और दूसरे धारवर दुर्ग पर अधिकार कर लेना । साथ ही दो भूलें भी हुई—पहिला मोकर्रब खॉं की प्रार्थना पर बीदर की ओर जाना नहीं चाहता था और दूसरे परिन्दः दुर्ग विजय नहीं कर सकते थे, तौ भी तुम्हें ठहरना चाहता था । उक्त खॉं ने अपना दोष स्वीकार कर लिया । इससे दक्षिण का काम ठीक नहीं हो सका था इसलिए यह उस पद से हटा दिया गया ।

पाँचवें वर्ष कासिम खॉं जवीनी के मरने पर यह बंगाल का सूबेदार नियुक्त होकर वहाँ गया । वहाँ बहुत से अच्छे आदमियों को एकत्र किया, जिनमें अधिकतर ईरान के आदमी थे । ८ वें वर्ष इलाहाबाद का शासक नियुक्त हुआ । नवें वर्ष गुजरात का प्रांताध्यक्ष हुआ । जब मिर्जा रुस्तम सफवी की लड़की, जो शाहजादा मुहम्मद शुजाअ से ब्याही गई थी, मर गई तब



सन् १०४९ हि० में आजम ख़ाँ ने अपने लड़की की शाहजादा से शादी करने की प्रार्थना की। इसके गर्भ से सुलतान जैनुल्-आबदीन पैदा हुआ। आजम ख़ाँ बहुत दिनों तक गुजरात के विस्तृत प्रांत में रहा। चौदहवें वर्ष में आवश्यकता पड़ने पर जाम के जमींदार पर चढ़ाई किया और उसकी राजधानी नवानगर पहुँचा, क्योंकि वहाँ के लोग इसकी अधीनता नहीं स्वीकार कर रहे थे। जाम घमंड भूल होश में आकर एक सौ कच्छी घोड़े और तीन लाख महमूदा सिक्का भेंट लेकर अधीनता स्वीकार करने के लिए आजम ख़ाँ के पास पहुँचा। शत्रु का प्रदेश होने से वहाँ यही सिक्का बनता था। यह इस विद्रोही का काम समाप्त कर अहमदाबाद लौट आया। इसके अनंतर इसलामाबाद मथुरा की जागीर पर नियत होकर वहाँ मकान और सराय बनवाया। इसके बाद बिहार का शासक नियुक्त हुआ। २१ वें वर्ष में काश्मीर की सूबेदारी के लिए बुलाया गया। इसने प्रार्थना पत्र दिया कि मुझको उस प्रांत का जाड़ा सख्त नहीं है इसलिए वह मिर्जा हसन सफवी के बदले सरकार जौनपुर में नियत किया जाय। २२ वें वर्ष सन् १०५९ हि० (सन् १६४९ ई०) में ७५ वर्ष की अवस्था पाकर मर गया। उसके मरने की तारीख 'आजम औलिया' से निकलती है। जौनपुर की नदी के किनारे एक बाग अपने शासनारंभ के वर्ष के अंत में बनवाया था, उसीमें गाड़ा गया। उसके बनने की तारीख 'बिहिश्त नेहुम वर लवे आव्र जूय' से निकलती है। इसके लड़कों को अच्छे मनसब मिले और हर एक का वृत्तांत अलग-अलग दिया गया है। कहते हैं कि आजम ख़ाँ अच्छे गुणों से युक्त था पर आमिलों का हिसाब

किताब पूरी तौर पर नहीं जानता था । तैमूरी राज्य में बहुत से अच्छे काम करके आरंभ से अंत तक सनमान के साथ बिता दिया । नीयत की सफाई होना चाहिए, जिससे आज तक, जिसको सौ वर्ष बीत गए, इसके वंशज हर समय प्रसिद्धि प्राप्त करते रहे, जैसा कि इस किताब से मालूम होगा ।

---

## १०३. आतिश खाँ जान बेग

यह बख्तान बेग रुजबिहानी का पुत्र था, जो औरंगजेब के राज्य के १ म वर्ष में मुहम्मद गुजाअ के युद्ध में मारा गया था। इसके पिता के समय ही से बादशाह जानबेग को पहिचान गए थे। इसने २१ वें वर्ष में आतिश खाँ की पदबी पाई। २५ वें वर्ष में यह सालह खाँ के स्थान पर मीर तुजुक हो चुका था। इसका एक भाई मंसूर खाँ कुछ समय के लिए दक्षिण का मीर आतिश था और उसके बाद औरंगाबाद का अध्यक्ष हुआ। द्वितीय युसुफ खाँ औरंगजेब के समय कसर नगर अर्थात् कर्नूल का फौजदार था। बहादुर शाह के समय हैदराबाद का नाजिम हुआ। इसीने बलवाई पापरा को मारा था। इसके वंशज अभी भी दक्षिण में हैं।

पापरा का संक्षिप्त वृत्तांत यों है कि वह तेलिंगाना का एक छोटा व्यापारी था। औरंगजेब के समय जब मुस्तार का पुत्र रुस्तम दिल खाँ हैदराबाद का सबेदार था पापरा अपनी बहिन को मारकर, जो अमीर थी, प्यादे एकत्र कर लिए और पहाड़ में स्थान बनाकर यात्रियों तथा किसानों को लूटने मारने लगा। फौजदारों तथा जर्मीदारों ने जब उसे पकड़ने का प्रयत्न किया तब वह यह समाचार पाकर एलकंदल सरकार के अंतर्गत बौलास पर्गना के जर्मीदार बँकटराम के पास जाकर उसका सेवक हो गया। कुछ दिनों के बाद वह वहाँ भी डाँके डालने लगा तब जर्मी-

दार ने सबूत पाकर उसे कैद कर दिया। जमींदार का लड़का बीमार हो गया, जिससे यह अन्य कैदियों के साथ छुट्टी पाकर भुंगेर सरकार के अंतर्गत तरीकंदा परगना के शाहपुर गाँव गया, जो बीहड़ स्थान है और वहाँ के सर्वा नामक डाँकू का साथी हो गया। वहाँ एक दुर्ग बनाकर वह खुल्लमखुल्ला छूट मार करने लगा। रुस्तमदिल खॉं ने कासिम खॉं जमादार को शाहपुर के पास कुलपाक पगने का फौजदार नियत कर पापरा को पकड़ने के लिए आज्ञा दी। युद्ध में कासिम खॉं मारा गया और सर्वा भी युद्ध में अपने पियादों के जमादार पुर्दिल खॉं से जगड़ कर द्रुद्ध युद्ध लड़ा, जिसमें वह मारा गया। अब पापरा ही सर्वेसर्वा हो गया और तारीकंदा दुर्ग बनवाने लगा। इसने वारंगल तथा भुंगेर तक धावे किए और उस प्रांत के निवासियों के लिए दुःख का फाटक खोल दिया।

मुहम्मद काम बल्श पर विजय प्राप्त कर बहादुर शाह ने यूसुफ खॉं रुजबिहानी को हैदराबाद का सूबेदार बना दिया और उसे पापरा को पकड़ने की कड़ी आज्ञा दी। उक्त खॉं ने दिलावर खॉं जमादार को योग्य सेना के साथ इस कार्य पर नियत किया, जिसने पापरा पर उस समय चढ़ाई की जब वह कुलपाक का घेरा जोर-शोर से कर रहा था। युद्ध में उसे परास्त कर कुलपाक में थाना स्थापित किया। इस बीच पापरा का साला, जो अन्य लोगों के साथ शाहपुर में बहुत दिनों से कैद था, उसके साथ कठोर बर्ताव किया जाता था। उसकी स्त्री के सिवा, जो प्रतिदिन उसे भोजन देने जाती थी, और कोई वहाँ जाने

नहीं पाता था। अपनी पत्नी के द्वारा कई रेतियाँ मँगा कर उसने उनसे अपनी तथा अन्य कैदियों की बेड़ियों काट डालीं। जिस दिन पापरा मछली का शिकार खेलने शाहपुर के बाहर गया, उसी दिन यह दूसरों के साथ बाहर निकल आया और पहरा देने वाले प्यादों को तथा फाटक पर के रक्षकों को मार कर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। यह सुनकर पापरा घबड़ाकर दुर्ग के पास आया पर एक तोप दुर्ग से उसपर छोड़ी गई। उसके भाइयों ने कुलपाक के जमींदारों को ऐसा होने का समाचार दे दिया था, इसलिए यह आवाज सुनकर दिछावर खॉ तुरंत ससैन्य आ पहुँचा। शाहपुर के पास खूब युद्ध हुआ। पापरा परास्त होकर तारीकंदा भागा। जब यूसुफ खॉ ने यह समाचार सुना तब पहिले अपने सहकारी मुहम्मद अली को इस कार्य पर नियत किया पर बाद को स्वयं उपयुक्त सेना के साथ वहाँ गया और तारीकंदा को नौ महीने तक घेरे रहा। तब उसने प्रतिज्ञा का झंडा खड़ा किया कि जो दुर्ग से बाहर निकल आवेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। पापरा भी छद्म वेश कर दुर्ग के बाहर निकला पर उसी साले के हाथ में पड़ गया और कैद हुआ। जब वह यूसुफ खॉ के सामने लाया गया तब उसके अंग अंग काटे गए और उसका सिर दरबार भेजा गया।

शैर

वृद्ध कृषक ने अपने पुत्र से क्या ही ठीक कहा कि।  
 'भरे आँखों की ज्योति ! तुम वही काटोगे जो बोओगे' ॥

## १०४. आतिश खाँ हब्शी

दक्षिण के शासकों का एक सर्दार था। जहाँगीर के समय यह दरबार आया और इसे योग्य मंसब मिला। इसके बाद जब शाहजहाँ बादशाह हुआ तब इसे प्रथम वर्ष दो हजारी १००० सवार का मंसब मिला और ३ रे वर्ष जब बादशाही सेना दक्षिण आई तब इसे २५००० रु० पुरस्कार मिला और जब शायस्ता खाँ खानजहाँ लोदी तथा नीजामशाह को दंड देने पर नियत हुआ तब यह साथ भेजा गया। इसके बाद यह दक्षिण की सहायक सेना में नियत हुआ था और दौलताबाद के घेरे में पहिले महाबत खाँ खानखानाँ तथा बाद को खानजमाँ के साथ उत्साह से कार्य किया। इसके अनंतर यह दरबार आया और १३ वें वर्ष खिलअत, एक घोड़ा तथा दस सहस्र रुपये पाकर बिहार में भागलपुर का फौजदार नियुक्त हुआ। १५ वें वर्ष में जब उस प्रांत के अध्यक्ष शायस्ता खाँ ने पालामऊ के भूम्ययाधिकारो पर चढ़ाई की तब यह उसके दाएँ भाग का नायक था। १७ वें वर्ष यह दरबार आया और एक हाथी भेंट की। ज्ञात होता है कि यह फिर दक्षिण में नियत हुआ और २४ वें वर्ष लौटने पर एक दूसरा हाथी भेंट किया। २५ वें वर्ष सन् १०६१ हि० ( १६५१ ई० ) में यह मर गया।

---

## १०५. आलम बारहा, सैयद

यह सैयद हिज्र खॉ का भाई था, जिसका वृत्तांत अलग इस पुस्तक में दिया गया है। जहाँगीर के समय में इसे पहिले योग्य मंसब मिला, जो उसके राज्य काल के अंत में डेढ़ हजारी ६०० सवार का हो गया। शाहजहाँ की राजगद्दी के समय इसका मंसब बहाल रखा गया और यह खानखानों के साथ काबुल गया, जो बलख के शासक नज़र मुहम्मद खॉ को, जिसने उक्त प्रांत के पास विद्रोह मचा रखा था, दमन करने पर नियत हुआ था। ३२ वर्ष इसे खिलअत, तलवार और पाँच सदी २०० सवार की तरकी मिली तथा यह यमीनुद्दौला के साथ बरार प्रांत के अंतर्गत बालाघाट में नियुक्त हुआ। ६ ठे वर्ष यह शाहजादा मुहम्मद शुजाअ का परेदा के कार्य में अनुगामी रहा। शाहजादे ने इसे जालनापुर में थाना बनाकर पाँच सौ सवारों के साथ मार्ग की रक्षा के लिए छोड़ा। ८ वें वर्ष लाहौर से राजधानी लौटते समय यह इसलाम खॉ के साथ दोआब के विद्रोहियों को दमन करने में प्रयत्नशील रहा। इसके बाद यह औरंगजेब की सेना के साथ रहा, जो जुम्हार सिंह बुंदेला को दंड देने गई थी। ९ वें वर्ष जब दक्षिण बादशाह का द्वितीय बार निवासस्थान हुआ, तब यह साहू भोसला को दंड देने और आदिल खॉ के राज्य को नष्ट करने पर नियुक्त खानजमाँ बहादुर की सेना में नियत हुआ। १३ वें वर्ष में इसका मंसब बढ़कर दो हजारी

१००० सवार का हो गया । १९ वें वर्ष यह शाहजादा मुराद-बख्श के साथ बलख-बदख्शों विजय करने गया । इसके बाद यह शाहजादा शुजाअ के साथ बंगाल गया और २४ वें वर्ष मुलतान जैतुहीन के साथ दरबार में आकर सेवा की । इसके बाद एक घोड़ा पाकर यह लौट गया । जब औरंगजेब बादशाह हुआ और भाइयों से खूब युद्ध हुए तब यह शुजाअ की ओर पहिली लड़ाई में रहा तथा दूसरी में, जो बंगाल की सीमा पर हुई थी, इसके प्राण जाते जाते बच गए । अंत में जब शुजाअ अराकान भागा और उसके साथ बारहा के दस सैयदों तथा बारह मुगल सेवकों के सिवा कोई नहीं रह गया था तब आलम भी साथ था । उसी प्रांत में यह भी गायब हो गया ।



## १०६. आसफ खॉ आसफ जाही

इसका नाम अबुल् हसन था और यह एतमादुद्दौला का पुत्र तथा नूरजहाँ बेगम का बड़ा भाई था। जहाँगीर से बेगम की शादी होने पर इसको एतमाद खॉ पदवी मिली और खानसामों नियत हुआ। ७ वें वर्ष जहाँगीरी सन् १०२० हि० ( १६११ ई० ) में इसकी पुत्री अर्जुमंद बानू बेगम की, जो बाद को मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई और जो मिरजा गयासुद्दीन आसफ खॉ की पौत्री थी, सुलतान खुर्रम से शादी हुई, जो शाहजहाँ कहलाता था। ९ वें वर्ष इसको आसफ खॉ की पदवी मिली और बराबर तरकी पाते-पाते यह छ हजारी ६००० सवार के मंसब तक पहुँच गया। जिस समय जहाँगीर तथा शाहजहाँ में वैमनस्य हो गया था, उस समय कुछ बुरा चाहने वाले शंका करते थे कि आसफ खॉ शाहजादे का पत्त लेता है और बेगम को भाई से रूढ़ करा दिया, जो साम्राज्य का एक स्तंभ था।

शैर

जब स्वार्थ प्रकट होता है तब बुद्धि छिप जाती है।

हृदय के आँखों पर सैकड़ों पर्दे पड़ जाते हैं ॥

उसने इसे अपने षड्यंत्र का विरोधी समझ कर आगरे से कोष उठाने के बहाने दरबार से हटा दिया, परंतु शाहजहाँ के फतहपुर पहुँच जाने के कारण आसफ खॉ आगरा दुर्ग से कोष को हटाना अनुचित समझकर दरबार लौट आया। यह मथुरा नहीं



आसफ खाँ आसफजाही

( पेज ४०२ )



पहुँचा था कि शाहजादे के सम्मतिदाताओं ने राय दी कि आसफ खॉं से सर्दार को इस प्रकार चले जाने देना ठीक नहीं है और ऐसे अवसर पर ध्यान न देना बुद्धिमानी से दूर है। शाहजादे की मुख्य इच्छा पिता की कृपा प्राप्त करना था, इसलिए उसने बड़ी नम्रता का व्यवहार किया। इसके बाद जब वह पिता का सामना न कर लौटा और मालवा की ओर कूच किया तब १८ वें वर्ष में आसफ खॉं बंगाल में प्रांताध्यक्ष नियत हुआ। पर जब यह ज्ञात हुआ कि शाहजादा भी बंगाल की ओर गया है तब वेगम ने अपने भतीजे की जुदाई न सह सकने के बहाने उसे बुलवा लिया। २१ वें वर्ष सन् १०३५ हि० ( १६२६ ई० ) में जब महाबत खॉं आसफ खॉं की असतर्कता तथा ढिलाई से भेलम के तट पर सफल होकर जहॉंगीर पर अधिकृत हो गया तब आसफ खॉं ने, जो इस सब उपद्रव का कारण था, इस अशुभ कार्यवाही के हो जाने पर देखा कि उसके प्रयत्न निष्फल गए और ऐसे शक्तिशाली शत्रु से छुटकारा पाने की आशा नहीं है तब वह वाध्य होकर अटक गया, जो उसकी जागीर में था और वहाँ शरण ली। महाबत खॉं ने अपने पुत्र मिर्जा बहर:बर के अधीन सेना भेजी कि घेरा जोर शोर से किया जाय। इसके बाद स्वयं वहाँ गया और वादा तथा इकरार करके इसे बाहर निकाल कर इसके पुत्र अबू तालिब तथा दामाद खलीलुल्ला के साथ अपने पास रक्षा में रखा। दरबार से भागने पर भी आसफ खॉं को वह छोड़ने में बहाने कर रहा था पर बादशाह के जोर देने पर तथा अपने वादे और इकरार का ध्यान कर इसे दरबार भेद दिया। इसी समय आसफ खॉं पंजाब का प्रांताध्यक्ष नियुक्त हुआ और वकील का उच्च पद भी इसे

मिला । इसके बाद सात हजारी ७००० सवार का मंसब मिला । सन् १०३७ हि० ( १६२७ ई० ) २२ वें वर्ष में बादशाह राजौर थाने से कश्मीर से लौटे । मार्ग में उसने मदिरा का प्याला माँगा पर जब उसे ओठ में लगाया तब पी न सका । दूसरे दिन २७ सफर को अंतिम सफर को । पड़ाव में बड़ा उपद्रव मचा । आसफ खॉं ने खुसरो के लड़के दावरबख्श को कैदखाने से निकाल कर नाममात्र का बादशाह बनाया । उसको विश्वास नहीं होता था पर दृढ़ शपथ खाकर लोगों ने उसे शांत किया तब उसने कूच किया । बेगम शहरयार को बादशाह बनाया चाहती थी इसलिए आसफ खॉं तथा आजम खॉं मीर बख्शी को कैद करने का विचार किया क्योंकि दोनों साम्राज्य के स्तंभ तथा उसके कार्य के विरोधी थे । यद्यपि उसने अपने भाई को बुलाने के लिए आदमी भेजे पर इसने बहाना कर दिया और उसके पास नहीं गया । बेगम शव के साथ आ रही थी । आसफ खॉं ने चंगेज हट्टी थाने से बनारसी नामक हिंदू को, जो हथसाल का मुंशी था और अपनी फुर्ती तथा तेजी के लिए प्रसिद्ध था, शाहजहाँ के पास भेजा । लिखने का समय नहीं था इसलिए मौखिक संदेश भेजा और अपनी मुहर की अँगूठी चिन्ह रूप में दे दी । नौशहर: में रात्रि व्यतीत कर दूसरे दिन पहाड़ों के नीचे आए और भीमवर में पड़ाव डाला । यहाँ शव को कफन देने तथा ले जाने का प्रबंध किया और उसे लाहौर की नदी ( रावी ) के उसपार एक बाग में, जिसे बेगम ने बनवाया था, गाड़ने के लिए भेजा । हर एक उँचा या नीचा ठीक समझता था कि यह सब कार्यवाही शाहजहाँ का मार्ग साफ करने के लिए है और दावरबख्श भोज की भेड़ी

के सिवा कुछ नहीं है, इसलिए वे आसफ खाँ ही की भाँजा मानते थे। यह बेगम की ओरसे स्वयं निश्चिन्त नहीं था और इस कारण सतर्क रहकर किसी को उससे मिलने नहीं देता था। कहते हैं कि यह उसे शाही स्थान से अपने यहाँ ढिंवा लाया था। जब ये लाहौर से तीन कोस पर थे तभी शहरयार, जो गंजा हो रहा था और सूजाक से पीड़ित था तथा लाहौर फुर्ती से जा पहुँचा था, सुलतान बन बैठा और सात दिन में सत्तर लाख रुपये व्यय कर एक सेना एकत्र कर ली और उसे सुलतान दानियाल के पुत्र मिर्जा बायसंगर के अधीन नदी के उसपार भेजा। स्वयं दो तीन सहस्र सेना के साथ लाहौर में रह गया और भाग्य की कृति देखने लगा।

### मिसरा

आकाश क्या करता है इसकी आशा लगाए हुए।

पहिले ही टक्कर में इसकी सेना अस्त व्यस्त होकर भाग गई। शहरयार ने यह दुःखप्रद समाचार सुनकर अपनी भलाई का कुछ विचार नहीं किया और दुर्ग में जा घुसा। अपने हाथ से उसने अपना पैर जाल में डाल दिया। अफसर लोग दुर्ग में जा पहुँचे और दावरबख्श को गद्दी पर बिठा दिया। फीरोज खॉ खोजा शहरयार को जहाँगीर के अंतःपुर के एक कोने में, जहाँ वह छिपा था, निकाल लाया और अलावर्दी खॉ को सौंप दिया। उसने उसकी करधनी से उसका हाथ बाँध कर दावर बख्श के सामने पेश किया और कोर्निश करने के बाद वह कैद किया गया तथा दो दिन बाद अंधा किया गया।

जब शाहजहाँ को यह सब समाचार गुजरात के महाजनों

की चिट्ठी से ज्ञात हुआ तब उसने खिदमतपरस्त खॉं रजा बहादुर को अहमदाबाद से आसफ खॉं के पास भेजा और अपने हाथ से लिखकर पत्र दिया कि ऐसे समय में, जब आकाश अशांत है और पृथ्वी विद्रोही है तब दावर बख्श तथा अन्य शाहजादे मृत्यु के मैदान में भ्रमणकारी बना दिए जायें तो अच्छा है। २२ रबीउल् आखिर ( २१ दिसं० सन् १६२७ ई० ) रविवार को आसफ खॉं ने दावर बख्श को कैद कर शाहजहाँ के नाम घोषणा निकलवाई। २६ जमादिउल् अज्वल ( २३ जनवरी सन् १६२८ ई० ) को उसे, उसके भाई गर्शास्प, सुलतान शहर-यार और सुलतान दानियाल के दो पुत्र तहमूस और होशंग को जीवन-कारागार से मुक्त कर दिया। जब शाहजादा आगरे पहुँचा और हिंदुस्तान का बादशाह हुआ तब आसफ खॉं दारा शिकोह, मुहम्मद जुजाअ और औरंगजेब शाहजादों के, जो उसके दौहित्र थे, तथा सर्दारों के साथ लाहौर से आगरा आया और २ रज्जब ( २७ फरवरी १६२८ ई० ) को कोर्निश की। आसफ खॉं को यमीनुदौला की पदवी मिली और पत्र-व्यवहार में इसे मामा लिखा जाता था। यह वकील नियत हुआ और औजक मुहर इसे मिली तथा आठ हजार ८००० सवार दो अस्पा सेह अस्पा का मंसब मिला, जो अब तक किसी को नहीं मिला था। इसके अनंतर जब यमीनुदौला ने पाँच सहस्र सुसज्जित सवार शाहजहाँ को निरीक्षण कराया तब इसे नौ हजार ९००० सवार का मंसब मिला और पचास लाख रुपये की जागीर मिली। ५ वें वर्ष के आरंभ में यह भारी सेना के साथ बीजापुर के मुहम्मद आदिल शाह को दमन करने के लिए भेजा गया। जब यह बीजापुर में पड़ा

ढाले था तब इसने बाँधने और मारने में खूब प्रयत्न किया । रणदूलाह खॉ हबशी के चाचा खैरियत खॉ और मुल्ला मुहम्मद लारी का दामाद मुस्तफा खॉ मुहम्मद अमीन दुर्ग से बाहर आए और चालीस लाख रुपया देकर संधि कर दुर्ग छीट गए । बीजापुर राजकार्य का प्रधान खवास खॉ राज्य की दुर्दशा तथा शाही सेना में अन्न-घास की कमी देखकर उसे ठीक करने का पूर्ण प्रयास करने लगा । कहते हैं कि केवल अन्न ही की मँहगी न थी प्रत्युत् सभी वस्तुओं की थी यहाँ तक कि एक जोड़ी पैताबा चालीस रुपये को मिलता था और एक घोड़े को नाळ बाँधने को दस रुपये लगते थे । यमीनुदौला वाध्य होकर बीजापुर छोड़कर राय बाग और मिरच गया, जो उपजाऊ प्रांत थे और उन्हें खूब लूटा । वर्षा के आने पर वह लौट आया ।

कहते हैं कि इसी समय आसफ खॉ आजम खॉ से पकांत में मिला तब आजम खॉ ने कहा कि 'अब बादशाह को हमारी तुम्हारी आवश्यकता नहीं है ।' आसफ ने कहा कि 'राज्य-कार्य हमारे तुम्हारे बिना चल नहीं सकेगा' । यह बात बादशाह तक पहुँची, जो उसे नहीं पसंद आई । उसने कहा कि 'उसके अच्छे कार्य हमें याद हैं पर भविष्य में बादशाही काम से उसे कष्ट नहीं दिया जायगा ।' इन सब बातों के बाद स्थिति ऐसी हो गई कि 'प्याले को टेढ़ा रक्खो पर गिरे न ।' इसके साथ प्रतिष्ठापूर्वक व्यवहार में बाल बराबर कमी नहीं हुई । महाबत खॉ की मृत्यु पर ८ वें वर्ष में यह खानखानों अमीरुल् उमरा नियत हुआ । १५ वें वर्ष सन् १०५१ हि० में यह लाहौर में संप्रहणी रोग से मर गया । कहते हैं कि इसे अच्छा



खाना पसंद था। इसका दैनिक भोजन एक मन शाहजहानी था पर बीमारी के अधिक दिन चलने पर इसके लिए एक प्याला चना का जूस काफी हो जाता था। 'जे है अफसोस आसफ खों' (आसफखों के लिए आह शोक, सन् १०५१ हि० १६४१ ई०) से इसकी मृत्यु-तिथि निकलती थी। यह जहाँगीर के मकबरे के पास गाड़ा गया। आज्ञा के अनुसार एक इमारत तथा बाग बनवाया गया। जिस दिन शाहजहाँ इसे बीमारी में देखने गया था उस दिन इसने लाहौर के निवास-स्थान को छोड़ कर, जिसका मूल्य बीस लाख रुपया आँका गया था, तथा दिल्ली, आगरे और कश्मीर के अन्य मकान और बागों के सिवा ढाई करोड़ रुपये मूल्य के जवाहिरात, सोना, चाँदी और सिक्का लिखाकर बादशाह को दिखलाया था कि वे जप्त कर लिए जाँय। बादशाह ने उसके तीन पुत्रों और पाँच पुत्रियों के लिए बीस लाख रुपये छोड़ दिए और लाहौर की इमारत दारा शिकोह को दे दी। बाकी सब ले लिया गया।

आसफ खों हर एक विज्ञान में गम रखता था। वह विशेष कर नियमों को अच्छी तरह जानता था और इसी कारण शाही दफ्तरों में जो पदवियाँ इसके नाम के साथ लगाई जाती थीं उनमें 'अफलातूनियों की बुद्धि का प्रकाशदाता तथा तर्क शास्त्रियों के हृदय का बुद्धिदाता' लिखा जाता था। यह अच्छा लेखक था और शुद्ध महावरों का प्रयोग करता था। यह हिसाब किताब अच्छा जानता था। यह स्वयं कोषाधिकारियों तथा अन्य अफसरों के हिसाब को जाँचता था। इसके लिए इसे किसी प्रदर्शक की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इसके निजी कार्य के व्यय भी

इतने थे कि ध्यान में नहीं लाए जा सकते, विशेष कर बादशाह, शाहजादों तथा बेगमों के बहुधा आने जाने में अधिक व्यय होता। पेशकश तथा उपहारों के सिवा, जो बड़ी रकम हो जाती थी, इसके खान पान में क्या वैभव न रहता था और बाहर भीतर की सजावट तथा तैयारी में क्या न होता था ! इसके नौकर भी चुने हुए थे और यह उन पर दृष्टि भी रखता था। अपने पिता के समान ही यह भी विनम्र तथा मिलनसार था। इस बड़े अफसर के पुत्र तथा संबंधीगण का, जो साम्राज्य में ऊँचे पदों पर पहुँचे थे, विवरण यथास्थान इस ग्रंथ में दिया गया है। इसकी पुत्री मुमताज महल बीस वर्ष की अवस्था में शाहजहाँ से ब्याही गई थी और चौदह बार गर्भवती हुई। इनमें से चार पुत्र और तीन पुत्रियाँ अपने पिता के राज्य के अंत समय जीवित थीं। बादशाहत के ४ थे वर्ष सन् १०४० हि० ( १६३१ ई० ) में बुर्हानपुर में इस साध्वी स्त्री ने, जिसकी अवस्था ३९ वर्ष की हो चुकी थी, गौहरआरा नामक पुत्री को जन्म देने के बाद ही अपनी हालत में कुछ फर्क होते देखकर बादशाह को बुला भेजने के लिए इशारा किया। वह घबड़ाए हुए आए और अंतिम मिलाप हुई, जिसमें वियोग-काल के कोष को संबित कर लिया। १७ जोकदा, ७ जुलाई सन् १६३१ ई० को ताप्ती नदी के दूसरी ओर जैनाबाद बाग में अस्थायी रूप से गाड़ी गई। 'जाय मुमताज-महल जन्नत बाद' अर्थात् मुमताज महल का स्थान स्वर्ग में हो (सन् १०४० हि०)।

कहते हैं कि इन दोनों उच्च वंशस्थ पति-पत्नी में अत्यंत प्रेम था, जिससे उसके मरने पर शाहजहाँ ने बहुत दिनों तक रंगीन

घस्त्र पहिरना, गाना सुनना तथा इत्र लगाना छोड़ दिया था और मजलिसें रुक गई थीं। दो वर्ष तक हर प्रकार की ऐश की वस्तु काम में नहीं लाए। उसकी संपत्ति का, जो एक करोड़ रुपयों से अधिक की थी, आधा बेगम साहिबा को मिला और आधा अन्य संतानों में बाँट दिया गया। मृत्यु के छ महीने बाद शाहजादा मुहम्मद शुजाअ, वजीर ख़ाँ और सदरुन्निसा सती खानम शव को आगरे लाकर नदी के दक्षिण पास ही एक स्थान पर गाड़ा, जो पहिले राजा मानसिंह का और अब राजा जयसिंह का था। बारह वर्ष में पचास लाख रुपया व्यय करके उस पर एक मकबरा बना, जिसका जोड़ हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। आगरा सरकार और नगरचंद परगना के तीस प्राम, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये की थी तथा मकबरे से संलग्न सरायों और दूकानों की आय, जो दो लाख रुपये हो गई थी, सब उसके लिए दान कर दी गई।

---

## १०७. आसफ खाँ ख्वाजा गयासुद्दीन अली कजवीनी

यह आका मुल्ला दवातदार का पुत्र था। ऐसा प्रसिद्ध है कि यह शाह तहमास्प सफवी का खास मुसाहिब था। इसके अन्य पुत्र मिर्जा बदीउज्जमाँ और मिर्जा अहमद बेग फारस के बड़े नगरों के बजीर हुए। कहते हैं कि यह शेखुल् शयूख शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी के वंश का था, जिसके गुणों के वर्णन की आवश्यकता नहीं है और जिसकी वंशपरंपरा अबेवकुस्सिद्दीक के पुत्र मुहम्मद तक पहुँचती थी। सूफ़ी विचार में यह अपने चाचा नजीबुद्दीन सुहरवर्दी के समान ही था। यह विज्ञानों का भांडार था और बगदाद के शेखों का शेख था। यह अवारिफुल् मुआरिफ तथा अन्य अच्छी पुस्तकों का लेखक था। यह सन् ६३३ या ६३२ हि० (१२३५ ई०) में मर गया। ख्वाजा गयासुद्दीन अली अपनी वाक् शक्ति तथा मनन के लिए प्रसिद्ध था और उसमें उत्साह तथा साहस भी कम न था। जब यह हिंदुस्तान आया तब सौभाग्य से अकबर का कृपापात्र हुआ और बख्शी नियत हुआ। सन् ९८१ हि० (१५७३ ई०) में यह गुजरात की नौ दिन की चढ़ाई में साथ था और विद्रोहियों के साथ के युद्ध में, जिन सबने मिर्जा कोका को अहमदाबाद में घेर रखा था, अच्छा कार्य किया, जिससे इसे आसफ खाँ की पदवी मिली। राजधानी को विजयी सेना के प्रत्यागमन-काल में यह उस

प्रांत का बरहशी नियुक्त हुआ कि मिर्जा कोका का सेना के प्रबंध में सहयोग दे। २१ वें वर्ष में यह अन्य अफसरों के साथ ईडर में नियत हुआ, जो अहमदाबाद प्रांत के अंतर्गत है। इसे विद्रोहियों को दमन करना था। वहाँ के राज्याधिकारी नारायणदास राठौर ने घमंड से घाटियों से निकल कर युद्ध किया और उसमें द्वंद्व युद्ध भी खूब हुए। शाही हरावल हट गया और उसका अध्यक्ष मिर्जा मुक़ोम नक़्शबंदी मारा गया तथा पूर्ण पराजय होने को थी कि आसफ़ ख़ाँ तथा दाएँ बाएँ के सर्दारों ने बड़ा प्रयत्न किया और शत्रु परास्त हुए। २३ वें वर्ष के अंत में अकबर ने इसे मालवा तथा गुजरात भेजा, जिसमें यह मालवा के नाजिम शहाबुद्दीन अहमद ख़ाँ का सहयोग कर मालवा की सेना में दाग की प्रथा जारी करके शीघ्र गुजरात चला जाय। वहाँ के शासक कुलीज ख़ाँ की सहायता कर सेना की हालत ठीक करे तथा उसकी ठीक हालत जाँचे। आसफ़ ख़ाँ ने शाही अज्ञानुसार कार्य किया और सचाई तथा ईमानदारी से किया। सन् ९८९ हि० ( १५८१ ई० ) में यह गुजरात में मरा। इसका एक पुत्र मिर्जा नूरुद्दीन था। जब सुल्तान खुसरो को कैद कर जहाँगीर ने उसको कुछ दिन के लिए आसफ़ ख़ाँ मिर्जा जाफर की रक्षा में रखा तब नूरुद्दीन, जो आसफ़ ख़ाँ का चचेरा भाई था, आप ही खुसरो के पास गया और उसके साथ रहने लगा तथा ऐसा निश्चय किया कि अवसर मिलते ही उसे छुड़ा कर उसका कार्य करे। इसके बाद जब खुसरो खोजा एतबार ख़ाँ की रक्षा में रखा गया तब नूरुद्दीन ने एक हिंदू को अपने विश्वास में लिया, जो खुसरो के पास जाया करता था और उसे खुसरो

के अनुगामियों की एक सूची दी। पाँच छ महीने बाद चार सौ आदमी शपथ लेकर एक हुए कि जहाँगीर पर मार्ग में आक्रमण करेंगे। इस दल के एक आदमी ने साथियों से क्रुद्ध हो कर इसकी सूचना सुलतान खुर्रम के दीवान ख्वाजा वैसी को दे दिया। ख्वाजा ने तुरंत शाहजादे से कहा और वह यह समाचार जहाँगीर को दे आया। तुरंत ये अभागे आदमी सामने लाए गए और आज्ञा हुई, जिससे नूरुद्दीन, एतमादुद्दौला का पुत्र मुहम्मद शरीफ तथा कुछ अन्य आदमी मार डाले गए। एतबार खाँ के हिंदू सेवक के पास से मिली हुई सूची को खानजहाँ लोदी की प्रार्थना पर जहाँगीर ने बिना पढ़े आग में डलवा दिया, नहीं तो कितनों को प्राण दंड होता।

---

## १०८. आसफ ख़ाँ मिर्जा किवामुद्दीन जाफर बेग

यह दवातदार आका मुल्लाई कजवीनी के पुत्र मिर्जा बदीउज्जमों का पुत्र था। शाह तहमास्प सफवी के राज्य-काल में बदीउज्जमों काशान का वजीर था और मिर्जा जाफर बेग अपने पिता तथा पितामह के साथ शाह का एक दरबारी हो गया था। २२ वें वर्ष सन् ९८५ हि० ( सन् १५७७ ई० ) में यह पूर्ण यौवन में एराक से हिंदुस्तान आया और अपने पितृव्य गियामुद्दीन अली आसफ ख़ाँ बख़शी के साथ, जो ईंडर का काम पूरा करके दरबार आया था, अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ। अकबर ने इसे दो सदी मंसब दे कर आसफ ख़ाँ की सेवा में भर्ती किया। यह इस छोटी नियुक्ति से अप्रसन्न हो गया और सेवा छोड़ कर दरबार जाना बंद कर दिया। बादशाह भी अप्रसन्न हो गए और इसे बंगाल भेज दिया, जहाँ की जल वायु अस्वास्थ्यकर थी तथा दंडित लोग भी वहाँ भेजे जाकर जीवित न रहते थे।

कहते हैं कि मावरुन्नहर का मौलाना कासिम काही, जो एक पुराना शायर था और बिलकुल स्वतंत्र चाल से रहता था, जाफर से आगरे में मिला और इसका हाल चाल पूछा। जब उसने कुछ हाल सुना तब कहा कि 'मेरे सुंदर युवक, बंगाल मत जाओ।' मिर्जा ने कहा कि 'मैं क्या कर सकता हूँ? मैं

खुदा पर भरोसा करके जाता हूँ ।' उस प्रसन्न चित मनुष्य ने कहा कि 'उस पर विश्वास कर मत जाओ । वह वही खुदा है जिसने इमाम हुसेन ऐसे व्यक्ति को कर्बला मारे जाने के लिए भेजा था ।' ऐसा हुआ कि जब मिर्जा बंगाल पहुँचा तब वहाँ का प्रांताध्यक्ष खानजहाँ तुर्कमान बीमार था और बाद को मर गया । मुजफ्फर खॉं तुर्बती उसका स्थानापन्न हुआ । अधिक दिन नहीं व्यतीत हुए थे कि काकशालों के विद्रोह और मासूम खॉं काबुली के उपद्रव से उस प्रांत में गड़बड़ मच गया । यहाँ तक हालत हुई कि मुजफ्फर खॉं टांडा दुर्ग चला आया और उसमें जा बैठा । मिर्जा उसके साथ था । जब वह पकड़ा जाकर मारा गया तब उसके बहुत से साथी रकम दे कर छुट्टी पाने के लिए रोके गए पर यह अपनी चालाकी तथा बातों के फेर में डाल कर ऐसे देन से छूट कर निकल आया और फतेहपुर सीकरी में सेवा में उपस्थित हुआ । यह घृणा तथा असफलता में चला गया था पर सौभाग्य से फिर लौट कर भाग्य के रिक़ाब की सेवा में आया था इस लिए अकबर ने प्रसन्न हो कर कुछ दिन बाद इसे दो हजारों मंसब और आसफ खॉं की पदवी दी । यह अज़ी अली के स्थान पर मीर बख़्शी भी नियत हुआ और उदयपुर के राणा पर भेजा गया । इसने आक्रमण करने, लूटने, मारने तथा ख़्याति लाभ करने में कसर नहीं की । ३२ वें वर्ष में जब इस्माइल कुली खॉं तुर्कमान को दरों को खुला छोड़ देने के कारण भर्त्सना की गई, जिससे जलालुद्दीन रोशानी निकल गया, तब आसफ खॉं उसका स्थानापन्न नियत हुआ और सबाद का थानेदार हुआ । ३७ वें वर्ष सन् १००० हि० ( १५९२



ई० ) में जब जलाल रोशानी, जो तूरान के बादशाह अब्दुल्लाह ख़ाँ के यहाँ गया था पर असफल लौट आया था, तोराह में उपद्रव मचाने लगा तथा अप्रीदी और ओरकजई अफ़रान उससे मिल गए तब आसफ़ ख़ाँ उसे नष्ट करने भेजा गया । सन् १००१ हि० ( १५९२-३ ई० ) में इसने जैन ख़ाँ कोका के साथ जलाठ को दंड दिया और उसके परिवार, वहदत अली, जो उसका भाई कहा जाता है तथा दूसरे सगे संबंधियों को, जो लग-भग चार सौ के थे, गिरफ़्तार कर लिया और अकबर के सामने पेश किया । ३९ वें वर्ष में जब मिर्जा यूसुफ़ ख़ाँ से कश्मीर ले लिया गया और अहमद बेग़ ख़ाँ, मुहम्मद कुली अफ़शार, हसनअरब और ऐमाक़ बदख़शी को जागीर में दिया गया तब आसफ़ ख़ाँ जागीरदारों में उसे ठीक-ठीक बाँटने के लिए वहाँ भेजा गया । इसने केशर तथा शिकार को खालसा कर दिया और काजी अली के बंदोबस्त के अनुसार इकतीस लाख खरवार तहसील निश्चित किया । प्रति खरवार २४ दाम का निश्चय कर जागीर का ठीक-ठीक बाँटवारा करके यह तीन दिन में काश्मीर से लाहौर पहुँच गया । ४२ वें वर्ष में आसफ़ ख़ाँ कश्मीर का प्रांताध्यक्ष नियत हुआ क्योंकि वहाँ के जागीरदारों के आपस के झगड़े से वह प्रांत विभ्रंखल हो रहा था । ४४ वें वर्ष में सन् १००४ हि० के आरंभ में यह राय पत्रदास के स्थान पर दीवाने कुल नियत हुआ और दो वर्ष तक उस कार्य को बड़े कौशल से निभाया । जब १०१३ हि० ( १६०४-५ ई० ) में सुलतान सलीम विद्रोह का विचार छोड़कर मरियम मकानी की मृत्यु के अवसर पर शोक मनाने के लिए अपने पिता के पास चला आया और बारह

दिन गुसुलखाने में बंद रहने पर उस पर कृपा हुई तथा यह निश्चित हुआ कि वह गुजरात का प्रांत जागीर में ले लेवे और इलाहाबाद तथा बिहार प्रांत, जिसे उसने बिना आज्ञा के अधिकृत कर रखा है, दे दे। तब बिहार की सूबेदारी आसफ खॉ को दे दी गई और उसका मंसब बढ़ाकर तीन हजारी करके उस प्रांत का शासन करने भेज दिया गया। जब जहाँगीर बादशाह हुआ तब आसफ खॉ बुलाया जाकर सुलतान पर्वेज का अभिभावक नियत हुआ। यह राणा को दंड देने भेजा गया, जो उस समय आवश्यक हो पड़ा था पर सुलतान खुसरो के विद्रोह के कारण बुला लिया गया। २२ वर्ष सन् १०१५ हि० ( १६०६-७ ई० ) में जब जहाँगीर काबुल की ओर चला तब यह शरीफ खॉ अमीरुल् उमरा के स्थान पर, जो कड़ी बीमारी के कारण लाहौर में रुक गया था, वकील नियत हुआ और इसका मंसब पाँच हजारी हो गया तथा इसे जड़ाऊ कलमदान मिला। दक्षिण के प्रधान पुरुषों ने, मुख्यतः मलिक अंबर हवशी ने अकबर की मृत्यु पर उद्वेगता आरंभ कर दी और शाही अफसरों से बालाघाट प्रांत के अनेक भाग छीन लिए। खानखानों ने आरंभ ही में कुछ दलबंदी तथा ईर्ष्या से इन ब्वालाओं को बुझाने का प्रयत्न नहीं किया और उन्हें बढ़ने दिया। बाद को जब इधर ध्यान दिया तथा जहाँगीर से सहायता माँगी तब उसने सुलतान पर्वेज को आसफ खॉ मिर्जा जाफर की अभिभावकता में वहाँ नियुक्त कर दिया और इसके अनंतर क्रमशः बड़े बड़े अफसरों को जैसे राजा मानसिंह, खानजहाँ लोदी, अमीरुल् उमरा, खानेआजम और अब्दुल्ला खॉ को भेजा जिनमें प्रत्येक एक एक राज्य विजय कर सकता था।

पर शाहजादे में सेनापतित्व के अभाव, अधिक मदिरा पान तथा लूटमार की बदाइयों के कारण कार्य ठोक नहीं चला। इसके विपरीत अफसरों के कपटाचरण से हर एक बार जब जब वह सेना को बालाघाट ले गया तब तब उसे असफल होकर असम्मान के साथ लौट आना पड़ा। इन विरोधों के कारण आसफ खॉं का कोई उपाय ठोक नहीं बैठा। अंत में यह ७ वें वर्ष सन् १०२१ हि० ( १६१२ ई० ) में बीमारी से मर गया। 'सद हैफजे आसफ खॉं' अर्थात् आसफ खॉं के लिए सौ शोक ( १०२१ हि० ) से मृत्यु की तारीख निकलती है। यह अपने समय के अद्वितीयों में था। हर एक विज्ञान को खूब जानता तथा विद्वत्ता में पूर्ण था। इसकी तीव्र बुद्धि और ऊँची योग्यता प्रसिद्ध थी। यह स्वयं बहुधा कहता कि 'जो मैं सरसरी दृष्टि से देखने पर नहीं समझ सकता वह निरर्थक ही निकलता है।' कहते हैं कि यह बहुत सी पंक्ति एक साथ पढ़ सकता था। वाक्शक्ति, कौशल तथा आर्थिक और नैतिक कार्य करने में अप्रगण्य था। यह बाह्य तथा आंतरिक गुणों से शोभित था। कविता तथा मनो-रंजक साहित्य में इसकी अच्छी पहुँच थी। बहुतों का विश्वास था कि शेख निजामी गंजवी के समय के बाद खुसरो और शीरीं के कथानक को इससे अच्छा किसी ने नहीं कहा है।

शैर

[ यहाँ दस शैर दिए गए हैं, जिनका अर्थ देना आवश्यक नहीं है। ]

कहते हैं कि फूलों, गुलाब बाड़ी, बाग तथा क्यारियों से इसे बड़ा शौक था और अपने हाथ से बीज तथा कलम लगाता।

यह प्रायः फावड़ा लेकर काम करता। इसने बहुत सी औरतें इकट्ठी कर लीं। अपनी अंतिम बीमारी के समय इसने एक सौ सुंदरियों को विदा कर दिया। इसने बहुत से लड़के लड़की पैदा किए पर कोई पुत्र प्रसिद्ध नहीं हुआ। मिर्जा जैनुल्आबदीन डेढ़ हजारी १५०० सवार के मंसब तक पहुँच कर शाह-जहाँ के द्वितीय वर्ष में मर गया। इसका पुत्र मिर्जा जाफर, जो अपने पितामह का नाम तथा उपनाम रखे था, अच्छी कविता लिखता था। हर ऋतु में जानवर एकत्र करने की इसे रुचि थी। इससे जाहिद खॉं कोका और सैफ कोका के पुत्र मिर्जा साकी से घनी मित्रता थी तथा शाहजहाँ उन लोगों को तीन यार कहता था। अंत में मंसब छोड़कर यह आगरे गया। शाहजहाँ ने इसकी वार्षिक वृत्ति बाँध दी, जो औरंगजेब के समय बढ़ाई गई। यह सन् १०९४ हि० ( १६८३ ई० ) में मरा। यहाँ तीन शौर-बसीके दिए हैं, जिनका अर्थ देने की आवश्यकता नहीं है।

आसफ खॉं का एक अन्य पुत्र सुहराब खॉं था। शाहजहाँ के समय डेढ़ हजारी १५०० सवार का मंसब पाकर मरा। दूसरा मिर्जा अली असगर था। भाइयों में यह सबसे बड़कर व्यसनी और उच्छृंखल था। जबान नहीं रोकता था और बहुधा समय तथा स्थान का बिना विचार किए बोल देता था। परेंदा की चढ़ाई में इसने शाह शुजाअ और महाबत खॉं अमीरुल् उमरा में भागड़ा करा दिया। इसके बाद जुम्हार बुंदेला की चढ़ाई में नियुक्त हुआ। जब धामुनी दुर्ग का अर्धरात्रि के अंधकार में बाहर निकला तब सैनिक भीतर घुस गए और छूटने लगे। खानदौरों को बाध्य होकर इसे रोकने के लिए दुर्ग में जाना पड़ा।

एक आदमी ने पुकारा कि दक्षिण के एक बुर्ज में बहुत से शत्रु बिखलाई पड़ रहे हैं। अली असगर ने कहा कि मैं जाकर उन्हें पकड़ूँगा। खानदौरों ने रोका कि ऐसी रात्रि में इस प्रकार के उपद्रव में जाना ठीक नहीं है जब शत्रु और मित्र की पहचान नहीं पड़ रही है, पर उसने नहीं माना और चला गया। जब वह दुर्ग की दीवाल पर चढ़ गया तब एकाएक मशाल का गुल, जिसे लुटेरों ने माल देखने के लिए बाल रखा था, बारूद के ढेर पर गिर पड़ा, जो बुर्ज के नीचे जमा था। कुल बुर्ज दोनों ओर की अस्सी अस्सी गज दीवाल सहित, जो दस गज मोटी थी, हवा में उड़ गया। अली असगर, उसके कुछ साथी तथा कुल लुटेरे, जो दीवाल पर थे, नष्ट हो गए। मोतमिद खॉ की पुत्री इसके गृह में थी पर निकाह नहीं हुआ था, इसलिफ़ वह बादशाह की आज्ञा से खानदौरों को व्याही गई।

---

## १०६. आसफुद्दौला अमीरुल् मुमालिक

यह निजामुल् मुल्क आसफजाह का तृतीय पुत्र था। इसका वास्तविक नाम सैयद मुहम्मद था। अपने पिता के जीवन ही में इसे खॉ की पदवी तथा सलाबत जंग बहादुर नाम मिला था और हैदराबाद का प्रांताध्यक्ष नियत हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद सलाबत जंग नासिर जंग के साथ मुजफ्फर जंग का विद्रोह दमन करने के लिए पांडिचेरी गया। नासिर जंग के मारे जाने पर यह मुजफ्फर जंग के साथ लौटा। जब मार्ग में मुजफ्फर जंग अफगानों द्वारा मारा गया तब सलाबत जंग गद्दी पर बैठा क्योंकि अन्य भाइयों से यही बड़ा था। बादशाह अहमदशाह से इसे मंसब में तरकी तथा आसफुद्दौला जफर जंग को पदवी मिली। इसके बाद इसे अमीरुल् मुमालिक की पदवी मिली। इसके मंत्री राजा रघुनाथदास ने हैट पहिरने वाले फरासीसियों की पल्टन को, जो मुजफ्फर जंग के साथ आई थी, शान्त कर सेवा में ले लिया। सन् ११६४ हि० ( १७५१ ई० ) में सलाबत जंग औरंगाबाद आया और मराठों के प्रांत पर आक्रमण किया। अंत में संधि हो जाने पर लौट आया। मार्ग में रघुनाथ दास सैनिकों द्वारा मारा गया और रुक्नुद्दौला सैयद लश्कर खॉ प्रबान अमात्य हुआ। इसके दूसरे वर्ष इसका बड़ा भाई गाजीउद्दीन खॉ फीरोज जंग दक्षिण के शासन पर नियत होकर मराठों के साथ औरंगाबाद आया और

( ४२२ )

यद्यपि वह शीघ्र ही मर गया पर मराठों ने उसके सनदों के जोर पर खानदेश का बहुत अंश तथा औरंगाबाद का कुछ अंश ले लिया । इसका कुल गृह-कार्य इसके पूरे राज्य-काल भर अफसरों की राय पर होता रहा । जब दक्षिण का प्रबंध-भार इसके भाई निजामुद्दौला आसफजाह को बादशाह ने दे दिया, जो पहिले युवराज घोषित हो चुका था और शासन कार्य भी जिसे मिल चुका था, तब इसको अलग होना ही पड़ा । यह कैदखाने में सन् ११७७ हि० ( १७६३ ई० ) में मरा और प्रसिद्ध यह हुआ कि इसके रक्षकों ने इसे मार डाला ।

---

## ११०. खानदौराँ अमीरुल् उमरा ।

### ख्वाजा आसिम

यह अच्छे खानदान का था। इसके पूर्वज बदख्शाँ से हिंदुस्तान आकर आगरे में बस गए। इनमें से कुछ सैनिक होकर और दूसरों ने फकीरी लेकर दिन बिताये। इसका बड़ा भाई ख्वाजा महम्मद जाफर एक सच्चा फकीर था। शेख अब्दुल्ला बापज मुलतानी और इससे जो भगड़ा धर्म के विषय में महम्मद फर्रुखसियर बादशाह के तीसरे वर्ष में चला था, वह लोगों के मुँह पर था। ख्वाजा महम्मद बासित ख्वाजा महम्मद जाफर का लड़का था। यह आरंभ में सुलतान अजीमुश्शान के बालाशाही सवारों में छोटे मंसब पर भरती हुआ। जिस समय औरंगजेब की मृत्यु पर अपने पिता के बुलाने पर यह बंगाल से आगरे को चला तब अपने पुत्र फर्रुखसियर को उक्त प्रांत में छोड़ गया और यह भी वही के साथ नियत हुआ। यह व्यवहार-कुशल तथा योग्य था इसलिए कुछ दिनों में महम्मद फर्रुखसियर से हिलमिलकर हर एक कामों में हस्तक्षेप करने लगा। दूसरे ताल्लुकेदारों ने यहाँ तक शिकायत लिखी कि सुलतान अजी-मुश्शान ने इसको अपने यहाँ बुला लिया। जब बहादुर शाह मर गया और अजीमुश्शान अपने भाइयों से लड़कर मारा गया तब महम्मद फर्रुखसियर ने बादशाही के लिये बारहा के सैयदों के साथ अपने चचा जहाँदार शाह से लड़ने की तैयारी की तब यह उसके पास पहुँचा और इस पर कृपा तथा विश्वास बढ़ने से यह दीवाने खास का दारोगा नियत हुआ, मनसब बढ़ा और



अशरफ ख़ाँ की पदवी पाई। इसके बाद कुछ दिनों तक दीवाने खास के दारोगा के पद के साथ मीर आतिश का भी काम करता रहा। इसके अनंतर जब महम्मद फरुखसियर चचा पर विजय पाकर दिल्ली पहुँचा तब पहिले वर्ष इसका मंसब बढ़कर सात हजारी ७००० सवार का हो गया और झंडा, डंका तथा समसामुद्दौला खानदौरी बहादुर मनसूर जंग की पदवी पाई। ओछे आदमियों की राय, बादशाह की अनुभव-हीनता और बारहा के सैयदों के हठ से बादशाह और सैयदों के बीच जो मित्रता थी वह वैमनस्य में बदल गई परंतु इसने दूरदर्शिता से बादशाह की राय में शरीक रहते हुए भी सैयदों से बिगाड़ नहीं किया। दूसरे वर्ष जब अमीरुल उमरा हुसेन अलोख़ाँ निजामुल् मुल्क फतेह जंग बहादुर के स्थान पर दक्षिण का सूबेदार नियत हुआ तब यह नायब मीर बख़शी नियत हुआ। उसी समय महम्मद अमीन ख़ाँ बहादुर की जगह पर यह दूसरा बख़शी हुआ। इसके अनंतर गुजरात का सूबेदार नियत हुआ और हैदर कुली ख़ाँ, जो सूरत बंदर में मुतसद्दी था, इसका प्रतिनिधि होकर वहाँ का काम करता रहा।

जब मुहम्मद शाह बादशाह हुआ और पहिले ही वर्ष हुसेन अली ख़ाँ मारा गया तब उसके साथ की सेना ने झुंड-झुंड होकर और उसका भांजा सैयद गैरत ख़ाँ ने अपनी सेना के साथ बादशाह के खेमे पर आक्रमण किया। बादशाह अपने हितैषियों की राय से हाथी पर सवार होकर खेमे के फाटक पर ठहरा। खानदौरी ठोक युद्ध के समय अपनी सेना के साथ आकर हरावल नियत हुआ और गैरत ख़ाँ के मारे जाने पर तथा उपद्रव के शान्त होने पर इसे अमीरुल उमरा की पदवी मिली और मीर बख़शी

नियत हुआ। यह बहुत दिनों तक उक्त पद पर दृढ़ता से रहा। यह अच्छी चाल का था और भाषा पर अच्छा अधिकार था। विद्वानों और पंडितों का सत्संग इसे प्रिय था, इसलिए इसके साथ विद्वान लोग बराबर रहते थे। गरोबों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता था और बराबर वालों से उचित बर्ताव रखता था। जो कोई इसकी जागीर से आता उसको सेना में भर्ती करता था, क्योंकि उसको अच्छा समझता था। बादशाही मामिलों में अनुभव नहीं रखता था।

कहते हैं कि जब बंगाल का सूबेदार जाफर खॉं मर गया और उसका संबंधी शुजाउद्दौला उसके स्थान पर नियत हुआ, तब बादशाही भेंट के सिवाय, इसके लिये भी धन भेजा। इसने भेंट के साथ वह रुपया भी बादशाही कोष में जमा कर दिया। राजा लोग बहुधा इससे परिचय रखते थे। जब मालवा में मरहठों का उपद्रव हुआ तब सन् ११४७ हि० में राजाओं के साथ उन्हें दंड देने के लिए रवाना हुआ। दूसरी सेना एतमा-दुद्दौला कमरुद्दीन खॉं के अधीन थी। खानदौरों का सामना मल्हार राव होलकर से हुआ और जब कोई उपाय नहीं चला तब संधि कर लौट गया। सन् ११४९ हि० में जब बाजी राव ने दिल्ली तक पहुँचकर उपद्रव किया तब यह नगर से बाहर निकला और बाजी राव लौट गए। सन् ११५१ हि० में नादिर शाह हिंदुस्तान आया और मुहम्मद शाह उसका सामना करने की इच्छा से करनाल पहुँचा, तब अबघ का सूबेदार बुरहानुल मुल्क सआदत खॉं, जो पीछे रह गया, शीघ्र यात्रा करके सेवा में पहुँचा। उसने अपनी सेना के पिछले भाग के लूटे जाने का समाचार पाकर

ईरानी सेना पर चढ़ाई कर दी। खानदौरों भी पीछे से उसकी सहायता को अपनी सेना के साथ गया। दोनों सेनाओं में लड़ाई होने लगी। खानदौरों हड़ता से खूब लड़ा और इसके बहुत से साथी मारे गए। यह स्वयं भी गोली से घायल होने पर खेमे में लाया गया और दूसरे दिन मर गया। इसके तीन लड़के, जो साथ थे और इसका भाई मुजफ्फर खॉं, जो प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था और कुछ दिनों तक अजमेर का सूबेदार रह चुका था, इस युद्ध में मारे गए। ख्वाजा आशोरी नामक उसका लड़का, जो कैद हो गया था, मुहम्मद शाह बादशाह के राज्य में अपने पिता की पदवी पाकर सन् ११६७ हि० में मीर आतिश नियत हुआ, और आलमगीर द्वितीय के पहिले वर्ष में अमीरुल् उमरा होकर कुछ दिन बाद मर गया।

नादिर शाह का उल्लेख हुआ है इसलिए उसका कुछ हाल लिखना आवश्यक है। वह करकलू जाति का था, जो अफशार तुर्कमानों का एक भेद है। पहिले यह जाति तुर्किस्तान में बसी थी और तूरान के मुगोलियों के समय में वहाँ से निकल कर आजरबईजान में जा बसी। शाह इस्माइल सफवी के राज्य में आये कूचकर खुरासान के अंतर्गत अनीर्वद महाल के कोंकान में, जो मन्-हद के उत्तर मर्ब से बीस फर्सख दूर पर बसा हुआ है, आ बसी। यह सन् ११०० हि० में पैदा हुआ और दादा के नाम पर उसका नाम नजरकुली रखा गया। सुल्तान हुसेन सफवी के राज्य के अंत में दंड देने में ढिलाई होने से राज्य में उपद्रव मच गया और हर एक को बादशाह बनने का शौक हो गया था। खुरासान और कंधार में अन्दाली तथा गिलजः अफगानों ने अग्नि-

कार कर लिया और रूमियों ने सीमा पर अधिकार करना आरंभ कर दिया। इसने भी अपने देश में विद्रोही होकर पहिले अपने जाति वालों को, जो उसकी बराबरी करते थे, युद्ध कर अधीन किया और फिर भफगानों को युद्ध में मार कर उनकी षड़ाइयों को रोका। इसके अनंतर मशाहद विजय कर सन् ११४१ हि० में इसफहान ले लिया। सन् ११४५ हि० में रूम की सेना को परास्त कर पाँच शर्तों पर संधि की। पहिली यह कि रूम के विद्वान् इमामिया तरिके को क़बा धर्म समझें। दूसरी यह कि इस मजहब के भी आदमी हर एक भेद में शरीक होकर जाफरी नीमाज पढ़ें। तीसरी पद कि प्रति वर्ष ईरान की ओर से एक मीरहज़ नियत होगा, जिसका सम्मान किया जाय। चौथी यह कि ईरान और रूम देश के जो गुलाम जिस किसी के पास हों वह मुक्त कर दिये जाँय और उनका बेंचना और ख़रीदना नियमित न हो। पाँचवीं यह कि एक दूसरे के वकील दोनों दरबार में उपस्थित रहें, जिसमें राज्य के सब काम वहीं निपटा दिए जावें। यह ११४७ हि० में गद्दी पर बैठा और ११५१ हि० में भारत आया। मुहम्मद शाह ने संधि कर बहुत धन, सामान तथा शाहजहाँ का बनवाया तख्त ताऊस सौंप दिया। ११५२ हि० में यह लौट गया और कुल देश ईरान, बलख तथा ख़वारिज़्म पर अधिकृत हो गया। ११६० हि० में उसके पार्श्ववर्ती लोगों ने रात्रि में खेमे में घुस कर इसको ख़त्म कर दिया। इसके अनंतर इसके कई पुत्र गद्दी पर बैठे पर अंत में नाम के सिवा कुल न बच रहा।

---

## १११. इखलाक खाँ हुसेनवेग

यह शाहजहाँ के बालाशाही सवारों में से था। जब शाह-जहाँ गद्दी पर बैठा तब पहिले ही वर्ष इसे दो हजारो ८०० सवार का मंसब और ६०००) रु० नकद पुरस्कार देकर बुर्हान-पुर प्रांत का दीवान नियत किया। तीसरे वर्ष मंसब में २०० सवार बढ़ाए गए। चौथे वर्ष अजमेर का फौजदार नियत हुआ। १३ वें वर्ष सन् १०४९ हि० में इसकी मृत्यु हुई। इसका पुत्र नईम वेग पाँच सदी २२० सवार का मंसब पाकर १५ वें वर्ष में मर गया।

---

## ११२. इखलास खॉ शेख आलहदिय:

यह कुतुबुद्दीन खॉ शेख खूबन के लड़के किशवर खॉ शेख इब्राहीम खॉ का पुत्र था, जिसका वृत्तांत लिखा जाता है। शेख इब्राहीम जहाँगीर के पहिले वर्ष में एक हजारी ३०० सवार का मंसब और किशवर खॉ की पदवी पाकर तीसरे वर्ष रोहतास का अध्यक्ष नियत हुआ। चौथे वर्ष दरबार आकर दो हजारी २००० सवार का मनसब पाकर बख्जैन का फौजदार हुआ। ७ वें वर्ष शुजाअत खॉ और उसमान अफगान के युद्ध में, जो उड़ीसा की ओर से लड़ने आया था, बहादुरी से लड़कर मारा गया। शेख आलहदिय: योग्य मंसब पाकर शाहजहाँ के ८ वें वर्ष में शाहजादा औरंगजेब के साथ नियत हुआ, जो जुम्हार सिंह बुंदेला को दंड देनेवाली सेना का सहायक नियुक्त हुआ था। १७ वें वर्ष इसका मंसब बढ़कर डेढ़ हजारी १००० सवार का हो गया और यह कालिंजर का दुर्गाध्यक्ष नियत हुआ। १९ वें वर्ष शाहजादा मुरादबख्श के साथ बलख और बदख्शाँ को चढ़ाई पर नियत हुआ। इसका मंसब दो हजारी १००० सवार का हो गया तथा इखलास खॉ की पदवी मिली। २० वें वर्ष जुमलतुल् मुल्क सादुल्ला खॉ के प्रस्ताव पर, जो उक्त शाहजादा के लौटने पर बलख का प्रबंध करने गया था, इसका मंसब ५०० सवार का बढ़ाया गया और झंडा मिला। २१ वें वर्ष वहाँ से लौटने पर आज्ञा के अनुसार शाहजादा औरंगजेब से

अलग होकर दरबार पहुँचा। इसके बाद झंडा पा कर प्रसन्न हुआ। २२ वें वर्ष इसका मंसब बढ़कर ढाई हजारी २००० सवार का हुआ और शाहजादा औरंगजेब के साथ कंधार गया। २३ वें वर्ष पाँच सदी मंसब बढ़ा और २५ वें वर्ष डंका मिला। यह दूसरी बार उक्त शाहजादा के साथ उसी स्थान को गया। २६ वें वर्ष शाहजादा दाराशिकोह के साथ उसी चढ़ाई पर जाते समय खिलअत और चाँदी के जोन सहित घोड़ा पाकर सन्मानित हुआ। वहाँ से सस्तम ख़ाँ के साथ बुस्त पर अधिकार करने में बहादुरी दिखलाई। २८ वें वर्ष जुमूलतुल् मुल्क के साथ दुर्ग चित्तौड़ उजाड़ने गया। ३० वें वर्ष मोअज्जम ख़ाँ के साथ दक्षिण के सहायकों में नियत होकर वहाँ के सूबेदार शाहजादा औरंगजेब के पास गया। अदिलखानियों के साथ युद्ध में जंघे में भाला लगने से घायल हो गया। इसके पुरस्कार में ३१ वें वर्ष इसका मंसब बढ़कर तीन हजारी १००० सवार का हो गया। इसके बाद का हाल नहीं मिला।

---

## ११३. इखलास खाँ इखलास केश

यह खत्री जाति के हिंदू का लड़का था। इसका असल नाम देवीदास था। इसके पूर्वज कलानौर में, जो दिल्ली से ४० कोस पर है, कानूनगोई करते थे। यह अल्पावस्था से पढ़ने लिखने में लगा था और राजधानी दिल्ली में रहते हुए इसने आलिमों और फकीरों का सत्संग करने से योग्यता प्राप्त कर ली। यह सैयद अब्दुल्ला स्यालकोटी का शिष्य था, इसलिए उसके द्वारा औरंगजेब की सेवा में पहुँचकर इखलास केश की बदवी पाई। छोटा मंसब पाकर २५ वें वर्ष में मोदीखाने का, २६ वें वर्ष नमाजखाने का और २९ वें वर्ष प्रधान पत्रों का लेखक नियत हुआ। ३० वें वर्ष यार अलीबेग के स्थान पर भीरबखशी रहुल्ला खाँ का पेशकार नियुक्त हुआ। ३३ वें वर्ष शरफुद्दीन के स्थान पर खानसामों कचहरी का वाकियानवीस हुआ और इसके बाद घोदर प्रांत के कुछ भाग का अमीन नियत हुआ। ३९ वें वर्ष महम्मद काजिम के स्थान पर इंदौर प्रांत का अमीन तथा फौजदार नियत हुआ। उसी वर्ष इसका मंसब चार सदी ३५० सवार का हुआ। ४१ वें वर्ष रहुल्ला खाँ खानसामों का पेशकार पुनः नियत हुआ। ५० वें वर्ष कृपा करके इसका नाम महम्मद रखकर शाहआलम बहादुर का वकील नियत किया। औरंगजेब के मरने पर आजमशाह उक्त वकालत के कारण इससे अप्रसन्न था, इसलिए बसालत खाँ मिर्जा सुलतान नजर के द्वारा



इसकी निर्दोषिता स्वीकार कर इसे औरंगाबाद में रहने दिया । बहादुरशाह का अधिकार होने पर सेवा में उपस्थित होने पर इसका मंसब बढ़कर ढाई हजारो १००० सवार का हो गया और इखलास खॉ की पदवी और अर्ज-मुकर्रर का पद मिला । कहते हैं कि जब यह अपना काम सुनाने के लिए दरबार में उपस्थित होता, तब बादशाह के भी विद्वान् होने के कारण मुकद्दमों के खिलसिले में इल्मी बहस होने लगती । दूसरे पदाधिकारी चुप होकर आपस में इशारा करते थे कि अब रहस्य का पर्दा उठने वाला है, सांसारिक बातें बंद कर देना चाहिए । उस समय बादशाह और वजीर की हिम्मत बहुत ऊँचे चढ़ गई थी, इसलिए कोई दरख्वास्त पेश न हुई । उक्त खॉ ने, जो मुतसहीगिरी के समय अपनी कड़ाई के लिए प्रसिद्ध था, खानखानों से प्रगट किया कि बादशाह का कृपा-वृक्ष सिवाय अयोग्य के योग्यों के लिए फल नहीं लाता है । खानखानों इस अपकीर्ति को सचाई को अपने से संबंध रखता हुआ समझकर इखलास खॉ के पोछे पड़ गया । उक्त खॉ ने भी आदमियों की कहा सुनी को पसंद न कर उस काम से हाथ खींच लिया और उस पद पर मुस्तैद खॉ महम्मद साको नियत हुआ । जहाँदार शाह के समय में जुल्फिकार खॉ ने पहिले पद के सिवाय दीवान-तन का पद भी देकर इसे अपना मित्र बनाया । फर्रुखसियर के समय में जब युद्ध का शोर मचा और कुछ सर्दार इस पर नजर रखे हुए थे तब कुतबुल् मुल्क और हुसेन अली खॉ ने पुरानी जान पहिचान का विचार कर इसको इसके देश कस्बा जान सहतः रवाना कर दिया और इसके बाद बादशाह से प्रार्थना कर इसकी पुरानी जागीर और

मंसब को बहाली का आज्ञा पत्र भेजवा दिया । यद्यपि यह स्वतंत्र स्वभाव के कारण नौकरी नहीं करना चाहता था पर दोनों भाइयों के कहने से इसने सेवा कर लिया और मीर मुंशी के पद पर तथा अपने समय की घटनाओं का इतिहास लिखने पर नियत हुआ । महम्मद फर्रुखसियर के हटाए जाने के बाद सात हजारों मंसब तक पहुँचा और महम्मदशाह के राज्य-काल में वही पद पर रहा । यह सभा-बतुर मनुष्य था और सिवाय सफेद कपड़े के और कुछ नहीं पहिनता था । कहते हैं कि कम मंसब के समय भी अच्छे सर्दार इसकी प्रतिष्ठा करते थे । इसने महम्मद फर्रुखसियर की घटनाओं को लिखकर बादशाहनामा नाम रखा था । समय आने पर यह मर गया ।



## ११४. इखलास खाँ, खानआलम

यह खानजमाँ शेख निजाम का बड़ा पुत्र था। औरंगजेब के २९ वें वर्ष में अपने पिता के साथ दरबार में पहुँच कर इस्ने योग्य मंसब पाया। ३२ वें वर्ष में जब इसके पिता ने शंभाजी को पकड़ने में बहुत अच्छी सेवा की तब यह भी उसका शरीक था। इसका मंसब बढ़कर पाँच हजारी ४००० सवार का हो गया और इस्ने खानआलम की पदवी पाई। ३९ वें वर्ष हजारी १००० सवार बढ़ाए गए। ४३ वें वर्ष महम्मद बेदार बख्त और राना भोसला के युद्ध में बहुत प्रयत्न किया। ५० वें वर्ष मालवा प्रांत का अभ्यक्त चुना जाकर महम्मद आजमशाह के साथ नियुक्त हुआ, जिसने बादशाह के मरने के कुछ दिन पहले मालवा जाने की छुट्टी पाई थी। उस अवश्यभावो घटना के बाद महम्मद आजम शाह का पत्न लेकर बहादुर शाह के युद्ध के दिन सुलतान अजीमुशान के सामने पहुँच कर वीरता से घावा किया। बहुत बहादुरी दिखलाने के बाद तीर से घायल होकर गिर पड़ा। उसके पुत्रों में से एक खानआलम द्वितीय था, जो पिता की मृत्यु पर सरदारी पर पहुँचा। बोदर प्रांत की ओर उसे एक परगना जागीर में मिला, जहाँ वह घर की तौर पर बस गया था। अपनी विवाहिता स्त्री से बहुत प्रेम रखता था और जागीर का कुछ काम उसीको सौंप दिया था। दुर्भाग्य से वह स्त्री मर गई, जिससे इसको ऐसा दुःख हुआ कि चार महीने बाद

यह भी मर गया । सोना, जबाहिर और हथियार एकट्ठा करने का इतना शौक था कि स्वयं काम में नहीं लाता था । नकद भी बहुत सा जमा किए था । सरकार में आवे से अधिक जन्त हो गया । इसको लड़का नहीं था । द्वितीय पुत्र एहतशाम खॉ था, जिसका आरंभिक हाल ज्ञात नहीं है । इसका एक पुत्र एहतशाम खॉ द्वितीय अपने चाचा खानआलम के साथ मारा गया, जिसकी पुत्री से उसका विवाह हुआ था । उससे एक लड़का था, जिसने बहुत प्रयत्न करके खानआलम की पदवी और वही पैत्रिक महाल की जागीरदारी प्राप्त की परंतु भाग्य की विचित्रता से युवावस्था ही में मर गया ।

---

## ११५. सैयद इख्तसास खाँ उर्फ सैयद फीरोज खाँ

शाहजहाँ के समय के सैयद खानजहाँ बारहा का भतीजा और संबंधी था। अपने बचा के जीवन ही में एक हजारी ४०० सवार का मंसब पा चुका था और उसकी मृत्यु पर १९ वें वर्ष में पाँच सदी ६०० सवार इसके मंसब में बढ़ाए गए। २० वें वर्ष में अन्य कई मनसबदारों के साथ अल्लामी सादुल्ला खाँ के पास पच्चीस लाख रुपये पहुँचाने बलब गया और वहाँ से लौटने पर इसका मंसब बढ़कर दो हजारी १००० सवार का हो गया तथा झंडा मिला। २२ वें वर्ष खाँ की पदवी पाकर सुलतान मुहम्मद औरंगजेब बहादुर के साथ कंधार की चढ़ाई पर गया। विदा होते समय इसे खिलअत और चाँदी के साज साहित घोड़ा मिला। वहाँ से रुस्तम खाँ के साथ कुलीज खाँ की सहायता को बुस्त की ओर गया और कजिलबाशों के साथ युद्ध में बहुत प्रयत्न कर गोली लगने से घायल हो गया। २५ वें वर्ष दूसरी बार उसी शाहजादे के साथ उसी चढ़ाई पर फिर गया। २६ वें वर्ष खिलअत और चाँदी के जीन सहित घोड़ा पाकर सुलतान दारा शिकोह के साथ उसी चढ़ाई पर गया। २९ वें वर्ष एरिज, भांडेर और शहजादपुर का फौजदार नियत हुआ, जो आगरे के पास खालसा महाल है और जो नजाबत खाँ के प्रबंधन कर सकने से बीरान हो रहा था तथा जिसकी तहसील तीन करोड़ चालीस

लाख दाम की थी । जब औरंगजेब बादशाह हुआ तब मिर्जाराजा जयसिंह के साथ, जो सुलेमान शिकोह से अलग होकर दरबार में उपस्थित होने की इच्छा रखता था, सेवा में पहुँचकर अमीरुल उमरा शाइस्ता ख़ाँ के संग सुलेमान शिकोह को रोकने के लिए हरिद्वार गया । सुलतान शुजाअ के युद्ध के बाद बंगाल की चढ़ाई पर नियत हुआ । दूसरे वर्ष के अंत में जब फीरोज मेवाती को ख़ाँ की पदवी मिली, तब इसे सैयद इखतसास ख़ाँ की पदवी मिली । बहुत दिनों तक बंगाल प्रांत के पास आसाम की सीमा पर गोहाटी का थानेदार रहा । १० वें वर्ष बहुत से आसामियों ने एकत्र होकर उपद्रव मचाया और सहायता न पहुँच सकने के कारण उक्त ख़ाँ बहुत वीरता दिखला कर सन् १०७७ हि० ( सन् १६६७ ई० ) में मारा गया ।

---

## ११६. सैयद इज्जत खॉ अब्दुर्रजाक गीलानी

पहिले यह दारा शिकोह की शरण में था। शाहजहाँ के तीसरे वर्ष में उक्त शाहजादे की प्रार्थना पर इसे इज्जत खॉ की पदवी मिली और मुलतान प्रांत का शासक नियत हुआ। ३१ वें वर्ष बहादुर खॉ के स्थान पर राजधानी लाहौर का अध्यक्ष हुआ। जब दाराशिकोह आगरे के पास औरंगजेब से परास्त होकर लाहौर गया और वहाँ भी न ठहर सकने पर मुलतान चला गया तब तक यह भी साथ था परंतु जब उक्त शाहजादा साहस छोड़कर भक्कर की ओर चला तब यह उससे अलग होकर औरंगजेब की सेवा में पहुँचा और तीन हजारी ५०० सवार का मंसब पाया। मुहम्मद शुजाअ के युद्ध में यह बादशाह के साथ था। ४ थे वर्ष संजर खॉ के स्थान पर भक्कर का फौजदार नियत हुआ। १० वें वर्ष गजनफर खॉ के स्थान पर ठट्टा का सूबेदार हुआ और इसका मंसब बढ़कर साढ़े तीन हजारी २००० सवार का हो गया। आगे का वृत्तांत नहीं मालूम हुआ।

---

## ११७. इज्जत खॉ ख्वाजा बाबा

यह अब्दुल्ला खॉ फीरोज जंग का एक संबंधी था। जहाँगीर के राज्य काल में एक हजारी ७०० सवार का मंसबदार था। शाहजहाँ के बादशाह होने पर यह लाहौर से यमीनुद्दौला के साथ आकर सेवा में उपस्थित हुआ और पुराना मंसब बहाल रहा। ३२ वर्ष डेढ़ हजारी १००० सवार का मंसब पाकर अब्दुल्ला खॉ बहादुर के साथ नियत हुआ, जो खानजहाँ लोदी के दक्षिण से भागने पर मालवा प्रांत में उसका पीछा करने को नियत हुआ था। ४ थे वर्ष इसका मंसब बढ़कर दो हजारी १००० सवार का हो गया और इज्जत खॉ की पदवी, झंडा और हाथी इनाम तथा भक्कर की फौजदारी मिली। ६ ठे वर्ष सन् १०४२ हि० ( सन् १६३३ ई० ) में भक्कर में मर गया।

---



## ११८. इनायत ख़ाँ

इसके वंश और निवास स्थान का पता नहीं है। न उसके पूर्वजों की खबर है और न उसके संबंधियों का पता है, केवल इतना ज्ञात हुआ कि यह खवाफी कहलाता था। औरंगजेब के १० वें वर्ष के अंत में खालसे का दीवान नियत हुआ। १३ वें वर्ष में इसने शहजहाँ के समय से चौदह लाख रुपया आय बढ़ाई। आज्ञा हुई कि चार करोड़ रुपया खालसा नियत रखे और इतना ही खर्च रखे। कागजों को देख करके बादशाही, शाहजादों और बेगमों के व्यय के बहुत से मद कम कर दिए। यहाँ से थोड़े समय में उस भारत-साम्राज्य के विभव तथा विस्तार को और उस भारी देश के फैलाव का अन्वेषण कर लिया, जिसके सिवा दूसरे सुल्तानों की कही जानेवाली सत्त-नतें इसके सेवक सर्दारों की आय को नहीं पहुँच सकती थीं। इमाम कुली ख़ाँ और नजर मुहम्मद ख़ाँ की, जो मावरुन्नहर, तुर्किस्तान तथा बलख बदर्शाँ पर अधिकृत थे, आय जकात आदि हर मद से एक करोड़ बीस लाख खानी अर्थात् तीस लाख रुपये की थी, जो प्रत्येक सात हजारी ७००० सवार दो अस्था सेह अस्था मंसबदार का वेतन है और एक करोड़ दाम पुरस्कार है। यमीनुद्दौला आसफ ख़ाँ को प्रति वर्ष जागीर से पचास लाख रुपए मिलते हैं। दारा शिकोह का मंसब अंत में साठ हजारी ४०००० सवार दो अस्था सेह अस्था का हो गया था

और पुरस्कार विरासी करोड़ दाम तक पहुँच गया था और उसका वार्षिक वेतन दो करोड़ साढ़े सात लाख रुपये था ।

कागजात के देखने से प्रगट होता है कि अकबर के समय में, जो बादशाहत का संस्थापक और राज्य के नियमों का पोषक था इस प्रकार के असाधारण और निश्चित व्यय नहीं थे । ज्यों ज्यों प्रांत पर प्रांत और देश पर देश बढ़ते गए और साम्राज्य का विस्तार बढ़ता गया उसी तरह व्यय आवश्यकता-नुसार बढ़ता गया परंतु आय के मद भी एक से सौ हो गए और रुपया बहुत जमा हो गया । जहाँगीर के राज्यकाल में, जो बादशाह राज्य तथा माल का कोई काम नहीं देखता था और जिसके स्वभाव में लापरवाही थी, बेइमान और लालची मुतसद्दियों ने रिशवत लेने तथा रुपया बटोरने में हर तरह के आदमियों के साथ तथा हर एक के काम में कुछ भी रियायत नहीं किया, जिससे देश वीरान हो गया और आय बहुत कम हो गई । यहाँ तक कि खालसा के महालों की आमदनी पचास लाख रह गई और व्यय डेढ़ करोड़ तक पहुँच गया । कोष की बहुमूल्य चीजें खर्च हो गई । शाहजहाँ के राज्य के आरंभ में जब आय और व्यय विभाग का निरीक्षण बादशाह के दरबारियों को मिला तब उस बुद्धिमान तथा अनुभवी बादशाह ने डेढ़ करोड़ रुपये के महाल, जो रक्षित प्रांत के वार्षिक निश्चित आय का १५ वॉ हिस्सा है, खालसा से जन्त करके एक करोड़ रुपया साधारण व्यय के लिए नियत किया तथा बचे हुए मदों के विशेष व्यय के लिए सुरक्षित रखा । बादशाह के सौभाग्य तथा सुनौति से प्रति दिन आय बढ़ती गई और साथ साथ खर्च भी बढ़ा । २० वॉ

वर्ष के अंत में आठ सौ अस्सी करोड़ दाम प्रांतों की आय से और एक सौ बीस करोड़ दाम खालसा से नियत किया, जो बारह महीने में तीन करोड़ रुपये होते हैं। अंत में चार करोड़ तक पहुँच गया था।

इससे अधिक विचित्र यह है कि बहुत सा रुपया दान, पुरस्कार, युद्ध आदि तथा इमारतों में व्यय हो जाता था। पहिले ही वर्ष एक करोड़ अस्सी लाख रुपया नकद और सामान तथा चार लाख बीघा भूमि और एक सौ बीस मौजा बेगमों, शाहजादों, सरदारों, सैयदों तथा फकीरों को दिए गए। २० वें वर्ष के अंत तक नौ करोड़ साठ लाख रुपये केवल इनाम खाते में लिखे गए। बलख और बदक़्शाँ की चढ़ाई में खान-पान के व्यय के दो करोड़ रुपये के सिवाय दो करोड़ रुपये दूसरे आवश्यक कामों में खर्च हो गए। ढ़ाई करोड़ रुपए इमारतों के बनवाने में व्यय हुआ। इसमें से पचास लाख रुपया मुमताज महल के रौजा पर, बावन लाख रुपये आगरे की अन्य इमारतों में, पचास लाख रुपए दिल्ली के किले में, दस लाख जामा मसजिद में, पचास लाख लाहौर की इमारतों में, बारह लाख काबुल में, आठ लाख काश्मीर के बागों में, आठ लाख कंधार में और दस लाख अहमदाबाद, अजमेर तथा दूसरे स्थानों की इमारतों में व्यय हुए। साथ ही इसके जोकोष अकबर के इक्यावन वर्ष के राज्य में संचित हुआ था और कभी खाली न होने वाला था, बढ़ता गया। औरंगजेब, जो बहुत ठीक प्रबंध करता था, आय तथा व्यय के हिसाब को ठीक रखने में बहुत प्रयत्न करता रहा। परंतु दक्षिण के युद्ध से बहुत धन नष्ट होता रहा। यहाँ तक कि दारा शिकोह आदि के अनुयायियों का

माल हिंदुस्तान से वृक्षिण जाकर व्यय हो गया और साम्राज्य इस कारण वीरान होता गया और आय कम हो गई। उक्त बादशाह के राज्य के अंत समय में आगरा दुर्ग में लगभग दस बारह करोड़ रुपये थे। बहादुर शाह के समय में जब आय से व्यय अधिक था, बहुत कुछ नष्ट हुआ। इसके अनंतर मुहम्मद मुइजुद्दीन के समय में नष्ट हुआ और जो कुछ बचा था वह निकोसियर की घटना में बारहा के सैयदों ने ले लिया। उस समय साम्राज्य की आय बंगाल प्रांत की आय पर निर्भर थी। वहाँ भी मरहठे दो तीन वर्ष से उपद्रव मचा रहे थे। व्यय भी उतना नहीं रह गया था। इतना विषय के अतिरिक्त लिख गया।

१४ वें वर्ष में इनायत खॉ खालसा की दीवानी से बदलकर बरेली चकला का फौजदार नियत हुआ और उस पद पर मीरक मुईनुद्दीन अमानत खॉ नियत हुआ। १८ वें वर्ष मुजाहिद खॉ के स्थान पर खैराबाद का फौजदार हुआ। इसके अनंतर जब मृत अमानत खॉ ने खालसे की दीवानी से त्यागपत्र दे दिया तब आज्ञा हुई कि दीवान-तन क़िफायत खॉ खालसे के दफतर का भी काम देखे। २० वें वर्ष दूसरी बार खालसा का प्रबंधक नियत होकर एक हजारों १०० सवार का मंसबदार हुआ। २४ वें वर्ष अजमेर प्रांत में इसका दामाद तहव्वुर खॉ बादशाह कुली खॉ, जो शाहजादा मुहम्मद अकबर का कुमार्ग-प्रदर्शक हो गया था और बुरे विचार से या अपने श्वसुर के लिखने से सेवा में लौट आया था और बादशाह के सामने उपस्थित होकर राजद्रोह का दंड पा चुका था। इसी वर्ष यह खालसा की दीवानी से बदलकर कामदार खॉ के स्थान पर सरकारी बयूतातो पर नियत हुआ।

( ४४४ )

इसके दामाद तहखुर खॉं ने अजमेर की फौजदारी के समय राजपूतों को दंड देने में बहुत काम किया था, इसलिए उसी फौजदारी के लिए इसी वर्ष प्रार्थना की और वीर राठौरों को शीघ्र दमन करने का दावा किया। इच्छा पूरी होने से प्रसन्न हुआ और २६ वें वर्ष सन् १०९३ हि० (सन् १६८२-३ ई०) में मर गया।

---

## ११६. इनायतुल्ला खाँ

इसका संबंध सैयद जमाल नैशापुरी तक पहुँचता है। संयोग से काश्मीर पहुँचकर यह वहीं बस गया। इसका पिता मिर्जा शुकुरुल्ला था और इसकी माँ मरिअम हाफिजा एक विदुषी स्त्री थी। औरंगजेब के राज्यकाल में जेबुनिसा बेगम को पढ़ाने पर यह नियत हुई, जो महम्मद आजम शाह की सगी बहिन थी। बेगम उससे कुरान पढ़ती थी और आदाब सीखती था। उसने इनायतुल्ला को मंसब दिलाने के लिए अपने पिता से प्रार्थना की। इसे आरंभ में छोटा मंसब और जवाहिरखाने में कुछ काम मिला। ३१ वें वर्ष इसका मंसब बढ़कर चार सदी ६० सवार का हो गया। ३२ वें वर्ष बेगम की सरकार में खानसामों नियत हुआ। ३५ वें वर्ष जब खालसे का मुख्य लेखक रशीद खाँ बदीउज्जमों हैदराबाद प्रांत के कुछ खालसा महालों को तहसील निश्चय करने के लिए भेजा गया तब यह उक्त खाँ का नाएब नियत हुआ और इसका मंसब बढ़कर छः सदी ६० सवार का हो गया और खाँ की पदवी मिली। ३६ वें वर्ष अमानत खाँ भीर हुसेन के स्थान पर यह दीवान-तन हुआ और इसका मंसब बढ़कर सात सदी ८० सवार का हो गया। कुछ दिन बाद दीवान खास खर्च का पद और २० सवार की तरक्की मिली। ४२ वें वर्ष दूसरे के नियत होने तक सदर का भी काम इसीको मिला और मंसब बढ़कर एक हजारी १०० सवार का हो गया।

४५ वें वर्ष अशद खॉ अबुलखला के मरने पर खालसा की भी दीवानी इसे मिली और इसका मंसब बढ़ कर डेढ़ हजारी २५० सवार का हो गया। ४६ वें वर्ष इसे हाथो मिला। ४९ वें वर्ष दो हजारी २५० सवार का मंसब हो गया। बादशाह के साथ अधिक रहने से इस पर विशेष विश्वास हो गया था। यहाँ तक कि जब असद खॉ वृद्धावस्था तथा विषय-भोग के कारण मंत्रित्व के कागजों पर हस्ताक्षर करने में अपनी अप्रतिष्ठा समझने लगा तब आज्ञा हुई कि इनायतुल्ला खॉ उसका प्रतिनिधि हो कर दस्तखत करे। बादशाह को इस पर यह अजीब कृपा थी, जैसा कि मआसिरे आलमगीरी के लेखक ने लिखा है, जो अमीरुलु समरा असद खॉ के नीचे लिखे हाल से ज्ञात होगा।

औरंगजेब की मृत्यु पर आजम शाह के साथ यह हिंदुस्तान इस कारण गया कि कुछ कागजात ग्वालियर में छूट गए थे, जो असद खॉ के साथ वहाँ थे। बहादुर शाह के समय में पुराने पदों पर नियत रह कर असद खॉ के साथ दिल्ली लौटा। इसका पुत्र हिदायतुल्ला खॉ इसके बदले दरबार में काम करता रहा। दक्षिण से आने पर, इस कारण कि खानसामों मुख्तार खॉ मर गया था, यह उस पद पर नियत हो कर दरबार पहुँचा। जहाँदार शाह के समय में काश्मीर प्रांत का नाजिम नियत हुआ। फर्रुखसियर के राज्य के आरंभ में इसका बड़ा पुत्र सादुल्ला खॉ हिदायतुल्ला खॉ मारा गया, इसलिए इनायतुल्ला खॉ ने काश्मीर से मक्का जाने का विचार किया। उक्त राज्य के मध्य में वहाँ से लौटने पर चार हजारी २००० सवार का मंसबदार हो गया और खालसा काया तन की दीवानी के

साथ काश्मीर की सूबेदारी मिली । आज्ञा हुई कि स्वयं दरबार में रहे और अपना प्रतिनिधि वहाँ भेज दे । महम्मदशाह के राज्य में एतमादुद्दौला महम्मद अमीन खॉ की मृत्यु पर सात हजारों मंसब पाकर आसफजाह के पहुँचने तक प्रतिनिधि रूप में वजीर का और मीर सामान का निज का काम करता रहा । सन् ११३९ हि० में उसी समय मर गया ।

कहते हैं कि यह साफ सुथरा, व्यवहार-कुशल और धर्म भोह तथा प्रेमी था । साधुओं का सत्-संग करने के लिए प्रसिद्ध था । राज्य के नियम और दफ्तर के कामों में बहुत कुशल था । औरंगजेब इसके पत्र-लेखन को बहुत पसंद करता था । जो पत्र शाहजादों और सरदारों को इसके द्वारा भेजे गए थे वे संगृहीत हो कर पहकामे-आलमगीरी कहलाए और बादशाह के हस्ताक्षर किए हुए पत्र भी संगृहीत हो कर कलमाते-तईबात कहलाए । ये दोनों संग्रह प्रचलित हैं । उक्त खॉ को छः लड़के थे । पहिले सादुल्ला खॉ हिदायतुल्ला खॉ का ऊपर उल्लेख हो चुका है । दूसरे जिआउल्ला खॉ का हाल उसके लड़कों सनाउल्ला और अमानुल्ला खॉ के हाल में आ चुका है । तीसरे का नाम क़िफ़ायतुल्ला खॉ था । चौथा अतीयतुल्ला खॉ था, जो पिता के बाद इनायतुल्ला खॉ के नाम से काश्मीर का शासक हुआ । पाँचवाँ उबेदुल्ला खॉ था । छठा अब्दुल्ला खॉ दिल्ली में रहता है और उसे मनसूहदौला की पदवी मिली है ।



## १२०. इफ्तखार खॉ खाजा अबुल् बका

यह अब्दुल्ला खॉ फीरोजजंग का भतीजा और महाबत खॉ खानखानों का भांजा था। इसे लखनऊ में जागीर मिली थी। शाहजहाँ के १८ वें वर्ष में इफ्तखार खॉ की पदवी पा कर मीर खॉ के स्थान पर, जो सलाबत खॉ और अमर सिंह की घटना में मारा गया था, तुजुक और जड़ाऊ चोब की सेवा पर नियत हुआ। इसके अनंतर अकबर नगर की फौजदारी पर नियुक्त होते समय इसका मंसब डेढ़ हजारी ५०० सवार का हो गया। २६ वें वर्ष रुस्तम खॉ दखिनी के साथ कंधार के कजिलबाशों के युद्ध में बड़ी वीरता दिखाई। जिस समय कजिलबाश सेना ने रुस्तम खॉ के दाहिने भाग पर धावा किया तब उस भाग के बहुत से वीर भाग गए, पर इफ्तखार खॉ ने कुछ सरदारों के साथ, जो नहीं भागे थे, बहुत वीरता दिखाई। इसके पुरस्कार में दरबार से इसका मंसब पाँच सदी ५०० सवार का बढ़ा कर दो हजारी २००० सवार का हो गया और इसे झंडा मिला। इसके मस्तक से बहादुरी और कार्य-कुशलता झलक रही थी इस लिए इसे कृपा के योग्य समझ कर २५ वें वर्ष और तुलादान के उत्सव पर इसका मंसब पाँच सदी बढ़ाया गया और डंका इनाम मिला। २७ वें वर्ष शाहजादा दाराशिकोह के साथ कंधार की चढ़ाई पर नियत हुआ। उस शाहजादा की प्रार्थना पर पाँच सदी और मंसब बढ़ाया गया। २८ वें वर्ष मालवा प्रांत के

अंतर्गत खौरागढ़ की फौजदारी और जागीरदारी पाकर इसका मंसब एक हजार १००० सवार बढ़ने से तीन हजार ३००० सवार का हो गया। ३० वें वर्ष शाहजादा औरंगजेब तिलंग के सुलतान अब्दुल्ला कुतुबशाह को दंड देने के लिए दक्षिण का प्रांताध्यक्ष नियत हुआ और बादशाही आज्ञानुसार मालवे का सूबेदार शाहस्ता खॉं इफ्तखार खॉं और अन्य सब फौजदारों, मंसबदारों के साथ, जो उस प्रांत में नियुक्त थे, मालवा से रवाना हो कर शाहजादा की सेना में जा मिला। इफ्तखार खॉं शाहजादे के आदेश से हादीदाद खॉं अनसारी के साथ उत्तरी मोर्चे में नियत हुआ। उस काम के पूरा होने पर अपने काम पर लौट गया। उसी वर्ष के अंत में जब उक्त शाहजादा बीजापुर के सुलतान आदिल शाह के राज्य पर अधिकार करने और लूटने पर नियत हुआ तब बादशाही आज्ञानुसार इफ्तखार खॉं अपनी जागीर से सीधे शाहजादे की सेना में जा मिला। शाहजादा ३१ वें वर्ष में भारी सेना के साथ कूच करता हुआ जब बीदर दुर्ग के पास पहुँचा तब उसके अध्यक्ष सीदी मरजान ने, जो इब्राहीम आदिलशाह का पुराना दास था और तीस वर्ष से उस दुर्ग की रक्षा कर रहा था, लगभग १००० सवार तथा ४००० पैदल बंदूकचो धनुर्धारी और बहुत से सामान के साथ बुर्ज आदि की दृढ़ता से विश्वस्त हो कर युद्ध का साहस किया। शाहजादा ने मोअज्जम खॉं मीरजुमला के साथ दस दिन में तोपों को खाई के पास पहुँचा कर एक बुर्ज को तोड़ डाला। देवात् एक दिन जब मोअज्जम खॉं के मोर्चे से धावा हुआ तब दुर्गाध्यक्ष जो उक्त बुर्ज के पीछे भारी गढ़ा खुदवा कर और

उसको बारूद, बान और हुक्कों से भरवा कर उसके पास स्वयं धावे को नष्ट करने के लिए खड़ा था कि एकाएक आग की चिनगारी उसमें गिर पड़ी और वह दो लड़कों के साथ उसमें जल गया। बादशाही बहादुर नक्कारा पीटते हुए शहर में घुस गए। दुर्गाध्यक्ष मौत के चंगुल में फँसा था, इस लिए अपने लड़कों को दुर्ग की ताली के साथ भेजा। दूसरे दिन वह मर गया। ऐसा दृढ़ दुर्ग, जिसके चारों ओर २५ गज चौड़ी तीन तीन गहरी खाइयाँ थीं, जिनकी १५ गज गहरी दीवार पत्थर से बनी हुई थी, केवल शाहजादा के एकबाल से २७ दिन में विजय हो गया। बारह लाख रुपया नकद, आठ लाख रुपये का बारूद आदि दुर्ग का सामान और २३० तोपें मिलीं। शाहजादा अपने दूसरे पुत्र सुलतान मुहम्मद मोअज्जम को इफ्तखार खॉ के साथ उस दुर्ग में छोड़कर स्वयं दरबार की ओर रवाना हुआ। अभी यह कार्य इच्छानुसार पूरा नहीं हुआ था कि आज्ञानुसार शाहजादा वहाँ के तथा अपने जगह के सहायकों के साथ लौट गया। इसी समय महाराजा जसवंत सिंह मालवा के सूबेदार हुए और कुल जागीरदार उसके सहायक नियत हुए। उक्त खॉ भी शीघ्रता और चालाकी से सबके पहिले राजा के पास पहुँच गया। एकाएक तमाशा दिखलानेवाले आकाश ने, जो किसी मनुष्य का विचार नहीं करता, यह दृश्य दिखलाया कि ३२ वें वर्ष के आरंभ सन् १०६८ हि० में शाहजादा औरंगजेब दक्षिण की सेना के साथ आगरा जाने के लिए मालवा आया। राजा, जो रास्ता रोके हुए था और इसी दिन की अपेक्षा कर रहा था, युद्ध के लिए तैयार हुआ। इफ्तखार खॉ कुछ मंसब-

दारों के साथ सेना के बाएँ भाग में नियत हुआ और मुराद-बख्श की सेना के साथ, जो आलमगीरी सेना के दाहिने भाग में था, आक्रमण कर खूब युद्ध किया और उसी में मारा गया। कहते हैं कि यह नक्शबंदी ख्वाजाजार्दों में था पर इमामिया धर्म मानता था। उस धर्म की दलीलों को यहाँ तक याद किए हुए था कि दूसरों को उसको न मानना कठिन हो जाता था।

---

## १२१. इफ्तखार खॉ सुलतान हुसेन

यह एसालत खॉ मीर बखशी का बड़ा पुत्र था। जब इसका पिता शाहजहाँ के २० वें वर्ष में बलख में मर गया तब गुण-प्राहक बादशाह ने उस सेवक की अच्छी सेवाओं को ध्यान में रखकर उसके पुत्र पर कृपा की और २१ वें वर्ष में सुलतान हुसेन को शस्त्रालय का दारोगा नियत कर दिया। २२ वें वर्ष रहमत खॉ के स्थान पर दाग का दारोगा बना दिया। २४ वें वर्ष इसे दोआब में फौजदारी मिली। ३१ वें वर्ष इसका मंसब बढ़कर एक हजारी ५०० सवार का हो गया और महाराज यशवंत सिंह के साथ, जो वास्तव में दारा शिकोह की राय से शहजादा औरंगजेब का सामना करने नियत हुए थे, मालवा गया। इसी समय वह भाग्यवान शाहजादा नर्मदा नदी पार कर उस प्रांत में पहुँचा और राजा रास्ता रोक कर लड़ने को तैयार हो गया। जब बहुत से नामी राजपूत सरदार मारे गए और महाराज घबड़ा कर भाग गए तथा बहुत से सरदार सहायक गए औरंगजेब की शरण में चले गए तब सुलतान हुसेन, जो कई विश्वासियों के साथ हरावल में नियत था सबसे अलग होकर आगरे चला गया। जब औरंगजेब बादशाह हुआ तब इसपर, जो वास्तविक बात को अच्छी तरह नहीं जानता था, बादशाही कृपा हुई, इसका मंसब बढ़ा तथा इफ्तखार खॉ की पदवी मिली। शुजा के युद्ध के बाद सैफ खॉ के स्थान पर आख्ताबेग नियुक्त हुआ और इसका

मंसब बढ़कर दो हजारों १००० सवार का हो गया। ६ ठे वर्ष फाजिल खॉ के स्थान पर, जो वजीर हो गया था, मीर सामान नियत हुआ। उक्त खॉ बादशाह के स्वभाव को समझ गया था इस लिए बहुत दिन तक वही काम करता रहा। १३ वें वर्ष बादशाह को समाचार मिला कि दक्षिण का सूबेदार शाहजादा महम्मद मोब्ज्जम चापलूसों के फेर में पड़कर मूर्खता और हठ से अपना मनमाना करना चाहता है, तब इसको विश्वासपात्र समझ कर दक्षिण भेजा और इससे मौखिक संदेश में कड़वी और मीठी दोनों तरह की बातें कहलाई। इसने भी फुर्ती से वहाँ पहुँच कर अपना काम किया। शाहजादा का दिख साफ था और उस समाचार में कोई सचाई नहीं थी तो सिवाय मान लेने के कोई जबाब नहीं दिया। बादशाह को यह ठीक बात मालूम हुई तब उसका क्रोध कृपा में बदल गया। परंतु इसी समय चुगुलखोरों की चुगली से इफतखार खॉ पर बादशाही क्रोध उबल पड़ा और इसके दरबार पहुँचने पर इतना विश्वास और प्रतिष्ठा रहते हुए भी इसका मंसब और पदवी छीन ली गई तथा यह गुर्जरदार को सौंपा गया कि इसे अटक के उस पार पहुँचा आवे। १४ वें वर्ष इसका दोष क्षमा किया गया और इसका मंसब बहाल कर तथा पुरानी पदवी देकर सैफ खॉ के स्थान पर काश्मीर का सूबेदार नियत किया। इसके अनंतर काश्मीर से हटाए जाने पर जब काबुल के अफगानों का उपद्रव मचा तब यह पेशावर में नियत हुआ। १९ वें वर्ष बंगश का फौजदार हुआ। २१ वें वर्ष अजमेर का शासक हुआ और यहाँ से शाहजादा महम्मद अकबर के साथ नियत हुआ। २३ वें

वर्ष जौनपुर का फौजदार हुआ। २४ वें वर्ष सन् १०९२ हि० (सन् १६८१-२ ई०) में वहीं मर गया। इसके पुत्र अब्दुल्ला, अब्दुल्-हादी और अब्दुल्बाकी ने दरबार पहुँच कर मातमी खिलअत पाए। इनमें से एक ने बहादुर शाह के समय एसालत खॉं का पदवी पाकर मुस्तार खॉं का खानसामानी में नायब हुआ। उसी राज्य-काल में दरिद्र होकर दक्षिण गया। गुण-म्राहक नवाब आसफजाह की शरण में जाकर दक्षिण की दीवानी में नियत हुआ। अंत में हैदराबाद का अध्यक्ष नियत हुआ और वहीं मर गया। दूसरा मामूर खॉं का दामाद था। तफाखुर खॉं की पदवी पाकर महम्मद फरूखसियर के समय बीजापुर का बहुत दिनों तक दुर्गाध्यक्ष रहा और संतोष के साथ कालयापन करते हुए वहीं मर गया।

---

## १२२. इब्राहीम खाँ

अमीरुल् उमरा अलीमर्दान खाँ का यह बड़ा लड़का था। २६ वें वर्ष सन् १०६३ हि० में शाहजहाँ ने इसे खाँ की पदवी दी। ३१ वें वर्ष में पिता की मृत्यु पर इसका मंसब चार हजारी ३००० सवार का हो गया। सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह के मध्य की सेना का प्रबंध करता था। पराजय होने के बाद अनुभव की कमी तथा अदूरदर्शिता से शाहजादा मुरादबख्श का साथी हो गया। उक्त शाहजादा ने घमंड के मारे बिना समझे बूझे शाहजहाँ के जीवित रहते हुए गुजरात में अपने नाम का खुतबा पढ़वा कर तथा सिक्का ढलवा कर अपने को मुरविजुद्दीन के नाम से बादशाह समझ लिया। औरंगजेब की मूठी चापलूसी और उस अनुभवी की मूठी बातों से, जो अवसर के अनुसार उस निर्बुद्धि के साथ किए गए थे, उसे बड़ा अहंकार हो गया था। दारा शिकोह के युद्ध के बाद और शाहजहाँ के राज्य त्यागने पर बादशाहत का कुल अधिकार और वैभव औरंगजेब के हाथ में चला आया, तब भी यह मूर्ख और नादान बादशाही सेवकों को पदवियों दे कर, मंसब बढ़ा कर और बहुत तरह से समझा कर अपनी ओर मिला रहा था, जिससे एक भारी झुंड उसके साथ हो गया। औरंगजेब ने इस बेकार मुंड के इकट्ठा होने और उस मूर्ख के कुप्रयत्नों को देख कर मित्रता के बाने में उसका काम तमाम कर दिया।



इसका विवरण इस प्रकार है कि जब औरंगजेब द्वारा शिकोह का पीछा करने आगरे से बाहर निकला और सामी उत्तर पर पहुँचा तब मुराद बख्श उसके साथ छोड़ कर बीस सहस्र सवार के साथ, जिन्हें उसने इकट्ठा कर लिया था, शहर में ठहर गया। बहुत से आदमी धन के लोभ से औरंगजेब की सेना से अलग हो कर उसके पास पहुँचे और उसका पक्ष शक्तिशाली होने लगा। औरंगजेब ने आदमी भेज कर उसके विरोध और रुकने का कारण पुछवाया। उसने धन की कमी का उल्लेख किया। औरंगजेब ने बीस लाख रुपया उसके पास भेज कर यह संदेश कहलाया कि इस काम के पूरा हो जाने पर लूट का तिहाई भाग और पंजाब, काबुल और काश्मीर की गद्दी उसे मिल जायगी। मुरादबख्श कूब करके साथ हो गया। जब मथुरा के पास खेमा डाला गया तब औरंगजेब ने निश्चय किया कि उसको, जो प्रति दिन नई नई बातें निकालता है, बीच से हटा दिया जावे इस लिए उसको राज्य-कार्य में राय लेने के बहाने मुलाकात के लिए बुलवाया। उसका भला चाहने वालों ने, जिन्हें कुछ बोखे की शंका हो रही थी, इसे रोका पर उस मूर्ख ने उसको कोरी शंका समझ कर जवाब दिया कि कुरान पर प्रतिज्ञा करके धोखा देना मुसलमानी चाल नहीं है। मिसरा है कि 'जब शिकार की मृत्यु आती है तब वह शिकारी को ओर जाता है'। २ शब्वाल सन् १०६८ हि० को शिकार के लिए सवार हुआ था कि औरंगजेब ने पेट की दर्द और घबड़ाहट प्रकट की। शिकारगाह में उसके पास जब यह समाचार पहुँचा तब वह कपट से अनभिन्न सीधा उसके खेमे में जा पहुँचा। औरंगजेब उसका स्वागत

कर अपने एकांत स्थान में लिवा गया और दोनों भोजन करने लगे। उसके अनंतर यह तै पाया कि आराम करने के बाद राय सलाह होगी। वह बड़ी बेतकलुफी से शस्त्र खोल कर सो गया। औरंगजेब ने स्वयं अंतःपुर में जा कर एक दासी को भेजा कि कुल शस्त्र चठा लावे। इसी समय शेख मीर, जो घात में लगा था, कुछ सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा। जब वह सैनिकों के हथियारों की आवाज से जागा तब दूसरा रंग देखा। ठंडी साँस भर कर कहा कि मुझ से ऐसा बर्ताव करने के बाद इस तरह धोखा देना और कुरान की प्रतिष्ठा को न रखना उचित नहीं था। औरंगजेब पर्दे के पीछे खड़ा था। उसने उत्तर दिया कि प्रतिज्ञा की जड़ में कोई फतूर नहीं है और तुम्हारी जान सुरक्षित है, परंतु कुछ बदमाश तुम्हारे चारों तरफ इकट्ठे हो गए हैं और बहुत कुछ उपद्रव मचाना चाहते हैं इस लिए कुछ दिन तक तुमको घेरे में रखना उचित है। उसी समय उसे कैद कर दिलेर खॉ और शेखमीर के साथ दिल्ली भेज दिया। शहबाज खॉ ख्वाजासरा, जो पाँच हजारी मंसबदार था और धनी भी था, दो तीन विश्वासपात्रों के साथ पकड़ा गया। जब उसकी सेना को समाचार मिला कि काम हाथ से निकल गया तब लाचार हो कर हर एक ने बादशाही सेना में पहुँच कर कृपा पाई। इब्राहीम खॉ भी सेवा में पहुँचा परंतु उस समय इसी कारण मंसब से हटाया जा कर दिल्ली में वार्षिक वृत्ति पाकर रहने लगा। दूसरे वर्ष पाँच हजारी ५००० सवार का मंसब पाकर काश्मीर का सूबेदार हुआ और इसके अनंतर खलीलुल्ला के स्थान पर लाहौर का सूबेदार हुआ। ११ वें वर्ष लश्कर खॉ के

स्थान पर बिहार का सूबेदार हुआ। फिर १९ वें वर्ष नौकरी छोड़ कर एकांत-सेवी हो गया। २१ वें वर्ष किवामुद्दीन खॉ के स्थान पर काश्मीर का शासक हुआ और इसके अनंतर बंगाल का सूबेदार हुआ। जब ४१ वें वर्ष शाहआलम बहादुर शाह का द्वितीय पुत्र शाहजादा महम्मद आजम वहाँ का शासक नियत हुआ तब यह सिपहदार खॉ के स्थान पर इलाहाबाद का नाजिम हुआ। इसके अनंतर लाहौर का शासक हुआ पर ४४ वें वर्ष में जब वह प्रांत शाहजादा शाहआलम को मिला तब उक्त खॉ काश्मीर में नियत हुआ, जिसका जलवायु इसकी प्रकृति के अनुकूल था। ४६ वें वर्ष शाहजादा महम्मद आजमशाह के वकीलों के स्थान पर, जो अपनी प्रार्थना पर दरबार बुला लिया गया था, अहमदाबाद गुजरात का प्रबंध इसको मिला। इसने पहुँचने में बहुत समय लगा दिया इसलिये मालवा का नाजिम शाहजादा बेदार बल्ल उस प्रांत का अध्वक्ष नियत हुआ। इब्राहीम खॉ अहमदाबाद पहुँचा था और अभी स्थान भी गर्म नहीं कर पाया था कि शाहजादा, जो इसीकी प्रतीक्षा कर रहा था, शहर के बाहर ही से कूच आरंभ करने को था कि औरंगजेब के मरने की खबर पहुँची।

कहते हैं कि इब्राहीम खॉ ने जो अपने को आजमशाही समझता, था शाहजादा को मुबारकबादी कहला भेजी। बेदार बल्ल ने जवाब में कहलाया कि औरंगजेब बादशाह की कदर को हम लोग समझते हैं, क्या हुआ कि एक ही बार आकाश ने हमारा काम पूरा कर दिया। अब आदमी लोग जानना चाहेंगे कि किस दीवाने से काम पड़ता है। इसके अनंतर बहादुर शाह

गद्दी पर बैठा । महम्मद अजोमुशान ने केवल बंगाल से अप्रसन्न होकर अधिकार करने का विचार किया । खानखानों वंश के विचार से तथा इसकी योग्यता को समझ कर गुमरूप से इसका काम करने लगा । दरबार से काबुल की सूबेदारी का आज्ञापत्र और अलीमर्दान खों की पदवी भेजकर इस पर कृपा की गई । उक्त खों पेशावर पहुँच कर ठहरा परंतु उस प्रांत का प्रबंध इससे न हो सका, इसलिए वहाँ की सूबेदारी नासिर खों को मिली । यह इब्राहीमाबाद सौधरा, जो लाहौर से तीस कोस पर इसका निवासस्थान था, आकर कुछ महीने के बाद मर गया । इसके बड़े पुत्र जबरदस्त खों ने अपने पिता की सूबेदारी के समय बंगाल में रहीम खों नामक अफगान पर, जो फिसाद मचाए हुए था और अपने को रहीम शाह कहता था, धावा करके पूरी तौर पर उसे पराजित कर दिया । औरंगजेब के ४२ वें वर्ष में अवध का नाजिम हुआ और इसका मंसब बढ़कर तीन हजारी २५०० सवार का हो गया और ४९ वें वर्ष महम्मद भाजम शाह के छोड़ने पर अजमेर प्रांत का हाकिम हुआ और मंसब बढ़कर चार हजारी ३००० सवार का हो गया । दूसरा पुत्र याकूब खों बहादुर शाह के समय लाहौर के सूबेदार आसफुद्दौला का नायब हुआ । पिता की मृत्यु पर इसको इब्राहीम खों की पदवी मिली । कहते हैं कि इसने आह-आलम को एक नगीना या मणि भेंट दिया था, जिस पर अल्लाह, महम्मद और अली खुदा हुआ था । पहिले सोचा गया कि स्यान् नकली हो पर अंत में तय हुआ कि असली है ।

---

## १२३. इब्राहीम खॉ फतह जंग

पतमादुहौला मिर्जा गियास का यह लड़का था। जहाँगीर के समय पहिले यह गुजरात के अहमदाबाद नगर का बखशी और थाकेआनवीस नियत हुआ। उस समय वहाँ का प्रांताध्यक्ष शेख फरीद मुर्तजा खॉ चार बखशियों को, जो नियम पूर्वक अपना काम करना चाहते थे, अधिकार नहीं देता था। मिर्जा इब्राहीम खॉ कार्य-कुशलता और दुनियादारी से पदाधिकार का नाम न लेकर प्रतिदिन उसका दरबार करता। एक महीने के बाद शेख ने कहा कि जिस काम पर नियत हुए हो उसको नहीं करते। मिर्जा ने कहा कि मुझे काम से क्या मतलब, हमें नवाब की कृपा चाहिए। शेख ने दरबार को बकील द्वारा लिख भेजा कि जो कुछ पतमादुहौला को लिखा गया है वह पूरा करता है। मिर्जा शेख के गुणों के सिवाय और कुछ नहीं लिखता था पर बकील सच्ची बात जान लेता था। मुर्तजा खॉ ने मिर्जा की आराम तलबी और गंभीर चाल का इहसान माना और मंसबदारों के काम उसे सौंपकर उसे हवेली, हाथी और नकद रुपया अपने पास से दिया। इसके दो तीन दिन बाद यह मिर्जा का अतिथि हो कर उसके घर पर गया और बहुत सा सामान, सोना चांदी का बरतन आदि अपने यहाँ से उसको भेज दिया। मजलिस के अंत में गुजरात के मंसबदारों के नाम आज्ञापत्र लिखा कि वे लोग भी मेहमानदारी करें। पचास सहस्र रुपये अपने नाम से,

पचास सहस्र दूसरे मंसबबारों के नाम से और एक लाख जमींदारों के नाम से अलग करके मुतसहियों से कहा कि इस रुपये को हमारे कोष से मिर्जा के यहाँ पहुँचा दो और तुम लोग उसे तहसील करके खजाने में दाखिल करो। दरबार को दो बार लिखकर इसे एक साल के भीतर हजारी मंसबदार बना दिया। जब एतमादुहौला का सिलसिला बैठ गया तब मिर्जा ९ वें वर्ष में दरबार पहुँच कर डेढ़ हजारी ३०० सवार का मंसब और खों की पदवी पाकर दरबार का बखशी नियत हुआ। इसके बाद इसका मंसब बढ़ कर पाँच हजारी हो गया और इब्राहीम खों फतह जंग की पदवी पाकर बंगाल और उड़ीसा का प्रांताध्यक्ष नियत हुआ।

१९ वें वर्ष जब शाहजादा शाहजहाँ तेलिंगाना से बंगाल की ओर चला तब इसका भतीजा अहमद बेग खों, जो उड़ीसा में इसका नायब था, करोहा के जमींदार पर चढ़ाई कर वहाँ गया था। वहाँ इस अद्भुत घटना का हाल सुन पीपलो से, जो उस प्रांत के अध्यक्ष का निवास स्थान था, अपना सामान लेकर कटक चला गया, जो वहाँ से १२ कोस पर था। अपने में सामना करने का सामर्थ्य न देख कर वह बंगाल चला गया। शाहजादा उड़ीसा पहुँचकर जाननिसार खों व एतमाद खों ख्वाजा इद्राक से इब्राहीम खों को संदेशा भेजा कि, भाग्य से हम इधर आ गए हैं। यद्यपि इस प्रांत का विस्तार हमारी आँखों में अबिक नहीं है पर यह रास्ते में पड़ गया है इसलिए न पार कर सकते हैं और न छोड़ सकते हैं। यदि वह दरबार जाने की इच्छा रखता हो तो उसके माल असबाब और नियों को कोई

छुपगा नहीं और यदि ठहरना निश्चय करे तो जिस जगह उस प्रांत में ठहरे वही स्वीकार है।' इब्राहीम खॉं ने, जो बादशाही सेना का समाचार पाकर ढाका से अकबर नगर आया हुआ था, उत्तर में प्रार्थना की कि 'हजरत का कहा हुआ खुदा की आज्ञा का अनुवाद है और सेवकों का जान माल हजूर ही का है परंतु स्वामिभक्ति के नियम और बादशाही कृपा का हक इसमें बाधा डालते हैं जिससे मैं न सेवा में उपस्थित हो सकता हूँ और न भागने का निश्चय कर अपने मित्रों और संबंधियों में लज्जित हो सकता हूँ। बादशाह ने यह प्रांत इस पुराने सेवक को सौंपा है तो इस जीवन के लिए, जिसकी आयुष्य का कुछ पता नहीं है और न मालूम है कि कब खत्म हो जाय, स्वामी के काम से जो नहीं चुरा सकता, इसलिए चाहता हूँ कि अपने सर को हजूर के घोड़ों के सुमों का पायन्दाज बना दूँ, जिसमें कि मेरे मारे जाने के बाद यह प्रांत आपके सेवकों के हाथ में आये।' परंतु इसके सैनिकों में मतभेद पड़ गया था और अकबर नगर का दुर्ग बहुत बड़ा था इसलिए इब्राहीम खॉं अपने लड़के के मकबरे में जो नदी के किनारे पर एक कोस के घेरे में बड़ी दृढ़ता के साथ बना हुआ था जा बैठा, जिसमें नदी की ओर से सभी सहायता और समान नावों से मिलता रहे। उस दुर्ग के नीचे पहिले पानी बहता था पर मुहत्त से हट गया था।

शाहजादा ने इसके कथन और कार्य से विजय का शकुन समझ कर, क्योंकि वह कतल शब्द अपने मुँह पर लाया था और अपना पैर मकबरे में रखा था, उसी नगर के पास सेना का पड़ाव डाला और उस दुर्ग को घेर लिया। इसके अनंतर

युद्ध की आग बाहर और भीतर प्रबल हो उठी। अब्दुल्ला खॉं फ़ीरोज जंग और दरिया खॉं रुहेला नदी के उस पार उत्तर गए क्योंकि इब्राहीम खॉं को साथियों से उस पार से सामान आदि मिलता था। इब्राहीम खॉं ने इससे घबड़ा कर अहमद बेग खॉं के साथ, जो इसी बीच आ गया था, दुर्ग से बाहर निकल कर युद्ध की तैयारी की। घोर युद्ध हुआ, जिसमें अहमद बेग खॉं वीरता से लड़ कर घायल हुआ। इब्राहीम खॉं यह देख कर ठहर न सका और धावा किया पर इससे प्रबंध का सिलसिला टूट गया और इसके बहुत से साथी भागने लगे। इब्राहीम खॉं थोड़े आदमियों के साथ हड़ता से डटा रहा। लोगों ने बहुत चाहा कि इसे उस युद्ध से हटा लें पर इसने नहीं माना और कहा कि यह अवसर ऐसा करने के लिए उचित नहीं है, चाहता हूँ कि अपने स्वामी के काम में प्राण दे दूँ। अभी यह बात पूरी भी न कर चुका था कि चारों ओर से धावा हुआ और यह शायल हो कर मर गया। इब्राहीम खॉं का परिवार व सामान ढाका में था इस लिए अहमद बेग खॉं वहाँ चला गया। शाहजादा भी जल मार्ग से उसी ओर चला। लाचार हो कर वह शाहजादे की सेवा में चला आया। लगभग चौबीस लाख रुपये नकद के सिवाय बहुत सा सामान, हाथी, घोड़ा आदि शाहजादा को मिला। इस कारण अहमदबेग खॉं पर बादशाही कृपा हुई और जल्दूस के पहिले वर्ष अच्छा मंसब पाकर ठट्टा और सिबिस्तान का हाकिम हुआ, जो सिंध देश में है। इसके अनंतर यह मुल्तान का हाकिम हुआ। वहाँ से दरबार लौटने पर जायस और अमेठी का परगना उसे जागीर में मिला। यहीं वह मर गया।



( ४६४ )

इब्राहीम खॉ को कोई संतान नहीं थी। इसकी स्त्री हाजीहूर-परवर खानम, जो नूरजहाँ बेगम की मौसी थी, बहुत दिन तक जीवित रही और दिल्ली के कोळजलाली स्थान में बादशाही आज़ा से रहती थी। बहुत से लोगों के साथ आराम से रहती हुई वहीं मर गई।

---

## १२४. इब्राहीम खॉ उजवेग

वह हुमायूँ का एक सरदार था। हिंदुस्तान के विजय के वर्ष में इसको शाह अबुल्म आली के साथ लाहौर में इसलिये नियुक्त किया कि यदि सिकंदर सूर पहाड़ से बाहर आकर बादशाही राज्य में लूट मार करे तो उसको रोकने का पूरा प्रयत्न हो सके। इसके अनंतर उक्त खॉ जौनपुर के पास सरहरपुर में जागीर पाकर अली कुली खॉ खानजमों के साथ उस सीमा की रक्षा पर नियुक्त हुआ। जब अकबर बादशाह के राज्यकाल में खानजमों और सिकंदर खॉ उजबक ने विद्रोह के चिन्ह दिखाए और मीर मुंशी अशरफ खॉ एक उपदेशमय फरमान सिकंदर खॉ के सामने ले गया तब सिकंदर खॉ ने क्रोधित हो कर कहा कि इब्राहीम खॉ सफेद दाढ़ी वाला और पड़ोसी है, उसको जाकर देखता हूँ और उसके साथ बादशाह के पास आता हूँ।

इस इच्छा से वह सरहरपुर गया और वहाँ से दोनों मिल कर खानजमों के पास गए। वहाँ यह निश्चय हुआ कि उक्त खॉ सिकंदर खॉ के साथ लखनऊ की ओर जा कर बलबा मचावे। इस पर उक्त खॉ उस तरफ जाकर लड़ाई का सामान करने लगा।

जब मुनइम खॉ खानखानों ने अली कुली खॉ खानजमों से भेंट करके उससे बादशाह की फिर से अधीनता स्वीकार करने

की प्रतिज्ञा करा ली और ख्वाजाजहाँ के पास, जो साम्राज्य का सेनापति था, पहुँच कर चाहा कि उसके साथ खानजमों के खेमा में जावे और उक्त खों को अपनी सेना में बुलावे । यह निश्चय हुआ कि खानजमों अपनी माँ और उक्त खों को योग्य भेंट के साथ बादशाह के पास भेजे । तब खानखानों और ख्वाजाजहाँ बादशाह के पास चले । उक्त खों के गले में कफन और तलवार लटका कर बादशाह के सामने ले गए । इसके स्वीकृत होने पर और खानजमों के दोषों के क्षमा होने पर कफन और तलवार उसके गले में से निकाल दी गईं । जब १२ वें वर्ष में दूसरी बार खानजमों और सिकंदर खों ने बिश्रोह और शत्रुता की, तब उक्त खों सिकंदर खों के साथ अवध गया और जब सिकंदर खों बंगाल की तरफ भागा तब उक्त खों खानखानों के द्वारा अपने दोष क्षमा कराकर खानखानों के अशोन नियत हुआ । इसके मरने की तारीख का पता नहीं । इसका लड़का इस्माइल खों था, जिसको अली कुली खों खानजमों ने संबोला कस्बा जागीर में दिया था । जब तीसरे वर्ष उक्त कसबा बादशाह की ओर से सुलतान हुसेन खों जलायर को जागीर में मिला तब उसको अधिकार करने में इसने रोका । इसके बाद जब वह जबरदस्ती ले लिया गया तब खानजमों से कुछ सेना लेकर आया पर लड़ाई में हार गया ।

---

## १२५. शेख इब्राहीम

यह शेख मूसा का पुत्र और सीकरी के शेख सलीम का भाई था। शेख मूसा अपने समय के अच्छे लोगों में से था और सीकरी कस्बे में, जो आगरे से चार कोस पर है और जहाँ अकबर ने दुर्ग और चहारदीवारी बनवा कर उसका फतहपुर नाम रखा था, आश्रम बना कर ईश्वर का ध्यान किया करता था। अकबर की कोई संतान जीवित नहीं रहती थी इस लिये साधुओं से प्रार्थना करते हुए शेख सलीम के पास भी गया था। उसी समय शाहजादा सलीम की माँ गर्भवती हुई और इस विचार से कि साधु की उस पर रक्षा रहे, शेख के मकान के पास गुर्विणी के लिये भी निवास-स्थान बनवाया गया। उसी में शाहजादा पैदा हुआ और उसका नामकरण शेख के नाम पर किया गया। इससे शेख की संतानों और संबधियों की राज्य में खूब उन्नति हुई।

शेख इब्राहीम बहुत दिनों तक राजधानी आगरे में शाहजादों की सेवा में रहा। २२ वें वर्ष कुछ सैनिकों के साथ लाडलाई की थानेदारी और वहाँ के उपद्रवियों को दमन करने पर नियत हुआ। वहाँ इसके अच्छे प्रबंध तथा कार्य-कौशल को देख कर २३ वें वर्ष में इसे फतहपुर का हाकिम नियत किया। २८ वें वर्ष खानआजम कोका का सहायक नियत हुआ और बंगाल के युद्धों में बहुत अच्छा कार्य किया। इसके अनंतर वजीर खॉ के साथ कतलू को दमन करने में शरीक था, जो उड़ीसा के विद्रोहियों

( ४६८ )

का सरदार था । २९ वें वर्ष दरबार लौटा । ३० वें वर्ष मिरजा हकीम की मृत्यु पर जब अकबर ने काबुल जाने का विचार किया तब यह आगरे का शासक नियत हुआ और कुछ दिनों तक यहाँ काम करता रहा । ३६ वें वर्ष सन् १९९ हि० में यह मर गया । बादशाह इसकी दूरदर्शिता और कार्य-कौशल को मानते थे । यह दो हजारी मंसबदार था ।

---

## १२६. इरादत ख़ाँ मीर इसहाक

यह जहाँगीरी आजम ख़ाँ का तीसरा पुत्र था। शाहजहाँ के राज्यकाल में अपने पिता की मृत्यु पर नौ सदी ५०० सवार का मंसब पाकर मीर तुजुक हुआ। २५ वें वर्ष (सं० १७०८) में इरादत ख़ाँ की पदवी और डेढ़ हजारी ८०० सवार का मंसब पाकर हाथीखाने का दारोगा नियत हुआ। २६ वें वर्ष तरबियत ख़ाँ के स्थान पर आख्ताबेगी पद पर नियत हुआ। उसी वर्ष दो हजारी १००० सवार का मंसब और दूसरे बख्शी का खिलअत पहिरा। २८ वें वर्ष ८०० सवार की तरफ़ी के साथ अहमद बेग ख़ाँ के स्थान पर सरकार लखनऊ और बैसवाड़े का फौजदार नियत किया गया। २९ वें वर्ष दरबार लौट कर असद ख़ाँ के स्थान पर कुल प्रांतों का अर्ज-वकायः नियत हुआ और मंसब बढ़कर दो हजारी २००० सवार का हो गया। शाहजहाँ के राज्यकाल के अंत में किसी कारण से इसका मंसब छिन गया और इसने कुछ दिन एकांतवास किया। इसी बीच बादशाही तख्त औरंगजेब से सुशोभित हुआ। इसके भाई मुलतफ़त ख़ाँ और खानजमाँ उस शाहजादे के साथ रहे थे और दारा शिकोह के पहिले युद्ध में पहिला भाई जान दे चुका था। बादशाही फौज के आगरा पहुँचने पर पाँच सदी ५०० सवार इसके मंसब में बढ़ाकर इसको फिर से सम्मानित किया। उसी समय जब विजयी सेना आगरा से दिल्ली को दारा शिकोह का पीछा करने

चली तब यह अवध का सूबेदार नियत हुआ और इसका मंसब पाँच सदी ५०० सवार बढ़कर तीन हजारी ३००० सवार का, जिसमें १००० सवार दो असपा सेह असपा थे, हो गया और डंका पाकर यह सम्मानित हुआ। यह पुराना आकाश किसी की भलाई नहीं देख सकता अर्थात् यह कुछ दिन अपनी सफलता का फल चठाने नहीं पाया था कि दो महीने कुछ दिन बाद सन् १०६८ हि० ( सं० १७१५ ) के जीहिंजा महीने में मर गया। आसफ खॉ जाफर के भाई आका मुल्ला के लड़के मिरजा बदीउज्जमों की बड़ी पुत्री इस को व्याही थी। जाहिद खॉ कोका की लड़की से दूसरा विवाह हुआ था, जिसके गर्भ से बड़ा पुत्र महम्मद जाफर हुआ। उसके मुख से सौभाग्य भलकता था पर वह मर गया। उसके दूसरे भाई मीर मुबारकुल्लाह ने औरंगजेब के ३३ वें वर्ष ( सं० १७४६ ) में चाकण का फौजदार होकर अपने पिता की पदवी पाई। ४० वें वर्ष औरंगवाद् के आसपास का फौजदार हुआ और उसका मंसब बढ़ा कर सात सदी १००० सवार का हुआ। इसके अनंतर मालवा के मंदसोर का फौजदार नियत होकर बहादुर शाह के राज्य में खानखानों मुनइम खॉ का पार्श्ववर्ती हो गया। पटना जालंधर दोआब की फौजदारी उसे मिली। वह परिहास-प्रिय था और कविता सूक्ष्म विचार की करता था। उपनाम 'बाञ्चह' था और उसने एक दीवान लिखा था—

शेर ( चर्दू अनुवाद )

रश्क फर्माए दिल नहीं है सिवा ऐशे हुबाब ।

पाया एक पैरहने हस्ती वो भी है हम कफ्न ॥

महम्मद फर्रुखसियर के राज्य में यह मर गया। इसका

पुत्र मीर हिदायतुल्ला, जिसे पहिले होशदार खॉ और फिर इरादत खॉ की पदवी मिली थी, बहादुर शाह के राज्य में पंजाब प्रांत के नूरमहल्ल का फौजदार हुआ और बहुत दिनों तक मालवा प्रांत के अंतर्गत दक्क पैराहः का फौजदार रहकर महम्मद शाह के छठे वर्ष में आसफजाह के साथ दक्षिण आया और मुबारिज खॉ के युद्ध के बाद मृत दधानत खॉ के स्थान पर कुछ दिन दक्षिण का दीवान और चार हजारी मसबदार रहा। कुछ दिन औरंगाबाद में पुनः व्यतीत किये। अंत में गुलबर्गा का दुर्गाध्यक्ष हुआ। त्रिचनापल्ली की यात्रा के समय यह आसफजाह के साथ था और लौटते समय औरंगाबाद के पास ११५७ हि० (सं० १८०१) में मर गया। सैनिक गुण बहुत था और इस बुद्धौती में भी हथियार नहीं छोड़ता था। तलवार पहिचानने में बहुत बढ़कर था। शैर को प्रतिष्ठा से न देखता। औरतें बहुत थीं और इसीसे संतान भी बहुत थीं। इसके सामने ही इसके जवान लड़के मर चुके थे। लिखते समय बड़ा लड़का हाफिज खॉ बाप के मरने पर गुलबर्गा का दुर्गाध्यक्ष हुआ।

---



## १२७. इसकंदर खाँ उजबक

यह उस जाति के सुलतानों के वंश में था। हुमायूँ बादशाह की सेवा में रहकर इसने अच्छे काम किए थे और हिंदुस्तान पर चढ़ाई करने के पहिले खाँ की पदवी पा चुका था। विजय होने के बाद यह आगरे का शासक नियत हुआ। हेमू की चढ़ाई के समय आगरा छोड़कर यह दिल्ली में तर्दी बेग खाँ के पास चला गया और उसके साथ बाँपें भाग का सेनाध्यक्ष हो कर युद्ध किया। जब दोनों तरफ के वीरों ने प्राण का मोह छोड़ कर धावे किए तब बादशाह के हराबल और बाँपें भाग ने बड़ी बहादुरी दिखलाते हुए शत्रु के हराबल और दाहिने भाग को हटाकर उनका पीछा किया। बहुत सी लूट हाथ आई और तीन हजार शत्रु मारे गए। इसी गड़बड़ में जब इस प्रकार विजय पाकर भगैलों का पीछा कर रहे थे, हेमू ने तर्दी बेग खाँ को धावा करके भगा दिया। जो बहादुर शत्रु का पीछा कर रहे थे, वे जब लौटे तो यह देखकर बड़े चकित हुए और तर्दी बेग का मार्ग पकड़ा। इन्हींके साथ इसकंदर खाँ भी लाचार होकर युद्ध से मुँह मोड़कर अकबर की सेवा में सरहिंद चला गया और अली कुली खाँ खानजमाँ की सेना में हेमू से युद्ध करने को नियत हुआ। विजय मिलने पर भगैलों का पीछा करने और दिल्ली की लुटेरों से रक्षा करने पर नियत हुआ। इसने जल्दी करके बहुत से

बदमाशों और लुटेरों को मार डाला और बहुत लूट एकत्र की, जिसके पुरस्कार में उसको खानखालम की पदवी मिली।

जब पंजाब का हाकिम खिज़्र ख्वाजा खॉ सिकंदर सूर के आगे बढ़ने पर, जो उस देश का शत्रु था, लाहौर लौट आया और दुर्ग की हड़ता से साहस पकड़ा तब वह उस प्रांत की आश को मुफ्त की समझ कर सेना एकत्र करने लगा। अकबर ने फुर्तीबाज सिकन्दर खॉ को स्यालकोट और उसका सीमा प्रांत जागीर में देकर उक्त फौज पर जल्दी रवाने किया, जिसमें यह खिज़्र ख्वाजा खॉ का सहायक हो जावे। इसके अनंतर यह अवध का जागीरदार हुआ। दुष्ट प्रकृतिवालों को आराम तथा सुख मिलने पर नीचता तथा दुष्टता सूझती है। इसी कारण दसवें वर्ष में इसने विद्रोह का सामान ठीक करके बलवा किया। बादशाह की ओर से मीर मुंशी अशरफ खॉ नियुक्त हुआ कि इन भूले हुआओं को समझा कर दरबार में लावे। यह कुछ समय तक टालमटोल कर खानजमाँ के पास चला गया और उससे मिलकर विद्रोह का झंडा खड़ा करके लूटमार करने लगा। सिकंदर खॉ ने बहादुर खॉ शैबानी के साथ मिल कर खैराबाद के पास मीर मुहज्जुलमुल्क मशहदी से, जो बादशाह की ओर से इन कृतघनों को दंड देने के लिए नियत हुआ था, खूब युद्ध किया। यद्यपि अंत में बहादुर खॉ सफल हुआ पर सिकंदर खॉ पहिले ही परास्त होकर भाग गया। बारहवें वर्ष में जब खानजमाँ और बहादुर खॉ ने दूसरी बार बलवा किया तब सिकंदर खॉ पर, जो उस समय भी अवध में डोंगें मार रहा था, मुहम्मद कुली खॉ बरलास ने भारी सेना के साथ नियुक्त होकर उसे

अवध में घेर लीया । बहुत दिनों तक युद्ध होता रहा । जब खानजमों और बहादुर खॉ के मारे जाने की खबर पहुँची तब सिकंदर खॉ शोक का बहाना करके बाहर निकला और जमा-प्रार्थी हुआ । कुछ दिन इसी बहाने में बिताकर अपने परिवार के साथ कुछ नावों में बैठ कर, जिन्हें इसी अवसर के लिए तैयार कर रखा था, नदी पार हो गया और संदेश भेजा कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ हूँ और आता हूँ । परंतु इसकी बातों का विश्वास नहीं पड़ा इसलिए सरदारों ने नदी पार होकर इसका पीछा किया । यह गोरखपुर पहुँचकर, जो उस समय अफगानों के अधिकार में था, बंगाल के हाकिम सुलेमान किरानी के पास गया और अपने लड़के के साथ उड़ीसा विजय करने के लिए भेजा गया । जब अफगानों ने इसका अपने बीच में रहना उचित नहीं समझा और इसे पकड़ना चाहा तब उक्त खॉ यह समाचार पाकर खानखानों से, जो जौनपुर में था, क्षमा माँगी । सेनाध्यक्ष ने बादशाही इच्छा जानकर उसको बुला लिया । सिकंदर खॉ भी शीघ्रता करके खानजमों के पास पहुँचा । सत्रहवें वर्ष सन् ९७९ हि० में खानखानों ने इसे अपने साथ बादशाह की सेवा में ले जाकर जमा दिला दी और सरकार लखनऊ में इसे जागीर मिली । विदा के समय इसे चार कब ( एक प्रकार का वस्त्र, कमरबंद ), जड़ाऊ तलवार और सोने की जीन सहित षोड़ा मिला और यह खानखानों के साथ नियत हुआ । लखनऊ पहुँचने पर कुछ दिन के बाद बीमार हुआ और ९८० हि० ( सं० १६८० ) में मर गया । यह तीन हजारी मंसबदार था ।

## १२८. इस्माइल कुली खाँ जुलकदर

यह अकबरी दरबार के एक सरदार हुसेन कुली खाँ खान-जहाँ का छोटा भाई था। जालंधर के युद्ध से जब बैराम खाँ पराजित होकर लौटा तब बादशाही सैनिकों ने पीछा करके इस्माइल कुली खाँ को जीवित ही पकड़ लिया। इसके अनंतर जब इसके भाई पर कृपा हुई तब इसने भी बादशाही कृपा पाकर भाई के साथ बहुत अच्छा कार्य किया। जब खानजहाँ बंगाल की सूबेदारी करते हुए मारा गया तब यह अपने भाई के माळ असबाब के साथ दरबार पहुँच कर कृपापात्र हुआ। ३० वें वर्ष बख्शों को दंड देने के लिए, जो उद्वेग से सेवा और अधीनता का काम नहीं कर रहे थे, नियत हुआ। जब बिलोचिस्तान पहुँचा तब कुछ विद्रोहियों के पकड़े जाने पर उन सबने शीघ्र क्षमा माँग ली और उनके सरदार गाजी खाँ, वजीह और इब्रहीम खाँ बादशाही सेवा में चले आए। इस पर बादशाह ने वह बसा हुआ प्रांत उन्हें फिर लौटा दिया। ३१ वें वर्ष में जब राजा भगवानदास उन्माद रोग के कारण जाबुलिस्तान के शासन से लौटा लिया गया तब इस्माइल कुली खाँ उसके स्थान पर नियत हुआ परंतु यह मूर्खता से भूटे बहाने कर नजर से गिर गया। जब आज्ञा हुई कि नाब पर बैठाकर इसे भक्कर के रास्ते से हेजाज रवाना कर दें तब लाचार होकर इसने क्षमा प्रार्थना की। यद्यपि वह स्वीकार हुआ परंतु

वहाँ से लौटने पर युसुफजई पठानों को दंड देने पर नियत हुआ। दैवातु स्वाद और बजौर के पार्वत्य प्रांत की हवा के कारण वहाँ बहुत सी बीमारियाँ फैल गई जिससे उस जाति के सरदारों ने आप ही आप खॉं के सामने आकर अधीनता स्वीकार कर ली।

जब जाबुलिस्तान के शासक जैन खॉं ने जडाल रौशानी को ऐसा तंग किया कि वह तीराह से इसी पार्वत्य प्रांत में चला आया। जैन खॉं पहिले की लज्जा मिटाने के लिए, जो बीरवर की चढ़ाई के समय हुई थी, इस प्रांत में पहुँचा। सादिक खॉं दरबार से सवाद के जंगल में नियत था कि जलाल जिस तरफ जाय उसी तरफ पकड़ा जाय। इस्माइल कुली खॉं ने, जो उस जंगल का थानेदार था, सादिक खॉं के आने से फिक्र छोड़ दिया और चतार को खाली छोड़कर दरबार चल दिया। जडाल एकाएक रास्ता पाकर भाग गया। इस कारण इस्माइल कुली खॉं कुछ दिन के लिए दंडित हुआ। ३३ वें वर्ष यह गुजरात का हाकिम नियत हुआ। ३६ वें वर्ष जब शाहजादा सुलतान मुराद मालवा का प्रांताध्यक्ष हुआ तब इस्माइल कुली खॉं उसका वकील नियत हुआ। अभिभावक के कामों के साथ ठीक प्रबंध किया। ३८ वें वर्ष सादिक खॉं के उसके स्थान पर नियुक्त होने से यह दरबार लौट गया। ३९ वें वर्ष अपनी जागीर कालपी में नियत हुआ कि वहाँ की बस्ती बढ़ावे। ४२ वें वर्ष सन् १००५ हि० में चार हजारी मंसब पाकर सम्मानित हुआ। कहते हैं कि बड़ा विलास-प्रिय था और गहने कपड़े बिछावन और बरतन में बड़ा तकल्लुफ रखता था। १२०० औरतें थीं। जब दरबार जाता तब इनके

( ४७७ )

इजारबंदों पर मुहर कर जाता था। अंत में सबने लाचार होकर इसे विष दे दिया। अकबर के राज्य-काल ही में इसके पुत्र इब्राहीम कुली, सलीम कुली और खलील कुली योग्य मंसब पा चुके थे।

---

## १२९. इस्माइल खॉ बहादुर पन्नी

इसका पिता सुलतान खॉ जमादारो विभाग में काम करता रहा। इसकी पुत्री का विवाह सरमस्त खॉ के साथ हुआ था, जो अजमत खॉ का पुत्र था और जिसने सैयद दिलावर अली खॉ के युद्ध में अजदुद्दौला पवज खॉ के हाथी के सामने पैदल होकर प्राण निछावर कर दिया था। इसके बाद सरमस्त खॉ और सुलतान खॉ दोनों जागीरदार नियत हुए। इस्माइल खॉ एक सहस्र सवार के साथ सलाबत जंग और निजामुद्दौला आसफ-जाह की सरकार में नौकर था। इसका नक्षत्र तरक्की पर था इसलिए धीरे धीरे बरार प्रांत के महालों का नायब-नाज़िम और मुतसद्दी नियत हुआ। उस समय मराठों की ओर से उक्त प्रांत का ताल्लुकेदार जानोजी भोंसला था और इन दोनों में पहिले का परिचय था इसलिए वहाँ का प्रबंध ठीक रखा और मुद्दत तक वहाँ का काम करता रहा। अंत में इसके दिमाग में बराबरी का दावा पैदा हुआ और इसमें विद्रोह के लक्षण दिखलाई देने लगे। निजामुद्दौला आसफजाह ने इसकी यह चाल देखकर इसको दंड देना निश्चय किया। जिस वर्ष रघूजी भोंसला के लड़कों को दंड देने के लिए निजामुद्दौला नागपुर की ओर चला, उस समय उस उच्च-पदस्थ सरदार के कारपरदाज रुक्नुद्दौला के मारे जाने को सुअवसर समझकर यह कुछ सैनिकों के साथ सेना के पास पहुँचा पर इस पर कृपा नहीं हुई और कुत्राच्य सुनने पड़े।

इसने चाहा कि मकान लौट जायें पर इसी बीच, जो सेना इस पर नियत हुई थी, आ पहुँची। लाचार होकर तीस चालीस सवारों के साथ, जिन्होंने उस समय इसका साथ दिया, धावा कर बरकंदाजों के व्यूह को तोड़कर सवारों के बीच पहुँच गया। जो इसके पास पहुँचता उसे तलवार के हवाले करता। इसके शरीर में काफी शक्ति थी, इसलिए सेना के बीच पहुँचकर घोड़े से गिरा और सन् ११८९ हि० ( सं० १८३२ ) में मारा गया। इसके पुत्र सलाबत खॉँ और बहलोल खॉँ पर कृपा हुई और बरार प्रांत में बालापुर, बदनपर पैबे: और करंजगाँव जागीर में मिला। सेना के साथ वे काम करते रहे।

---



## १३०. इस्माइल खॉ मक्का

यह पहिले हैदराबाद कर्णाटक में जेलखाने में नौकरी करता था। औरंगजेब के ३५ वें वर्ष में जुल्फिकार खॉ बहादुर की प्रार्थना पर पाँच हजारी ५००० सवार का मंसब और खॉ की पदवी पाकर उक्त बहादुर के साथ जिंजी दुर्ग लेने पर नियत हुआ। ३७ वें वर्ष उक्त दुर्ग के घेरे के समय महम्मद कामबख्शा, असद खॉ और जुल्फिकार खॉ में कुछ वैमनस्य हो गया तब जुल्फिकार खॉ ने घेरे से हाथ उठा लेना उचित समझकर अपनी सेना और तोप मोर्चे से लौटा लिया। इस्माइल खॉ, जो दुर्ग के दूसरी ओर था, जल्दी नहीं पहुँच सका। संता घोरपदे आदि शत्रु बीच में आ पड़े और इससे युद्ध करने लगे। इसके पास सेना कम थी, इसलिए यह घायल होकर पकड़ा गया और मरहटों के यहाँ एक वर्ष तक कैद रहा। इसके पुराने परिचित अचमनायर के प्रयत्न से कुछ दंड देकर इसने छुट्टी पाई। ३८ वें वर्ष दरबार में हाजिर हुआ। इसका मंसब एक हजारी बढ़ाया गया और अन्नन्दी से मुर्तजाबाद तक के मार्ग का रत्नक नियत हुआ। ४१ वें वर्ष अब्दुर्रज्जाक खॉ लारी के स्थान पर राहीरी र्फ इसलाम गढ़ का फौजदार नियत हुआ। ४५ वें वर्ष बनीशाह दुर्ग का फौजदार हुआ। इसके आगे का हाल नहीं मिला।

---

## १३१. इस्माइल बेग दोलदी

यह बाबर के सरदारों में से था। वीरता तथा युद्ध-कौशल में यह एक था। जब हुमायूँ बादशाह पराक से लौटा और दुर्ग कंधार घेर लिया तब घिरे हुए लोग बड़ी कठिनाई में पड़े तथा बहुत से सदाँर मिर्जा अस्करी का साथ छोड़कर दुर्ग के नीचे विजयी बादशाह के पास चले आए। उन्हीं में यह भी था। कंधार-विजय के अनंतर इसे जर्मीदावर के इलाके का शासन मिला। काबुल के घेरे के समय खिज़्र ख्वाजा खॉ के साथ यह मिर्जा कामराँ के नौकर शेर अली पर नियत हुआ, जिसने मिर्जा के कहने के अनुसार काबुल से विलायत के काफिले को नष्ट करने के लिए चारीकारों पहुँचकर उसे नष्ट कर डाला था पर रास्तों को, जिसे बादशाही आदमियों ने बना रखे थे, नष्ट करने के लिए काबुल न पहुँच सका तब गजनी चला गया। सजाँवद की तलहटी में शेर अली पर पहुँच कर इस्माइल बेग ने युद्ध आरंभ कर दिया। बादशाही आदमी विजयी होकर बहुत छूट के साथ हुमायूँ के सामने पहुँच कर सम्मानित हुए। जब कराचः खॉ, जिसने बहुत सेवा करके बहुत कृपा पाई थी, कादरता से भारी सेना को मार्ग से लेकर मिर्जा कामराँ के पास बदख़शों की ओर चला तब उन्हीं भूले भटकों में उक्त खॉ भी था। इस कारण बादशाह के यहाँ इसकी पदवी इस्माइल खॉ रीछ हुई। जब बादशाह स्वयं बदख़शों की ओर गए तब युद्ध में यह कैद

( ४८२ )

हो गया । मुनश्म खॉ की प्रार्थना पर इसकी प्राण रक्षा हुई और यह बसी को सौंपा गया । भारत के आक्रमण के समय यह बादशाह के साथ था । दिल्ली-विजय पर यह शाह अबुल् मआली के साथ लाहौर में नियत हुआ । बाद का हाल ज्ञात नहीं हुआ ।

---

## १३२. इस्लाम ख़ाँ चिश्ती फारूकी

इसका नाम शेख अलाउद्दीन था और शेख सलीम फतहपुरी के पौत्रों में से था। अपने वंश वालों में अपने अच्छे गुणों और सुशीलता के कारण यह सबसे बढ़ कर था और जहाँगीर का धाय भाई होने से बादशाही मंसब, सम्मान और विश्वास पा चुका था। शेख अबुल्फजल की बहिन से इसका विवाह हुआ था। जब जहाँगीर बादशाह हुआ तब इस्लाम ख़ाँ पदवी और पाँच हजार मंसब पाकर यह बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। ३२ वर्ष जहाँगीर कुली ख़ाँ लालबेग के स्थान पर भारी प्रांत बंगाल का सूबेदार हुआ। वह प्रांत शेरशाह के समय से अफगान सरदारों के अधिकार में चला आता था। अकबर के राज्यकाल में बड़े बड़े सरदारों की अधीनता में प्रबल सेनाएँ नियत हुईं। बहुत दिनों तक घोर प्रयत्न, परिश्रम और लड़ाई होती रही, यहाँ तक कि वह पूरी जात दमन हो गई। बचे हुए सीमाओं पर भाग गए। इसी बीच कतलू लोहानी के पुत्र उसमान ख़ाँ ने सरदार बनकर दो बार बादशाही सेना से लड़ाइयों की। विशेष कर राजा मानसिंह के शासनकाल में इसके लिए बहुत कुछ प्रयत्न किया गया पर फिसाद के जड़ का कांटा नहीं निकला। जब इस्लाम ख़ाँ वहाँ पहुँचा तब शेख कबीर सुजाभत ख़ाँ की सरदारी में, जो उक्त ख़ाँ का संबंधी था, एक सेना अन्य सहायकों के साथ अकबर नगर से सज्जित कर उस पर भेजी गई।

इन बहादुरों की हृदय और साहस से युद्ध के बाद, जिसमें रुस्तम और असफ़ंदियार के कारनामे नष्ट हो सकते थे और जिसका विस्तृत वृत्तांत उक्त ख़ाँ की जीवनी में लिखा गया है, उद्यमान ख़ाँ के मारे जाने पर उसके भाई ने अधीनता स्वीकार कर ली। इस अच्छी सेवा के पुरस्कार में ७ वें वर्ष छः हजारी मंसब पाकर यह सम्मानित हुआ। ८ वें वर्ष सन् १०२२ हि० में यह मर गया और इसका शव फतहपुर सीकरी भेजा गया, जहाँ उसके पूर्वजों का जन्मस्थान और कब्रिस्तान था। इसका जीवन-वृत्तांत विचित्र है। सुसम्मति और संयम में यह प्रसिद्ध था। यह जीवन भर नशा या निषिद्ध वस्तु से दूर रहा और इसी गुण के कारण बंगाल प्रांत की कुल वेश्याओं को, जैसे लोली, हुरकनी, कंचनी और डोमनी को अस्सी हजार रुपया मासिक पर नौकर रख कर साल में नौ लाख साठ सहस्र रुपये उन्हें देता था। इसके कुछ सेवक गहनों और बहुत तरह की मूल्यवान चीजों को थालियों में लिये खड़े रहते थे, जिन्हें यह पुरस्कार में दिया करता था। इसकी सरदारी की सनक इतनी बढ़ी थी कि बादशाहों की चाल पर झरोखे से दर्शन देता और गुसलखाना काम में लाता था। हाथियों की लड़ाई कराता था। कपड़ों में तकल्लुफ न करता था। पगड़ी के नीचे कुलाह नहीं पहिरता था और जामा के नीचे पैराहन पहिरता था। खाने के व्यय में एक सहस्र लंगर (सदावर्त) चलते थे परंतु उसके आगे पहिले ज्वार, बाजरे की रोटी, साग और साठी का चावल रखा जाता था। इसका साहस और दानवीरता हात्तिम और मन्नन की उदारता से बढ़ गई थी। बंगाल की सुबेदारी के समय इसने १२०० हाथी अपने मंसब-

दारों और नौकरों को दिए थे । इसके यहाँ बीस सहस्र शेर-जादे सवार और पैदल रहते थे । इसका लड़का एकराम खॉ होशंग अबुलफजल का भांजा था और बहुत दिनों तक दक्खिन में नियत था । जहाँगीर के राज्यकाल के अंत में यह असीर गढ़ का अध्यक्ष था । शेरखॉ तौनूर की लड़की इसके घर में थी पर उससे बनती नहीं थी । उसके भाई लोग अपनी बहिन को अपने घर ले गए । ऐसे वंश में होने पर भी यह क्रूर हृदय था । शाहजहाँ के राज्यकाल के मध्य में किसी कारण जागीर और दो हजारी १००० सवार के मंसब से हटाया गया और नकदी वृत्ति मिली । फतहपुर में रहकर शेख सलीम चिश्ती के मजार का प्रबंध करता था । २४ वें वर्ष में मर गया । इसका भाई शेख मोअज्जम वक्त रौजे का मुतवल्ली नियत हुआ । २६ वें वर्ष इसे फतहपुर की फौजदारी मिली और इसका मंसब बढ़ाकर एक हजारी ८०० सवार का हो गया । सामूगढ़ के युद्ध में यह दारा शिकोह की सेना के मध्य में नियत था और वहीं युद्ध में मारा गया ।

---

## १३३. इस्लाम खाँ मशहदी

इसका नाम मीर अब्दुस्सलाम और पदवी इख्तसास खाँ थी। यह शाहजहाँ की शाहजादगी के समय का पुराना सेवक था। आरंभ में मुंशीगरी करता था। सन् १०३० हि० ( सं० १६७६ ) में जहाँगीर के १५ वें वर्ष में जब बादशाही सेना दूसरी बार दक्षिण का काम ठीक करने गई तब दरबार का बकील नियत होने पर इसे योग्य मंसब और इख्तसास खाँ की पदवी मिली। उस उपद्रव में जब जहाँगीर शाहजादे से बिगड़ गया था तब इसको दरबार से निकाल दिया। यह शाहजहाँ की सेवा में पहुँचकर उस समय उसके साथ रहा। इसके अनंतर जब जुनेर दुर्ग में शाहजादा ठहर गया और उसी समय इब्राहिम आदिलशाह मर गया तब शाहजादा ने इसको युवराज महम्मद आदिलशाह के यहाँ शोक मनाने के लिए भेजा। इख्तसास खाँ शोक और शांति के रस्मों को पूरा करके शाहजहाँ के हिंदुस्तान की राजगद्दी के वर्षारंभ में भारी भेंट और बहुमूल्य जवाहिरात लेकर दरबार में हाजिर हुआ और चार हजारी २००० सवार का मंसब तथा इस्लाम खाँ की पदवी पाई। यह दूसरा बख्शी और मीर अर्ज के पद पर सम्मानित होकर नियत किया गया क्योंकि इस पद पर सिवा विश्वासपात्र के दूसरा कोई नियत नहीं होता था। जब शाहजहाँ खानजहाँ लोदी को दंड देने दक्षिण चला तब इसको हिंदुस्तान की राजधानी आगरा में

अभ्यक्ष नियत किया। जब गुजरात का सूबेदार शेर खॉ तौनूर ४ थे वर्ष मर गया तब इसलाम खॉ उसके स्थान पर पाँच हजारी मंसब पाकर सूबेदार नियत हुआ। ६ ठे वर्ष के अंत में मीर बरूशी पद पर नियत हुआ, जिसकी तारीख 'बख्शिए मुमालिक' से निकलती है। ८ वें वर्ष आजम खॉ के स्थान पर बंगाल का प्रांताध्यक्ष नियत हुआ। वहाँ इसे बड़ी बड़ी विजय मिली, जैसे आसामियों को दंड देना, आसाम के राजा के दामाद का कैद होना, एक दिन में दोपहर तक पंद्रह दुर्गों को जीतना, श्रीघाट और मांडू पर अधिकार करना, कूच हाजी के तमाम महालों पर याना बैठाना और ११ वें वर्ष में पाँच सौ गड़े हुए खजानों का मिलना। मघराजा का भाई माणिकराय, जो चटगाँव का शासक था, रसंग के आदमियों के पराजित होने पर १२ वें वर्ष सन् १०४८ हि० में क्षमाप्रार्थी होकर जहाँगीर नगर उर्फ ढाका में खॉ के पास आया। १३ वें वर्ष इसलाम खॉ आज्ञा के अनुसार दरबार पहुँचकर वजीर दीवान आला नियत हुआ। जब दक्षिण का सूबेदार खानदौरों नसरतजंग मारा गया तब १९ वें वर्ष के जन्म के दिन इसलाम खॉ छः हजारी ६००० सवार का मंसब पाकर उस प्रांत का सूबेदार नियत हुआ। इसके भाई, लड़के और दामाद मंसबों में तरक्की पाकर प्रसन्न होकर साथ गए।

कहते हैं कि खानदौरों के मरने की खबर जब शाहजहाँ को मिली तब उसने इसलाम खॉ से कहा कि 'उस सूबेदारी पर किसको नियत किया जाय।' इसने अपने घर आकर अपने भला चाहने वाले मित्रों से कहा कि 'बादशाह ने इस तरह फरमाया है। देर तक विचार करने पर मैं समझता हूँ कि अपना



नाम लू ।' उन लोगों ने कहा कि 'क्या यह राय ठीक है । प्रधान मंत्रित्व और बादशाह के सामीप्य की तथा दक्षिण के शासन को बराबरी नहीं है ।' इसने उत्तर दिया 'ठीक है, पर मैं समझता हूँ कि बादशाह सादुल्ला खॉ की वजीरी के लिए, जिस पर उनकी कृपा है, बहाना चाहता है । कहीं इस कारण हमारी अवनति न हो । इससे यही अच्छा है कि हम उसी तरह की राय दें ।' उसी दिन के अंत में मामूल के विरुद्ध तलवार और ढाल बॉध कर दरबार में हाजिर हुआ । बादशाह ने पूछा तब प्रार्थना की कि 'आज्ञा हुई थी कि दक्षिण का सूबेदार किसको नियत करें, पर सिवा इस दास के दूसरा कोई ध्यान में नहीं आता ।' बादशाह ने प्रसन्न होकर कहा कि 'नायब वजीर कौन बनाया जाय ?' इसने कहा कि 'सादुल्ला खॉ से कोई अच्छा आदमी नहीं है ।' यह स्वीकार हो गया । इसके वहाँ चले जाने पर सादुल्ला खॉ को पूरा मंत्रित्व मिल गया । इससे इसलाम खॉ की दूरदर्शिता और ठीक विचार सब पर प्रगट हो गया । २० वें वर्ष सात हजार ७००० सवार का मंसब पाकर सम्मानित हुआ ।

जब यह बुरहानपुर से औरंगाबाद लौटा तब बीमार हो गया । यह समझ कर कि अब आखिरी समय आ गया है, तब अपनी जागीर के लेखक चतुर्भुज और मुत्सद्दी ख्वाजा अंबर की राय से कुल दफ्तरों को जलवा कर सब सामान व माल को अपने लड़कों, भाइयों और महल के दूसरे आदमियों में गुप्त रूप से बँटवा दिया तथा २५ लाख रुपयों का कोष दरबार भेज दिया । १४ शब्वाल सन् १०५७ हि० ( स० १७०४ ) को मर गया । अपनी वसीयत के अनुसार यह उस नगर के पास हो

गाड़ा गया। मकबरा और बाग अपने तरह का एक ही है, यहाँ तक कि आज भी पुराना होने पर उसमें नवीनता मिली हुई है। ख्वाजा अम्बर कब्र पर बैठा। शाहजहाँ ने इन सब बातों पर जान बूझकर भी इसकी पुरानी सेवा के कारण ध्यान नहीं दिया और इसके लड़कों में से हर एक पर कृपा करके उनका मंसब और पद बढ़ाया। चतुर्भुज को मालवा का दीवान बना दिया। इसलाम खॉ हर एक विषय तथा पत्र-व्यवहार में कुशल था। बादशाही कामों में सदा तत्पर रहता था। यह नहीं चाहता था कि दूसरे कर्मचारी इसके काम में दखल दें। काम को बड़ी दृढ़ता तथा सफाई से करता था। दक्षिण वाले, जो खानदौरों से दुखी थे, इससे प्रसन्न हो गए। दुर्ग के गोदामों को किरायात से बेचकर नए सिरे से उन्हें बनवाया। हाथी, घोड़े बहुत से एकट्टे हो गए थे और यद्यपि यह स्वयं उनपर सवारो नहीं कर सकता था लेकिन उनका प्रबंध और रक्षा बहुत करता था। इसको छः लड़के थे, जिनमें से अशरफ खॉ, सफी खॉ और अब्दुरहीम खॉ की अलग अलग जीवितियाँ दी गई हैं। तीसरे पुत्र मीर मुहम्मद शरीफ ने इसके मरने पर एक हजार २०० सवार का मंसब पाया। शाहजहाँ के २२ वें वर्ष में सुलतान औरंगजेब के साथ कंधार पर चढ़ाई के समय साथ गया। २४ वें वर्ष जङ्गाऊ बरतनों का दारोगा हुआ। अंत में सूरत बंदर का मुतसद्दी हुआ। जिस समय शाहजहाँ बीमार था और सुलतान मुरादबख्श बादशाह बनना चाहता था, यह कैद कर दिया गया। चौथे मीर मुहम्मद गियास ने पिता के मरने पर पाँच सदी १०० सवार का मंसब पाया। २८ वें वर्ष

( ४९० )

बुरहानपुर का बखशी और वाकेआनवीस नियत हुआ और वहीं के बहरे-गूंगे घर का दारोगा भी हुआ । औरंगजेब के समय दो बार सूरत बंदर का मुतसही, औरंगाबाद का बखशी तथा वाकेआनवीस होकर २२ वें वर्ष में मर गया । छठा मीर अब्दुर्रहमान औरंगजेब के १६ वें वर्ष में हैदराबाद प्रांत में नियुक्त होकर कुछ दिन तक औरंगाबाद का बखशी और वाकेआनवीस रहा और बहुत दिनों तक आखताबेग और दारोगा अर्ज रहा ।

---

## १३४. इसलाम खॉ मीर जिआउद्दीन हुसेनी बदरूशी

औरंगजेब का यह पुराना बालाशाही सवार था । उस गुण-प्राहक की सेवा में अपनी अवस्था प्रायः बिता चुका था । उसकी शाहजादगी में उसके सरकार का दीवान था । जब शाहजहाँ की हालत अच्छी नहीं थी और दारा शिकोह सस्तनत का जो कार्य चाहता था रोक लेता था, तब औरंगजेब ने प्रगट में पिता की सेवा करने के बहाने और वास्तव में बड़े भाई को हटाने के लिए १ जमादिउल्ल औवल सन् १०६४ हि० को अपने पुत्र सुलतान मुहम्मद को नजाबत खॉ के साथ औरंगाबाद से बुरहानपुर भेजा । उक्त मीर जो उस समय दीवानी के काम पर था, सुलतान के साथ नियत हुआ । शाहजादे के पीछे उक्त शहर पहुँच कर फरमाँबारी बाग में, जो शहर से आध कोस पर है, खेमा डाला । उक्त मीर को हिम्मत खॉ की पदवी मिली । जसवंत सिंह के युद्ध के बाद इसने इसलाम खॉ की पदवी पाई । दारा शिकोह के युद्ध में जब रुस्तम खॉ दक्षिणी ने बहादुर खॉ कोका को दबा रखा था तब इसने बाएँ भाग के बहादुरों के साथ दाईं ओर से शत्रु पर धावा कर दिया । दारा शिकोह के हारने पर उसका पीछा किया । महम्मद सुलतान इसलाम खॉ की अभिभावकता में आगरे का प्रबंधक नियत हुआ । उक्त खॉ का मंसब बढ़ कर चार हजारो २००० सवार का हो गया और इसे तीस सहस्र रुपया

इनाम मिला । शुजाब्द के युद्ध में यह बाएँ भाग का हरावल नियुक्त हुआ । जब राजा जसवंत सिंह, जो बाएँ भाग का सेनापति था, उपद्रव करने की इच्छा से भाग गया तब उक्त खॉँ उसके स्थान पर सेनापति हुआ । ठीक युद्ध के समय इसका हाथी बान की चोट खाकर अपनी सेना को नष्ट करने लगा और बहुत से सैनिक भागने लगे, इसी समय बादशाह स्वयं सहायता को पहुँच कर बची हुई सेना को, जो हड़ता से लड़ रही थी, उत्साहित किया । विजय होने पर इसलाम खॉँ सुलतान मुहम्मद के साथ नियत हुआ, जो मोअज्जम खॉँ मीर जुमला तथा अन्य सरदारों के साथ शुजाब्द का पीछा करने जा रहा था ।

जब शुजाब्द सहायक सेनाओं के हारने पर अकबर नगर नहीं ठहर सका और टाँडे की ओर चला तब मोअज्जम खॉँ ने इसलाम खॉँ को दस सहस्र सवार के साथ अकबर नगर में छोड़ कर गंगा के इस पार का प्रबंध सौंपा । दूसरे वर्ष ५ शबाबान को शुजाब्द मोअज्जम खॉँ के पीछा करने से कहीं न रुक कर जहाँगीर नगर पहुँचा कि वहाँ से सब सामान अपना लेकर रखग की ओर जाय । उसी महीने में इसलाम खॉँ उस सरदार से दुखित होकर या उसकी दुःशीलता से क्रुद्ध होकर बिना आज्ञा के दरबार की ओर रवाना हुआ । इस पर इसका मंसब छीन लिया गया पर तीसरे वर्ष फिर उसको पहिले का सनमान मिल गया । चौथे वर्ष इब्राहीम खॉँ के जगह पर काश्मीर का सूबेदार हुआ । जब बादशाह उस सदाबहार प्रांत की सैर को चले तब नव शहर में, जो उस प्रांत का एक बड़ा परगना है और पहाड़ी स्थान का दूसरा पड़ाव है, उक्त खॉँ छठे वर्ष के आरंभ में फरमान के

अनुसार वहाँ पहुँच कर जमीनबोस हुआ। इसका मंसब एक हजारो १००० सवार बढ़ कर पाँच हजारो ३००० सवार का हो गया और आगरे का सूबेदार नियत हुआ। वहाँ पहुँचने पर पूरा एक महीना भी नहीं बीता था कि सन् १०७४ हि० के आरंभ में मर गया। कश्मीरी कवि 'गनी' ने उसके मरने की तारीख इस प्रकार कही—मुर्द ( मर गया ) इसलाम खॉ वाला-जाह ।' यह मीर महम्मद नोमान के मकबरे में, जिस पर इसका विश्वास था, गाड़ा गया। अपने जीवन में उक्त मजार के पास एक मस्जिद बनवाई थी, जिसकी तारीख 'बानो इसलाम खॉ बहादुर' से निकलती है। काश्मीर की ईदगाह मसजिद, जो विस्तार और दृढ़ता में एक है, इसकी बनवाई हुई है। इसका औरस पुत्र हिम्मत खॉ मीर बखशी था और इसकी एक लड़की मीर नोमान के लड़के मीर इब्राहीम से व्याही थी। उक्त मीर छः लाख साठ सहस्र रुपये का सामान पहुँचाने के लिए, जिसे औरंगजेब ने मक्का मदीना के भले आदमियों को भेंट देने के लिए दूसरे साल भेजा था, वहाँ पहुँच कर ४ थे वर्ष मर गया। इसलाम खॉ गुणों से खाली नहीं था और अच्छा शौर कहता था। उसके दो शौर प्रसिद्ध हैं—

( उर्दू अनुवाद )

राते-गम तेरे बिना है रोज शबखून मारती ।  
 आँख की पुतली भी रोती खूँ में गोते मारती ॥  
 वसअत ऐसी पैदा कर सहारा कि गम में आज शब,  
 आह की सेना है दिल-खेमा से निकला चाहती ।

## १३५. इस्लाम खाँ रूमी

यह अली पाशा का लड़का हुसेन पाशा था। उस प्रांत में पाशा अमीर को कहते हैं। यह बसरा का शासक था और प्रगट में रूम के सुलतान की सेवा में था। इसका चाचा महम्मद इससे दुखी होकर इसतंबोळ चला गया। उसकी इच्छा थी कि अपने भतीजे को खारिज कराकर स्वयं उस जगह पर नियुक्त होवे। जब उसका मतलब वहाँ पूरा नहीं हुआ तब वह अबशर पाशा के पास, जो रूम के अंतर्गत कुछ शहरों के हाकिमों को हटाने और नियत करने का अधिकारी था, हलब जाकर अपने भतीजे की बदसलूकी और असभ्यता का उससे बयान किया और प्रार्थना की कि वह उसे अलग कर दे कि वहाँ की आय जरूरी कामों में लगे। अबशर पाशा ने हुसेन पाशा को लिखा कि बसरा का एक महल उसके लिए छोड़ दे। इसके अनंतर जब वह बसरा आया तब हुसेन पाशा ने अबशर पाशा के लिखे हुए काम को नहीं किया और महम्मद को सान्बना देकर अपने पास रख लिया। जब महम्मद ने अपने भाई के साथ मिलकर कुछ उपद्रव करना आरंभ किया तब हुसेन पाशा ने दोनों को कैद कर हिंदुस्तान भेज दिया। ये दोनों बहुत से बहाने कर लहसा के किनारे जहाज से उतर कर मुर्तजा पाशा के पास बगदाद गए। महम्मद ने कपट और पेशबन्दी से हुसेन पाशा का कजिलबाशों से मित्रता रखने का बयान किया और उसके परिपूर्ण कोष को प्रगट करने का वादा किया कि यदि

तुम उसको अपनी सेना से निकाल दो और हमें बसरा का शासन दो तब उक्त क्रोध हम तुम्हें दिखला दें ।

मुर्तजा पाशा ने यह हाल कैसर रूम से कहकर आज्ञा ले ली कि बगदाद से बसरा जाकर हुसेन पाशा को वहाँ से निकाल दे और बसरा महम्मद को सौंप दे । जब इस इच्छा को बल से पूरा करने के लिए वह बसरा पहुँचा तब हुसेन पाशा ने भी अपने पुत्र यहिया को सेना के साथ लड़ने को भेजा । यहिया ने जब यह देखा कि उसके पास सेना अधिक है और उसका सामना यह नहीं कर सकता तो अधीनता स्वीकार कर उसके पास पहुँचा । हुसेन पाशा यह समाचार सुनकर तथा घबड़ा कर अपने परिवार और सामान को शीराज के अंतर्गत भम्भा भेजकर कजिलबाश से रक्षा का प्रार्थी हुआ । मुर्तजा पाशा ने बसरा पहुँचकर मुहम्मद के बतलाये हुए क्रोध को बहुत खोजा पर उसे कहीं नहीं पाया । उसको और उसके भाई तथा कुछ फौज को वहाँ छोड़ा । कुछ दिन के बाद उन टापुओं के रहनेवाले मुर्तजा पाशा की बसलुकी और अत्याचार से घबड़ा कर मार काट करने लगे । मुर्तजापाशा हार कर बगदाद चला गया और उसके बहुत से आदमी मारे गए । यह सुसमाचार हुसेन पाशा को भेज कर वहाँ के निवासियों ने इसे बसरा बुलाया । यह अपने परिवार और माल को भम्भा में छोड़ कर बसरा आया और प्रबंध देखने लगा । दस बारह वर्ष तक यह यहाँ का राज्य-कार्य देखता रहा और साथ साथ हिंदुस्तान के वैभवशाली सुलतानों से व्यवहार बनाए रखा । औरंगजेब के तीसरे वर्ष के अंत में राजगद्दी की खुशी में एराकी घोड़े भेंट में भेजा ।



जब रूम देश के बादशाह ने इसके विरोधी कार्य के कारण यहिया पाशा को इसकी जगह पर नियुक्त किया तब यह वहाँ नहीं रह सका और कैसर के पास भी जाने का इसका मुख नहीं था, इसलिए अपने परिवार और कुछ नौकरों के साथ देश त्याग कर ईरान की ओर रवाना हो गया। वहाँ पहुँचने पर भी जब इसे स्थान नहीं मिला तब अपने भाग्य के सहारे हिंदुस्तान की ओर आया। इसकी यह इच्छा जान कर दरबार ने इसके पास खिलअत, पालकी और हथनी गुर्जरदार के हाथ भेजा कि उसका रास्ते में वह दे और आराम के साथ दरबार पहुँचावे तथा उसे बादशाही कृपा की आशा दिखावे। १२ वें वर्ष १५ सफर सन् १०८० हि० को जब यह दिल्ली पहुँचा तब बख्शोबल् मुल्क असद खॉ और सदरुस्सुदूर आबिद खॉ को लाहौरी फाटक तक स्वागत के लिए भेजा। फिर दानिशमंद खॉ पेशवा हो कर आयत और बादशाह के सामने नियम के अनुसार आदाब बजवा कर आज्ञानुसार इसे तख्त को चूमने और इसके पीठ पर बादशाही हाथ फेरने के लिये लिवा गया। इसने २० सहस्र का एक ढाल और १० घोड़े भेंट किए, बादशाह ने एक लाख रुपया नकद और दूसरे सामान दे कर इसे पाँच हजारी ५००० सवार का मंसब और इसलाम खॉ की पदवी दी। रुस्तम खॉ दक्षिणी की हवेली, जो जमुना नदी के किनारे एक भारी इमारत है, कुछ सामान और एक नाव दी कि उसी पर सवार हो कर बादशाह का दरबार करने आया करे। इसके बड़े पुत्र अफरासियाब खॉ को दो हजारी १००० सवार का मंसब और खॉ की पदवी तथा दूसरे पुत्र अली बेग को खॉ की पदवी और डेढ़ हजारी मंसब

दिया। इसके अनंतर एक हजारी १००० सवार बढ़ा कर और दस महीने का वेतन नकद खोराक सहित देकर सनमानित किया। अनंतर यह मालवा का सूबेदार नियत हुआ।

इसकी पेशानी से बहादुरी और बुद्धिमानी झलक रही थी और इसकी कुशलता तथा अमीरी इसके काम से प्रकट हो रही थी, इसलिए बादशाह ने कृपाकर इसे हिंदुस्तान का एक अमीर बना दिया। औरंगजेब चाहता था कि यह अपने परिवार को बुला कर इस देश को अपना निवास-स्थान बनावे पर यह इसी कारण अपनी स्त्रियों और अपने तीसरे पुत्र मुक्तार बेग को बुलाने में देर कर रहा था। इसी से इसने दुःख उठाया। इसका मंसब ले लिया गया और यह बादशाही सेवा से दूर होकर रज्जैन में रहने लगा। १५ वें वर्ष के अंत में दक्षिण के सूबेदार उमदतुल मुल्क खानजहाँ बहादुर की प्रार्थना पर यह फिर अपने मंसब पर बहाल हुआ और अच्छी सेवा पाकर हरावल का अध्यक्ष नियत हुआ। दूसरी बार आदिल शाही और बहलोल बीजापुरी के पौत्र की सेनाओं से जो युद्ध हुए उनमें इसने योग दिया। १९ वें वर्ष ११ रबीउल आखिर सन् १०८७ हि० को ठीक युद्ध के समय शत्रुओं के बीच में जिस जगह पर यह स्थित था वहाँ बँटते समय दैवात् आग बारूद में गिर गई और हाथी बिगड़ कर शत्रु की सेना में चला गया। शत्रुओं ने घेर कर इसके हौदे की रस्सियाँ काट डालीं और जब यह जमीन पर गिरा तब इसको इसके लड़के अली बेग के साथ काट डाला। शेर—

अजल राह तै कर गिरा आके आगे।

कशाँ और दामे फना सैद भागे ॥

इसके जीवन ने अवसर नहीं दिया नहीं तो यह अपने कार्य-कौशल, सेवा तथा दूरदर्शिता से बहुत से अच्छे काम दिखलाता । बड़प्पन और भलाई इससे शोभा पाती थी । यह कवि था । इसकी एक रुबाई नीचे दी जाती है—

यकवार किया सैरे बेनवाई मैंने ।  
दरगहे बुजुर्गी प किया गदाई मैंने ॥  
जिगर से टुकड़ा लिया बरस्म हृदियः एक  
जिससे दोस्त सग से की आइनाई मैंने ॥

इसकी मृत्यु पर अफरासियाब खॉ का मंसब बढ़कर टाई हजारो ५०० सवार का हो गया और मुख्तार बेग का, जो १८ वें वर्ष में अपने पिता के संबंधियों के साथ गुमरूप से उज्जैन पहुँच कर सात सदी १०० सवार का मंसबदार हो चुका था, एक हजारी ४०० सवार का हो गया । मृत खॉ का कुल माल ३२०००० अशर्फी, जो उज्जैन और शोलापुर में जब्ज हो गई थी, उसके पुत्रों को जमा कर दिया और आज्ञा हुई कि बाप के ऋण का जवाब करे । इसके अनंतर अफरासियाब खॉ घामुनो का फौजदार हुआ और २४ वें वर्ष फैजुल्ला खॉ के स्थान पर मुरादाबाद का फौजदार हुआ । उसी वर्ष मुख्तार बेग को नवाजिश खॉ की पदवी मिली और ३० वें वर्ष में मंदसोर का फौजदार तथा दुर्गाध्यक्ष नियत हुआ । ३७ वें वर्ष में चकला मुरादाबाद का शासक हुआ । इसके बाद मौँडू का फौजदार और उसके अनंतर पल्लिचपुर का शासक नियत हुआ । ४८ वें वर्ष कश्मीर का सूबेदार हुआ ।

---

## १३६. इहतमाम खॉ

यह शाहजहाँ का एक बालाशाही सवार था। पहिले वर्ष इसे एक हजारी २५० सवार का मंसब मिला। ३ रे वर्ष जब दक्षिण में बादशाही सेना पहुँची और तीन सेनाएँ तीन सर्दारों की अध्यक्षता में खानजहाँ लोदी को दंड देने और निजामुल् मुल्क के राज्य को, जिसने उसे शरण दी थी, लूटने के लिए नियत हुई, तब यह आजम खॉ के साथ उसके तोपखाने का दारोगा नियत हुआ। युद्ध में जब आजम खॉ ने खानजहाँ लोदी पर घावा किया और उसके भतीजे बहादुर ने हड़ता से सामना किया तब इसने बहादुर खॉ रुहेला के साथ सबसे आगे बढ़ कर युद्ध में चीरता दिखलाई। इसके अनंतर आजम खॉ मोकर्रब खॉ बहलोल को दमन करने की इच्छा से जामखीरो की ओर चला तब इसको तिलंगी दुर्ग पर अधिकार करने के लिए नियत किया और उसे लेने में इसने बड़ी सेवा की। ४ थे वर्ष इसका मंसब एक हजारी ४०० सवार का हो गया और यह जालना का थानेदार नियत हुआ। ५ वें वर्ष २०० सवार इसके मंसब में बढ़ाए गए। ६ ठे वर्ष इसका दो हजारी १२०० सवार का मंसब हो गया। ९ वें वर्ष जब शाहजहाँ दूसरी बार दक्षिण गया और तीन सेनाएँ अच्छे सरदारों के अधीन साहू भोंसला को दंड देने और आदिलशाही राज्य पर अधिकार करने के लिए भेजी गईं तब यह ३०० सवारों की तरक्की के साथ खान-

दौरों के अधीन नियत हुआ और ओसा दुर्ग के घेरे में विजय मिलने पर यह वहाँ का दुर्गाध्यक्ष हुआ। १० वें वर्ष इसे डंका मिला। १३ वें वर्ष दक्षिण के सूबेदार शाहजादा महम्मद औरंगजेब की इच्छानुसार वहाँ से हटाया जा कर यह बरार के पास खीरलः का थानेदार नियत हुआ। १४ वें वर्ष दक्षिण से दरबौर आकर खिलअत, घोड़ा और हाथी पाकर हिम्मत खों के स्थान पर गोरबंद का थानेदार हुआ। १९ वें वर्ष शाहजादा मुराद बख्श के साथ बलख और बदख्शाँ गया और दुर्ग गोर के विजय होने पर उसका अध्यक्ष नियत हुआ। यह ज्ञात होने पर कि यह वहाँ के आदमियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, यह २० वें वर्ष में वहाँ से हटा दिया गया और उसी वर्ष १०५६ हि० ( सं० १७०३ ) में मर गया।

---

## १३७. इहतिशाम खाँ इखलास खाँ शेख- फरीद फतेहपुरी

कुतुबुद्दीन खाँ शेख खूबन का यह द्वितीय पुत्र था। जहाँगीर के राज्य के अंत तक एक हजारी ४०० सवार का मंसबदार हो चुका था और शाहजहाँ के राज्य के पहिले वर्ष में पाँच सदी २०० सवार और बढ़े। चौथे वर्ष २०० सवार बढ़े और पाँचवें वर्ष उसका मंसब दो हजारी १२०० सवार का हो गया। ८ वें वर्ष ढाई हजारी १५०० सवार का मंसब पाकर शाहजादा औरंगजेब के साथ जुम्हारसिंह बुंदेला पर भेजी गई सेना का सहायक नियत हुआ। ९ वें वर्ष जब बादशाह दक्षिण गए तब यह शायस्ता खाँ के साथ जुनेर और संगमनेर के दुर्गों पर नियत हुआ तथा संगमनेर के विजय होने पर वहाँ का थानेदार नियत हुआ। ११ वें वर्ष एसालत खाँ के साथ परगना चन्दवार के विद्रोहियों को दंड देने गया। १५ वें वर्ष मऊ दुर्ग लेने में बहुत परिश्रम कर शाहजादा दारा शिकोह के साथ काबुल गया। जाते समय इसे झंडा मिला। १८ वें वर्ष आगरा प्रांत का सूबेदार हुआ और इसका मंसब तीन हजारी १५०० सवार का हो गया। १९ वें वर्ष शाहजादा मुरादबख्श के साथ बलख-बदख्शाँ पर अधिकार करने में बहादुरी दिखलाई। जब शाहजादा वहाँ से लौटा और बहादुर खाँ रुहेला अलभमानों को दंड देने के लिए बलख से रवाना हुआ तब इसे शहर के दुर्ग की

रक्षा सौंपी गई। २२ वें वर्ष जब यह समाचार मिला कि यह राजा बिट्टलदास के साथ, जो काबुल में नियत हुआ था, जाने पर काम में ढिलाई करता है तब इसका मंसब और जागीर छीन ली गई। ३१ वें वर्ष इसपर कृपा करके तीन हजारी २००० सवार का मंसब दिया और शाहजादा सुलेमान शिकोह के साथ, जो शाहजादा मुहम्मद गुजाअर का सामना करने के लिए नियत हुआ था, गया और पटना की सूबेदरी तथा इखलास खॉ की पदवी पाई। औरंगजेब के राज्य के पहिले वर्ष में खानदौरों के सहायकों में, जो इलाहाबाद विजय करने गया था, नियत होकर इहतशाम खॉ की पदवी पाई, क्योंकि इखलास खॉ पदवी अहमद खेशगी को दे दी गई थी। युद्ध के अनंतर गुजाअर के भागने पर शाहजादा महम्मद सुलतान के साथ बंगाल की चढ़ाई पर गया और उस प्रांत के युद्ध में बहादुरी दिखला कर ६ ठे वर्ष के अंत में दरबार आया। ७ वें वर्ष मिर्जा राजा जयसिंह के साथ दक्षिण में नियत हुआ और पूना विजय होने पर वहाँ का थानेदार हुआ। ८ वें वर्ष सन् १०५५ हि० में मर गया। इसके पुत्र शेख निजाम को दारा शिकोह के प्रथम युद्ध के बाद औरंगजेब ने हजारी ४०० सवार का मंसब दिया।

---

## १३८. ईसा खाँ मुबी

यह रनखीर जाति में से था, जो अपने को राजपूत कहते हैं। सरहिंद चकला और दोआब प्रांत में ये लूटमार और जमींदारी से जीविका निर्वाह करते थे। डाँका डालने में भी ये नहीं हिचकते थे। पहिले समय में इसके पूर्वज गण अत्याचारी डाँकुओं से अच्छे नहीं थे। इसके दादा बुलाकी ने परिश्रम कर नाम पैदा किया परंतु इस बीच चोरी और लूट जारी रखकर वह अत्याचार करता रहा। इसके अनंतर कुछ आदमियों को इकट्ठाकर हर एक स्थान में लूट मार करने लगा। क्रमशः चारों ओर की जमींदारी में भी लूट मचाकर इसने बहुत धन और ऐश्वर्य इकट्ठा कर लिया। आजम शाह के युद्ध में मुहम्मद मुइज्जुदीन के साथ रहकर इसने प्रयत्न कर साहस तथा वीरता के लिए नाम कमाया और बादशाही मंसब पाकर सम्मानित हुआ। लाहौर में शाहजादों का जो युद्ध हुआ था, उसमें अच्छी सेना के साथ जहाँदार शाह की ओर रहा। इस युद्ध में इसे भाग्य से बहुत बड़ी लूट मिल गई क्योंकि कोष से लदे हुए ऊँट साथ थे। इनके विषय में किसी ने कुछ पूछा भी नहीं। इस विजय के अनंतर पाँच हजारी मंसब और दोआबा पट्टा तथा लखी जंगल की फौजदारी मिली। यह साधारण जमींदार से बड़ा सरदार हो गया। अबसर पाकर काम निकाल लेना जमींदार का गुण है, विशेष कर उपद्रवियों के लिए, जो इसके लिए



सर्वदा तैयार रहते हैं। जब राज्य-विप्लव हुआ और जहाँदार शाह गद्दी से उतारा गया तब यह तुरंत अधीनता छोड़ कर लूट मार करने लगा। दिल्ली तथा लाहौर के काफलों को अपना समझ कर लूट लेता था। कई बार भास पास के फौजदारों को परास्त करने से इसे बहुत घमंड हो गया। बहुत सा माल और सामान भी इकट्ठा कर लिया। इसने बहाने बना कर और समसामुहौला खानदौरों के पास भेंट आदि भेज कर उससे हेज मेल बना रखा था और रईस बनते हुए भी इसका उपद्रव तथा लूट मार बढ़ता जाता था। जागीरदारों से जो आय वाजिब थी उससे अधिक ले लेता था। व्यास नदी के तट से, जहाँ बादरिसा दुर्ग में रहता था, सतलज नदी के तटस्थ सरहिंद के पास थार गाँव तक अधिकार कर लिया था। इसके भय से शेर नाखुन गिरा देता था, दूसरों की क्या शक्ति थी कि इससे छेद छाड़ करता।

जब लाहौर का शासक अब्दुस्समद खॉ दिलेरजंग इसके उपद्रव और लूट मार से घबड़ा चठा तब गुरु की घटना के बाद अपने संबंधी शहदाद खॉ को, जो एक वीर पुरुष था, उस प्रांत का फौजदार नियत किया और इस घमंडी को दमन करने का इशारा किया। हुसेन खॉ, जो उक्त खॉ का पोषक और बलवाइयों का सरदार था, ईसा खॉ को दमन करने में राजी नहीं हुआ, क्योंकि उसके रहते कोई इससे नहीं बोल सकता था। यह बात ठीक थी इसलिए यहाँ लिख दी गई। शहदाद खॉ नाजिम की आज्ञा का प्रबंध करने लगा। ५ वें वर्ष के आरंभ में फरहखसियर की आज्ञा पहुँची। यह निहडर उपद्रवी, जो युद्ध करने के छिप

सदा तैयार रहता था, थार गँव के पास, जो उसके रहने का स्थान था, तीन सहस्र बहादुर सवारों के साथ आकर युद्ध करने लगा। शहदाद खॉं युद्ध न कर सका और भागने लगा। दैवात् उसी समय उस अत्याचारी का बाप दौलत खॉं एक गोली लगने से मर गया, जो अपने पुत्र की बदायत आराम करता था। यह बद्मस्त इससे और भी क्रोधित हुआ और हाथी को एक दम बढ़ाकर शहदाद खॉं पर पहुँचा, जो एक छोटी हथिनी पर सवार था। उस पर तलवार की दो तीन चोटें चलाईं। इसी बीच एक तीर इसे लगा जिससे यह मर गया। इसका सिर काटकर नाजिम की आज्ञा से दरबार में भेज दिया गया। इसके अनंतर इसके पुत्र को जर्मींदार बनाया। यह साधारण जर्मींदार की तरह रहता था। मृत के समान इस जाति का कोई दूसरा पुरुष प्रसिद्ध नहीं हुआ।

---

## १३६. मिर्जा ईसा तरखान

इसका पिता जान बाबा सिंघ के हाकिम मिर्जा जानो बेग के पिता का चाचा था। जब मिर्जा जानो बेग मर गया तब मिर्जा ईसा शासन के लोभ से हाथ पैर चलाने लगा। खुसरू खॉ चरकिस ने, जो उस वंश का स्थायी मंत्री था, मिर्जा गाजी को गद्दी पर बैठाया और चाहा कि मिर्जा ईसा को कैद कर दे पर यह अपने सौभाग्य से वहाँ से हट कर जहाँगीर की सेवा में पहुँचा। जहाँगीर ने इसे अच्छा मंसब देकर दक्षिण में नियत कर दिया। जब मिर्जा गाजी कंधार का शासन करते हुए मर गया तब खुसरू खॉ अब्दुल् अली को तरखानी गद्दी पर बैठा कर स्वयं प्रबंध करने लगा। जहाँगीर ने यह शंकाकर कि कहीं अब्दुल् अली खुसरू खॉ के बहकाने से उस प्रांत में उपद्रव न करे, मिर्जा ईसा खॉ के नाम लिखित आज्ञापत्र भेजा। जब यह दरबार में आया तो कुछ ईर्यालु मनुष्यों ने प्रार्थना की कि मिर्जा बहुत दिनों से अपने पैतृक देश के लिए उपद्रव करता आया है, यदि वह स्थायी शासक हो जायगा तो कच्छ, मकरान और हरमुज के हाकिमों से, जो सब पास हैं, मिल कर शाह अब्बास सफवी की शरण में चला जायगा तो बहुत दिनों में उसका प्रबंध हो सकेगा। बादशाह ने इस पर सशंकित हो कर मिर्जा रुस्तम कंधारी को वहाँ का शासक नियत किया। उसके प्रयत्न से तरखान वंश का उस प्रांत से संबंध नष्ट हो गया। मिर्जा ईसा

को गुजरात में धनपुर की जागीर देकर उस प्रांत में नियुक्त किया। उस समय जब शाहजहाँ ठट्टा के पास से असफल हो कर गुजरात के अंतर्गत भार प्रांत के मार्ग से दक्षिण छोटा तब मिर्जा ने अपने अच्छे भाग्य से नकद, सामान, घोड़ा और ऊँट भेंट की तौर पर भेजकर अपने लिए लाभ-रूपी कोष संचित कर लिया।

जहाँगीर की मृत्यु पर जब शाहजहाँ दक्षिण से आगरे को चला तब यह सेवा में पहुँचा और दो हजारी १३०० सवार बढ़ने से इसका मंसब चार हजारी २५०० सवार का हो गया और यह ठट्टा प्रांत का अध्यक्ष नियत हुआ। परंतु राजगद्दी होने के बाद वह प्रांत शेर ख्वाजा उर्फ ख्वाजा बाकी खॉं को मिला। मिर्जा इच्छा पूरी न होने से वहाँ से लौटकर मथुरा तथा उसके सीमा प्रांत का तयूँददार नियत हुआ। ५ वें वर्ष में मंसब में कुछ सवार बढ़ाकर इसको एलिचपुर की जागिरदारी पर भेजा गया। ८ वें वर्ष इसका मंसब बढ़कर पाँच हजारी ४००० सवार दो अस्पा से अस्पा का हो गया और सोरठ सरकार का फौजदार नियत हुआ। १५वें वर्ष आजम खॉं के स्थान पर यह गुजरात का प्रांताध्यक्ष नियत हुआ और सोरठ के प्रबंध पर इसका बड़ा पुत्र इनायतुल्ला नियत हुआ, जिसका मंसब दो हजारी १००० सवार का था। सूबेदारी छूटने पर यह सोरठ की राजधानी जूनागढ़ का शासक नियत हुआ और मिर्जा दरबार बुलाया गया। सन् १०६२ हि० (सं० १७०९) के मोहर्रम महीने में यह सौंभर पहुँचा था कि वहाँ मर गया। यद्यपि मिर्जा की उम्र सौ से बढ़ गई थी पर उसकी शक्ति घटी

नहीं थी और उसमें जवान की तरह ताकत थी। यह बहुत आराम पसंद, मदिरासेवी और गाने बजाने का शौकीन था। स्वयं गायन तथा वादन के गुणों से खाली नहीं था। इसे बहुत सी संतान थीं। इसका बड़ा पुत्र इनायतुल्ला खॉं २१ वें वर्ष में मर गया। यह अपने पिता की जीवित अवस्था ही में मरा था। मिर्जा की मृत्यु पर उसकी सबसे बड़ी संतान मुहम्मद साबह ने, जिसका वृत्तांत अलग दिया हुआ है, दो हजारों १५०० सवार का और फतेह्छला ने पाँच सदी का मंसब पाया और आकिल को योग्य मंसब मिला।

---

## १४०. उजबक खॉ नजर बहादुर

यह यूल्म बहादुर उजबक का बड़ा भाई था। दोनों अब्दुल्ला खॉ बहादुर फीरोज जंग के यहाँ नौकरी करते थे। जुनेर में रहते समय शाहजहाँ के सेवकों में भरती हुए। जब बादशाह उत्तरी भारत में आए तब इन दोनों भाइयों पर कृपा दिखावाई और हर एक ने योग्य मंसब पाया। जब महाबत खॉ खानखानों दक्षिण का सूबेदार हुआ तब ये दोनों उसके साथ नियत हुए। शाहजहाँ ने इन दोनों की जीविका के लिए कृपा करके वेतन में जागीर देकर इन पर रियायत की। यूल्म बेग इसी समय मर गया। नजर बेग को उजबक खॉ की पदवी मिली और १४ वें वर्ष दक्षिण के सूबेदार शाहजादा महम्मद औरंगजेब की प्रार्थना पर एक हजारी १००० सवार बढ़ाकर इसका मंसब दो हजारी २००० सवार का कर दिया तथा मुबारक खॉ नियाजी के स्थान पर यह ओसा का दुर्गाध्यक्ष नियत हुआ। २२ वें वर्ष इसे डंका भिड़ा। बहुत दिनों तक ओसा दुर्ग की अध्यक्षता करने के बाद दरवार पहुँचकर अहमदाबाद गुजरात में नियत हुआ। तीसरे वर्ष सन् १०६६ हि० (सं० १७१३) में मर गया। यह विलासप्रिय मनुष्य था। शराब और गाने का शौकीन था। इसके विरुद्ध सेना को अपने हाथ में रखता था तथा आय और व्यय भी इसके हाथ में था। अपनी जागीर की अंतिम वर्ष तक की आय से कुछ नहीं छोड़ा। सदा कहता था कि यदि मेरे मरने के बाद सिवा दो हाथ के कोई सामान

निकले तो मैं दोषी हूँ । जब शाहजादा औरंगजेब ने बादशाहत के लिए तैयारी की और बुरहानपुर के पास, जो शहर से आध कोस पर है, बहुतों को मंसब और पदवियों दीं तब इसका लड़का तातार बेग भी पिता की पदवी बढ़ने से सन्मानित हुआ और बराबर शाहजहाँ के साथ रहा । जब औरंगजेब बादशाह हो गया तब इसने उस प्रांत के सूबेदार अमीरुल उमरा शाइस्ता खॉ के साथ नियत होकर शिवा जी भोसले के चाकण दुर्ग लेने में बहुत परिश्रम किया । तीसरे वर्ष उस दुर्ग के लिए जाने पर उक्त खॉ वहाँ का अध्यक्ष नियत हुआ । इसके अनंतर मराठों के निवासस्थान कोंकण गया और वहाँ पहुँच कर युद्ध में नाम कमाया । इसका भाई महम्मद वाली अरसी पदवी पा कर कुछ दिन महम्मद आजम शाह की सेना का बखशी रहा और इसके अनंतर फतेहाबाद धारवर और आजम नगर बंकापुर का दुर्गाध्यक्ष हुआ । इसके मरने पर इसका पुत्र अबुल् मभाली अपने पिता की पदवी पा कर कुछ दिन बीर का फौजदार रहा और उसके बाद दुर्ग धारवर का अध्यक्ष हुआ । आसफजाह के शासन के आरंभ में बड़े कष्ट से दक्षिण पहुँचा और जीविका का सिलसिला न बैठने पर वहाँ मर गया । इस सिलसिले को जारी रखने को इसके वंश में कोई नहीं बचा था ।

---

## १४१. उलुगु खाँ हब्शी

यह सुलतान महमूद गुजराती का एक दास था। उसके राज्य में विश्वासपात्र होकर यह एक सरदार हो गया। १७ वें वर्ष में जब अकबर अहमदाबाद जा रहा था तब उक्त खाँ अपनी सेना सहित सैयद हामिद बुखारी के साथ अन्य सर्दारों से पहिले पहुँच कर बादशाही सेवा में चला आया। १८ वें वर्ष में इसे योग्य जागीर मिली। २२ वें वर्ष में सादिक खाँ के साथ ओड़छा के राजा मधुकर बुंदेला को दमन करने पर नियुक्त होकर युद्ध के दिन बड़ी वीरता दिखलाई। २४ वें वर्ष में जब राजा टोडरमल आदि अरब को दमन करने के लिए नियुक्त हुए, जिसे बाद को नया-बत खाँ की पदवी मिली थी और जिसने उस वर्ष बिहार प्रांत के पास उपद्रव मचा रखा था, तब यह भी सादिक खाँ के साथ उक्त राजा का सहायक नियुक्त हुआ। यह बराबर उक्त खाँ का हर काम में साथी रहा। जिस युद्ध में विद्रोही चीता मारा गया था, उसमें यह सेना के बाँए भाग का अध्यक्ष था। बहुत दिनों तक बंगाल प्रांत में नियुक्त रहकर वहीं मर गया। इसके लड़कों को वहाँ जागीर मिली और वे वहीं रहने लगे।

---



## १४२. एकराम खॉ सैयद हसन

यह औरंगजेब का एक बालाशाही सवार था। बहुत दिनों तक यह खानदेश के अंतर्गत बगलाना का फौजदार रहा, जिसे शाहजहाँ ने औरंगजेब की शाहजादगी के समय पुरस्कार में दिया था। इसके अनंतर जब औरंगजेब पिता को देखने के लिए बुरहानपुर से मालवा को चला तब यह भी आज्ञानुसार साथ में गया। सामूगढ़ के पास दारा शिकोह के साथ युद्ध में बहुत प्रयास किया। प्रथम वर्ष में एकराम खॉ की पदवी पाई और शुजाअ के युद्ध में जब बाएँ भाग के सेनापति महाराज जसवंत सिंह ने कपट करके रात में अपने देश का रास्ता लिया और उसके स्थान पर इसलाम खॉ नियत हुआ तब इसने सैफ खॉ के साथ पहिले की तरह हरावल में नियत होकर खूब हड़ता से लड़ते हुए बहादुरी दिखलाई। जब बादशाह दारा शिकोह से लड़ने के लिए अजमेर चले तब यह राध्अन्दाज खॉ के स्थान पर आगरा का दुर्गाध्यक्ष हुआ और इसके बाद यहाँ से हटाया जाकर सैयद सादर खॉ के स्थान पर आगरे के सीमांत प्रदेश का फौजदार हुआ। पाँचवें वर्ष सन् १०७२ हि० (सं० १७१९) में मर गया।

---

## १४३. एतकाद खॉं फरुखशाही

इसका नाम महम्मद मुराद था और यह असल कश्मीरी था। बहादुर शाह के समय में यह जहाँदार शाह का वकील नियत हुआ और एक हजारी मंसब तथा वकालत खॉं की पदवी पाई। जहाँदार शाह के समय में उन्नति करता रहा पर महम्मद फरुखसियर के राब्यकाल में प्राणदंड पानेवालों में इसका नाम लिखा गया परंतु सैयदों के साथ पुराना संबंध होने के कारण यह बच गया और डेढ़ हजारी मंसब तथा मुहम्मद मुराद खॉं की पदवी पाई और तुजुक के पहलवानों में भर्ती हुआ। जब दूसरा बखशी महम्मद अमीन खॉं मालवा भेजा गया कि दक्षिण से आते हुए अभीरुल् उमरा का मार्ग रोके, और वह कूच न कर ठहर गया तब उस पर महम्मद मुराद खॉं सजाबल नियत हुआ। इसने उसे बहुत कुछ फटकारा तथा समझाया पर कोई लाभ न हुआ। दरबार आकर इसने प्रार्थना की कि उसने अधीनता छोड़ दी है, जिससे सजाबल का कोई असर नहीं होता। बादशाह ने कोई उत्तर नहीं दिया तब इसने बेधड़क हो कर सम्मति दी कि यदि इस समय उपेक्षा की जायगी तो कोई कुछ नहीं मानेगा। बादशाह ने पूछा कि तब क्या करना चाहिए। इसने कहा कि इस सेवक को आज्ञा दी जावे कि वहाँ जा कर उससे कहे कि वह इसी समय कूच करे, नहीं तो उसकी बखशीगिरी छीन लेने की आज्ञा भेज दी जायगी। इसके अनंतर जा कर इसने ऐसा

प्रयत्न किया कि उसी दिन उसने कूब कर दिया। यह साहस और राजभक्ति बादशाह को पसंद आई और बादशाह की माँ के देश का होने से इस पर अधिक कृपा हुई। बादशाह बाराहा के सैयदों के विरोध तथा वैमनस्य और उनके अधिकार तथा प्रभाव के कारण दुखी रहता था। प्रति दिन उन्हें दमन करने का उपाय सोचा करता था और राय भी करता था परंतु साहस तथा चातुर्य की कमी से कुछ निश्चय नहीं कर सकता था। एक दिन वकालत खॉं ने समय पाकर इस बारे में उसे बहुत सी बातें ऊँची नीची समझा कर कहा कि बहुत थोड़े समय में उनके अधिकार को हम नष्ट कर देंगे। बुद्धिहीन तथा बेसमझ फर्हखसियर कुछ काम न होने पर भी इस पर लट्टू हो गया और सभी कार्यों में इसको अपना सच्चा मित्र और विश्वासपात्र बनाकर सात हजारी १०००० सवार का मंसब और रुक्नुद्दौला एतकाद खॉं बहादुर फर्हखशाही की पदवी देकर सम्मानित किया। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि इसे बहुमूल्य रत्न और अच्छी वस्तु न मिलती हो। मुरादाबाद सरकार को एक प्रांत बनाकर तथा रुक्नाबाद नाम रखकर इसे जागीर में दे दिया। सैयदों को दमन करने के लिए इसकी राय से पटना से सरबुलंद खॉं, मुरादाबाद से निजामुल् मुल्क बहादुर फतह जंग और महाराजा अजीत सिंह को उनके देश जोधपुर से दरबार बुलवाया तथा हर एक से प्रति दिन राय होती थी। यदि इनमें से कोई कहता कि हम में से किसी एक को बजीर नियत कर दीजिए तो कुतबुल् मुल्क की दृढ़ता को बटा दें और उसके कुल भेदों को समझ जावें तब फर्हखसियर कहता कि उस पद के

लिए एतकाद खाँ से अधिक कोई उपयुक्त नहीं है । सरदारगण ऐसे आदमी को, जिसकी चापलूसी और दुरशीलता प्रसिद्ध थी, उनसे बढ़कर कहने से दुखी हो गए और वजीर होकर सबे दिल से काम करने का विचार रखते हुए लाचार होकर अलग हो गए । वास्तव में वह कैसा पागलपन था कि कुल परिश्रम, कष्ट और जान को निष्ठावर तो ये लोग करें और मंत्रित्व तथा संपत्ति दूसरा पावे । शैर—

मैं हूँ आशिक, और की मकसूद में माशूक है ।

गर्प शब्वाल कहलाता है व्यो रमजाँ का चाँद ॥

इससे अधिक विचित्र यह था कि जिन सरदारों पर इन सब कामों का दारमशर था उन्हीं में से कितनों की जागीर और पद में रहबदल करके दुखी कर दिया था । कुतुबुल् मुल्क उनको दुखी समझकर हर एक की सहायता करता और समझाकर अपना अनुगृहीत बना लेता था । ये बेकार विचार और रही सम्मतियाँ—मिसरा

वे राज कब निहॉ हैं, महफिल में जो खुले हैं ।

संक्षेप में जब यह समाचार कुतुबुल् मुल्क को मिला तब उसने पहिले अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के विचार से अमीरुल् उमरा हुसेन अली खाँ को लिखा कि काम हाथ से निकल गया, इसलिए दक्षिण से जल्दी लौटना चाहिए । बादशाह अमीरुल् उमरा के हृदय विचार को जानकर नए धिरे से शान्ति की उपाय में लगा और राय लेकर एतकाद खाँ और खानदौरों को कुतुबुल् मुल्क के घर भेजा और धर्म को बीच में देकर नई प्रतिष्ठा की, जिससे दोनों पक्ष अपने अपने पूर्व व्यवहारों को भुला दें ।

अभी एक महीना भी नहीं बीता था कि बादशाह ने अपने लड़कपन तथा अपनी कादरता से मित्रता के इस प्रस्ताव को तोड़ दिया, जिससे दोनों पक्ष की अप्रसन्नता और वैमनस्य बढ़ गया। कुछ अनुभवी सरदार अलग हो जाने ही में अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा देखकर हट गए। जब अमीरुल-उमरा दक्षिण से आया तब पहिले प्रतिज्ञा को निश्चित मानकर सेवा में उपस्थित हुआ पर बादशाह की दूसरी चाल देखकर और आदमियों को अस्तव्यस्त पाकर दूसरा उपाय सोचने लगा। रबीउस्सानी को दूसरी बार सेवा में उपस्थित होने के बहाने कुतुबुल्ल मुल्क को अजीत सिंह के साथ दुर्ग अरक का प्रबंध करने भेजा। जिस समय एतकाद खॉ के सिवाय दुर्ग में कोई बादशाही पक्ष का आदमी नहीं रह गया तब कुतुबुल्ल मुल्क ने बादशाह से उसकी कृपा न रहने का बहुत सा उलाहना दिया। मुहम्मद फर्रुखसियर ने भी क्रोध में आ कर जवाब दिया, यहाँ तक कि कड़ी बातें होने लगीं। एतकाद खॉ ने चाहा कि मीठी बातों से उनको ठंढा करे पर दोनों आपे के बाहर हो रहे थे इसलिए अबदुल्ला खॉ ने उसको गाली देकर दुर्ग से बाहर निकाल दिया। बादशाह उठकर महल में चले गए। एतकाद खॉ जान बची समझ कर धर चल दिया। कुतुबुल्ल मुल्क ने बड़ी सतर्कता से सारी रात दुर्ग में बिताकर सुबह ९ रबीउल्लाखिर को बादशाह को कैद कर लिया। उस समय तक किसी को कुछ मालूम न था कि दुर्ग में क्या हो चुका है। जनसाधारण ने यह प्रसिद्ध कर दिया कि अब्दुल्ला खॉ मारा गया। एतकाद खॉ ने अपनी राज-भक्ति दिखलाने के लिए अपनी सेना के साथ सवार होकर

सादुल्ला खॉ की बाजार में अमीरुल् उमरा की सेना पर व्यर्थ ही आक्रमण कर दिया। वही समय रफीव्हर्जात के गद्दी पर बैठने का शोर मचा। एतकाद खॉ को कैद कर उसका घर जन्त कर लिया। उससे अच्छे अच्छे जवाहिरात, जो उसको पुरस्कार में मिले थे और बहुत से खर्च हो चुके थे, लेकर उसकी बड़ी दुर्दशा की। फर्रुखसियर को छः साल चार महीने के राज्य के बाद, जिसमें जहाँदार शाह के ग्यारह महीने नहीं जोड़े गए हैं, यद्यपि जिसे उसने अपने राज्यकाल में जोड़ लिया था, गद्दी से हटाकर अरक दुर्ग के त्रिपौलिया के ऊपर, जो बहुत छोटी और अंधकारपूर्ण कोठरी थी, अंधा कर कैद कर दिया। कहते हैं कि आँख की रोशनी बिल्कुल नष्ट नहीं हुई थी।

सैयदों के एक विश्वासपात्र संबंधी से सुना है कि जब यह निश्चय हुआ कि उसकी आँख में दवा लगा दी जाय तब कुतुबुल् मुल्क ने इसलिए कि किसी पर प्रगट न हो अपनी सुरमेदानी दरबार में नज्मुद्दीन अली खॉ को दिया कि यह बाद-शाह की आज्ञा है। उसने जाकर फर्रुखसियर की आँख में सुरमा लगवा दिया। उस समय फर्रुखसियर ने यहाँ तक प्रार्थना की कि अंत में उसने नीचे से खींच दिया, जिससे आँख की रोशनी को हानि नहीं पहुँची। इस बात को छिपाने के लिए वह बहुत प्रयत्न करता और जब किसी चीज की इच्छा होती थी, तो कहता था। उसकी इस हालत पर वे दया दिखलाते थे और कुतुबुल् मुल्क तथा अमीरुल् उमरा मुसकराते हुए बातचीत करते थे, मानों वे उसके हाड को नहीं जानते। दुर्भाग्य से उसने अपनी सिधाई के कारण अपने रक्षकों से उचित वादा करते हुए बाहर निकालने की

बात की कि उसे राजा जय सिंह सवाई के पास पहुँचा दें। जब यह समाचार बादशाह के प्रबंधकों को मिला तो राज्य की भलाई के लिए उसे दो बार जहर दिया गया परंतु वह नहीं मरा। तब अंत में गला घोट कर मार डाला। जिस दिन उसका ताबूत हुमायूँ बादशाह के मकबरे में ले जाया गया, उस दिन बड़ा शोर मचा। नगर के दो तीन सहस्र आदमी, जिनमें विशेषतः लुधे और फकीर इकट्ठे हो गए थे, रोते हुए साथ गए और सैयदों के आदमियों पर पत्थर फेंकते रहे। तीन दिन तक वे सब उसकी कब्र पर एकत्र होकर मौलूद पढ़ते रहे।

सुभान अल्लाह ! इस घटना पर आदमियों ने बड़ी कीरता दिखलाई। एक कहता है—रुवाई—

देखा तूने कि सम्मानित बादशाह के साथ क्या किया ?

सौ अत्याचार और जुल्म कच्चेपन से किया ॥

इसकी तारीख बुद्धि ने इस प्रकार कहा कि ( सादात वै नमक हरामी करदंद ) सैयदों ने उससे नमकहरामी किया।

दूसरा कहता—रुवाई—

दोषो बादशाह के साथ वह स्यात् ही किया।

जो हकीम के हाथ से होना चाहिए था, किया ॥

बुद्धिरूपी बुकरात ने यह तारीख लिखा कि ( सादात दो आश आँचे बायद करदंद ) दोनों सैयदों ने जो चाहिए था सो किया।

परंतु यह प्रगट है कि बादशाहों के पुराने और नए स्वत्व हैं जो कई पीढ़ियों के पुराने सेवकों पर मान्य हैं और जैसा कि इन दोनों भाइयों पर स्वाभिभक्ति के कारण लाजिम था पर उनसे ऐसा नीच काम होना, जो वास्तव में स्वामियों के प्रति अत्याचार था

और हर एक ने उसे बड़ी दुष्टता और नीचता के साथ किया था, उचित नहीं था। बाह्र इन सबने अच्छी सेवा की कि जान लेने और माल हजम करने में कमी न करके भी हिंदुस्तान का बादशाह बनाया। परंतु यह न्याय की दृष्टि से उचित नहीं है, हक अदा करना नहीं है तथा स्वामिमक्ति के विरुद्ध है। परंतु अपना चाहा हुआ कहीं होता है और दूरदर्शी बुद्धि क्या जीविका बतलाती है। किसी बुराई को उसके घटित होने के पहिले इस हद तक नष्ट कर देना उचित नहीं है पर अपना लाभ देखना मनुष्य का स्वभाव है इसलिये यदि ऐसे काम में शीघ्रता न करते तो अपने प्राण और प्रतिष्ठा खोते। यद्यपि दूसरे उपाय से भी इस बला से रक्षा हो सकती थी कि पहिले ही वे दोनों बादशाह के कामों से हटकर दूर के अच्छे कामों से संतुष्ट हो जाते पर ऐश्वर्य और राज्य की इच्छा ने, जो बुराईयों में सबसे निकृष्ट है, नहीं छोड़ा। ऐसे समय शत्रुगण किसे कब छोड़ते हैं। अस्तु, यदि ऐसा काम नहीं होता तो स्वयं फर्रुखसियर अपने राज्य की अशांति का मूल बन जाता। अनुभव की कमी और मूर्खता से उसने कई गलतियों कीं। पहिले मंत्रित्व के ऊँचे पद पर इनको नहीं नियुक्त करना चाहता था क्योंकि वह बारहा के सैयदों के योग्य नहीं था। बादशाह अकबर से औरंगजेब के समय तक, जो मुगल साम्राज्य का आरंभ और अंत है, बारहा के सैयदों को अच्छे मंसब दिये गए परंतु कभी किसी प्रांत की दीवानी या शाहजादों की सुतसहीगिरी पर वे नियुक्त नहीं किए गए। यदि गुणग्राहकता और कृपा से उनकी सेवाओं पर दृष्टि रखना आवश्यक था तब भी चाहिए था कि स्वार्थी बातें



बनानेवालों के कहने पर ध्यान न देता, जो राजभक्ति की आड़ में हजारों बुराई के काम कर डालते हैं, तब ऐसे भला चाहनेवाले सेवक जो उसके लिए अपना प्राण और धन देने में पीछे न हटते और जिनसे भविष्य में कोई बुराई होने की आशंका नहीं थी, उसे इस हालत को नहीं पहुँचाते। अब जो देखा अपनी करनी से देखा और जो कुछ पाया अपनी करनी से पाया। जब कलम चलने लगी तो न मालूम कहाँ पहुँचे।

एतकाद खॉ धन और प्रतिष्ठा का विचार छोड़ कर बहुत दिनों तक एकांतवासी रहा। जब अमीरुल् उमरा मारा गया और कुतबुल् मुल्क दिल्ली जाकर बहुत से उन नए पुराने सरदारों को मिलाने लगा, जो बहुत दिनों से असफल होकर एकांतवास कर रहे थे तब वन्हीं में से एक एतकाद खॉ को भी अच्छा मंसब तथा धन देकर सेना एकत्र करने के लिये आज्ञा दी परंतु वह जैसा चाहता था वैसा न हुआ। यह कुछ कोस से अधिक साथ न देकर दिल्ली लौट गया और वहीं एकांतवास करता हुआ मर गया। यद्यपि यह उइंडता तथा मूर्खता के लिए प्रसिद्ध था पर जन-साधारण में प्रिय था। थोड़े समय के प्रभुत्व में इसने बहुतों को लाभ पहुँचाया था। इस कारण लोग उसका संबंध बुरी वस्तुओं से बतलाते थे। रहस्य—मुजयल धन में कोई दोष नहीं होता—

### शेर

धनवान सांसारिक ऐश्वर्य से किसी के ऐब को नष्ट नहीं करता।  
जैसे कसौटी के मुख से सोना स्याही नहीं हटा सकता ॥

( ५२१ )

इसके विरुद्ध स्पष्ट है—

शैर

ऐब नाकिस कब छिपा है सुनहले पोशाक में ।  
माहे नौ ने पैरहन पहिरा कुलुफ दिखला पड़ा ॥

---

## १४४. एतकाद खॉ मिरजा बहमन यार

यह यमीनुहौला खानखानों आसफ खॉ का लड़का था। यह स्वतंत्र चित्त और विज्ञासप्रिय था। अपने जीवन को इसी प्रकार व्यतीत कर अमीरी और अहंकार के सब सामान जुटाकर आराम करता रहा। सेना या सैन्य-संचालन से कोई काम नहीं रखता था। संतोष और बेपरवाही से दिन रात बिताता। मीर बरुशीगिरी के समय जब चाहता बादशाह की सेवा से हटकर अपने आराम में लग जाता था। कभी अपने भाई शायस्ता खॉ से मिलने के लिए दक्षिण जाता और कभी इसी बहाने बंगाल पहुँचता। इसकी नई नई चाल और अनेक प्रकार की बातें लोगों के मुख पर थीं। इसके प्रसिद्ध पूर्वजों और बादशाही खानदान से उनके संबंध को, जो शाहजहाँ और औरंगजेब से थी, दृष्टि में रखकर, नौकरी के कष्टों से इसे बरी कर, इस पर कृपा रखते थे। शाहजहाँ के १० वें वर्ष इसे पाँच सदी २०० सवार का मंसब मिला। इसके उच्च-पदस्थ पिता की मृत्यु पर इसका मंसब बढ़ाया गया। १९ वें वर्ष इसका मंसब बढ़कर दो हजारी २०० सवार और २२ वें वर्ष तीन हजारी ३०० सवार का हो गया तथा खानजाद खॉ की पदवी मिली। २५ वें वर्ष अपने भाई शायस्ता खॉ से मिलकर यह दक्षिण से लौटा। उसी वर्ष इसे चार हजारी ५०० सवार का मंसब और

मौरूसी पदवी एतकाद खॉं, जो इसके पिता और चाचा को मिली थी, पाकर मीर बखशी नियत हुआ। बहुधा वह बीमारी के सहाने अपने पद के कामों को पूरा नहीं कर सकता था, इसलिए २६ वें वर्ष काबुल से दिल्ली लौटते समय यह लाहौर में ठहर गया। तब इसने प्रार्थना की कि इसी जगह ठहर कर उसे दवा करने की आज्ञा दी जाय। इस पर कृपा करके बादशाह ने साठ सहस्र रुपए की वार्षिक वृत्ति नियत कर दी। अच्छे होने पर २७ वें वर्ष दरबार में आया, तब इस पर कृपा करके इसे पुराने पद पर नियत कर दिया। यह ३० वें वर्ष के अंत तक उस ऊँचे पद पर बिना लोभ और स्वार्थ के बड़ी बेपरवाही के साथ काम कर इसने नाम कमाया। सामूगढ़ में दारा शिकोह के युद्ध के बाद शिकारगाह में, जो प्रसिद्ध है, औरंगजेब की सेवा में आकर ५ वें वर्ष पाँच हज़ारी १००० सवार का मंसबदार हुआ। १० वें वर्ष झंडा पाकर अपने बड़े भाई के यहाँ बंगाल प्रांत में छुट्टी लेकर चला गया और मुह्त तक वहीं आराम किया। १५ वें वर्ष सन् १०८२ हि० ( सं० १७२८ ) में यह मर गया। खुदा उस पर दया करे। वह अजब सच्चा, बेपरवाह और ठीक कहनेवाला था। खुदा का भक्त और फकीरों का दोस्त था। कहते हैं कि एक दिन एक फकीर को देखने के लिए यह पैदल ही गया था। जब यह वृत्तांत, जो अमीरों को नहीं शोभा देता, बादशाह ने सुना तब तिरस्कार की दृष्टि से इससे पूछा कि 'वहाँ बादशाही सेवकों में से और कौन था।' इसने उत्तर में प्रार्थना की कि 'एक यही कलमुँहा था और दूसरे सब खुदा के बंदे थे।' इसका पुत्र मुहम्मदयार खॉं भी गुणों में

( ५२४ )

अपने समय का एक था । उसका हाल अलग दिया हुआ है । इसकी पुत्री फातमा बेगम, जो फाखिर खॉं नब्मसानी के लड़के मुफ्तखिर खॉं की स्त्री थी, औरंगजेब की विश्वासपात्र थी और सदरुन्निसा पद पर नियत थी ।

---

## १४५. एतकाद खाँ, मिरजा शापूर

यह एतमादुशौला का लड़का और आसफ खाँ का भाई था। स्वभाव के अच्छेपन, सुशीलता, आजीविका की स्वच्छता, कपड़ों के ठाट बाट, खान-पान में आडंबर तथा परिश्रम में अपने समय का एक था। कहते हैं कि उस समय यमीनुशौला, मिर्जा अबू सईद और बाकर खाँ नज्म सानी अपने अच्छे खाने पीने के लिए प्रसिद्ध थे और यह इन तीनों से भी बढ़ गया था। जहाँगीर के १७ वें वर्ष में यह काश्मीर का प्रांताध्यक्ष नियत हुआ और बहुत दिनों तक वहाँ रहा। इतने समय तक इसके लिए मकूद चावल और कंगीरी पान बुरहानपुर से लाया जाता था। इसकी सूबेदारी के समय में हबीब चिक और अहमद चिक, जो विद्रोहियों के मुख्य सरदार थे और उस प्रांत पर अपनी रियासत का दावा करते थे, बड़ा उपद्रव मचाते हुए नष्ट हो गए। एतकाद खाँ पाँच हजार ५००० सवार का मंसबदार था और शाहजहाँ के पाँचवें वर्ष में काश्मीर से हटाया गया था। ६ ठे वर्ष के आरंभ में अच्छी सेवा पाकर काश्मीर की अच्छी और बहुमूल्य चीजें बादशाह को भेंट दीं। इनमें राजहंस के पर की कलगियों, जिसके बुने वस्त्र के तारों का सिलसिला बराबर उसी प्रकार हिलता रहता है जैसे आग के देखने से बाल पेंच खाता है और कई प्रकार के दुशाले जैसे जामेवार, कमरबंद और तरहदार पगड़ी तथा खास तौर का ऊनी वस्त्र, जो तिब्बत

प्रांत के लौस और किर्क नामक जंगली मांसाहारी जानवर से बनता है और अच्छे रंग की दुशाले पर की कालीन थीं, जो एक सौ रुपये में एक गज तैयार होती है तथा जिसके सामने किरमान की कालीनें टाट मालूम होती थीं। उसी वर्ष १७ शाबान को लश्कर खॉ के स्थान पर यह दिल्ली का सूबेदार नियत हुआ। १६ वें वर्ष शाहस्ता खॉ के जगह पर यह बिहार का सूबेदार हुआ। उस प्रांत के अंतर्गत पलामू का राजा जंगलों की अधिकता पर घमंड करके अधीनता स्वीकार नहीं करता था, इसलिए १७ वें वर्ष एतकाद खॉ ने जबर्दस्त खॉ को सुसज्जित सेना के साथ उसपर भेजा। उसने बड़ी वीरता और दृढ़तासे दुर्गम घाटियों और कँटेदार जंगलों को पार कर विद्रोहियों को काट डाला। वहाँ का राजा प्रताप एली में आकर उक्त खॉ के द्वारा एक लाख रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार कर पटना में एतकाद खॉ से मिला। दरबार से एतकाद खॉ का मंसब बढ़ाया गया और पलामू को तहसील एक करोड़ दाम नियत कर उसे जागीर-तन बना लिया। २० वें वर्ष शाहजादा महम्मद शुजाअ जब बंगाल से दरबार बुला लिया गया तब उस प्रांत का प्रबंध, जो बस्ती, विस्तार और तहसील में एक मुल्क के बराबर था, एतकाद खॉ को मिला। जब दूसरी बार बंगाल प्रांत शाह शुजाअ को दिया गया तब एतकाद खॉ दरबार बुला लिया गया। अभी यह दरबार नहीं पहुँचा था कि अवध प्रांत की सूबेदारी का फरमान मार्ग में मिला कि जिस जगह वह पहुँचा हो वहाँ से सीधे अवध चला जाय। २३ वें वर्ष सन् १०६० हि० में एतकाद खॉ ने बहराइच से रवाना हो लखनऊ पहुँचकर इस संसार रूपी भोंपड़े को छोड़ दिया।

कहते हैं कि आगरे में नई हवेली बनवाने वालों में से तीन आदमी प्रसिद्ध थे—जहाँगीरी ख्वाजः जहाँ, सुलतान परवेज का दीवान ख्वाजा वैसी और पतकाद खॉं। इन सब में उक्त खॉं की हवेली सबसे बड़ कर थी। वह शाहजहाँ को बहुत पसंद आई इसलिए खॉं ने बादशाह को उसे भेंट दे दिया। १६ वें वर्ष में उस हवेली को बादशाह ने अमीरुल् उमरा अलीमरदान खॉं को पुरस्कार में दे दिया।

---



## १४६. एतबार खाँ ख्वाजासरा

यह जहाँगीर का विश्वासपात्र था। अपनी कम अवस्था के कारण बादशाह का खिदमतगार नियत हुआ। जब खुसरू भागने व पकड़े जाने के बाद बादशाह के सामने लाया गया और बादशाह लाहौर से काबुल जा रहे थे तब शरीफ खाँ अमीरुल उमरा, जिसे खुसरू सौंपा गया था, बीमार होकर लाहौर में ठहर गया, उस समय खुसरू एतबार खाँ को सौंपा गया। यह पहिले योग्य मंसब पाकर दूसरे वर्ष हवेली ग्वालियर का जागीरदार नियत हुआ। पाँचवें वर्ष चार हजारों १००० सवार का मंसबदार हुआ। आठवें वर्ष में इसका मंसब बढ़कर पाँच हजारों २००० सवार का हो गया। १० वें वर्ष एक हजार सवार की और तरक्की हुई।

१७ वें वर्ष पाँच हजारों ४००० सवार का मंसबदार हुआ। इसकी अवस्था अधिक हो गई थी, इसलिए यह आगरा का सबेदार और दुर्ग तथा कोष का अध्यक्ष नियत हुआ। १८ वें वर्ष जब शाहजादा शाहजहाँ माँझ से पिता के पास जाने के लिए आगे बढ़ा और दोनों पिता-पुत्र के बीच में युद्ध आरंभ हो गया तब शाहजादा फतहपुर पहुँच कर रुक गया। बादशाही सेना के पहुँचने पर तरह देकर यह एक ओर हट गया। इसके अनंतर बादशाह जब आगरे के पास पहुँचे तब इसका जिसने

( ५२९ )

वहाँ की अध्यक्षता पर रहकर अच्छी सेवा की थी, मंसब बढ़ाकर छ हजारी ५००० सवार का कर दिया और खिलअत, जड़ाऊ तलवार, घोड़ा तथा हाथी दिया। अपने समय पर यह मर गया।

---

## १४७. एतबार खाँ नाजिर

इसका नाम ख्वाजा अंबर था और यह बाबर बादशाह का विश्वासी सेवक था। जिस साल हुमायूँ बादशाह एराक जाने का पक्का निश्चय करके कंधार के पास से रवाना हुए, उसी वर्ष इसको थोड़ी सेना के साथ हमीदाबानू बेगम की सवारी को लिवा लाने के लिए बिदा किया। इसने वह काम जाकर ठीक तौर पर किया। सन् ९५२ हि० में इसने काबुल में बादशाह के पास पहुँचकर अच्छी सेवा की। बादशाह ने इसको शाहजादा मुहम्मद अकबर की सेवा में नियुक्त किया। हुमायूँ बादशाह के मरने पर अकबर ने इसको काबुल भेजा कि हमीदाबानू बेगम की सवारी को ले आवे। इस प्रकार यह जुल्दस के दूसरे वर्ष में हमीदाबानू बेगम की सवारी के साथ बादशाह की सेवा में आकर सम्मानित हुआ। कुछ दिन बाद दिल्ली का शासन पाकर वहीं मर गया।

---

## १४८. एतमाद खॉ खाजासरा

इसका मलिक फूळ नाम था । सलीम शाह के शासन-काल में अपने साहस के कारण महम्मद खॉ की पदवी पाकर सम्मानित हुआ । जब अफगानों का राज्य नष्ट हुआ तब यह अकबर बादशाह की सेवा में आकर अच्छा कार्य करने लगा । इस कारण कि साम्राज्य के मुतसहीगण कुप्रवृत्ति तथा गबन या मूर्खता और लापरवाही से अपना घर भरने के प्रयत्न में लूट मचाए हुए थे और बादशाही कोष में आय के बढ़ने पर भी जो कुछ पहुँच जाता था वही बहुत था । सातवें वर्ष में अकबर शम्शुद्दीन खॉ अतगा के मारे जाने के बाद स्वयं इस कार्य में दत्तचित्त हुआ । महम्मद खॉ अपनी कार्य-कुशलता के कारण बादशाह को जैच गया और इसने भी कोष के हिसाब किताब और बही खाते के काम को खूब समझ लिया था । बादशाह ने इसको एतमाद खॉ की पदवी और एक हजारी मंसब देकर कुल खालसा का हिसाब इसको सौंप दिया । थोड़े समय में परिश्रम और कार्य-कुशलता से इसने कोष के ऐसे भारी काम का ऐसा सुप्रबंध किया कि बादशाह अत्यंत प्रसन्न हुआ । नवें वर्ष मांझ बादशाह के अधीन हुआ और खानदेश के सुलतान मीरान मुबारक शाह ने उपहार भेज कर अपने कार्य-कुशल राजदूतों के द्वारा अधीनता स्वीकार करते हुए प्रार्थना कराई कि उसकी पुत्री को बादशाह अपने हरम में ले लेवें । स्वीकृत होने पर उसे लाने को एतमाद खॉ, जो विश्वासी

और हितेच्छु था, नियत हुआ। जब यह असीर दुर्ग के पास पहुँचा तब मीरान मुबारक शाह बड़े समारोह के साथ दुर्ग के बाहर उस कुमारी को लाकर अपने कुछ आदमियों के साथ दहेज का सामान देकर विदा किया। जिस समय अकबर माँझ से आगरे लौटा उस समय एतमाद खॉ पहिली मंजिल पर आ मिला। इसके बाद बहुत दिनों तक मुनइम खॉ खनखानों और खानजहाँ तुर्कमान के साथ बंगाल में नियुक्त होकर इसने बड़ी बहादुरी दिखलाई। वहाँ से दरबार आने पर २१ वें वर्ष सन् ९८४ हि० में सैयद मुहम्मद मीर अदल के स्थान पर भक्कर का शासक नियत हुआ, जो मालवा के अंतर्गत दैवालपुर की सीमा पर है। आवश्यकता पड़ने पर यह सेना के साथ सेहवान जाकर विजयी हुआ पर उचित समझ कर लौट आया।

सफलता और इच्छा-पूर्ति अच्छी प्रकार होने से इसका दिमाग बिगड़ गया। इस जाति वाले वास्तव में दुष्टता और क्रुतम्रता के लिए प्रसिद्ध हैं और अनुभवी विद्वानों ने कहा है कि मनुष्य के सिवा प्रत्येक जानवर बधिया कर देने से विद्रोह वा शरारत नहीं करता है पर मनुष्य की विद्रोह-प्रियता बढ़ती है। इसका घमंड इतना बढ़ा कि यह अपने अधीनस्थ लोगों पर विश्वास नहीं करता था। इस दुःशीलता के कारण नौकरों से देन लेन में कठोरता के साथ बात-चीत करता था और बहाने-बाजी को बुद्धिमानी समझ कर किसी का हक पूरा नहीं करता था। २३ वें वर्ष सन् ९८६ हि० में जब अकबर पंजाब में था, इसने चाहा कि अपनी सेना के घोड़ों को दगवाने के लिए दरबार रवाना करे। अपनी मूर्खता से पहिले ऋणों को, जिन्हें व्यापारियों

को दिया था, पूरा करना चाहा। उन सबने अपनी दरिद्रता बतलाई पर कुछ सुनवाई नहीं हुई। सबेरे मकसूद अली नामक एक काने नौकर ने कुछ बदमाशों के साथ इसका इकट्ठा किया हुआ धन चुरा लिया। उन्हीं में से कुछ ने अपना हाल जाकर कहना चाहा, जिसपर क्रोधित होकर यह बोला कि तुम्हारी कानी आँख में पेशाब कर देना चाहिए। यह सुनकर उसने इसके पेट पर जमघर ऐसा मारा कि इसने फिर साँस न लिया। भागरे से छ कोस पर इसने एतमादपुर नामक गाँव बसाया था और उसमें एक बड़ा तालाब, इमारतें और अपने लिए एक मकबरा भी बनवाया था, जहाँ यह गाड़ा गया।

---

## १४९. एतमाद खाँ गुजराती

गुजरात के सुलतान महमूद का एक हिंदुस्तानी दास था । सुलतान का इस पर इतना विश्वास था कि इसको महल की स्त्रियों के शृंगार का काम सौंपा था । एतमाद खाँ ने दूरदर्शिता से कर्पूर खाकर अपना पुरुषत्व नष्ट कर दिया था । इसके अनंतर सांसारिक बुद्धिमानी, कार्य की दृढ़ता तथा सुविचार के कारण यह सरदार बन गया । जब ९६१ हि० में अठारह साल राज्य कर बुरहान नामक गुलाम के विद्रोह में सुलतान मारा गया तब उस दुष्ट ने सुलतान के बहाने बारह सरदारों को बुलाकर मार डाला । परंतु एतमाद खाँ दूरदर्शिता से अकेले न जाकर तथा सहायकों को एकत्र कर युद्ध के लिए पहुँचा और उस दुष्ट को मार डाला । सुलतान को कोई लड़का नहीं था, इसलिए एतमाद खाँ ने उपद्रव की शांति के लिए अहमदाबाद के बसाने वाले सुलतान अहमद के वंश से एक अल्पवयस्क लड़के को, जिसका नाम रजी-उल-मुल्क था, गद्दी पर बिठाया और उसकी सुलतान अहमद शाह पदवी घोषित की । राज्य का कुल प्रबंध इसने अपने हाथ में ले लिया और सिवा बादशाही नाम के और कुछ उसके पास न छोड़ा । पाँच साल के बाद सुलतान अहमदाबाद से निकल कर एक बड़े सरदार सैयद मुबारक बोखारी के पास पहुँचा पर एतमाद खाँ से युद्ध में हार करके जंगल में घूमता फिरता जब एतमाद खाँ के पास फिर लौट कर आया तब इसने वही बर्तक

फिर किया। सुलतान ने मूर्खता से अपने साथियों से इसे मारने की राय की पर एतमाद खॉं ने यह समाचार पाकर उसे पहले ही मार डाला। सन् ९६९ हि० में नन्हू नामक एक लड़के को, जो उस वंश का न था, सरदारों के सामने लाकर तथा कुरान उठाकर इसने कहा कि यह सुलतान महमूद ही का लड़का है। इसकी माँ गर्भवती थी तभी सुलतान ने उसे हमें सौंप कर कहा कि इसका गर्भ गिरा दो परंतु पाँच महीने बीत गए थे इससे मैंने बैसा नहीं किया। अमीरों ने लाचार होकर इस बात को मान लिया और सुलतान मुजफ्फर की पदवी से उसे गद्दी पर बैठाया। पहिले ही की तरह एतमाद खॉं मंत्री हुआ पर राज्य को अमीरों ने आपस में बाँट लिया और हर एक स्वतंत्र होकर एक दूसरे से लड़ा करता था।

एतमाद खॉं सुलतान को अपनी आँखों के सामने रखता था। इस पर एतमादुल्मुल्क नामक तुर्क दास के लड़के चंगेज खॉं ने एतमाद खॉं से झगड़ा किया कि यदि उक्त सुलतान वास्तव में सुलतान महमूद का लड़का है तो क्यों नहीं उसको स्वतंत्र करते। अंत में वह बलवाई मिरजों की सहायता से, जो अकबर के यहाँ से भाग कर इसके पास आए थे, एतमाद खॉं से ससैन्य लड़ने आया। यह बिना तलवार और तीर खींचे सुलतान को छोड़कर डूंगरपुर चला गया। कुछ दिन बाद अलिफ खॉं और जुम्हार खॉं हथरी सरदारों ने सुलतान को एतमाद खॉं के पास पहुँचा दिया और स्वयं अलग होकर अहमदाबाद चंगेज खॉं के पास पहुँचे और उससे शक्ति होकर उसको मार डाला। एतमाद खॉं यह समाचार सुनकर सुलतान को साथ लेकर अहमदाबाद आया। सरदार एक दूसरे



से लड़ा करते थे इसलिए बलबाई मिरजाओं ने उस प्रांत के उपद्रव को सुनकर मालवा से लौट भड़ोच और सूरत पर अधिकार कर लिया। सुलतान भी एक दिन अहमदाबाद से निकलकर शेर खॉं फौलादी के पास चला गया। एतमाद खॉं ने शेर खॉं को लिखा कि नन्हू सुलतान महमूद का लड़का नहीं है, मैं मिरजाओं को बुलाकर उन्हें सलतनत दूंगा। जो सरदार शेर खॉं से मिले हुए थे उन्होंने कहा कि एतमाद खॉं ने हम लोगों के सामने कुरान उठाकर कहा था और अब यह बात शत्रुता से कहता है। शेर खॉं ने अहमदाबाद पर चढ़ाई की। एतमाद खॉं ने दुर्ग में बैठकर मिरजाओं से सहायता मांगी और लड़ाई शुरू हो गई। जब लड़ाई ने तूल खींचा तब एतमाद खॉं ने देखा कि वह काम पूरा नहीं कर सकता और उस अशांतिमय प्रांत में शांति स्थापित करना उसके सामर्थ्य के बाहर है। इस पर इसने अकबर से प्रार्थना की कि वह गुजरात पर अधिकार कर ले। १७ वें वर्ष सन् ९८० हि० में जब बादशाह गुजरात के पत्तन नगर में पहुँचा तब शेर खॉं के साथियों में फूट पैदा हो गई और मिरजे भड़ोच भाग गए। सुलतान मुजफ्फर, जो शेर खॉं से अलग होकर वहीं आसपास घूम रहा था, बादशाह के आदमियों के हाथ पकड़ा गया। एतमाद खॉं गुजरात के दूसरे सरदारों के साथ राजभक्ति को हृदय में दृढ़ करके सिकों पर और मंचों से बादशाह अकबर का नाम घोषित करके उस प्रांत के सरदारों के साथ स्वागत को निकल कर सेवा में पहुँचा। जब इसी वर्ष के १४ रज्जब को अहमदाबाद बादशाह की उपस्थिति से सुशोभित हुआ और बड़ौदा, चंपानेर तथा सूरत एतमाद खॉं और दूसरे सरदारों को

जागीर में दिया गया तब उन्हीं सब ने मिर्जा को दमन करने का भार अपने ऊपर ले लिया । जब बादशाह समुद्र की ओर सैर करने को गए तब गुजरात के सरदारों ने, जो सामान ठोक करने के बहाने शहर में ठहरे हुए थे और बहुत दिनों से उपद्रव मचा रहे थे समझा कि वे दूसरे महाल हैं, जिन पर पहिले की तरह अधिकार हो सकता है । वे भागने की फिर करने लगे । अख्तियारुल् मुल्क गुजराती सबसे पहिले भागा और इस पर लाचार होकर बादशाह के हितेच्छुगण एतमाद खॉं को दूसरों के साथ बादशाह के पास ले गए । बादशाह ने उसको दृष्टि से गिराकर शहबाज खॉं के हवाले किया । २० वें वर्ष फिर से कृपा करके दरबार में नियुक्त किया कि जो छोटे छोटे मुकद्दमे, खास करके जवाहिर या जदाऊ हथियार के, आवें उसे यह अपनी बुद्धि से तय करे । २२ वें वर्ष जब मीर अबूतुराब गुजराती की अध्यक्षता में आदमी लोग हज्ज को रवाना हुए, एतमाद खॉं भी मक्का की परिक्रमा करने के पवित्र विचार से गया और वहाँ से लौटने पर पत्तन गुजरात में ठहर गया । २८ वें वर्ष शहाबुद्दीन अहमद खॉं के स्थान पर यह गुजरात के शासन पर नियुक्त हुआ और कई प्रसिद्ध मंसबदार इसके साथ नियत हुए । बहुत से राजभक्त दरबारियों ने प्रार्थना की पर कुछ नहीं सुना गया । उनका कहना था कि जब इसका पूरा प्रभुत्व था और बहुत से इसके मित्र थे तब यह गुजरात के बलबाइयों को शांत नहीं कर सका तो अब जब यह वृद्ध हो गया है और इसके साथी एक मत नहीं हैं तब यह उस सेवा पर भेजने के योग्य किस प्रकार हो सकता है ।

जब एतमाद खॉं अहमदाबाद आया तब शहाबुद्दीन अह-

मद खॉं ने दरबार जाने की तैयारी की। उसके कृतघ्न सेवक, जो पहिले धन की इच्छा से उसके साथी हो गए थे, दूसरों की राय से यह सोचकर उससे भलग हो गए कि इस समय तो जागीर उसके हाथ से निकल गई है और जब तक राजधानी न पहुँचे और खर्च न मिले या कोई कार्य न मिले तब तक रोटी का मुँह तक पहुँचना कठिन है; इसलिए अच्छा होगा कि सुलतान मुजफ्फर को, जो लोभकांती की शरण में दिन बिता रहा है, सरदार बनाकर विद्रोह करें। इस रहस्य के जाननेवालों ने एतमाद खॉं को राय दी कि शहाबुद्दीन अहमद खॉं इन सबको बिना समझाए दरबार जा रहा है और सहायक सरदार अभी तक नहीं पहुँचे हैं, इसलिए उसको जानेसे रोकना उचित है, जिसमें वह इन टुकड़ों को कुछ दिन तक एकट्ठा रखे या यही कुछ खजाना खोलकर बलवे का प्रबंध करे या इन बलवाइयों को, जो पूरी तौर से एकत्र नहीं हुए हैं, चुस्ती और चालाकी से नष्ट कर दे। पर इसने एक भी न स्वीकार करते हुए कहा कि यह फिसाद उसके नौकरों का उठाया हुआ है, वह चाहे तो मिटावे। जब सुलतान मुजफ्फर बढ़ी फुर्ती से आन पहुँचा और विद्रोह ने जोर पकड़ा तब लाचार होकर एतमाद खॉं शहाबुद्दीन अहमद खॉं को लौटाने के लिए, जो अहमदाबाद से बीस कोस पर गढ़ी पहुँच गया था, फुर्ती से चला। यद्यपि भला चाहने वालों ने कहा कि ऐसे गड़बड़ के समय, जब शत्रु बारह कोस पर आ पहुँचा है, शहर को अरक्षित छोड़ देना सहज काम को कठिन बनाना है पर इसका कोई असर नहीं हुआ।

सुलतान मुजफ्फर ने शहर को खाला पाकर उसपर अवि-

कार कर लिया और सेना एकत्र कर युद्ध को तैयार हुआ । पास होते हुए भी अभी लड़ाई आरंभ नहीं हुई थी कि शहाबुद्दीन अहमद खॉ के बहुत से साथियों ने कपट करके उसका साथ छोड़ दिया, जिससे बड़ी गड़बड़ी मची । एतमाद खॉ और शहाबुद्दीन खॉ शीघ्रता से पत्तन पहुँच कर दुर्ग में जा बैठे और चाहते थे कि इस प्रांत से दूर हो जावें । एकाएक सहायक सेना का एक भाग और शत्रु से अलग हुए कुछ सैनिक इनके पास आ पहुँचे । एतमाद खॉ पहिले की घटनाओं से उपदेश ग्रहण कर धन व्यय कर प्रयत्न में लग गया और स्वयं शहाबुद्दीन खॉ के साथ दुर्ग की रक्षा के लिए ठहर कर अपने पुत्र शेर खॉ की सरदारों में अपनी सेना को शेरखॉ फौलादी पर भेज कर विजयी हुआ । इसी बीच मिर्जा खॉ अब्दुरहीम, जो भारी सेना के साथ सुलतान मुजफ्फर और गुजरात के विद्रोहियों को दंड देने के लिए नियत हुआ था, आ पहुँचा और एतमाद खॉ को पत्तन में छोड़कर शहाबुद्दीन खॉ के साथ काम पर रवाना हुआ । एतमाद खॉ बहुत दिनों तक वहाँ शासन करते हुए सन् ९९५ हि० में मर गया । यह ढाई हजारों मंसबदार था । तबक़ाते-अक़बरी के लेखक ने इसको चार हजारों लिखा है । शेख अबुल्फजल कहता है कि डर, कपट, अनौचित्य, कुछ सभ्यता, सादगी और नम्रता सबको मिलाकर गुजराती नाम बनाया गया था और एतमाद खॉ ऐसों के बीच में सरदार है ।

## १५०. एतमादुद्दौला मिर्जा गियास बेग तेहरानी

यह ख्वाजा महम्मद शरीफ का लड़का था, जिसका उपनाम हिजरी था और जो पहिले खुरासान के हाकिम मुहम्मद खॉ शरफुद्दीन ओगली तकल्ल के लड़के तातार सुलतान का वजीर नियत हुआ था। इसकी कार्य-कुशलता और सुबुद्धि देखकर महम्मद खॉ ने अपने मंत्रित्व के साथ कुछ कामों को उसकी बहुमूल्य राय पर छोड़ दिया था। उसके मरने पर उसके पुत्र कज्जाक खॉ ने ख्वाजा को अपना मंत्री बनाया। जब ईर्झक काम छुट गया तब शाह तहमास्प सफवी ने इस पर कृपा कर ईसे यज्द का सप्तवर्षीय मंत्रित्व देकर इसे सम्मानित किया। इसने सब काम बड़े अच्छे ढंग से किए, इसलिए इस्फहान का मंत्री नियत होकर वहाँ ९८४ हि० में मर गया। इसकी मृत्यु की तारीख 'यके कम जे मिलाज वजरा' से निकलती है। इसके भाई ख्वाजः मिरजा अहमद और ख्वाजगी ख्वाजा थे। पहिला 'हफ्त इकलोम' के लेखक मिर्जा अमीन का बाप था। रई की बड़ाई इसे खालसा में मिली। इसका हृदय कवि का था। शाह ने बड़ी कृपा से कहा था—शौर।

मेरा मिरजा अहमद तेहरानी तीसरा,  
सुसरू व खाकानी ( पहिले दो ) हैं।

दूसरा भी कवि था। उसका लड़का ख्वाजा शापूर भी कविता में प्रसिद्ध था। ख्वाजा को दो लड़के थे। पहिले आका अहमद ताहिर का उपनाम बसली था और दूसरा मिर्जा गिया-



एतमादुद्दौला मिर्जा गियास बेग

( पेज ५४० )



सुदीन अहमद उर्फ गियास बेग था, जिसका विवाह मिर्जा अलाउद्दौला आका मुल्ला की लड़की से हुआ था। बाप के मरने पर रोजगार की खोज में दो लड़के और एक लड़की के साथ हिंदुस्तान की ओर रवाना हुआ। मार्ग में इसका सामान लुट गया और यहाँ तक हाल पहुँचा कि दो ही ऊँट पर सब सवार हुए। जब कंधार पहुँचे तब एक और लड़की मेहरुन्निसा पैदा हुई। उस काफले के सरदार मलिक मसऊद ने, जिसे अकबर पहिचानते थे, यह हाल सुन कर उसके साथ अच्छा सलूक किया। जब फतेहपुर पहुँचे तब उसी के द्वारा बादशाह की सेवा में भर्ती हो गए। यह अपनी सेवा और बुद्धिमत्ता से ४० वें वर्ष में तीन सदी का मंसब पाकर काबुल का दीवान हुआ। इसके अनंतर एक हजारी मंसबदार होकर बयूतात का दीवान हुआ।

जब जहाँगीर बादशाह हुआ तब राज्य के आरंभ ही में मिर्जा को एतमाद्दौला की पदवी देकर मिर्जा जान बेग वजीरुलमुल्क के साथ संयुक्त दीवान नियत कर दिया। १०१६ हि० में इसके पुत्र महम्मद शरीफ ने मूर्खता से कुछ लोगों से मिलकर चाहा कि सुलतान खुसरू को कैद से निकाल कर जल्द विद्रोह करें परंतु यह भेद छिपा न रहा। जहाँगीर ने उसको दूसरों के साथ प्राणदंड दिया। मिर्जा भी दियानत खॉ के मकान में कैद हुआ पर इसने दो लाख रुपये दंड देकर छुट्टी पाई। इसकी पुत्री मेहरुन्निसा अपने पति शेर अफगन खॉ के मारे जाने पर आज्ञा के अनुसार बादशाह के पास पहुँचाई गई। उसपर पहिले ही से बादशाह का प्रेम था, जैसा कि शेर अफगन की जीवनी में लिखा गया है, इसलिए फिर विवाह की चर्चा चलाई



गई परंतु उसने अपने पति के खून का दावा किया। जहाँगीर ने, इस कारण कि कुतुबुद्दीन खॉं कोकलताश उसके पति के हाथ से मारा जा चुका था, खफा होकर उसे अपनी सौतेली माता सखीमा बेगम को सौंप दिया। कुछ दिन उसी तरह नाकामी में बीत गए। ६ ठे वर्ष सन् १०२० हि० के नौरोज के तेहवार पर जहाँगीर ने उसे फिर देखा और पुरानी इच्छा नई हो गई। बहुत प्रयत्न के बाद निकाह हो गया। पहिले नूरमहल और उसके बाद नूरजहाँ बेगम की पदवी पाई। इस खास संबंध के कारण एतमादुद्दौला को वकील-कुल का पद, छ हजारी ३००० सवार का मंसब और डंका तथा झंडा मिला। १० वें वर्ष कुल सरदारों से बढ़कर इसे यह सम्मान मिला कि इसका डंका बादशाह के सामने भी बजता था। १६ वें वर्ष सन् १०३१ हि० में जब दूसरी बार बादशाह कश्मीर की सैर को चले और जब सवारी सखीमा के पास पहुँची तब बादशाह अकेले कांगड़ा दुर्ग की सैर को गए। दूसरे दिन एतमादुद्दौला का हाल खराब हो गया और उसके मुखपर निराशा झलकने लगी तब नूरजहाँ बेगम बहुत घबड़ाई। लाचार पड़ाव को लौट कर एतमादुद्दौला के घर गए। इसका मृत्यु-काल आ चुका था, कभी होश में आता था, कभी बेहोश हो जाता था। बेगम ने बादशाह की ओर संकेत करते हुए कहा कि इन्हें पहचानते हैं। उसने उस समय अनवरी का एक शेर पढ़ा—यदि जन्म का अंधा भी हाजिर हो तो संसार की शोभा इस कपोल पर बड़प्पन देख ले। इसके दो घड़ी बाद यह मर गया। इसके लड़कों और संबधियों में एकतालीस आदिमियों को शोक का खिलजत मिला।

एतमादुद्वौला यद्यपि कवि नहीं था पर पूर्व-कवियों की रचना इसे बहुत याद थी। गद्य-लेखन में प्रसिद्ध था। शिकस्त लिपि बड़ी सुंदर लिखता था। मुहाविरों का सुप्रयोग करता था और सत्संगी तथा प्रसन्न मुख था। जहाँगीर कहते थे कि उसका सत्संग सहस्र हीरक-प्रसन्नतागार से बढ़कर था। लिखने और मामिलों के समझने में बहुत योग्य था। सुशील, दूरदर्शी तथा शुद्ध स्वभाव का था। शत्रु से वैमनस्य नहीं रखता था। इसे क्रोध छू नहीं गया था और इसके घर में कोढ़ा, बेड़ी, हथकड़ी और गाली नहीं थी। अगर कोई प्राणदंड के योग्य होता और इससे प्रार्थना करता तो छुट्टी पा कर अपने मतलब को पहुँचता। इसके साथ साथ आराम-पसंद नहीं था। दिन भर फैसला करने और लिखने में बीतता। इसकी दीवानी में मुद्दत से जो हिसाब किताब बादशाही बाकी पड़ा हुआ था वह पूरा हो गया।

नूरजहाँ बेगम में बाह्य सौंदर्य के साथ आंतरिक गुण बहुत थे और वह सहृदयता, सुव्यवहार, सुविचार और दूर-दर्शिता में अद्वितीय थी। बादशाह कहते थे कि जब तक वह घर में नहीं आई थी, मैं गृह-शोभा और विवाह का अर्थ नहीं समझता था। भारत में प्रचलित गहने, कपड़े, सजावट के सामान को बहुधा यही पहिले पहिल काम में लाई, जैसे दो दामन का पेशवाज, पँच तोलिया ओढ़नी, बादला, किनारी, इत्र और गुलाब, जिसे इत्र जहाँगीरी कहते हैं, और चांदनी का फर्श। उसने बादशाह को यहाँ तक अपने वश में कर रखा था कि वह नाम ही मात्र को बादशाह रह गया था। जहाँगीर ने लिखा है कि मैंने साम्राज्य को नूरजहाँ को भेंट कर दिया है। सिवाय एक

सेर शराब और आध सेर मांस के मैं और कुछ नहीं चाहता । वास्तव में खुतबे को छोड़कर वह बाकी कुल राजविह्वल काम में लाती थी । यहाँ तक कि झरोखे में बैठकर सदर्नों को दर्शन देती थी और उसका नाम सिक्के पर रहता था । शेर—

बादशाह जहाँगीर की आज्ञा से १०० जेवर पाशा और नूरजहाँ बादशाह बेगम के नाम से सिक्का ।

तोगरा लिपि में बादशाही फर्मानों में यह इवारत रहती थी 'हुक्म अलीयः आलियाः अहद अलिया नूरजहाँ बेगम बादशाह ।' ३० हजार मंसब के महाल इसको बेतन में मिले थे । कहते हैं कि इस जागीर के सिलसिले में हिसाब करने पर मालूम हुआ कि आधा पश्चिमोत्तर प्रांत उसमें आ गया था । इसके सभी संबंधियों और उनके संबंधियों, यहाँ तक कि दासों और ख्वाजः सराओं को खॉ और तरखान के मंसब मिले थे । बेगम की धाय हीरा दासी हाजी कोका के स्थान पर अंतःपुर की सदर नियत हुई । शेर—

यदि एक के सौंदर्य से सौ परिवार नाज करे ।

तो संबंधी और संतान तुफ पर नाज करें तो शोभा देता है ॥

बेगम पुरस्कार और दान देने में बड़ी उदार थी । कहते हैं कि जिस रोज स्नानघर जाती थी, उस दिन तीन सहस्र रुपये व्यय होते थे । बादशाही महल में बारह वर्ष से चालिस वर्ष तक की बहुत सी लौंडियाँ थीं, उन सबका अहदी आदि से विवाह करा दिया । यद्यपि स्त्रियाँ कितनी बुद्धिमती हों पर वास्तव में उनकी प्रकृति बुद्धि के विरुद्ध चलती रहती है । इतने गुणों के रहते हुए अंत में इसी के कारण हिंदुस्तान में बड़ा उपद्रव

मचा। इसे शेर अफगन खों से एक लड़की थी, जिसकी जहाँगीर के छोटे लड़के शाहजादः शहरियार से शादी करके उसे राज्य दिलाने की चिंता में यह पड़ गई। बड़े पुत्र युवराज शाहजहाँ के विरुद्ध जहाँगीर को इसने ऐसा उभाड़ा कि आपस में लड़ाई और मार काट होने लगी और बहुत से आदमी उसमें मारे गए। भाग्य के साथ न देने से, क्योंकि शाहजहाँ से बादशाही सिंहासन शोभा पा चुका था, इसके प्रयत्नों का कोई फल नहीं निकला। शाहजहाँ ने बादशाह होने पर इसे दो लक्ष वार्षिक वृत्ति दे दी। कहते हैं कि जहाँगीर के मरने पर इसने सफेद कपड़ा ही बराबर पहिरा और खुशी की मजलिसों में अपनी इच्छा से कभी न बैठी। १९ वें वर्ष सन् १०५५ हि० ( सं० १७०२ ) में लाहौर में इसकी मृत्यु हो गई। यह जहाँगीर के रौजे के पास अपने बनवाए मकबरे में गाड़ी गई। यह कवियित्री थी और इसका मख़फ़ी उपनाम था।

यह इसकी रचना है—

दिल न सूरत प दिया और न सीरत मालूम।

बंदए इश्क हूँ, सत्तर व दो मिल्लत मालूम ॥

जाहिदा हौले कयामत न दिखा तू मुम्को।

हिप्प का हौल उठाय़ा है, कयामत मालूम ॥

## १५१. एमादुल्मुल्क

यह निजामुल्मुल्क आसफजाह के लड़के अमीरुलुमरा फीरोज जंग का पुत्र था और पतमादुदौला कमरुद्दीन खॉ का दौहित्र था। इसका वास्तविक नाम मीर शहाबुद्दीन था। जब इसका पिता दक्षिण के प्रबंध पर नियत होकर उस ओर गया तब इसको मीरबख्शीगिरी पर अपना प्रतिनिधि बनाकर अहमद शाह बादशाह के दरबार में छोड़ गया और इसे बजीर सफदर जंग को सौंप गया। इसके पिता की मृत्यु का समाचार जब दक्षिण से आया तब इसने समय न खोकर सफदर जंग से इतनी पैरवी की कि यह मीर बख्शी नियत हो गया और पिता की पदवी पाई। इसके अनंतर जब बादशाह सफदर जंग से खफा हो गया तब यह अपने मामा खानखानों के साथ सेना सहित दिल्ली के दुर्ग में घुसकर मूसवी खॉ को, जो सफदर जंग की ओर से चार सौ आदमियों के साथ नायब मीर आतिश नियत था, निकाल बाहर किया और उक्त पद पर खानदौरों के पुत्र के साथ नियत हुआ। दूसरे दिन सफदर जंग ने बादशाह के सामने जाकर मीर आतिश को बहाल कराने के लिए प्रार्थना की पर कुछ सुना नहीं गया। आज्ञा हुई कि दूसरे पद के लिए प्रार्थना करे। उसने एमादुल् मुल्क के स्थान पर सादात खॉ जुल्फकार जंग को मीर बख्शी नियत किया। बादशाह सफदर जंग से क्रुद्ध था इसलिए एमादुल् मुल्क ने वाहा कि उससे युद्ध करे। छ महीने

तक युद्ध होता रहा और इस युद्ध में मल्हार राव होल्कर को मालवा से और जयप्पा को नागौर से इसने सहायता के लिए बुलवाया। परंतु उनके पहुँचने के पहिले सफदर जंग से संधि हो गई। एमादुल्मुल्क, होल्कर और जयप्पा मरहठा तीनों ने मिलकर सूरजमल जाट पर आक्रमण किया। भरतपुर, कुम्भनेर और डीग को, जो जाट प्रांत के तीन दुर्ग हैं, घेर लिया। दुर्ग लेने का प्रधान अस्त्र तोप है, इसलिए सरदारों की प्रार्थना पर बादशाह के पास प्रार्थनापत्र भेजा कि कुछ तोपें महमूद खॉं कश्मीरी के अधीन भेजी जायें, जो उसका प्रधान बफसर था। एतमादुद्दौला कमरुद्दीन खॉं के लड़के वजीर इंतजामुद्दौला ने एमादुल्मुल्क की जिद से तोप भेजने की राय नहीं दी। आकबत महमूद खॉं ने बादशाही मंसबदारों और तोपखाने के आदमियों को इस वादे पर कि अगर एमादुल्मुल्क की हुकूमत चलेगी तो तुम्हारे साथ ऐसी वा वैसी रिआयत की जायगी, अपनी ओर भिलाकर चाहा कि इंतजामुद्दौला को निकाल दें। निश्चित दिन इंतजामुद्दौला के घर पर घावा कर लड़ने लगे पर उस दिन कुछ काम न होने पर दासना को ओर भागे। बादशाही खालसा महालों और मंसबदारों की जागीरों में, जो दिल्ली के आसपास हैं, उपद्रव तथा लूटमार करने लगे। इसी समय सूरजमल जाट ने, जो घेरनेवालों के कारण बहुत दुखी था, बादशाह से सहायता के लिए प्रार्थना की। बादशाह ने प्रगट में शिकार खेलने और अंतर्वेद का प्रबंध करने के लिए पर वास्तव में जाट की सहायता को दिल्ली से बाहर आकर सिकंदरे में ठहरा और आकबत मुहम्मद खॉं को बुलवाया, जो वहीं पास में उपद्रव मचाए हुए था। वह खुर्जा से

आकर बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ और फिर खुर्जा लौट गया ।

दैव योग से होलकर ने यह समझा कि अहमद शाह ही ने तोपें भेजने में उपेक्षा की है और अब वह दुर्ग के बाहर निकल आया है, इसलिए जाकर बादशाही सेना का अन्न और घास की रसद रोक देना चाहिए । यह भी सोचकर कि यह काम बिना किसी को साथी बनाए हुए कर ले, एमादुलमुल्क और जयप्पा को कुछ खबर न देकर रात्रि में स्वयं रवाना हो गया और मथुरा उत्तर से जमुना नदी पार कर उसी रात्रि को, जब आकबत मुहम्मद खॉं खुर्जा लौट गया था, होलकर ने शाही सेना के पास पहुँच कर कुछ बान छोड़े । शाही सैनिकों ने सोचा कि आकबत मुहम्मद खॉं ने फिर उपद्रव करना आरंभ कर दिया है और इस कारण साधारण काम समझ कर युद्ध का कुछ प्रबंध नहीं किया और न भागने की तैयारी की, नहीं तो ऐसी खराबी न होती । रात्रि बीतते ही यह निश्चय मालूम हुआ कि होलकर आ पहुँचा है, तब सब घबरा चठे । क्योंकि न युद्ध का समय था और न भागने का अवसर । निरुपाय होकर अहमदशाह और उसकी माता तथा अमीरुलुधमरा खानदौरों का पुत्र मीर आतिश सम-सामुदौला अपने परिवार और सामान को छोड़कर कुछ आदिमियों के साथ राजधानी की ओर चल दिए और इस अनुभव-हीनता से बड़ी हानि हुई । होलकर ने आकर बादशाहत का कुछ सामान लूट लिया और फर्रुखसियर बादशाह की लड़की तथा मुहम्मद शाह की स्त्री मलका जमानिया तथा दूसरी बेगमों को कैद कर लिया । होलकर ने इन सबकी सम्मान के साथ रक्षा की । एमादुल्-

मुल्क यह समाचार सुनकर घेरा चठा राजधानी चल दिया । जयप्पा ने भी देखा कि जब यह दोनों सरदार चले गए और अकेले हम घेरा नहीं रख सकते तो वह भी हट कर नारनौल चला गया । सूरजमल को घेरे से आपही छुट्टी मिल गई । एमादुलमुल्क होल्कर के बल पर और दरबार के सरदारों, विशेषतः मीर आतिश समसामुद्दौला को राय से इंतजामुद्दौला के स्थान पर स्वयं मंत्री बन बैठा और उक्त समसामुद्दौला को अमीरुल-उमरा बनाया । जिस दिन यह वजीर बना उसी दिन सुबह को खिल-अत पहिरा और दोपहर को अहमद शाह तथा उसकी माता को कैद कर मुइज्जुद्दीन जहाँदार शाह के पुत्र अजीजुद्दीन को १० शाबान सन् ११६७ हि० को शनिवार के दिन गद्दी पर बैठाया और द्वितीय आलमगीर उसकी पदवी हुई । इसने कैद करने के एक सप्ताह बाद अहमद शाह और उसकी माता को अंधा कर दिया, जो कुल फिसाद की जड़ थी । कुछ समय के बाद पंजाब प्रांत का प्रबंध करने के लिए, जो दुर्रानी शाह की ओर से नियुक्त मुईनुल् मुल्क की मृत्यु पर उसके परिवारवालों के अतिकार में चला गया था, लाहौर जाने का विचार किया । द्वितीय आलमगीर को दिल्ली में छोड़कर और शाहजादा अलीगौहर को प्रबंध सौंपकर स्वयं हौंसी हिसार के मार्ग से लाहौर चला । सतलज नदी के किनारे पहुँच कर अदीना बेग खॉ के बुलाने पर एक सेना सेना-पति सैयद जमीलुद्दीन खॉ और हकीम उबेदुल्ला खॉ कश्मीरी के अधीन, जो उसका कर्मचारी, छ हजार मंसबदार और बहाउद्दौला पदवी-धारी था, रातों रात लाहौर भेज दिया । ये सब फुर्ती से लाहौर पहुँचे और ख्वाजासराओं को हरम में भेजकर उक्त



स्त्री को, जो निश्चित सोई हुई थी, जगाकर कैद कर लिया और बाहर लाकर खेमा में रखा। उक्त स्त्री एमादुलमुल्क की मामी थी और उसके लड़की की एमादुलमुल्क से सगाई होने को थी। एमादुलमुल्क ने लाहौर की सूबेदारी पर अदीना बेग खॉ को तीस लाख भेंट लेकर नियत कर दिया और स्वयं दिल्ली लौट आया। जब यह समाचार दुर्रानी शाह को मिला तब वह बहुत क्रुद्ध हुआ और कंधार से बड़ी शीघ्रता के साथ लाहौर पहुँचा। अदीना बेग खॉ हॉसी और हिसार के जंगलों में भाग गया। शाह दुर्रानी सेना के साथ फुर्ती से दिल्ली पहुँच कर बीस कोस पर ठहर गया। एमादुलमुल्क युद्ध का सामान न कर सका, इससे निरुपाय हो कर शाह की सेवा में पहुँचा। पहिले यह दंडित हुआ पर अंत में उक्त मुसम्मात की सिफारिश से और प्रधान मंत्री शाहबली खॉ के प्रयत्न से बच गया। भेंट देने पर वजीर भी नियत हो गया। दुर्रानी शाह ने जहाँ खॉ को सूरजमल जाट के दुर्गों को छेने के लिए नियत किया और एमादुलमुल्क ने भी उसके साथ जाकर बहुत परिश्रम किया, जिससे शाह ने उसकी प्रशंसा की। जब वजीर नियत करने की भेंट माँगी गई तब एमादुलमुल्क ने कहा कि तैमूरिया वंश का एक शाहजादा और दुर्रानी की एक सेना उसे दी जाय तो अंतर्वेदी से, जो गंगा और जमुना नदियों के बीच में स्थित है, बहुत सा धन वसूल कर खजाने में पहुँचा दे। दुर्रानी शाह ने दो शाहजादे, जिनमें से एक द्वितीय आलमगीर का लड़का हिदायत बख्श और दूसरा आलमगीर के द्वितीय भाई अजीजुद्दीन का संबंधी मिर्जा बाबर को दिल्ली से बुलवा कर जौबाज खॉ के साथ, जो शाह का

एक खास सरदार था, एमादुल्मुल्क के संग कर दिया। एमादुल्मुल्क दोनों शाहजादों और जाँबाज खाँ के साथ बिना किसी तैयारी के जमुना नदी उतर कर मुहम्मद खाँ बंगश के लड़के अहमद खाँ के निवासस्थान के पास फर्रुखाबाद की ओर रवाना हुआ। अहमद खाँ ने स्वागत करके खेमे, हाथी, घोड़े आदि शाहजादों और एमादुल्मुल्क को भेंट दिया। इसके अनंतर यह आगे बढ़ गंगा पार कर अवध की ओर चला। अवध का सूबेदार शुजाउद्दौला युद्ध की तैयारी के साथ लखनऊ से बाहर निकल कर सौँडी और पाली के मैदान में पहुँचा, जो अवध के सीमा-प्रांत पर है। दो बार दोनों ओर के अगलों में लड़ाई हुई। अंत में सादुल्ला खाँ रुहेला की मध्यस्थता में यह तय पाया कि पाँच लाख रुपया, कुछ नकद और कुछ वादे पर, दिया जाय। एमादुल्मुल्क शाहजादों के साथ सन् ११७० हि० में युद्ध-स्थल से लौटा और गंगा उतर कर फर्रुखाबाद आया। दुर्रानी शाह की सेना में बीमारी फैल गई थी, इसलिए वह आगरे से स्वदेश जाने की इच्छा से जल्द रवाना हुआ। जिस दिन वह दिल्ली के सामने पहुँचा, उस दिन द्वितीय आलमगीर ने नजीबुद्दौला के साथ मकसूदाबाद तालाब पर आकर शाह से भेंट की और एमादुल्मुल्क की बहुत सी शिकायत की। इस पर शाह नजीबुद्दौला को हिंदुस्तान का अमीरुलउमरा नियत कर लाहौर की ओर चल दिया। एमादुल्मुल्क नजीबुद्दौला की फिक्र में फर्रुखाबाद से दिल्ली की ओर चला और बाला जी राव के भाई रघुनाथ राव और होलकर को शीघ्र दक्षिण से बुला कर दिल्ली को घेर लिया। द्वितीय आलमगीर और नजीबुद्दौला फिर

गए और पैंतालीस दिन तक तोप और बंदूक से युद्ध होता रहा । अंत में होलकर ने नजीबुद्दौला से भारी घूस लेकर संधि की बात चोत की और उसको प्रतिष्ठा तथा सामान आदि के साथ दुर्ग से बाहर लिवा आकर अपने खेमे के पास स्थान दिया । उसके ताल्लुके की ओर, जो जमुना नदी के उस पार सहारनपुर से बोरिया चाँदपुर तक और बारहा के कुछ कस्बे हैं, उसको रवाना कर दिया । एमादुल्मुल्क ने शत्रु के दूर होने पर बादशाहत का कुल काम अपने हाथ में ले लिया । दत्ता सरदार नजीबुद्दौला के शत्रु को सुकरताल में घेर रखा था और उसने एमादुल्मुल्क को दिल्ली से अपनी सहायता के लिए बुलवाया था पर एमादुल्मुल्क अपने मामा खानखानों इंतजामुद्दौला से अप्रसन्न था और द्वितीय आलमगीर से भी उसका दिल साफ नहीं था और समझता था कि ये सब दुर्रानी शाह से गुप्तरूप से पत्र व्यवहार रखते हैं और नजीबुद्दौला का दत्ता पर विजय चाहते हैं, इस-लिए खानखानों को, जो पहिले से कैद था, मार डाला । उसी दिन ८ रबीउल आखिर सन् ११७३ हि० बुधवार को द्वितीय आलमगीर को भी मार डाला । उक्त तारीख को औरंगजेब के प्रपौत्र, कामबदश के पौत्र तथा मुहीउल सुन्नत के पुत्र मुहीउल मिल्लत को गद्दी पर बैठा कर द्वितीय शाहजहाँ की पदवा दी । द्वितीय आलमगीर और खानखानों की मृत्यु पर यह दत्ता की सहायता को वहाँ गया । इसी बीच दुर्रानी शाह के आने का शोर मचा । दत्ता सुकरताल से दुर्रानी शाह का सामना करने के लिए सरहिंद की ओर गया और एमादुल्मुल्क दिल्ली चला आया । जब इसने दत्ता और शाह के करावलों के युद्ध का समाचार

सुना और शत्रु पर दुरीनियों के विजय का हाल मिला तब नए बादशाह को दिल्ली में छोड़ कर स्वयं सूरजमल जाट के यहाँ जाकर उसकी शरण में बहुत दिन तक रहा । इसके बाद एक बादशाह को संसार से उठा कर नजीबुद्दौला आलीगुहर शाह आलम बहादुर बादशाह के पुत्र सुलतान जवाँबख्त को गद्दी पर बैठा कर राजधानी में शासन करने लगा । तब एमादुल्मुल्क अहमद खँ बंगश के पास फर्रुखाबाद गया और वहाँ से शुजावद्दौला के साथ फिरंगियों से युद्ध करने गया । हारने पर जाटों के राज्य में फिर शरण लिया । सन् ११८७ हि० में जब यह दक्षिण आया, तब मरहठों ने मालवा में इसके व्यय के लिए कुछ महाल नियत कर दिया । अपने समय के बादशाह से इसे कुछ भय रहता था इसलिए सूरत बंदर जाकर वहाँ के ईसाइयों से मिलकर वहीं रहने लगा । इसी बीच जहाज पर सवार होकर मक्का हो आया । कुरान को याद किए हुए था और बहुत गुणों को जानता था । अच्छी लिपि लिखता था । साहसी तथा वीर भी था । शैर भी कहता था । एक शैर उसका इस प्रकार है—

कहाँ है संगे फलाखन से मेरी हमसंगी ।

कि दूर भी जाए व सर पै गर्द न गिरे ॥

इसको बहुत सी संतान थी । इसका पुत्र निजामुद्दौला आसफ-जाह के दरबार में आकर पाँच हजारी मंसब, हमीदुद्दौला की पदवी और व्यय के लिए धन पाकर सम्मानित हुआ ।

## १५२. एरिज खाँ

यह कजिलबाश खाँ अफशार का योग्य पुत्र था। अपने पिता के जीवन में ही बुद्धिमानी, कार्य-कौशल तथा बहादुरी में प्रसिद्ध हो चुका था और दक्षिण के तोपखानों का दारोगा रह कर नाम पैदा कर चुका था। शाहजहाँ के २२ वें वर्ष में इसका पिता अहमदनगर दुर्ग की अध्यक्षता करते हुए मारा गया तब इसका मंसब बढ़कर डेढ़ हजारी १५०० सवार का हो गया और खाँ की पदवी तथा उक्त दुर्ग की अध्यक्षता मिली। अपने साहस और स्वाभाविक औदार्य से अपने पिता के सेवकों को इधर उधर जाने नहीं दिया और सैनिक आदि सबको अपनी रक्षा में रखा। अपनी नेकी और भलमनसाहत से अपने पिता के ऋण को अपने जिम्मे लेकर सगे संबंधियों के पालन में कुछ उठा न रखा। २४ वें वर्ष इसका मंसब पाँच सदी बढ़ गया और कज्जाक खाँ के स्थान पर दक्षिण प्रांत के अंतर्गत पाथरी का खानेदार हुआ। इसके अनंतर दरबार पहुँच कर मीर तुजुक नियत हुआ। जब शाहजादा दाराशिकोह भारी सेना के साथ कंधार की चढ़ाई पर नियत हुआ तब उक्त खाँ बखशी नियुक्त होकर तथा डंका पाकर सन्मानित हुआ। उस चढ़ाई से लौटने पर जम्मू और कांगड़े का फौजदार नियत हुआ और उस पहाड़ी प्रांत में ५७ स्थान इसे पुरस्कार में मिले। ३०वें वर्ष जब दक्षिण का सूबेदार शाहजादा औरंगजेब अली आदिल शाह को दंड देने और

उसके राज्य में लूट मार करने पर नियत हुआ तब उक्त खॉ मीर जुमला के साथ, जो भारी सेना सहित शाहजादा की सहायता को भेजा गया था, जाने की लुट्टी पाई। शाहजादा ने बीदर दुर्ग विजय करने के बाद इसको नसरत खॉ और कारतखब खॉ के साथ अहमदनगर भेजा, जहाँ शिवाजी और माना जी भोंसला उपद्रव मचाए हुए थे। शाहजहाँ की बीमारी के कारण उसके आदेश से दाराशिकोह ने, जो अपने स्वार्थ के कारण सदा अपने भाइयों को पराजित करने का प्रयत्न करता रहता था, इस काम के पूरा न होने के पहिले ही सहायक सरदारों को फुर्ती से लौट आने की आज्ञा भेज दी। एरिज खॉ दाराशिकोह का पक्षपात करता था और अपने को दाराशिकोही कहता था, इसलिए नजाबत खॉ के बड़े पुत्र मोतकिद खॉ के साथ डंका पीटते हुए हिंदुस्तान की तरफ चल दिया। कहते हैं कि शाहजादा ने बुरहानपुर के नाएब वजीर खॉ को लिखा था कि दोनों को समझा कर रोक रखे और नहीं तो कपट करके दोनों को कैद कर ले। जब ये उक्त नगर में पहुँचे तब उक्त खॉ ने इनका आतिथ्य करने की इच्छा प्रगट किया। ये चाहते थे कि उसे स्वीकार करें परंतु जब मालूम हुआ कि इसमें धोखा है, तब उसी समय कूच कर चल दिए और नर्मदा नदी पार कर शाहजादे के पास उसी के दूतों के हाथ यह शौर लिखकर भेज दिया पर प्रगट में वह वजीर खॉ को भेजा गया था।

सौ बार शुक है कि हम नर्बदः पार उतर आए और

सौ पाद व नन्वे घाव कि नदी पार हो गए।

जब दरबार पहुँचा तब पूर्व के एक स्थान का फौजदार हुआ और युद्ध के समय दाराशिकोह के इशारे पर अधिक

सेना लेकर आगरे को रवाना हुआ पर समय पर न पहुँच सका । जब औरंगजेब की सफलता सुनाई पड़ने लगी और दाराशिकोह भाग गया तो उक्त खों ने लज्जित होकर उम्दतुलमुल्क जाफर खों के द्वारा क्षमा प्राप्त की । इसी समय जाफर खों मालवे की सूबेदारी पर भेजा गया । परिज खों भी उस प्रांत के सहायकों में नियत हुआ । ३ रे वर्ष के आरंभ में उक्त प्रांत के अंतर्गत भिलसा का यह फौजदार हुआ । यहाँ से एलिचपुर की फौजदारी पर गया । जब ९ वें वर्ष दिलेर खों चांदा और देवगढ़ का कर वसूल करने पर नियत हुआ तब यह भी उसके साथ भेजा गया । उस काम में अच्छी सेवा करने के कारण इसका मंसब बढ़कर ढाई हजारों २००० सवार का हो गया । इसके अनंतर बहुत दिनों तक दक्षिण में नियत रहते हुए १९ वें वर्ष दूसरी बार खानजमों के स्थान पर एलिचपुर का फौजदार हुआ । २४ वें वर्ष बुरहानपुर प्रांत का नाजिम हुआ और इसके अनंतर बरार का सूबेदार हुआ । २९ वें वर्ष सन् १०९६ हि० की २९ वीं रमजान को मर गया और अपने बाग में गाड़ा गया, जो एलिचपुर कसबा की दीवार से सटा हुआ है । इसके पास सराय बनवाकर नईबस्ती भी बसाई थी । कसबे के सामने नहर के किनारे, जो उसके बीच से जाती थी, निवास-स्थान बनवाया था, जिसमें उसके लोग रहें । यह बहुत अच्छी चाल का तथा मिलनसार था और खाने पीने का भी शौकीन था । अमीरी का सामान बहुत रखता था, इससे सर्वदा कष्ट में और ऋणग्रस्त रहता था । पहिले मीरबखशी सादिक खों की पुत्री से इसकी शादी हुई थी, इस कारण इसका विश्वास दूसरों से बढ़ गया

था। यह स्त्री निस्संतान मर गई। उक्त खॉ को तीन लड़के थे पर किसी ने भी उन्नति नहीं की। इसका एक संबंधी मीर मोमिन इन सबसे योग्य था। यह कुछ दिन तक एलिचपुर के सूबेदार हसन अली खॉ बहादुर आलमघोरी का प्रतिनिधि रहा। इसके लड़कों में सबसे बड़ा मिर्जा अब्दुल् रजा अपने पिता के ऋणों का उत्तरदायी होकर सराय और बस्ती का अकेला मालिक हुआ। यह निस्संतान रहा। इसकी वृद्धा स्त्री बहू बेगम के नाम से प्रसिद्ध थी। अंत तक यह अपना कालयापन बस्ती की आय से करती रही। दूसरा मिर्जा मनोचेहर जवानी में मर गया। उसे लड़के थे। उक्त बहू बेगम ने अपने भाई की एक लड़की को स्वयं पालकर उससे विवाह दिया था। इसके बाद लगभग सात साल तक यह बुढ़िया जीवित रही, जिसके बाद इसका कुल सामान उसको मिल गया। दो साल बाद वह भी मर गई और उसके लड़के उस पर अब अधिकृत हैं। तीसरा मिर्जा महम्मद सईद अधिकतर नौकरी करता रहा। वह कविता भी करता था और अनुभवी था। उसका एक शेर है—

अशर्फी पर जो चित्रकारी है उसे वे सरसरी तौर पर नहीं जानते।  
यह गोल लेख यह है कि परी को उपस्थित करो ॥

पिता की पदवी पाकर कुछ दिन चाँदा का तहसीलदार रहा। अंत में दुखी हुआ और कोई नौकरी न लगी। तब कर्णाटक गया और कुछ दिन अब्दुन्नबी खॉ मियानः के पुत्र अब्दुल्लादिर खॉ के साथ बालाघाट कर्णाटक में व्यतीत किया। इसके बाद पाई घाट जाकर वहीं मर गया। यह निस्संतान था। उस वृद्धावस्था में भी सौंदर्य की कमी नहीं थी। लेखक पर उसका प्रेम था।



## १५३. एवज खाँ काकशाल

इसका नाम एवज बेग था और यह काबुल प्रांत में नियत था। शाहजहाँ के दूसरे वर्ष में जब काबुल के पास जोहाक थाना रजबकों के हाथ से छुटा तब इसे एक हजारी ६०० सवार के मंसब के साथ वहाँ की थानेदारी मिली। ६ ठे वर्ष इसके मंसब में २०० सवार बढ़ाए गए। ७ वें वर्ष इसका मंसब बढ़कर डेढ़ हजारी १००० सवार का हो गया। १० वें वर्ष २०० सवार और ११ वें वर्ष ३०० सवार और बढ़े। जिस समय अली मरदान खाँ ने कंधार दुर्ग बादशाह को सौंपने का निश्चय किया, तब यह गजनी में पहिले ही से प्रतीक्षा कर रहा था। काबुल के नाजिम सईद खाँ के इशारे पर यह एक सहस्र सवार के साथ उस प्रांत में जाकर दुर्ग में पहुँच गया। उस युद्ध में, जो सईद खाँ और सियावश तथा कजिलबाश सेना के बीच हुई थी, इसने बहुत प्रयत्न किया और उसके पुरस्कार में इसका मंसब ढाई हजारी २००० सवार का हो गया तथा इसे डंका, घोड़ा और हाथी मिला। राजा जगत सिंह के साथ दुर्ग जर्मीदावर विजय करने जाकर दुर्ग सारवान लेने और जर्मीदावर घेरने में अच्छी सेवा की और कुछ दिन तक दुर्गों का अध्यक्ष भी रहा। १३ वें वर्ष खान:जाद खाँ के स्थान पर गजनी का अध्यक्ष हुआ परंतु बीमरी के बढ़ने से प्रतिदिन इसकी निर्बलता बढ़ती जाती थी, इसलिये उस पद से हटा दिया गया। १६ वें वर्ष सन् १०५० हि० में मर गया।

---

## १५४. ऐनुलमुल्क शीराजी, हकीम

यह एक प्रतिष्ठित विद्वान और प्रशंसनीय आचार विचार का पुरुष था। मातृपक्ष में इसका संबंध बहुत पुराने वंश से था। आरंभ ही से इसका साथ अकबर को पसंद था, इससे युद्ध तथा भोग-विलास में साथ रहता। ९ वें वर्ष में यह आझा के साथ चंगेज खॉ के पास भेजा गया, जो अहमदाबाद का प्रधान पुरुष था। यह खॉ से भेंट लेकर आगरे आया। १७ वें वर्ष में यह एक सांत्वना का पत्र लेकर एतमाद खॉ गुजराती के पास भेजा गया और अबू तुराब के साथ उसे सेवा में लाया। १९ वें वर्ष में जब बादशाह पूर्व ओर गया तब यह भी साथ था। इसके बाद आदिल खॉ बीजापुरी को सम्मति देने के लिए यह दक्षिण में नियत हुआ और २२ वें वर्ष में दरबार लौटा। इसके बाद संभल का फौजदार नियुक्त हुआ और २६ वें वर्ष में जब अरब बहादुर, नियाबत खॉ और शाहदाना ने कुछ विद्रोहियों के साथ उपद्रव मचाया तब इसने बरैली दुर्ग हढ़ किया और चधर के अन्य जागीरदारों के साथ उन्हें दमन करने में प्रयत्न किया। यद्यपि बलवाइयों ने इसे धमकाया तथा आशा दिलवाई कि यह उनसे मिल जाय पर इसने नहीं स्वीकार किया और उनमें भेद डालने का सफल षड्यंत्र भी किया। अंत में नियाबत खॉ राज-भक्तों की ओर हो गया। तब हकीम ने अन्य जागीरदारों के साथ मिलकर चारों ओर से युद्ध किया और शत्रुओं को परास्त

कर दिया। इसी वर्ष यह बंगाल प्रांत का सदर नियत हुआ। ३१ वें वर्ष में यह आगरा प्रांत का बखशी हुआ। इसके बाद खानआजम के साथ दक्षिण गया। जब उक्त खानों ने इसकी जागीर हिंडिया को बदल दिया तब यह बिना बुलाए ३५ वें वर्ष में दरबार चला आया, इस कारण इसे दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा नहीं मिली। पूछ ताछ होने पर इसे कोर्निश की आज्ञा हुई। पगना हिंडिया में यह बहाल हुआ और कुछ दिन बाद वहाँ जाने की इसे छुट्टी मिली। ४० वें वर्ष सन् १८०३ हि० ( १५९५ ई० ) में यह मरा। 'दवाई' उपनाम से कविता करता था। उसके एक शेर का अर्थ यों है—

उसके काले जुल्फों की रात्रि में,  
मृत्यु के स्वप्न ने मुझे पकड़ लिया।  
वह ऐसा अजीब दुःखदायक स्वप्न था,  
जिसका कोई अर्थ नहीं था ॥

यह पाँच सदी मंसब तक पहुँचा था।

---

## अनुक्रम (क)

[ वैयक्तिक ]

अ		४७-८, ५१, ८५-४, १२०,
अंबर, ख्वाजा	४८८-९	१६४, १८३, १९३, २६८,
अंबर, मलिक	१४०, १४२-३,	२७८, २८७, ४११
	१७६, १९२, १९८, २१९,	अजीजुल्ला खॉं ३१
	२२८, ३१०, ३४३	अजीजुद्दीन अस्त्राबादी, अमीन ६२
अकबर	७, ४९, ५३, ५८-९,	अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय
	१०१-२, १५६, २९१-४,	५४९-५१
	३७३, ४४१, ५३०, ५३६-७	अजीतसिंह, महाराज १६९,
अकबर, शाहजादा	३३३, ३४६,	५१४, ५१६
	४४३, ४५३	अजीमुद्दीन, शाहजादा ३३३
अख्तियारुलमुल्क	५३७	अजीमुद्दशान, सुकतान २३४,
अगज खॉं द्वितीय	३	२५८, ४२३, ४३४, ४५९
अगर खॉं पीर महम्मद	१-३,	अताउल्लाह खॉं २१५
	२५२, ३८८	अतीयतुल्ला खॉं ४४७
अचमनाथर	४८०	अदली २८३
अजदर खॉं	२९६	अदहम खॉं ४-८, १३३
अजदुद्दौला एवज खॉं	९-१२	अदीनावेग खॉं ५४९-५०
अजदुद्दौला शीराजी, अमीर	५८	अनवर २१, ३०
अजमत खॉं	४७८	अनवर खॉं २६१
अजीज कोका, मिर्जा	१३-३०,	अनवरुद्दीन खॉं ४२

अफजल खाँ	२६४	अबुल् फौज फौजी देखिए 'फौजी'	
अफजल खाँ अल्लामी	३५-४०,	अबुल् मआली, मिर्जा	७४-६
३७९		अबुल् मआली, मीरशाह	५१, ७७-
अफजल खाँ, ख्वाजा	३३ ४	८१, ४६५, ४८२, ५१०	
अफरासियाब खाँ	४९६, ४९८	अबुल् मंसूर खाँ सफदरजंग	८७-९
अबशर पाशा	४९४	देखिए सफदरजंग	
अबुल् कासिम	२०२	अबुल् मकारम जाननिसार	
अबुल् कासिम, सैयद	१०४	खाँ	८२-४
अबुल् कासिम, कंदजी	११०	अबुल् मखान, मीर	२०२ ३
अबुल् कासिम, नमकीन	२५९	अबुल् वफा, मीर	७३, २६५
अबुल् खैर खाँ	२६५	अबुल् हकीम, सैयद	१०४
अबुल् खैर खाँ इमामजंग	४१-२	अबुल् हसन तुरबती, ख्वाजा	२४,
अबुल् खैर खाँ, शम्सुद्दौला	४२	४७, ९०-२, १४१, ३४२	
अबुल् खैर खाँ, शेख	१०७ ८	अबुल् हसन हक्की, शेख	१६०
अबुल् बका अमीर खाँ, मीर	७१-३	अबुल् हसन कुतुब शाह	८२, १५०-
अबुल् बका काबुली, हफत-		१, १७३-४, २६०, ३०९	
खार खाँ	३६४	अबू तालिब	४०३
अबुल् बर्कात खाँ	४२	अबू तुराब गुजराती	९३-६, ५३७,
अबुल् फज़ल; अल्लामी	२१, २९,	५५९	
४३-५६, ७०-१, ९५,		अबूनसर खाँ	९७
१०१, १०३, १५३, १५६-		अबू बक्त तायबादी	११४
८, १९८, २६८, २९०, २९७,		अबू मुहम्मद	३५४
३२७, ४८३, ४८५, ५१९		अबू सईद, मिर्जा	९८, ५२५
अबुल् फज़ल गाज़रवनी, मुल्ला	६६	अबू सईद, सैयद	१२३
अबुल् फतह दक्खिनी	६१	अबू हनीफा	१००
अबुल् फतह, हकीम	५७-६०,	अबे बक्रुत्सिदीक	४११
२०१, २४२			

अब्दुल्लाही खॉ	४२	अब्दुर्रहीम बेग उजबेग	२०४-५
अब्दुल्लाही खॉ मियान:	५५७	अब्दुर्रहीम लखनवी, शेख	२०६-७
अब्दुल्लाही मुल्ला महतवी		अब्दुल् अजीज खॉ नकशबंदी	२९८
खॉ	३६९-७२	अब्दुल् अहद	१०९
अब्दुल्लाही, शेख	४४, ६७-८,	अब्दुल् अहद खॉ द्वितीय	१०९
१००-३, १३१		अब्दुल् अजीज खॉ बदखशी	३०४-५
अब्दुर्रजाक	७३	अब्दुल् अजीज खॉ उजबेग	२०४,
अब्दुर्रजाक खॉ लारी	१७३-५,	३५०	
४८०		अब्दुल् अजीज खॉ, शेख	१०४-६
अब्दुर्रजाक गीलानी	५७	अब्दुल् अजीज खॉ, शेख	१०७-८
अब्दुर्रशीद खॉ, ख्वाजा	१२	अब्दुल् अली	५०६
अब्दुर्रहमान	४९, ५४, १७१-८	अब्दुल् करीम मुलतफत खॉ	७३
अब्दुर्रहमान	३०४	अब्दुल् करीम	१७५
अब्दुर्रहमान ख्वाजा	१२४	अब्दुल् कवी एतमाद खॉ	११०-१३
अब्दुर्रहमान बेग उजबेग	२०४	अब्दुल् कादिर खवाफी	२१८, २२३
अब्दुर्रहमान, मीर	४९०	अब्दुल् कादिर, बदायूनी	२१,
अब्दुर्रहमान सुलतान	१७८ ८१	२९, १३२	
अब्दुर्रहीम खॉ	४८९	अब्दुल् कादिर-मातबर खॉ	३५४
अब्दुर्रहीम खॉ खानखाना	२०,	अब्दुल् कादिर, मीर	२०३
२८, ४९, ५५, ७६, १४०,		अब्दुल् कादिर सरहिदी	२१८
१८२-२००, २९७, ३१०,		अब्दुल् कादिर सैयद	१०४
३५९, ४१७, ५३९		अब्दुल् कुदूस	१००
अब्दुर्रहीम खॉ ख्वाजा	२०२-३,	अब्दुल् गफफार, सैयद	१६६
२१२		अब्दुल् गफूर	२१
अब्दुर्रहीम ख्वाजा	१४३-४	अब्दुल् जलील बिलग्रामी	१७२
अब्दुर्रहीम ख्वाजा	३६५	अब्दुल् बाकी	४५४

अब्दुल् मजीद खॉ	१०९	अब्दुल्ला कुतुबशाह	२४३, ४४९
अब्दुल् मजीद खॉ हरवी		अब्दुल्ला खॉ कुतुबल्लुमुल्क	१५१,
भासक खॉ ख्वाजा	११४-१९		१६५-७२
अब्दुल् रजा, मिर्जा	५५७	अब्दुल्ला खॉ ख्वाजा	१३७ ८
अब्दुल् रसूल खॉ	१०४	अब्दुल्ला खॉ ख्वाजा द्वितीय	१३८
अब्दुल्लतीफ	२१	अब्दुल्ला खॉ खेशगी	२५४ ५
अब्दुल्लतीफ शेख	१०७	अब्दुल्ला खॉ फीरोजजंग	१३९-४९,
अब्दुल् बहाब काजीमकुमाव			१७४, १९१, ४१७, ४३९,
	१२०-६		४४८, ४६३, ५ ९
अब्दुल् बहाब खॉ	३४३	अब्दुल्ला खॉ बहादुर	२०४
अब्दुल् बहाब, हकीम	२९४-५	अब्दुल्ला खॉ बारहा	१५०-१
अब्दुल् वाहिद खॉ	७५	अब्दुल्ला खॉ मनसूरदौला	४४७
अब्दुल् वाहिद खॉ, ख्वाजा	७५-६	अब्दुल्ला खॉ रूहेला	३१५
अब्दुल् हकीम	२१८	अब्दुल्ला खॉ शेख	१५२-६१
अब्दुल् हक मुहम्मद	१२५	अब्दुल्ला खॉ सईद खॉ	१६२
अब्दुल् हक अमानत खॉ	३७९	अब्दुल्ला खॉ सैयद	८४, १६३-४
अब्दुल् हादी, ख्वाजा	१२, १२७	अब्दुल्ला ख्वाजा	३७१
अब्दुल् हादी तफाखुर खॉ	४५४	अब्दुल्ला नियामी, शेख	१२९-३०
अब्दुल्ला	२१, ३०	अब्दुल्ला बेग	३०८
अब्दुल्ला अनसारी मलकुमुल्		अब्दुल्ला रिजवी, मीर	३९२
मुल्क	१२८-३२	अब्दुल्ला चाएज	४२३
अब्दुल्ला खॉ	२४२	अब्दुल्ला शासारी, शेख	१५५, १६१
अब्दुल्ला खॉ उजबेग	१४३, ४१६	अब्दुल्ला स्मालकोटी, सैयद	४३१
अब्दुल्ला खॉ ठलबेग	२९, १३३-	अब्दुदशहीद खॉ, शाह	१२
	४, १९३, २८९	अब्दुस्समद खॉ बहादुर	२०८-१०,
अब्दुल्ला एसाकत खॉ	४५४		५०४

अब्दुस्सलाम, शेर	१९८	अमीर खाँ	२४३
अब्बास सफवी, शाह	५२, ११२,	अमीर खाँ उमदतुल मुल्क	८७,
१९३, २९८, ३४७, ५०६		२४८-४९, ३१५	
अब्बास सफवी द्वितीय, शाह	३०२	अमीर खाँ खवाफो	२४९-७
अमंग खाँ हठ्थी	४७, १४७	अमीर खाँ	२५९
अमरसिंह	१०९	अमीर खाँ मीर मीरान	२४८,
अमरसिंह, बांधवेश	१४५	२५०-९	
अमरसिंह, राणा	१३९	अमीर खाँ सिंधी	२५२-६५
अमरसिंह, राठौर	४४२	अमीर खाँ सैयद	११२
अमरुल्ला, मिर्जा	१९९	अरब खाँ	२६६
अमानत खाँ दीवान	३३२	अरब वहादुर	२६४-८, ५१०, ५५९
अमानत खाँ, द्वितीय	२११-१३	अरस्तू	१७२
अमानत खाँ, प्रथम	२११, २१४-	अर्जानी	२८७
२३, २६९		अर्जुमंद बानू बेगम	४०२
अमानत खाँ, मीर हुसेन	४४५	अर्शाद खाँ मीर अबुल् अल्ला	२६९,
अमानुल्ला खाँ	२२४-५	४४६	
अमानुल्ला खाँ	४४७	अर्शाद खाँ संभली	२४५
अमानुल्ला खाँ खानजमाँ		अर्शाद खाँ	२५५-६
वहादुर	२२६-३३	अर्साळी कुली खाँ	२७०
अमीन खाँ गोरी	२०	अलहदाद सैयद	६३
अमीन खाँ दक्खिनी	२३४-८	अल्लाह शेर	६६, १२८-३०
अमीन खाँ मीर महम्मद	२३९-४४	अलाउल मुल्क मुहल्ला	२७१-५,
अमीन मिर्जा	५४०	३७९	
अमीनुद्दीन खाँ संभली	२४५	अलाउद्दीन मुहम्मद, ख्वाजा	२१४
अमोनुद्दीन खाँ	२४५	अलाउद्दीन शेर अलहदिया	१०४
अमीर अफगान	२५१	अलाउद्दीन शेर	४८३



अलावर्दी खाँ	४०५	अली मुत्ताकी, शेख	१२०
अलिफ खाँ	५३५	अली मुराद खानजहाँ	३१२-३
अलिफ खाँ अमानबेग	२७६-७	अली मुहम्मद खाँ हहेला	८८,
अली अकबर काजी	१२२	२४९, ३१४-५	
अली अकबर मूसवी	२७८-९	अली यूसुफ खाँ मिर्जा	२३६
अली असगर, मिर्जा	४१९-२०	अलीवर्दी खाँ,	७५, २२४, २३१,
अली अहमद, मौलाना	२२	२५०	
अली भाका	६४	अली वर्दी खाँ मिर्जा बंदी	८७,
अली भादिल शाह	१८७, २९०-	३१६-९	
१, ३५२-३		अली घोर खाँ	२७६
अली करावल	१२, ३१७	अली घोर मीर	१९७
अलीकुली खाँ अंदराबी	२८०	अल्लाह कुलीखाँ उजबेग	३२०-१
अली कुली खाँ खानजहाँ	२८१-८	अल्लाह यार खाँ मीर तुजुक	३२५
४६५-६, ४७३-४		अशरफ खाँ	१३४
अली खाँ, मीरजादा	२८९	अशाफ खाँ	३३३
अली गीलानी, हकीम	२९०-५	अशरफ खाँ कवाजा बखुर्दार	३२६
अली गौहर, सुलतान	३१८, ५४९	अशरफ खाँ मीर मुहम्मद	३२९-
अली दोस्त	८६	३०, ४८९	
अली पाशा	४९४	अशरफ खाँ मीर मुंशी	३१७-८,
अली बेग अकबरशाही	२९६ ७	३६५, ३७३	
अली बेग खाँ रूमी	४९६	असकर खाँ नजमसानी	३३१
अली मर्दान बहादुर	१४, १७१,	असद अली खाँ जौलाक	२३५
३१०-११		असद खाँ आसफुद्दौला	२६३, ३३२
अली मर्दान खाँ अमीरुल उमरा		४४६, ४६९, ४८०, ४९६	
२५५, २७१, २९८-०८,		असद खाँ	९७, २१७, २४१
३४९, ४५५, ५२७, ५५८		असद खाँ मामूरी	३४३-४

असद, मुहम्मद	३५३	अहमद, शेख	३७३-५
असदुल्ला खॉ	२५८	अहमद शाह दुर्रानी	८९, ५४९-
असफंदियार	१७१, ३२३		५०, ५५२
असाकत खॉ	३०१-३	अहमद शाह बादशाह	४२१, ५४६,
असाकत खॉ, मिर्जा	३४५-६		५४८-९, ५५२-३
असाकत खॉ, मीर अब्दुल् हादी	३४७-५१	अहमद शाह, सुवतान	८७, ५३४-५
अस्करी, मिर्जा	४८१	अहमद, सुलतान	९३, ५३४
अहमद भरव, मीर	२४३	अहरार, ख्वाजा	२०८
अहमद काशी, मीर	५२	अहसन खॉ, सुलतान हसन	३७६-८
अहमद खत्तू, शेख	९३	मीर मलंग	
अहमद खॉ, मीर	२१३	अहसनुद्दौला बहादुर	२०३
अहमद खॉ, मीर	३६५-९	आ	
अहमद खॉ, मीर द्वितीय	३६९-७२	आकबत महमूद खॉ	५४७-८
अहमद खॉ, नियाजी	३५१-८	आका मुक्ला, अलावद्दौला	५४१
अहमद खॉ बंगश	८८, ५५१	आका मुक्ला, दवातदार	४११,
अहमद खॉ बारहा	३५९-०		४१४, ४७०
अहमद ख्वाजा, मिर्जा	५४०	आकिल	५०६
अहमद चिक	५१५	आकिल खॉ इनायतुक्ला	३७९-८१
अहमद खेशगी	५०३	आकिल खॉ मीर असकरी	३८२-४
अहमद ताहिर आका	५४०	आजम खॉ कोका	२५२, २६६,
अहमद नायता, मुल्ला	३५२		३८५-२, ५०७
अहमद बेग खॉ	३६१-२, ४१६,	आजम खॉ	४८७, ४९९
	४६१-३, ४६९	आजम खॉ मीर बाकर	३९०-५,
अहमद बेग खॉ काबुली	३६३-४	इरादत खॉ	४०४, ४०६, ४६९
अहमद, मिर्जा	४११	आजम शाह, मुहम्मद	९, ११५,
			२१९, ३१६, ३३५-६, ३१५,

३७६, ३८८, ४३१, ४३४, ४४५-६, ४५८-९	आसफजाह, निजामुल्मुल्क ९-१२, ४१, ८७, २१२, २२५, २३८, २५८, ३५५, ४२१, ४४७, ४५४, ४७१, ५१०
आतिश खॉ जानबेग ३९६-८	आसफुहौला ३५८, ४५९
आतिश खॉ हठब्री ३९९	आसफुहौला सलाबत जंग ४२१-२
आदिल शाह ३५, १९१, २३२, ३६६, २९०, ३४७, ३५८, ३८५, ३९२, ४००, ४०६, ४४९, ५५४, ५५९	आसिम, क्वाजा खानदौरॉ २६५, ४२३-२७
आबिद खॉ १४१	इ
आबिद खॉ सदरुस्सदूर ४९६	इंतजामुहौला खानखानॉ ८९, ५४७, ५४९, ५५२
आलम अली खॉ, सैयद १०-१, ८४, १७०, २३७	इकराम खॉ १४३
आलम बारहा, सैयद ३२४, ४००-१	इखलाक खॉ हुसेन ४२८
आलीगुहर, शाहजादा १५३	इखलास खॉ आलहदीबः ४२९-०
आलीजाह ७६	इखलास खॉ इखलास केश ४३१-३
आसोरी, क्वाजा ४२६	इखलास खॉ खानआलम ४३४-५
आसफ खॉ आसफजाही (देखिए यमीनुहौला) ७१, ९०, ९८-९, १९०, २२८, २३१, २५०, २७१, ३९४-१, ४०३-१०, ५२२, ५२५	इकतसास खॉ, सैयद फीरोज ४३६-४
आसफ खॉ क्वाजा गियासुद्दीन कन्नवीनी २८५-६, ४११-४	इकितयारुल् मुल्क १४-७, ९४
आसफ खॉ मिर्जा क्वासुद्दीन २५, ३८, ४७, ३९०, ४१४- २०, ४७९	इजत खॉ क्वाजा बाबा ४३९
	इजत खॉ अबदुर्रज्जाक ४३८
	इब्नुद्दीन गीलानी सुलतान १६६- ७, ३१२
	इनायत खॉ २१४, ४४०-४
	इनायत खॉ ३४२
	इनायतुद्दीन सर अली ९३

इनायतुल्ला	३२३, ५०७-८	इमामकुली खाँ तूरानी	१४४,
इनायतुल्ला खाँ	३४१	३२१, ४४०	
इनायतुल्ला खाँ कदमीरी	३६९-१	इमातुल् मुल्क	८९
इनायतुल्ला खाँ	१०९, २६४,	इरादत खाँ	९०, ३८६
४४५-७		इरादत खाँ आजम खाँ	२२८
इफतखार खाँ	३१२	इरादत खाँ मीर इसहाक	४६९
इफतखार खाँ ख्वाजा अबुल्-		इरादत खाँ साबजी	३९
बका	४४८-५१	इसकंदर खाँ उजबक	४७२-४
इफतखार खाँ सुलतान हुसेन		इसहाक बेग	३०८
	४५२-४	इसहाक, मिर्जा	२५८
इम्र हजर, शेख	१३१	इस्माइल भफगान	२५१
इब्राहीम अली आदिल शाह		इस्माइल कुली खाँ ४१५, ४७६-७	
	६३-४, १९०	इस्माइल कुली खाँ जुलकह	८५,
इब्राहीम आदिल शाह ४४९, ४८६		४७५-७	
इब्राहीम खाँ	२४१, ३८७-८,	इस्माइल खाँ चिद्दी	३२३
४५५-९, ४९२		इस्माइल खाँ बहादुर-पन्नी	४७८-९
इब्राहीम खाँ फतह जंग	३६१,	इस्माइल खाँ मक्खा	४८०
४६०-४, ४६५-६		इस्माइल खाँ	४६६
इब्राहीम खाँ बलूची	४७५	इस्माइल जफरगंद खाँ	३६७
इब्राहीम खाँ, मीर	४९३	इस्माइल निजाम शाह	६१-६४
इब्राहीम खाँ शैबानी	३८५	इस्माइल बेग	३०८
इब्राहीम, मिर्जा	२५८	इस्माइल बेग दोल्दी	४८१
इब्राहीम मुलतफत खाँ	३५१	इस्माइल सफवी, शाह	९३, ४२६
इब्राहीम लोदी	२८२	इस्लाम खाँ	१७७, ३४५, ४००,
इब्राहीम, शेख	४७६-८	५१२	
इब्राहीम, सुलतान	१७१, २४८	इस्लाम खाँ चिद्दी फारुकी	४८३-५

इस्लाम खाँ मशहदी २०१, ३२३,

३२९, ४८६-९०

इस्लाम खाँ मीर जिआउद्दीन

हुसेनी बदख्शी ४९१-३

इस्लाम खाँ रूमी ४९४-८

इहतमाम खाँ ४९९-५००

इहतिशाम खाँ इखलास खाँ

फरीद ५०१-२

ई

ईसा १३२

ईसा खाँ मुर्बो ५०३-५

ईसा तरखान, मिर्जा ५०६-८

ईसा शाह १९९

उ

उजबक खाँ नजर बहादुर ५०९-१०

उदयसिंह, राणा ११९

उवेदुल्ला खाँ ४४७

उवेदुल्ला खाँ हकीम ५४९

उवेदुल्ला नासिरुद्दीन अहरार

१३९

उफी शीराजी ५९

उलुग खाँ हब्शी ५११

उसमान खाँ अफगान ४३९

उसमान खाँ कोहानी ३२२,

४८३-४

ए

एकराम खाँ सैयद हसन ५१२

एकराम खाँ होशंग ४८५

एतकाद खाँ काश्मीरी १६८

एतकाद खाँ फरूखशाही ५१३-२१

एतकाद खाँ मिर्जा बहमनयार

५२२-४

एतकाद खाँ मिर्जा शापूर

३००-१, ५२५-७

एतबार खाँ ख्वाजासरा ५२८-९

एतबार खाँ ४१२-३

एतबार खाँ नाजिर ५३०

एतबार राव ३९२

एतमाद खाँ १३४-५

एतमाद खाँ गुजराती ९४, ९६

१६३, ५३४-९, ५५९

एतमाद खाँ ख्वाजा इदराक

४६१, ५३१-३

एतमाद राय १४१

एतमादुल्लौल्ला ५२५, ५४०-५

एतमादुल्लुमुल्क ५३५

एमल खाँ २५२, २५४-५

एमाद लारी, मौलाना ६६

एमादुल् मुल्क ५४६-५३

एरिज खाँ अफशार ५५४-७

एरिज, मिर्जा १८५, २००, ३१०

एवज खाँ काकशाळ	५५८	कतलू लोहानी	४६७, ४८३
एवज खाँ भजदुहौला	४७८	कलंदर खाँ	८९
एवज खाँ बहादुर	२३५, २३७-८	कलंदर बेग	२७६
एवज, मीर	९	कमरुद्दीन खाँ एतमादुहौला	९,
एसालत खाँ मीर बकशी	४५२	८४, ८७, ८९, १०९, २१०,	
४५४, ५०१		२४९, ३१४, ३७२, ४२५,	
एहतशाम खाँ	४३५	५४६-७	
एहतशाम खाँ द्वितीय	४३५	कमाल खाँ	३०
ऐ		कमाल खाँ गक्खर	७८
ऐन खाँ दक्खिनी	३९६	कमाल ख्वाजा	९
ऐनुलमुल्क शीराजी हकीम	१३५,	कमालुद्दीन भली खाँ	२१२
३९०, ५५९-६०		कमालुद्दीन, मीर	९३
ऐमाक बदखशी	४१६	कमीस, शेख	१५३
औ		करमुल्ला	९९, ३११
भौरंगजेब	१२०, १२३-४, ३०४,	कराचः खाँ	४८१
३८३-४, ३८६, ४०१, ४०६,		कर्ण, राव	२४६
४३६, ४४२, ४४९-५०		काजन, शेख	१५५
४५२, ४५५-७, ४९१, ५००,		कालिम खाँ	२२३
५१२, ५५२, ५५५-६		काजिम महम्मद	४३१
क		काजिम, मिर्जा	३४२
कंबर दीवाना	२८१	काजी भली	१३१, ४१५-६
कजिलबाश खाँ	५५४	काबुली बेगम	३४६
कजाक खाँ	७२, ५४०	कामदार खाँ	४४३
कतलक मुहम्मद	१७९	कामबक्श, सुलतान	९, ३३४,
कतलक मुहम्मद सुलतान	३०४-५	३६५, ३७६, ३९७, ५५२	
		कामयाब खाँ	८४

कामरॉ, मिर्जा	३३, ४८१	कुतुबुद्दीन खॉ कोका	५४२
कायम खॉ बंगश	८८	कुतुबुद्दीन खॉ शैल खून ४२९, ५०१	
कारतलब खॉ	५५५	कुतुबुद्दीन खॉ हैदर	९०
कासिम अली खॉ	३१८	कुतुबुद्दीन, सुलतान	९३
कासिम काही, मौलाना	४१४	कुतुबुलमुल्क अठदुला ३३९, ४३२	
कासिम खॉ	३१२	५१३-७, ५२० (देखिए अबुला	
कासिम खॉ	३४६	कुतुबुलमुल्क)	
कासिम खॉ कदमीरी	२८९	कुतुबुलमुल्क शाह १९२, २४८	
कासिम खॉ कासू	२८९	कुलीज खॉ ९, ३८, २०४, २६०,	
कासिम खॉ जमादार	३९७	२९९-०, ३१२, ४३६	
कासिम खॉ जुवीनी	३९३	कुलीज खॉ १८३-४, ४१२	
कासिम खॉ नमकीन	७२	कृष्णा	२०७
कासिम खॉ नैशापुरी १३५, १६४		ख	
कासिम बारहा	१८८-९	खद्दराय	२६८
कासिम बेग, मीर	३४२	खदीजा बेगम	९
कासिम, सैयद	३५९	खदीजा बेगम	२५८
कान्होजी सरकिया	२३६	खफी खॉ	११२, २२०
किफायत खॉ २६९, ३३२, ४४३		खबीत	१८
किफायतुला खॉ	४४७	खलील कुली	४७७
किलेदार खॉ	२६६	खलीलुल्ला	४०३
किवामुद्दीन खॉ	४५८	खलीलुल्ला खॉ ३२५, ३३१, ३८६,	
किशर खॉ शैल इब्राहीम	४८९	४५७	
कुतुब	१७७	खलीलुल्ला खॉ यजदी प्रथम ३२,	
कुतुबा, हकीम	३८०	२५०, ३४७	
कुतुबुद्दीन अली खॉ	४१	खलीलुल्ला खॉ यजदी द्वितीय ३४७	
कुतुबुद्दीन खॉ	१४, ८४	खलीलुल्ला खॉ हसन ३०७	

खवास खॉ	४०७	३९१, ३९२, ४१३, ४१७,
खादिम हसन खॉ	३१८	४३९, ४८६, ४९९
खान अहमद	५७	खानदौरॉ २३१, ४२०, ४२४-६,
खान आजम कोका ३४३, ३५२,		५००, ५०२, ५०४, ५१५,
४१७, ४६७, ५६० ( देखिए		५४६, ५४८
अजीज कोका )		खानदौरॉ खवाजा हुसेन १४५-६,
खान आलम ९४, १६३, २३४,		१६६-६७
३४७		खानदौरॉ नसरतअंग २१६,
खान आलम ४३४		२६६, ४८७, ४८९
खानकलॉ १६३, २८९, ३५९		खानमुहम्मद, सैयद १०४
खानकुली उजवेग ३८		खानाजाद खॉ ५५८
खानखानॉ ५४६		खावंद महमूद खवाजा १५३
खानजमाँ, अलीकुली ७९, ११७-		खिज्र खवाजा खॉ २८०, ४७३,
१८, १३६		४८१
खान जमाँ बहादुर २६६, ३५६,		खिदमत तलब खॉ १०६
३९९-४००, ४६९, ५५६		खिदमत परस्त खॉ ४०६
( देखिए अमानुल्लाह )		खुदावंद खॉ २९६
खान जमाँ खानाजाद खॉ ३२०		खुशेद नजर मुहम्मद ९१
खानजहाँ तुर्कमान ४१५, ५३२		खुर्रम २१, ३०, १४१-२,
खानजहाँ बहादुर कोकलताश २६०,		१९१, २१५, २९३, ४०२,
३३३, ३८५, ४९७		४१३ ( देखिए शाहजहाँ )
खानजहाँ बारहा, सैयद १४१-६,		खुसरू खॉ चरकिस ५०६
४३६		खुसरो, मुलतान २२-३, २५,
खानजहाँ लोदी २४, ९१, १२७,		२७, ६०, ९२-३, ३४३,
१४०, १४३-५, १४८-९,		४०४, ४१९, ४१७, ५२८,
१९०-१, २२८, २६६, ३४४,		५४१



खुसरो, झंठा	१७७	९०, ९८, ४०२, ४६०-१
खुसरो बदरूशी	१७९-८०,	( देखिए प्तमाहुदौला )
३०२-३		गियास बेग दीवान १७७
खूशी लबचाक	३५०	गियासुद्दीन जामी २७८
खैरियत खाँ हब्शी	४०७	गियासुद्दीन तर्खान ३६३
ख्वाजगी ख्वाजः	५४०	गियासुद्दीन हेराती ११४
ख्वाजमकुली खाँ	४१	गुलगज भसास ७८
ख्वाजा जहाँ	२८५, ४६६	गुलाम हुसेन, मीर २६९
ख्वाजाजाह	१२७	गैरत खाँ, सैयद ४२४
ख्वाजा हुसेन खाँ	३१२	गोबर्धन २६८
		गोबर्धन, राय २८
		गौहर आरा बेगम ४०९
	ग	
गंजभली खाँ	२९८	च
गंजवी निजामी, शेख	२६२	चंगेज खाँ १३५, ५३५, ५५९
गजनफर खाँ	४३८	चंपत बुंदेला १४६-७
गदाई, मीर	९६	चतुर्भुज ४८८-९
गदाई, शेख	५०, १५५	चाँद बीबी १८७, १८९
गनी	४९३	चीता खाँ हब्शी १८९-९०, ५११
गर्शास्प, शाहजादा	४०६	
गामीउद्दीन खाँ फीरोजजंग	१०४,	ज
४२१, ५४६		जंबूर, बाबा १८२
गाजी खाँ	७८, १०२	जगत सिंह, राजा ५५८
गाजी खाँ तनधरी	११५	जगता, मऊनरेष ३४८
गाजी खाँ बिलूची	४७५	जगपता यलमा २३६
गाजी, मिर्जा	५०६	जस्ती उजबेग २२६
गियास बेग प्तमाहुदौला	२८,	( देखिए यलंगतोश )

जफर खाँ	५१-२	जहाँभारा बेगम	१७९, ३३०,
जफर खाँ मुहम्मद माह	३१२		३८०, ४१०
जबरदस्त खाँ	४५९, ५२६	जहाँ खाँ	५५०
जब्तारी	१८	जहाँगीर	५०-१, ३७३, ४४१,
जमाल खाँ मेवाती	१८२		५४२-५
जमाल खाँ, सैयद	११	जहाँगीर कुली खाँ	२५-६, ३०
जमाल खाँ हब्शी	६१-३	जहाँगीर कुली खाँ कालबेग	४८३
जमाल नैशापुरी, सैयद	४४५	जहाँगीर, रुवाजा	५२७
जमाल बख्तियार	२०६	जहाँदार शाह	८३, २४५, २४८,
जमालुद्दीन खाँ	५४९		३१२-३, ३३७, ३४२, ४२३,
जमालुद्दीन बारहा	३६०		४३२, ४४६, ५०३-४, ५१३,
जयप्पा	५४७-९		५४९
जयमल	११९	जहाँशाह	१७०, २०८
जयसिंह, राजा सवाई	१६९-०	जसवंतसिंह, राजा	२४०, ३२५,
	३१९, ३३५, ३५३-४, ४१०,		३३१, ३५०, ३५२, ४९१-२,
	४३७, ५०२, ५१८		५१२ (देखिए यशवंतसिंह)
जयाजी सींधिया	८८	जाननिसार खाँ	४६१
जलाल खाँ कोची	३५९	जाँबाज खाँ	५५०-१
जलाल तारीकी या रोशानी	८६,	जान बाबा	५०५
	४७६	जान बेग, मिर्जा	२७६, ५४१
जलाल, सैयद	१७९	जाना बेगम	१९०
जलाल बोखारी, सैयद	९५	जानी बेग, मिर्जा	५५, १८६, ५०५
जलालुद्दीन मनगोरनी	१६	जानोजी सींधिया	४७८
जलालुद्दीन रोशानी	४१५-६	जाफर अकीदत खाँ, मिर्जा	२५८
जवाँबख्त	५५३	जाफर खाँ मुअज्जम	३३२
		जाफर खाँ हब्शी	५३५

जाफर खाँ मुशिदकुली	२०५,	जुलफिकार खाँ करामानलू	३३२
२१३, ३३१, ४२५		जुलफिकार खाँ तुर्कमान	३२३
जाफर खाँ, वजीर	२१७, ३४१,	जूयबारी, ख्वाजाक़ुल्लौ	१४३
५५६		जैन खाँ कोका	५८, २४३, ४१६,
जाफर, मीर	३१८-९	४७६	
जाफर, मिर्जा	४१९	जैनाबादी	३८३
जाफर, सैयद शुजाअत खाँ	३८	जैनुद्दीन, शाहजादा	३२४, ४०१
जावेद खाँ, ख्वाजा	८९	जैनुद्दीन अली खाँ	३५४
जाहिद खाँ कोका	४१७, ४७०	जैनुद्दीन अली सयादत	३२३
जिभाउल्ला खाँ	४४७	जैनुलू भाबदीन खाँ	३९४
जिकरिया खाँ	२१०	जैनुलू भाबदीन, मिर्जा	४१९
जिकरिया, ख्वाजा	२०८	जैबुन्निसा बेगम	४४५
जियाउद्दीन यूसुफ	७३	ट	
जियाउद्दीन सिंधी	२१५, २७०	टोडरमल, राजा	२६८, ५११
जियाउद्दीन हकीम	३८०	त	
जियाउल्ला	१५१-३	तकरुंब खाँ शीराजी	३३९
जीजी अन्नगा	१३	तरखान दीवाना	१८
जीननुन्निसा बेगम	३३५-६, ३७६	तरबियत खाँ	११२, २२४,
जुगराज	९१	३८५, ४६९	
जुझार खाँ हब्शी	५३५	तर्दी अली कतगान	३०१
जुझारसिंह, राजा	९१, १४४-६	तहमास्प, शाह	५३, ५७, ४११,
२३१, ४००, ४१९, ४२९,		४१४, ५४०	
५०१		तहमूस, शाहजादा	४०६
जुलफिकार खाँ	१५१, २०८, ३१३,	तहञ्जर खाँ	४४३-४
३३४, ३३६-७, ३४१, ४३२,		ताज खाँ	२०
४८०		तातार बेग	५१०

तातार मुल्तान	५४०	दाराब खॉ १९२, १९४-५, १९९-
तार्दी बेग खॉ	३३, २८१, ३२७,	२००
४७२		दारा शिकोह ७४-५, १०७, १२७,
तालिब भामली	३८०	१६२, १७९, २०२, २०५,
तालिब कलीम	९१	२१६, २४०, २४६, २७२,
तुलसी बाई	३६६	२७६, ३०६, ३२५, ३२९,
तैमूर भमीर	१६, ११४	३३१, ३८५-६, ४०६, ४०८,
तोलक मिर्जा	७८-९	४३६, ४३८, ४४०, ४४२,
	थ	४४८, ४५२, ४५५-६, ४६९,
	द	४८५, ४९१, ५०१, ५१२,
दत्ता सरदार	५५२	५२३, ५५४-६
दलपत उजैनिया, राव	२६७	दावर बख्श २७, ३४३, ४०४-६
दलपत बुंदेला, राव	३३४	दिलावर अली खॉ १०, १७०,
दरिया खॉ	३५	४७८
दरिया खॉ रुहेला	१२७, १४४-	दिलावर खॉ जमादार ३९७-८
५, ४६३		दिलेर खॉ १, २, ४५७, ५५६
दाऊद किरांनी	१६३	दियानत खॉ १४१, ४७१, ५४१
दाऊद रुहेला	३१५	दियानत खॉ नजूमी ३३२
दाऊद खॉ पट्टनी ( पकी )		दियानत खॉ भीर अबुल्कादिर २१३
	२३५, ३७७	दियानत खॉ लंग ६०
दानियाल, शाहजादा	४७-९,	दियानतराय नागर ४०
७४, ९०, १५३, १८९-९०		दुर्गावती, रानी ११५-६
२९७, ३७४, ४०५-६		दुँदी खॉ ३१५
दानियाल, शेख	६४	दूलहराय २६८
दानिदागंद खॉ	२३९, ४९६	दोस्त अली खॉ १३७
दाराब खॉ जाननिसार खॉ	८४	दौलत खॉ २०

दौलत खाँ मुबी	५०५	नानक	२०६-९
दौलत खाँ लोदी	१८४, १८८-९	नारायणदास राठौर	४१२
न		नासिर जंग	११, ४२, १०५,
नईम बेग	४२८	१३७, ४२१	
नजफ खाँ जुल्फकारदौला	१०९	नासिरी खाँ	९१, २२९
नजाबत खाँ	२६०, ४३६, ४९१,	नासिरुद्दीन अहरार	१५३
५५५		निकोसियर	१६९, ४४३
नजीबुद्दीन सुहरवर्दी	४११	निजाम	३१८
नजीबुद्दौला	५५१-३	निजाम शाह	४९ २१९, २२८,
नजीरी मुल्ला	१९७	२३२, ३५६, ३९१-३, ३९९	
नज्मुद्दीन अली खाँ	१५१, १७०-	निजाम शेख खानजहाँ	२३४,
१, ५१७		४३४, ५०२	
नज्मुद्दीन किवरी शेख	१६१	निजाम शेख गंजवी	४१८
नज्मुद्दौला	३१९	निजाम हैदराबादी, शेख	२६०
नज्मुहम्मद खाँ	१७९-०, २०४,	निजामुद्दीन अहमद	१४१
३१६, २२६-७, ३०१-५,		निजामुद्दौला	११-२, ७६, ४२२,
३२०-१, ३५०, ४००, ४४०		४७६, ५५३	
नन्हू	५३५-६	निजामुल् मुल्क	७५, ८४, १०५,
नवल बाई	३४१	१३७, १७०, २०२, २६६,	
नवलराय कायस्थ	८८	५१४, ५४६	
नसरत खाँ	५५५	निजामुल्लमुल्क फतहजंग	४२४
नसरुल्ला, हाफिज	२००	नियाज खाँ	९
नसीरा, हकीम	३८०	नियाज खाँ द्वितीय	९
नाजिरी मिर्जा	६२	नियाज खाँ सैयद	३७७
नादिर शाह	९, १०९, २४५,	नियाबत खाँ	५५९
४२५-२७		नूरजहाँ	२८, ३६-७, ९०,

९८-९, १९३, १९४, ४०२,	प्रताप उजैनिया	१४६	
५४१-५	प्रताप	५२६	
नूर हमामी, शाह	२१९-२०	प्रताप, राणा	३८९
नूरुद्दीन	६०	फ	
नूरुद्दीन अली खॉ सैयद	१६५	फकीर अली, मीर	१५४
नूरुद्दीन कजवीनी	४१२-३	फखुखिसा बेगम	८०
नूरुद्दीन महम्मद, मिर्जा	१५४	फतह खॉ पटनी	२८४
नूरुद्दीन हकीम	५७, ५९	फतह खॉ मलिक	२२८
नूरुल् अर्था	२७७	फतहबंग आसफजाह	२३७
नूरुल् हक, सैयद	१२३, १२५	फतह दोस्त	८६
नेअमतुला खॉ, ख्वाजा	१३८	फतहसिंह भोसला	२३६
नोमान खॉ, मीर	२०२-३	फतहुला	६०, ५०८
प		फतहुला खॉ	३३५
पन्नदास, राय	४१६	फत्तू गुलाम	११५
पर्वेज बेग, मिर्जा	२७७	फरहत खॉ खासखेल	७
पर्वेज, सुलतान	९८, १४०, १९०,	फरिश्ता	२९०
१९३-५, ३४३-४, ४१७		फरीद अन्तार शेख	१५३
पहाडसिंह बुंदेला	३५६	फरीद बरशी, शेख	२३, २६, ४७
पापरा	३९६-८	फरीद भक्करी, शेख	१४८
पीरमा	३७७	फरीद सुर्तजा, शेख	४६-०
पीर मुहम्मद खॉ शरवानी	५-६,	फरीद शेख	२३४
३३, १३३, २८३		फरीदुद्दीन शकरगंज	४१, १०४
पुरदिल खॉ	३१, ३९७	फरेदूँ	३०१
पुरुषोत्तम राय	२६७	फरुखसिबर	९, ८३, १६५-७०
पृथ्वीराज बुंदेला	१४६-७		२०८, २१०, २३५, २४५,
पृथ्वीसिंह, राजा	३८६		२४८, २६४, ३१२-३,

३३८ ९, ४२३-४, ४३२-३,	बरखुरदार, खाजा	१३९	
४४६, ५०४, ५१३-१४,	बसंत खोजा	३४१	
५१७, ५१९	बसालत खाँ, मिर्जा सुलतान		
फर्हाद	३०१	नजर	४३१
फहीम, मियाँ	१९९-०	बहर: बर, मिर्जा	४०३
फाखिर खाँ नउमसानी	५२४	बहर: मंद खाँ	२०१, २६३
फाजिल खाँ	४५३	बहरमंद खाँ मीर बख्शी	२५८-०
फाजिल खाँ भाका	३४४	बहराम बद्रुशी	१७९-८०,
फाजिल सैयद	१०४	३०३-०४	
फातमा बेगम	५२४	बहलोल खाँ	२२९, ४७९
फीरोज खाँ खोजा	४०५	बहलोल बीजापुरी	४९७, ४९९
फीरोजजंग खाँ	९	बहलोल, शेख फूल	१५३-५, १५७
फीरोज मेवाती	४३७	बहाउद्दीन	४१, ३५१
फीरोजशाह	९५, १२५	बहाउद्दीन फरीद शकरगंज	३७३
फैजी, अबुल्फैज	२१, २९, ४४,	बहादुर खाँ	२२, ४५, ४७-८,
५९, ६६-७१, १०१		१४४, ४३८	
फैजुल्ला खाँ	४९८	बहादुर खाँ कर्नोली	४२
फैजुल्ला खाँ रुहेला	३१५	बहादुर खाँ कोका	४९१
		बहादुर खाँ गीलानी	३१०
		बहादुर खाँ रुहेला	२३१, ३०३,
		३५०, ३९१-२, ३९९, ५०१	
		बहादुर खाँ शैबानी	७८-९,
		११८, २८१, २८४-७,	
		४७३-४	
		बहादुर निजामशाह	१८७-१८९
		बहादुर लोदी	४९९

व

बंदा	२०९	
बख्तान बेग रुजबिहानी	३९६	
बदरुद्दीन, सैयद	१०४	
बदीऊ, मिर्जा	३४५	
बदीउज्जमाँ मिर्जा	४११, ४१४	
बनारसी	४०४	

बहादुर शाह	३१२, ३३५-६,	बुर्हानुल् मुल्क	८७
	३९७, ४३४, ४४३, ४४६	बुलाकी बेगम	७४
बहू बेगम	५५७	बुलाकी मुर्षी	५०३
बाकर खॉ नउमसानी	३४८, ५२५	बेग भोगली	३०४-०५
बाकर खॉ, मीर	१०७	बेदारबख्त	३०९, ३६५, ४३४,
बाकी खॉ	१४७	४५८	
बाज बहादुर	५, ६, १३३	वैराम खॉ खानखानॉ	४-५,
बाजीराव	१०५, ४३५	७७-९, ११४, १३०, १५५-	
बाबर	१६, १२९, २८२, ३७३	६, १८२, २८०, २८२-३,	
बाबर, मिर्जा	५५०	३२७, ४७५	
बाबा खॉ काकशाल	२८७	वैराम बेग	१९३-४
बाबू नायक	४२	भ	
बायजीद बिस्तामी	१६०-१	भगवंतसिंह	८४
बायसंगर, सुलतान	३८, ४०५	भगवानदास, राजा	४७५
बालाजी राव	५५१	भास्कर पंडित	३१७
बिट्टलदास, राजा	१७९, ५०२	भीम, राजा	१९५
बीचा ज्यू	२३	म	
बीरबर, राजा	५८, २४२, ४७६	मंसूर खॉ रुजबिहानी	३९६
बीरमदेव सोलंकी	१३९	मंसूर शाह	१८३
बुजुर्गउमेद खॉ	३३१	मभाली, मिर्जा	२७७
बुर्ज अली खॉ	२८३	मकसूद भली	५३३
बुर्हान गुलाम	५३४	मकरम खॉ सफवी	३६३
बुर्हान निजामशाह	६१, ६३, १८७	मखदूमुल् मुल्क	४४, १०१-३
बुर्हानी	३२८	मजनू खॉ काकशाल	११७-८,
बुर्हानुद्दीन कलंदर	२७७	२८५-६	
बुर्हानुद्दीन राजेइलाही	३८३	मधुकर बुंदेला	५११



मनीचहर मिर्जा	५५७	महाबत खाँ, जमाना बेग	२३,
मफवजुला खाँ बहादुर	२०३		२५, ९०, ९८, १३९, १४३-
मरजान, स्त्रीदी	४४९		५, १९१, १९३-६, २००,
मरियम	१३२		२२६-३०, २३३, ३२०,
मरियम मकानी	४१८		३२६, ३४३, ३४८, ३८८,
मरियम हाफिजा	४४५		३९९, ४०३, ४०७, ४४८,
महंमत खाँ	४१, २५८		५०९
मलका जमानिया	५४८	महाबत खाँ मुहम्मद इनाहीम	३८३
मलिक बदन	३९२	महाबत खाँ लहरास्प	१२१-२,
महाराराव होलकर	८८, ४२५,		२४१, २४६, ४१९
५४७-४९, ५५२		मांघाता	२३६
मसऊद, मलिक	५४१	माणिकराय	४८७
महदी कासिम खाँ	११७	मानसिंह, राजा	२२-३, १४०,
महमूद आलम खाँ	१०६		१९०, ४१०, ४१७, ४८३
महमूद खाँ	२२८	मानाजी भोसला	५५५
महमूद खाँ कदमीरी	५४७	मामूर खाँ	२१२
महमूद खाँ बारहा	३५९	मारुफ भक्करी, शेख	२१६
महमूद बैकरा सुलतान	६५, ९३	मासूम खाँ काबूली	१८-९, ४१५
महमूद भीर	३४६	मासूम खाँ फरखुंदी	३६८
महमूद, सुलतान	५११, ५३४,	माह चूचक बेगम	७९-८०
५३६		माहबानू बेगम	१८३, १८९
महमूद सैयद	१०४	माहम अनगा	४, ६-८
महम्मद आदिल शाह	४८६	माहयार तुर्कमान	३२३
महम्मद रूमी	४९४-५	मिया खाँ	२०
महम्मद वाली	५१०	मीरक अताउल्ला	२१५
महम्मद सईद	५५७	मीरक कमाल	२१५

मीरक मुईन खाँ	२२३	मुहम्मदुद्दीन	२२१
मीरक मुईनुद्दीन	४४३	मुईनुद्दीन चिबती	२९७
मीरक हुसेन	२१५	मुईनुल् मुल्क	५४९
मीर खाँ	४४८	मुकर्रब खाँ	२३७, ३९२-३
मीरजुमली मुभज्जम खाँ	३८६	मुकर्रम खाँ	९७
मीर जुमला समरकंदी ९, ३३८-९		मुकीम नक्शबंदी, मिर्जा	४१२
मीरन, मीर	३१८	मुखलिस खाँ	२२१, २६३
मीर मलंग सुलतान हुसेन	२२५	मुखलिसुल्ला इफ्तखार खाँ	३६४
मीर मीरान यज्दी	३४७	मुख्तार खाँ	९७, २७६, ३९६, ४४६
मीर मुहम्मद खाँ	१५	मुख्तार बेग	४९७-८
मीर मोमिन	५५७	मुजफ्फर खाँ	४२६
मीर शेख २४६-७, ४५७		मुजफ्फर खाँ तुरबती	१८, ५७, १००, ११८, १६३, २६७, २८९, ४१५
मीर हुसेन खाँ भमानत	२२३	मुजफ्फर खाँ बारहा	१९४
मीर हसन २१२, २१४-५		मुजफ्फर खाँ मामूरी	२२८, ३४३
मीर हुसेन २१४		मुजफ्फर जंग	४२, ४२१
मीरान मुबारकशाह ५३१-२		मुजफ्फर, मीर	३२८
मीरान हुसेन निजामशाह ६१-२		मुजफ्फर, सुलतान २०-१, १६३-	४, ५३५-६, ५३८
मुभज्जम खाँ मीर जुमला १, २, २३९-०, ४३०, ४४९, ४९२, ३३३-४, ३३१, ३८६, ५५५		मुजफ्फर हुसेन मिर्जा	८५
मुभज्जम शेख ४८५		मुजाहिद खाँ	४४३
मुहम्मदुल् मुल्क, मीर ८५, २७८, ४७३		मुनहम खाँ खानखानाँ प्रथम ४, ६-७, ७८, १३५, १६३, १८३, २६४-५, ३२७,	
मुहम्मदुद्दीन शाह, मुहम्मद ४४३, ५०३			

४६५-६, ४७४, ४८२, ५३२	मुर्तजा मीर शरीफी	२८५
मुनइम खॉ खानखानॉ द्वितीय	मुर्बिंद कुली खॉ	३१६
२०८, २६४, ३३६, ४७०	मुक्तफत खॉ ३३४, ३७९, ४६९	
मुनौभर	मुस्तफा खॉ मुहम्मद अमीन	४९७
२३४	मुहतरिम बेग	२८९
मुफ्तखिर खॉ	मुहब्बर खॉ	२३७
५२४	मुहम्मद	४११
मुबारक खॉ नियाजी	मुहम्मद	३८, ३९०
५०९	मुहम्मद अकबर, सुलतान	८२, ९७
मुबारक नागौरी, खोख ४३, ६६-	मुहम्मद अजीम, सुलतान	८३
७, १२९	मुहम्मद अब्दुल् रसूल	१४९
मुबारकुदौला	मुहम्मद अमीन अहमद	२
३१९	मुहम्मद अमीन खॉ	२०, २२५,
मुबारकुल्लाह, मीर		२५०
४७०	मुहम्मद अमीन खॉ ३८७, ४२४,	
मुबारक सैयद	४४७, ५१३	
५३४	मुहम्मद अमीन दीवाना	१८२
मुबारिज खॉ एमादुल्लमुल्क १०-१,	मुहम्मद अली	३९८
१३७, २३८, ४७१	मुहम्मद अली खानसामॉ	२२१-२
मुराद, ग्राहजादा ४, ५-६, ७२,	मुहम्मद आजम शाह	८३, २३४,
९६, १७९, १८६, १८९,		२६४
२४६, ३०२, ३०४, ३४५-	मुहम्मद आदिल शाह	२१८, ३४३
६, ३५०, ३७४, ४०१,	मुहम्मद इकराम	१२५
४७६, ४८९, ४२९, ४५१,	मुहम्मद कुली अफगार	४१६
४५५-६, ५००	मुहम्मद कुली बर्कास	८५, ४७३
मुशारीराव घोरपुरे	मुहम्मद खलील	१७५
१३७		
मुमताजुज्जमानी ३७९-०, ४०९		
२१		
मुर्तजा खॉ अँजू		
७२		
मुर्तजा निजामशाह ६१, १९०		
४९४-५		
मुर्तजा पाशा		
४७, १८७		

मुहम्मद खॉं नियाजी	३५६	मुहम्मद मीर सैयद	६१, ६३-५, १२०
मुहम्मद खॉं बंगश	८८, ५५१	मुहम्मद मुअज्जम, सुलतान	६२- ३, २४१, २५२, २५७, २६०, ३३२, ४५०, ४५३
मुहम्मद खॉं शरफुद्दीन भोगली	५४०	मुहम्मद मुहज्जुद्दीन	१६५-७
मुहम्मद गजनवी, शेख	१४	मुहम्मद यार खॉं	३२, ५६३
मुहम्मद गियास, मीर	४८९	मुहम्मद मुराद खॉं वजबेग	२१२, ३७६
मुहम्मद गेसुदराज, सैयद	२७७	मुहम्मद मुराद खॉं हाजिब	२६०
मुहम्मद गौस	११५, १५२-६, १५८, १६०	मुहम्मद यूसुफ खॉं मशहदी	२८५
मुहम्मद जाफर	४००	मुहम्मद यूसुफ खॉं रिजवी	३६३
मुहम्मद जाफर आसफ खॉं	३६३	मुहम्मद रजा मशहदी	२९१
मुहम्मद जाफर, ख्वाजा	४२३	मुहम्मदरजा हैदरावादी	३०९
मुहम्मद जौनपुरी, शेख	१२९	मुहम्मद लारी, मुल्ला	३४३, ४०७
मुहम्मद तकी	६२	मुहम्मद शरीफ	४१३
मुहम्मद तकी फिदवियत खॉं	२१३	मुहम्मद शरीफ	५४१
मुहम्मद ताहिर बोहरा	१२०, १५२	मुहम्मद शरीफ, ख्वाजा	५४०
मुहम्मद नियाज खॉं	२६४	मुहम्मद शरीफ, मीर	४८९
मुहम्मद नासिर	१०८	महम्मद शाह	३, ३६९
मुहम्मद नोमान, मीर	४९३	मुहम्मद समीअ, ख्वाजा	७७
मुहम्मद परस्त खॉं	१०९	मुहम्मदसालह	५०९
मुहम्मद पारसा, ख्वाजा	१२४	मुहम्मद सुलतान	१, ७५, २३९, ३८६, ४९१-२, ५०२
मुहम्मद बासित	४२३	मुहम्मद सुलतान बदख्शी	३०४
मुहम्मद मभाली	१२५	मुहम्मद हकीम	७९-८०, १०२, १३१, २८५, ३६३, ४६८
मुहम्मद मसऊद	३६४		
मुहम्मद मासूम	१९८		
मुहम्मद मीर अदक, सैयद	५३२		

मुहम्मद हवीं, बराजा	९४	यशवंतसिंह, राजा	९९, १०७
मुहम्मद हाजी	३१६	देखिए जसवंतसिंह	
मुहम्मद हुसेन मिर्जा १४-७, ८५, ३५९		यहिया पाशा	४९६
मुहसिन खाँ, हकीम	२०९, ३७७	यहिया, मुल्ला	३५४-५
मुहामिद मीर	३६८	याकूत खाँ हब्शी	१४९, २२९
मुहियुब भली खाँ	२६७	याकूब खाँ	४५९
मुहीबुल्ला, मीर	९६	याकूब खाँ हब्शी	३५६
मुहीउल्लू मिलत	५५२	यादगार, खराजा	१३९
मुहीउल्लू सुन्नत	५५२	यादगार जौलाक	१८०
मूसबी खाँ	३७९, ५४६	यादगार टुकरिया	३०५
मूसा, शेख	४६७	यार भली बेग	४३१
मेहरुजिसा	देखिए नूरजहाँ	यूल्म बहादुर उजबक	५०९
मैसूरिया	२३४	यूसुफ	३५२
मोतकिद खाँ	५५५	यूसुफ खाँ	३१
मोतमिद खाँ	२०२, ४२०	यूसुफ खाँ, मिर्जा	४१६
मोतमिदुद्दौला सर्दार जंग	२०३	यूसुफ खाँ रुजबिहानी	३९६-७
मोमिन खाँ, खराजा	१२	यूसुफ मुहम्मद खाँ	३९२
मोमिन खाँ, नजमसानी	३७१-२	र	
मौलाना मीर	३२८	रघुनाथदास, राजा	४२, ४२१
य		रघुनाथ सुतसही	२७३
यमीनुद्दौला आसफ खाँ	३३२,	रघुनाथराव पेशवा	५५१
३४७, ३६२, ३९०, ४००, ४०६, ४३९-४०		रघु भोंसला	१२, ३१७, ४७८
देखिए आसफ खाँ		रजाक कुली खाँ	१७५
यलंगतोश	२२६-७, ३०१, ३२०-१	रणतूलह खाँ हब्शी	४०७
		रतनचंद, राजा	१६८
		रत्न, राव	३४४

रनदौला	२२९, २३२, ३९२	रस्तम खॉ	१९३, २०५, ३२१
रफीउदजार्त	१६९, ५१७		४३०, ४३६, ४४८
रफीउदौला	१६९, २१०	रस्तम खॉ दक्षिणी	४९१, ४९६
रफीउदखान	१६९, १७१	रस्तम दिल खॉ	३७७, ३९६-७
रशीद खॉ	३२४	रस्तम बदखशी	१७९
रशीद खॉ बदीउज्जर्मा	४४५	रस्तम मिर्जा	४६, १४०
रहमत खॉ	४५२	रस्तम सफवी, मिर्जा	३९३
रहमत खॉ, हाफिज	३१५	रुमी, मौलाना	३८३
रहमतुल्ला, रुवाजा	१३७	रुहुल्ला खॉ खानसामां	४३१
रहमतुल्ला रुहेला, हाफिज	३१५	रुहुल्ला खॉ प्रथम	३४६
रहमनदाद	१९९	रुहुल्ला खॉ भीर बखशी	४३१
रहमानयार तुर्कमान	३२३-४	रुहुल्ला खॉ यज्दी	३२, १५०,
रहीम खॉ दक्षिणी	३५६		२५८, २६३, ३३४
रहीम खॉ रहीमशाह	४५९	रोशन अरुतर, मुहम्मदशाह	१७०
राजा अली खॉ २४, ६३, १८६-७		देलिए मुहम्मदशाह	
राजूमना	४८, १९०		
राजे खॉ	१६६	ल	
राद अंदाज खॉ	५१२	लक्ष्मी, बाबू	१४५
रामचंद्र, राजा	११५	लदकर खॉ	३२९, ३३२, ४२१,
रामदास, राजा	२६		४५७, ५२६
राना भोंसला	४३४	लहरास्प खॉ	१७९
रामा भोंसला	१५१	लाल कुंभर	३१३
रिजवी खॉ बुखारी	३३०	लुफुल्ला खॉ	९७
रुकना, हकीम	३८०	लुफुल्ला, हकीम	६०
रुकुदौला	४७८		
रस्तम कंधारी, मिर्जा	५०६	व	
		वकालत खॉ	५१४

वजारत खाँ	११२	शम्सुद्दीन खवाफी, ख्वाजा	५८,
वजीउद्दीन अलवी	१५२		२१५
वजीउद्दीन, लैसद	१२१, १६०	शम्सुद्दीन खाँ मुहम्मद अतगा	
वजीह	४७५		६-७, १३, २६०, ५३१
वजीर खाँ	११७-८	शम्सुद्दीन सुलतानपुरी, शेख	१२८
वजीर खाँ	१८३, २६१, ४१०,	शरफुद्दीन	४३१
	४६७, ५५५	शरफुद्दीन, मिर्जा	८५
बफा, खोजा	१४२	शरफुद्दीन, मीर	९६
बलीबेग	७९	शारीफ खाँ अमीरुल उमरा	१३९,
वहदत अली रोशानी	४१६		१९०, ४१७, ५२८
वाली, मिर्जा	७४-५	शारीफ खाँ करोड़ी	२६०
विक्रमाजीत, राजा	३४, १४१-	शारीफुद्दीन हुसेन अहरारी	७९
	२, २००	शारीफुल मुल्क	३५-६
वीर शाह	११७	शाहदाद खाँ	५०४-५
वीरसिंह देव	५०-१	शाहरयार, शाहजादा	३५-६,
वृंदावन, दीवान	१५०		३८-९, ३९०, ४०४-५,
वेकटराम	३९६		५४५
वैसी, ख्वाजा	४१३, ५२७	शाहाबुद्दीन अहमद	१९, ७९,
			१३६, १८३, ४१२, ५३७-९
		शाहाबुद्दीन सुहरवर्दी	१६१, ४११
		शादमान	२१, ३०
शंभा भोसला	१५१, ३३३, ४३४	शापूर, ख्वाजा	५४०
शत्रुसाल, राव	२३१	शायस्ता खाँ अमीरुल उमरा	९७,
शफी खाँ, हाजी	२१२		१४४, ३५७, ३८६, ३८८,
शमशेर खाँ तर्ी	२४१		३९९, ४३७, ४४९, ५०१,
शमस	३९२		५१०, ५३२, ५२६
शमसी	२१		

श

शाहभली	४९, १९०	शुकुला	२३३
शाह आलम बहादुर शाह	१६९- ७१, ३६५, ४३१, ४५८	शुजाभत खॉ	४२९
शाह खॉ	७२	शुजाभत खॉ शेरकबीर	३२२, ४८३
शाहजहाँ	३५-९, ७४, १९२-३, ३६५, ३९१, ३९३, ४०४, ४४१, ४६१, ४८६, ५२२, ५२८, ५४५	शुजाभत खॉ सैयद	१४७
साहजहाँ द्वितीय	१७०	शुजाभ, सुलतान १, ७४-५, १६९, २३०, २४०, ३२३, ३२५, ३३९, ३४८, ३८६, ३९३, ४००-१, ४०६, ४१०, ४३७- ८, ४५२, ४९२, ५२६	
शाहदाना	५५९	शुजाउद्दौला, नवाब	८९, ३१५, ३१८, ५५१
शाहनवाज खॉ	१९१-२, १९९	शुजाउद्दौला	३१६-७, ४२५
शाहनवाज खॉ सफवी	७३, ३४५-६	शुजाउल्मुल्क	१३६
शाह पूर खॉ, मीर	३७१	शेरखुल् इस्लाम	१२२
शाहबाज खॉ कंबू	१९, ९४, १६४, २६७-८, २८९, २९७, ५३७	शेरभली	४८१
शाहबाज खॉ ख्वाजासरा	४५७	शेर भफगन खॉ	५४१-२, ५४५
शाह बिदाग खॉ	८५	शेर खॉ	५३९
शाहबेग खॉ	३७९	शेर खॉ फौलादी	३५९, ५३६, ५३९
शाहमबेग जलायर	२८२-३	शेर ख्वाजा	१३९, १७६, ३१०, ५०७
शाह, मिर्जा	३५९	शेरजाद	८६
शाहरुख, मिर्जा	४५, ४७, १८६- ७, ३१०	शेरशाह	१२८, १५५, १५८, ४८३
शाहवली खॉ	५५०		
शाही खॉ	२८१	स	
शिकेबी, मुला	१८५	संग्राम होसनाक	७
शिवाजी भोसला	१०७, ३२४, ३३५, ३५३, ५१०, ५५५	संगर खॉ	४३९



संजर बेग	२२१-२	सरदार खॉ	३२, १५१
संता घोरपदे	८२, ३०९, ३८०	सरफराज खॉ भलाठडौला	३१६-७
सभादत अली खॉ	२६७	सर बुलंद खॉ	५१४
सभादत खॉ बुर्हानुल्लुमुल्क	४२५-६	सरमस्त खॉ	१२८, ४७८
सभादत बार कोका.	१७६	सर्वा	३९७
सभादतुल्ला खॉ	१३७	सलाबत खॉ	३४९, ४४८
सभादतुल्ला खॉ नायता	३५४-५	सलाबत खॉ पक्षी	४७९
सईद खॉ बहादुर	३१, १६२, २५१, २९९-००, ३६३-४, ५५८	सलाबत जंग	१३, ७५, १३८, २०३, ४७८
सईदाई सरमद	११०-१	सलीम कुली	४७७
सजावार खॉ मशाहदी	७४	सलीम चिदतो, शेख	१३९, ३७३, ४६७, ४८३, ४८५
सती खानम	३८०, ४१०	सलीमशाह	४, ६६, १२८-३०, २८४, ५३१
सदरजहाँ सदरुल्लुपुर, सैयद	१६६	सलीम, शाहजादा	२३, ४९, १३९, १८३, २९३, ४१६, ४६७
सदरुहीन, अमीर	९३	सलीमा सुलतान बेगम	२४, ५४२
सनाउल्ला खॉ	४४७	साँगा, राणा	३७३
सफदर अली खॉ	१३७	सादात खॉ जुल्लिफकार जंग	५४६
सफदर खॉ खानजहाँ बहादुर	३८९	सादिक उर्दूबादी	६२
सफदर खॉ ख्वाजा कासिम	१२७	सादिक खॉ	५, २९६, ४७६, ५११, ५५६
सफदर जंग, नवाब	२४९, ३१५, ५४६-७	सादिक खॉ मीर मुंशी	३३२
सफशिकन खॉ	३३१, ३८६	सादिक बकशी, ख्वाजा	२७०
सफी, खॉ	४८९	सादुल्ला खॉ भल्लामी	१७९, ३०४, ४३६, ४२९-०, ४८८
सफी, शाह	२९८, ३०२		
सफी सैफ खॉ, मिर्जा	१४२		
समसामुद्दौला मीर आतिश	५४८-९		
सयादत खॉ	८०		

सादुल्ला खॉ, ख्वाजा	१३८	सुलतान अली भफजक	३२७
सादुल्ला खॉ लहेला	८८, ३३५,	सुलतान हुसेन इफतखार	३५१
५५१		सुलतान हुसेन जलायर	४६६
सामी, मिर्जा	४१९	सुलतान हुसेन, मिर्जा	१६
सालम, सीदी	३९२	सुलतान हुसेन, मीर	३७८
सालार खॉ	५१२	सुलेमान	१७२
सालिह खॉ	९६, ३४२	सुलेमान किरानी	१६३, ४७४
सालिह खॉ फिदाई	३८९	सुलेमान, मिर्जा	८०
सालिह बेग	३६१	सुलेमान शिकोह	१६२, ३०६,
साहिब जी	२५५-८	३२८, ३८६, ४३७, ५०२	
साहू भोसला	९१, २२९, २३१-	सुहराब खॉ	४१९
२, २३६, २६६, ३५७, ४००,		सुहेल खॉ	१८७-९, १९८
४९९		सूरजमल, राजा	८८, ५४७-५०,
सिकंदर खॉ उज्जवेग	८५, १३६,	५५३	
२८५, ४६५-६		सूरज सिंह, राजा	५०
सिकंदर सूरी	४, ७७, २८०, ४६५,	सैफ कोका	४१९
४७३		सैफ खॉ	२५०, ३८२, ४५२-३,
सिपहदार खॉ	४५८	५१२	
सियावन्न	५५८	सैफुद्दीन अली खॉ	८४
सियावश कुल्लरकाशी	२९९	सैफुद्दीला	३१९
सिराजुद्दीन शैख	१२४	सैयद अहमद नियाजमंद खॉ	२१३
सिराजुद्दीला	३१७-८	सैयद मुहम्मद	२४३, २६९, ३६७
सुभान कुली तुर्क	१६	सैयद मुहम्मद इरादतमंद खॉ	२१२
सुभान कुली	१७९-०, ३०१,	सैयद सुलतान कर्बलाई	२४३
३०३, ३०५, ३२१		ह	
सुलतान अहमद	१२५	हकीमुल् मुल्क	१०२

हजाज	३५२	हिजत्र खॉ, सैयद	४००
हफीजुद्दीन खॉ	४१	हिदायत बखश	५५०
हबीब चिक	५२५	हिदायतुक्ला	४०१
हबीब, मीर	३१७	हिदायतुक्ला खॉ	४४६-७
हब्श खॉ	२६७	हिंदाक, मिर्जा	१५४
हमीद ग्वालिभरी, हाजी	१५५	हिम्मत खॉ	४९३, ५००
हमीदाबानू बेगम १०१, ५३०		हिम्मत खॉ बदखशी	२०१
हमीदाबानू बेगम	२५०	हिम्मत खॉ मीर बखशी	३३०
हमीदुद्दीन खॉ ९९, २२५, २६४, ३३५, ३४१		हीरा दासी	५४४
		हीरानंद	३१४
हयात खॉ, ख्वाजा	२६१	हुसाम जाफर सादिक	१४३
हसन भरब	४१६	हुसाम, हकीम	५७, ६०
हसन अली भरब	१८५	हुमायूँ ५३, ७७, ११४, १२८, १३०, १५३-५ १५७-८	
हसन अली खॉ २५०, ५५७		१८२, २७८, २८०, ३२७, ४६५, ४७२, ५३०	
हसन नकशबंदी, ख्वाजा	१३९	हुसेन अली	११
हसन शेख	१२८	हुसेन अली खॉ अमीरुल उमरा	
हसन सफवी, मिर्जा	३९४	९, ८३-४, १५१, १६५-७०, २३५, २४८, ३३९, ३५४, ४२४, ४३२, ५१३-१७,	
हसन खुलतान	६१-२	५२०	
हाजी मुहम्मद खॉ	११८	हुसेन अली खॉ मीर आतिषा १७१	
हादी खॉ	२५८	हुसेन कुली	१
हादीदाद खॉ	४४९	हुसेन कुली, खानजहाँ २६७, ४७५	
हाफिज खॉ	४७१	हुसेन खॉ	५०४
हामिद बुखारी सैयद	५११		
हामिदशाह, काजी	६४		
हाशिम बारहा	३५९		
हाशिम, मीर	७८		

हुसेन खाँ खेसगी	२१०	हैदर कासिम कोहबर	८०
हुसेन खाँ पटनी	१८४	हैदर कुली खाँ खुरासानी	३५४
हुसेन खाँ मेवाती	१८२	हैदर कुली खाँ दीवान	२३५
हुसेन खाँ सुलतान	१९७	हैदर कुली खाँ सुम्सही	४२४
हुसेन टुकरिया	३१	हैदर कुली नासिरजंग	१०
हुसेन बनारसी, शोख	१७७	हैदर, मीर	६९
हुसेन सफवी, सुलतान	४२४	हैदर, मीर	२६९
हुसेन, सुलतान	६१	हैदर सुलतान उजबेग	२८१
हुसेनी	३२८	होशंग, शाहजादा	४०६
हरपरवर खानम	४६४	होशदार खाँ	३१५
हेमू ३३, १३३, १८०-२, ३२७, ४७३			

## अनुक्रम ( ख )

### ( भौगोलिक )

अ	अमनाबाद	३६९
अंतरमाली गढ़	४८	अमेठी
अदखुद	३०३	अरक
अंदराब	३४९	अराकान
अंदोजान	२०२	अर्काट
अंबर कोट	३५६	अर्गन्दाब
अकबर नगर ४४८, ४६२, ४८३, ४९२		अलवर
अकबरपुर	८४	अलीगढ़
अजमेर २५, १६६, २१६, २१८, २४०, २४३, २४६, २९७, ३३३, ४२६, ४२८, ४४२- ३, ४५३, ४५९, ५१२		अलीमर्दान
अजोधन	१३	अवध १८, ४१, ८५, ८७-९, ९७, १०६, २४९, २८५, २९७, ३२८, ३८६-८७, ४२५, ४५९, ४६६, ४७०, ४७३- ४, ५२६, ५२८, ५५१
अटक	३२१, ४०३, ४५३	असीग्राम
अदोनी	२३७, २७७	असीरगढ़
अनंदी	४८०	अहमदनगर ४६-७, ४९, ६१- ३, १८७, ६९, १९२, २१९, २३१-२, २७६, २९६-७, ३३३, ३५३, ५५४-५
अनहल	७५	
अनीवदं	४२६	
अफगानिस्तान	३, २४१	

अहमदाबाद ९, १०, १४-५, २०, २७, ७३, ९३-४, ९६, १२२-३, १२५, १३१, १४०, १८२-४, १८६, २४०, २४३, ३५९, ३९४, ४०६, ४११-२, ४४२, ४५८, ४६०, ५०९, ५११, ५३४-६, ५३८, ५५९	आदिलाबाद १४० आमूया नदी ३०४ आरा २७८ आसाम २, ४३७ आष्टी १८८, ३५८ आसीरगढ़ २२, ४७-८, १०७, १४३, १७० देखिए आसीर ।
--	--

## आ

आँतरी ५० आँवला ३१४-५ आकचा ३०४ आगरा ३, ५, १२, ६६, ७९, ८३, ९१, ९५, ९९, १०७, ११८- ९, १२१-२, १५२, १५४-६, १६७, १६९-०, २२४, २४६, २६४, २७२, २७६, २८६, २८८, ३००, ३१२-३, ३४६, ३८१, ३९०, ४०२, ४०६, ४०८, ४१०, ४१९, ४२३, ४३६, ४३८, ४४२- ३, ४५०, ४५२, ४५६, ४६७, ४६९, ४७२, ४८६, ४९१, ४९३, ५०१, ५०७, ५१२, ५२७, ५३२-३, ५५१, ५५६, ५५९-६०
---

आजरबईजान ४२६

## इ

इंदौर ४३१ इमादपुर २७६ इलाहाबाद १८-९, ६४, ७५, ८४, ८७, ८९, १३९, १४७, १६६-७, १९५, २४८, २५०, २८६, ३९३, ४१७, ५०२ इसतंबोल ४९४ इसफहान ४२७ इसलामाबाद १४७
--

## ई

ईदर १४, ३५९ ईरान ११२, २५३
------------------------------

## उ

उच्छ १७७, २२९ उजैन १४७ उजैन ४७, ५०, १२०, १८६, ४२९, ४९७-८
---

उड़ीसा १९, ३१७, ३६१, ४२९, ४६१, ४६७, ४७४	क	कंतित २६७
उदयपुर २५, ३५, २१५, २४३	कंदज ३०२-३	
ऊ	कंधार ३१-२, ३६, ८७, ९१, ९९, १२७, १३०, १४१, १६२, १९३, २०४-५, २१६, २२६, २५१, २७६-७, २६९, २८१, २९८-९, ३०६, ३२०-	
ऊदगिरि ३११	१, ३२९, ३४३, ३६४, ४२६, ४३०, ४३६, ४४२, ४४८, ४८१, ४८९, ५०६, ५३०, ३४१, ५५०, ५५८	
ऊसा ३२६	कच्छ २०, ५०६	
ए	कटक ११६, ३६१, ४६१	
एतमादपुर ५३३	कटक चतवारा ४९	
एराक ३९०, ४१४, ४८१, ५३०	कड़प्पा ४२, ३३३-४	
एरिज १४४, २५१, ४३६	कड़ा जहानाबाद ८४	
एलकंदल ३९६	कड़ा मानिकपुर ११५, ११८, २८५-६	
एलिचपुर १९, ३४३, ३५६, ४९८, ५०७, ५५६-७,	कड़ा मार २५०	
एली ५२६	कतल जलक ३८८	
ओ	कझौज ८८, १९१, २८५-६	
ओंकारगढ़ २७७	कमायूँ ८८, ३१४	
ओढ़छा १४४-५, १४७	करंजगाँव ४७९	
ओसा १०५, ५००, ५०९	करगाँव ४७	
ओहिंद २४१	करधा ३६१	
औ		
औरंगाबाद १०-१, ४२, ८४, ९९, १०५, १०७, १६५, १७५, २१२-३, २१९, २२१, २३८, २५९, ३३३, ३४४-५, ३८२, ३९६, ४२१-२, ४३२, ४७०, ४७१, ४८८, ४९०-१		

करशी, कशी	१६, ३०४	४४२, ४५३, ४५६, ४५९,
करारा	३६५	४६८, ४८१, ५०१-२, ५२३,
करोहा	४६१	५१८, ५३०, ५४१, ५५६
कर्णाटक ८३, १३७, २३४, ३०८, ३३४, ३५५, ५५७		कालपी ८६, १३३, १४४, १९१, ४७६
कर्नाल	४२५	कालिंजर ३३१, ४२९
कर्नोल ४२, २३५, ३७७, ३९६		काशान ५२, १११, ३८०, ४१४
कर्णाला	४१५	काश्मीर ३८, ५८, ७८, ९२, ९७, १०९, १२२, १६४, १८५, २०४, २४७, २७३, २८९, २९७, ३००, ३०६, ३२९, ३६४, ३७१, ३८२, ३८७, ३९०, ३९४, ४०४, ४०८, ४१६, ४४२, ४४५-७, ४५३, ४५६-८, ४९२, ४९८, ५२५, ५४२
कलकत्ता	३१७-८	किबचाक १५६
कलानौर	४३१	किरमान १६, २९८, ५२६
कल्याण	२७६	किशनगढ़ ३३३
कसूर ग्राम	२१०, ३८६	कुंभनेर ५४७
कहमर्द	३०१, ३३०	कुंभलमेर ६४, १३९, २१५
कांगड़ा	५४२, ५५४	कुतुबाबाद (देखिए गलगला)
कांची	३०९	कुलपाक ३९७-८
कांतगोला	२५१	कुल्हार ३४९-५०
कानवधान	३८७	कूच हाजी ४८७
काषा	१३१	कूच हाजू ३२३
काञ्चल २-३, १८, ३३, ५८, ६०, ७८-९, ८१, ९१, ११२, १६२, १९६, २०६, २०९, २१५, २१७, ३२६-७, ३४१- २, २४६, ३५१, ३५४, ३५६, २५८, २७९-१, २९८-०२, ३७४-७, ३२०, ३४९, ३६३, ३६०, ३८५, ३८८, ४१७,		



कृष्णा नदी	२१२, ३३३	खैराबाद	४१, ४४३, ४७३	
कोंकण	१५०, १७४, २३१-२, ३५२, ३५४, ५१०	ख्वारिज्म	४२७	
कोंकान	४२६	ग		
कोंदाना	३४०	गंगा १-२, ८८, २६७, २८४, २८६, २९६, ३९१, ३९३,		
कोल जलाली	४६३	४९२, ५५०-१		
कोहलकः	२९९	गंगोह	१००	
ख		गंदमक	३८८	
खंजान ( खनजान )	३०२, ३४९	गढ़ा	१९, ११५-७	
खंभात	१५, ९४, १८४	गढ़ा पथली	३३१	
खजवा	१६७	गढ़ी	१८५	
खवाफ	२१४, ३८२	गजनी २२६-७, २९९, ३२०, ४८१, ५५८		
खवासपुर	३७४	गया	५०२	
खानदेश ५, २२, २४, ४१-२, ४५, ४७, १४५, १८६, १८८, १९२, २२८, २३१, ३६५, ४२२, ५११, ५३१		गलगला	२१२	
खिरकी	२२९	गागरौन	६, १३४	
खीरलः	५००	गाजीपुर	२७८, २८४	
खुरासान ९०, २१४, २२४, ३२०, ४२६, ५४०		गालना	२२८	
खुल्दाबाद	१०५	गुजरात १४, १७, १९, २०, २५, २७, ३०, ६६, ७३, ७९, ८५, ९३-४, ९६, १०३, १२०, १३५, १४०, १५२, १५५-६, १६३, १८३-४, १८६, १९८, २४३-४, २८९, ३१०-१, ३३१, ३४३, ३५९, ३६५, ३७४, ३९०, ३९३-४,		
खुर्जा	५४७-८			
खेलना	३३५			
खैबर	१, २४२			

४०५, ४११, ४१७, ४२४,	चंबल	९१
४५५, ४६०, ४७६, ४८७,	चकलथाना	२२९
५०७, ५३४, ५३६-७, ५३९	चटगाँव	१३१, ४८७
गुरदासपुर २०९	चतकोवा	३९३
गुर्जिस्तान १६	चमरगोंडा	२३१-२
गुलबर्गा २७७, ३७७, ४७१	चांदा ५०, १४४, ५५६-७	
गुलबिहार ३०२	चांदौर १८६	
गुलशानाबाद ४२, ३५७	चाकण ४७०, ५१०	
गोंडवाना ११५	चारकारां ८१, ४८१	
गोभा १७४	चालीसगाँव १४४	
गोकाक ६४	चित्तौड़ ६८, ११९, २४३, २६०,	
गोदावरी ४६, ९९, २९६	४३०	
गोमती २०६	चिनहट २६८	
गोर ३७९, ५००	चुनार ८७, ११५, १५५	
गोरखपुर ७५, १७७, ३८७, ४७४	चौरागढ़ ११६, १४५, ४४९	
गोरखंद ७८, ८०, ३४९, ५००	ज	
गोलकुंडा ८२, १४६, १५०, १७३,	जगदलक ३	
२६३, ३०९, ३३३	जफरनगर २२९, २६६, ३५६	
गोहाटी ४३७	जफराबाद २६०, २७६	
गौड़ ३२८	जमींदावर ३०१, ४८१, ५५८	
ग्वालियर २५, ३०, ८३, १५२,	जम्मु २५०, ३६४, ३८८, ५५४	
१५५-६, २२४, २४६, ३३५,	जमानिया २७८	
३८९, ४४६, ५२८	जमुना नदी २६३, ३००, ४९६,	
च	५४८, ५५०-२	
चंगेजहट्टी ४०४	जकालाबाद ३८८	
चंपानेर ९३, १३५, ५३६	जहाँगीर नगर ४९२	

जाबुलिस्तान	४७५-६	ट	
जामखीरी	४९९	टांडा	३२४
जामूद	३६७	ठ	
जायस	३६२, ४६३	ठट्टा	७२, ९८, १११, १८५,
जालना	४९९		२५९, २७०, ३१०, ३४३,
जालंधर १३१, ३८७, ४७०, ४७५			४३८, ४६३, ५०७
जालनापुर	४९, ४००, २३१	ड	
जालौर	१५, ७२	डीग	५४७
जिंजी	३०८, ३३४, ४८०	डूंगरपुर	५३५
जुनेर ४७, ६९, १०५-६, १४३,		ड्यू	२१
२३१-३, ४८६, ५०१, ५०९		ढ	
जूनागढ़	२०, ३०, १८३, ५०७	ढाका	३२३-४, ३६१, ४६९-
जूनामाली	४८		३, ४८७
जैहून	३०४-५	त	
जोताना	९४	तरीकंदा	३९७-८
जोधन	२३२	तलतुम	४६
जोधपुर	५१४	तानगवाल:	१३०
जोहाक	५५८	तासी	१९५, ४०९
जौनपुर ११७, १२०, १५४,		तायबाद	११४
१८५, २६८, २७८, २८३,		तारागढ़	३४९
३९४, ४५४, ४६५, ४७४		तिब्बत	५२५
झ		तिरहुत	७४
झज्जर	७९	तिलंगी	४९९
झानझून	७९	तीराह	३६४, ४१६, ४७६
झाबुआ	१०	तुरगल	२१२
झेलम	१९६, २२७, ४०३		

तुर्किस्तान	४२६, ५४०	३१०-१, ३१७, ३२६, ३२९,	
तुर्बत	९०	३३३, ३३६, ३४२-३, ४१७,	
तूरान	९, १३७, १४३-४, १६०	४२०, ४३०, ४४२-३, ४४९,	
	२१६, ३०२, ३०४, ३४९-०,	४५३-४, ४७१, ४९९,	
	४१६, ४३६,	५०१-२, ५१३, ५१५, ५३२,	
तूळद्वर्ग	३०२	५४६, ५५१, ५५३-४,	
तेल्लिगाना	३७, १७६, १९५, २३१,	५५६, ५६०	
	३१०, ३६१, ३९६		
तैमराबाद	३०४	दमतूर	५८
तैलंग	२६०	दरभंगा	७५
तोरण	२२४-५, २६१	दर्रागज	३५०
त्रिगलवाही	२३२	दासना	५४७
त्रिचनापल्ली	१०५, १३७, ४७१	दिल्ली	७, ४९, १०७, ११३-४,
स्यंबक	९१, १४०, २३२		१२२, १२५, १३४, १५४,
	थ		१६७-८, १७०-१, १८८,
			१९६, २०९, २२८, २४६,
			२४८, २५०, ३१४, ३३९,
			३४८, ३८२, ४०८, ४२४-५,
			४३१, ४४२, ४४६, ४५७,
			४६४, ४६९, ४७२, ४८६-७,
			४९६, ५०४, ५०७, ५०९,
			५२०, ५२३, ५२६
थारगाँव	५०४-५	दीपालपुर	देलिए देपालपुर
	द	देपालपुर	१३, ७८, ५३२
दक्षिण	३, १०, ३६, ४१, ४५,	देवगढ़	१४५-६, ३४५, ५५६
	५५, ६३, ७५, ९०, ९८,	देवपुर	२६२
	१२१-२, १२९, १३७,	दोभावा	२६८, २८५, ४००,
	१३९-२, १४४, १६८, १८६,		४५२, ५०३,
	१८९, २०२, २१५, २१८,		
	२१०, २२५, २२८, २३१-२,		
	२३५, २३७, २४०, २४८,		
	२५८, २६६, २७६, २९६-८,		

दौलताबाद	४९, ६१, ७२, १०४-५, १४०, १४५	२२९, २३१-२, २९६-७, ३५६-७	नानदेर	१२, १५१, १७१, २३५-७	नारनौल	७९
			नासिक	४६, ४९, ९१, १४०, ३१०, ३५७		
			निर्मल			२३६
धनकोट		३८७	नूरपुर			३४८
धनपुर		५०७	नूरमहल			४७१
धामुनी	१४५, ४१९, ४९८		नौवाहर:		४०५, ४९२	
धारं		१३४	नौशेरा			७८
धारवर	२३१, २६६, २७७, ३९१, ३९३, ५१०					
धौलपुर		३५, ३३१	पंजोर			३०२
			पंजाब	४, १३, ३३, ७५, ११४, ११८, १२९, २१०, २८१, २८६, ३६९, ३९०, ४५६, ४७१, ४७३, ५३२, ५४९		
			पटना	७४, ८७, १७७, २१५, २५८, ३१६, ३१८, ५०२, ५१४, ५२६		
नंदबाल		३३३	पटियाला			१०९
नगरचंद		४१०	पत्तन	१४-५, १२०-१, १५२, १८२, २३१, २९६, ३५९, ५३६-७, ५३९		
नजरबार		१९-२०				
नदरबार		१६५	परबनी			२३७
नर्मदा	१७०, १९३-४, ४५२, ५५५		परेंदा	२३०, २६६, ३४८, ३५७, ३७६, ३९३, ४००		
नरवर		५०, १३३				
नरिया		२७८				
नलहुर्ग		१०५-६, २७७				
नवानगर		३९४				
नहरवाला		१२१				
नागपुर		५७८				
नागौर		६६, ५४७				
नादोत		१८४				

पलामू	५२६	२२६, २७१, २८१, ३००,
पाहं घाट	९२, ५५७	३०२-३, ३०६, ३२०,
पांढीचेरी	४२१	३४६, ४११
पातुर कौल बावू	१२, ९२	फ़ीरोज़ाबाद २८३
पाथरी १७६, १८८, २३७, २९६, ३१०		ब
पानीपत	२८२	बंकापुर २७७, ५१०
पालामऊ	३९९	बंगश १६२, ३६४, ४५३
पाली	५५१	बंगाल १, १८-९, २३, ३७-८, ५७, ५९, ७४, ८७, ९७,
पिपली	३६१, ४६१	१०२, १३६, १४२, १५४, १६३-४, १८१, १८५, १९५,
पुनपुना नदी	१७७	२१३, २२७, २६७, ३१६-
पुरंधर	३५३	९, ३२२, ३२७, ३३१, ३४३, ३६१, ३८८, ४०१, ४०३,
पुरनिया	२५८, ३१८	४१४-५, ४२३, ४३७, ४४३, ४५८-९, ४६१, ४६६, ४७४-
पुष्कर	९७, २४०	५, ४८३, ४८७, ५०२, ५११, ५१२-३, ५२६, ५३२, ५६०
पूना	४१, ३४०, ५०२	
पुर्ना नदी	४६	
पेशावर २४२, ३८७-८, ४५३, ४५९		
	फ	बक्सर २६७
फतहपुर १४, १८, ४४, १७०, ३७३, ४०२, ४१४, ४६७, ४८४-५, ५२८, ५४१		बगदाद ४११, ४९४-५
फराह ६५, १४४		बगलाना ४२, १४०, १६५, ५१२
फर्गाना २०२		बजौर ४७६
फर्रुखाबाद ८८, ५५१, ५५३		बटिआला ४६
फारस ६०, ६५, १३२, १६०-१,		बडौदा १४२, ५३६
		बदरुशाँ ६०, १८०, २५१, २७२, २९६, ३०१-२, ३०४-५,

३४९, ४०१, ४२३, ४२९,	बादरिसा	५०४	
४४०, ४४२, ४८१, ५००	बामियान	३०१	
बदनपुर	४७९	वारहमूला	१८५
बद्री	२१२	वारहा	५५२
बनारस	७४, २७०	बालकंदा	२३५-७
बनीशाह	४८०	बालसाना	१५
बरार ९, १०-१२, १९, १२४-	बालावाट १९०, १९२, ३३३,		
५, १४०, १८७, १९२,	३९३, ४००, ४१७-८, ५५७		
२१३, २३१, २३५, २३७,	बालापुर १८७, १९२. ४७९		
३०९, ३५८, ४००, ४७६,	बालासोर	३१७	
४७९, ५००, ५५६	बिड़ ( बीर ) ५०, ७२, २३१,		
बरिया	२८६	३९१, ५१०	
ब्रैली	४४३, ५५९	बियाना ( बिआना ) ७९, ११८,	
बर्दान	३६१	१२९, १५५, ३७३	
ब्रह्म १८०, २०४, २१५-६,	बिलहरी	२७०	
२२६, २५१, २७२, ३०२-५,	बिलोचिस्तान	४७५	
३२०-१, ३४९-०, ४०१,	बिहार १८-९, २२, ४७, ७४-५,		
४२७, ४२९, ४३६, ४४०,	१०२, १३६, १४५, १५५,		
४४२, ४५२, ५००-१	१७७, १९५, २०४-५, २५१,		
बलावल बंदर	२१-२	२६७-८, २७८, २८४, २८९,	
बसरा	४९४	३१८-९, ३२१, ३८८, ३९९,	
बहराइच	२६८, ५२६	४१७, ४५८, ४८२, ५११,	
बहादुरपुर	३६६	५२६	
बांधवगढ़	११५, १४५	बीकानेर	२४६
बाँस बरैली	३१४	बीदर ४२, १०५, २७६, ३९३,	
बाजारक	३८८	४३१, ४३४, ४४९, ४५५	

बीजापुर	९-१०, १२, ३५, ३७, ४७, ६४, १०४, १२३-४, १३८, १५०-१, १८७, २०२, २१२, २१९, ३२४, २२८, २३१, २६३, २७७, ३९०, ३३०, ३३३, ३४७, ३५२-४, ३७६-७, ३८५, ४०६-७, ४४९	भ	
बुखारा	३०४, ३२१, ३५०	भकर	७२, २५९, २९९, ४३६-९, ४७५, ५३२
बुर्हानपुर	१०, १२, ३५, ३७, ४५, ४७, ४९, ६४, ८४, ९१, १०७-८, ११२, १२५, १४२-४, १७०, १९७-३, १९५, २१३, २२८, २३०, २३३, २३९, २५८, २६६, ३०९, ३२९, ३४३-६, ३५६, ३६५-६, ४०१, ४०९, ४२८, ४८८, ४९०-१, ५२५, ५५५-६	भट्टा	१०४, ११५
बुस्त	३१, २०४-५, ४३०, ४३६	भडौंच	१८६, ५३६
बैसवादा	१०६, ३६२, ४६९	भम्भा	४९५
बेतिया	३१८	भरतपुर	५४७
योधन	२३६	भांडेर	४३६
बोरिया	३८६, ५५२	भागलपुर	३९९
ब्रह्मपुरी	३३४	भातुरी	३४३
		भार	५०७
		भारत	९, १६, ३३, ५७, ७७, ८७, १०२, ११४, १३०, १३९, १४४, १५४-५, १६०-१, १८०, १८२, १९७, २०२, २०८, २१५, २२५, २२८, २९०, २९६, ३००, ३०६-७, ३६४, ४२७
		भारत समुद्र	३५२
		भालकी	३४७, ३९३
		भिलसा	१८६, ५५६
		भीमबर	४०५
		भुंगेर	३९७
		भोजपुर	१४३
		म	
		मंदसौर	३४६, ४७०, ४९८



मऊ	३४८, ५०१	मालवा	५-६, १०, १४, २०,
मकरान	५०६		३६-७, ४१, ५०, ७५, ८५,
मक्का	७९, ९४, १०२-३, १०८,		१०७, १२१, १२७, १३३-४,
	१२९, १३१, १७४, २५८,		१३६, १४४-५, १६१,
	३०३, ४४६, ५३७, ५५३		१७०, १८३-४, १९१,
मल्लगीर्वा	३९१		२३१, २८९, ३२७, ३४६,
मच्छीवाड़ा	३०६, ३२७		३७४, ४०३, ४११, ४२५,
मदारिया पहाड़	८८		४३४, ४३९, ४४८-०,
मथुरा	३२९, ३९४, ४०२, ४५६,		४५२, ४५८, ४७०-१,
	५०७, ५४८		४७६, ४८९, ४९७, ५१२-
मदीना	१२६, ३५२		३, ५३२, ५३६, ५४७, ५५३
मनजाराणा	१७६	मालीगढ़	४८
मर्व	४२६	माचरुन्नहर	२८२, ४१४, ४४०
मलकापुर	१२५	माहवर	१२
मलकुसा	१९५	माहुली	२३२
मशाहद	२९९, ३२७, ३४५,	मिरिच	२७७, ४०७, ४८०
	४२६-७	मुतजाबाद	देखिए मिरिच
महकर	२९६	मुंगेर	७४
महींद्री नदी	१४	मुरादाबाद	३१४, ३४६, ३७२,
मांडल नगर	६४		४९८, ५१४,
मांडू	३७, ४१, १३३-४, १४१-	मुर्शिदाबाद	३१६-७
	२, १६५, १९१-३, ३४६,	मुलखेड़	२७७
	४८७, ४९८, ५२८, ५३१-२	मुलतान	२२, ७२, १२८, १६५-
मांजारा नदी	३९२		६, १८५, २०९-१०, २१६,
मानकोट	४		२१९, ३१२, ३२५, ३६२,
मानिकपुर	६४, ११७-८		३८६, ४३८, ४६३

## ( ४७ )

सुल्हेर	१०५	रायबाग	४०७
मेहता	८५, ११९	रायसेन	१९, १०७
मेरठ	२८१	रावी नदी	३०६, ४०५
मेवात	१८२	रावीर	३६६-७
मेहकर	१९९	राहिरा	१७४
मेहपुर	१३९	राहिरोगढ़	१५१, २०२, ४८०
मोरंग	७५	राहुतरा	२९६
मोहान	१३५	रूह	३१४
य		रूम	४२७, ४९४, ४९६
यण्ड	५४०	रोहतास	८७, २६७, ४२९
यमन	६६	रोहनखीरा	६३, २२९-०, ३५६
यमुना नदी	१६७	ल	
र		लंगरकोट	२५०
रई	५४०	लकखी	१८५, ३४४
रखंग	४८७, ४९२	लखनऊ	१९८, २०६, २८२, ३६२,
रतनपुर	१४५		३८६, ४४८, ४६५, ४६९,
राजगढ़	१०७, २२४		४७४, ५२६, ५५१
राजपीपळा	१८४	लमगानात	२५२
राजबंदरी	१३८	कहसा	४९४
राजमहल	३१८	कांजी	१४६
राजेंद्री	१३७	काडलाई	४६७
राजौर	४०४	कार	१७४
रामगढ़	३०९, ३१५	काहौर	४, ३८-९, ५१, ६०, ६७
रामदर्रा	८२		७८, ८९, ९७, १३१, १३९,
रामपुर	३९१		१४१, १५३, १६२, १६५,
रामसेज	३५७		१८२, १९६, २०८, २१०,

२२०, २२८, २४१, २४७,	शीराज	३५, ९३, ४९५	
२५२, २५८, २७१, २७४,	शेरगढ़	२८५	
२८५, २९४, २९९-०, ३०५,	शोलापुर	४९८	
३४४, ३८०, ३८२, ३८७,	श्रीनगर	३८६	
३८९, ४००, ४०५-६,	स		
४०८, ४१७, ४३८-९,	संगमनेर	२३१, २५७, ५०१	
४४२, ४५५-९, ४६५,	संडीला	४६६	
४७३, ४८२, ५०३-४,	संभल	२२८, २४५, २८१-२,	
५१३, ५२८, ५४९-१	५५९		
लोहगढ़	२०८, २९७	सकरावल	२८६
व		सकलर	३३४
वंकर	३१४-५	सजानंद	४८१
वाकिनकेरा २२५, २६१-२, ३३४,	सतलज	३२९, ५०४, ५४९	
३७७	सधीभा	५४२	
वारंगल	३९७	सब्जवार	६१, ३२७
व्यास नदी	७७, ५०४	समरकंद	९, १६, ३२१
श		सरभाब	३०२
शाहबाज गढ़	२५०	सरखेज	१८४
शादमान	३५०	सरम	८२
शाहगंज	२१९	सरहरपुर	४६५
शाहगढ़	४७	सरहिंद	८७, १०७, २८२, ३१५,
शाहजहाँपुर	२५१	५०३, ५५२	
शाहजादपुर	४३६	सरा	२३४-५
शाहपुर	३९७-८	सवाद	४१५, ४७६
शिकोहाबाद	४१	सहजौव	२६७
शिरगान	३०३	सहारनपुर	५५२

साँभर	५०७	सुरत	१४, ३७, ११२, १२३,
साँडी	५५१		१४२, २१२, २५८, ४२४,
सार्नगाँव	८२		४३६, ४५३, ४८९-९०
साधौरा	१५३	सेरिंगापत्तन	२३४
सामी	४५५	सेहचोबा	३८८
सामूगढ़	१६२, २४०, २७६,	सेहबान	१८५, ५३२
	३०८, ३२९, ४५४, ४८५,	सेहोडा ताल	१४५
	५१२, ५२३	सोन नदी	२८४
सारंगपुर	५, १२०, १३४	सोरठ	५०७
सारबान	५५८	सौधरा	४५९
सावा	३९०	स्यालकोट	२०६, ३९० ४७३
सिंगरौर	२८६	श्रीघाट	४८७
सिंध	५५, १८५, १९८, ३८७,		ह
	४६३, ५०६	हजाराजात	२२६, ३२०
सिंध नदी	१८५	हतकाँठ	५
सिकंदरा	५४७	हरमुज	५०६
सिकाकोल	१३७	हरसल	२१९, २३२
सितंदा	४६	हरिद्वार	३८६, ४३७
सिमी	१३३	हरीस	२३२
सिरोज	१२७	हलब	४९४
सिबालिक	४, ३२७	हसन अब्दाल	५८-९, १२९,
सिबिस्तान	६६, ७२, ७४, १८५,		२१८, २५३, ३८८
	२७०, २९९, ३६९, ४६३	हसनपुर	१७१
सीकरी	३७४, ४६७	हाँडिया	२३०
सुकरताल	५५२	हाँसी हिसार	५४९-५०
सुलतानपुर	१२८, १६५, २७०	हिंडिया	१३०, ५६०

हिंदुस्तान	४९, ६५-६, २७१, ३२७, ३३८, ३४५, ३४७, ३९०, ४११, ४१४, ४२३, ४२५, ४४३, ४८६, ४९४-६ ५४१, ५४४, ५५१, ५५५	हिसार	७७ ७९
हिंदू कोह	३४९	हुगली	३४२
हिजाज ( हेजाज )	६५, ६८, १३१, ४७५	हैदराबाद	१२, १२३, १३७, १५०, १७३-४, २१९, २३९, २४३, २६०, ३०९, ३४२, ३७७, ३९६-७, ४३१, ४५४, ४८०, ४९०
हिरात ( हेरात )	१६, २१४, २५९, २९८	हैदराबाद कर्णाटक	४२

---

## शुद्धाशुद्ध पत्र

पृ० सं०	पं० सं०	अशुद्ध	शुद्ध
१९	१४	के	की
२०	२४	मुजफ्फर	मुजफ्फर
२४	१८	लिखना	लिखनी
४५	१३	कार्य	कार्य
४९	१९	वर्ष	वर्ष
	२३	वहीं	वहीं
५०	१३	बड़ा	बिड़
५९	१०	बुद्धिमता	बुद्धिमता
६३	६	सैयद	सैयद
	१३	फारूकी	फारूकी
६४	२०	हामीदशाह	हामिदशाह
७९	२४	महचूक	माहचूचक
८८	१०	बादशार	बादशाह
	१२	जगा	लगा
९०	१	अबुलहन	अबुलहसन
९९	१२	कौनन	कौनैन
१०५	७	जुनार	जुनेर
१०९	१३	सम्राज्य	साम्राज्य
११०	२१	कंदजा	कंदजी
१२३	१४	पूऽजों	पूर्वजों

पृ० सं०	पं० सं०	अशुद्ध	शुद्ध
१४०	५	खानजहाँ	खानजहाँ,
१६५	११	षसंद	पसंद
१६७	२२	बफादार	बफादार
१७२	६	ऐ	‘ए
१७४	१८	३००	३०००
१८८	२४	धूमकर	धूमकर
१९१	११	पजें	पवेज
१९२	५	अहमहनगर	अहमदनगर
१९६	१५	बाध्य	वाध्य
२००	२	दाराबख्त्रां	दाराबख्त्राँ
२१२	१३	बंदर	बंदर
२१९	१०	कोठिला	कोठिला
२२५	६	वाध्य	वाध्य
	१५	भाँगने	भाँगने
२२८	२३	से	के
२३०	१०	उजड्डता	उजड्डता
२३१	१	ठंडी	ठंडी
	५	प्रिय	प्रिय
२४०	१	शाहजादा	शाहजादा
२५५	१४	वाध्य	वाध्य
२७६	१९	दुर्गाध्यता	दुर्गाध्यक्षता
२८९	१३	कीका	कीका
२९७	१	निजा	निजी
३०१	१०	फरेदू	फरेदू
३०३	१	खुरम	खुल्म

पृ० सं०	पं० सं०	अशुद्ध	शुद्ध
	२२	सुहम्मह	सुहम्मद
३१८	१९	कासिमअला	कासिमअली
३२०	२	अलंगतोश	यलंगतोश
	५	”	”
३२९	१८	से	में
३३६	१३	आजम	आजम होने के कारण
	१४	कर हो	कर
३३९	१६	आसफ खाँ	आसफुद्दौला
३४१	११	इनायत खाँ	इनायतुल्ला खाँ
३५४	११	जा	जो
३६२	७	मकरम	मकारम
३६४	१२	बदादुर	बहादुर
३७२	८	सरे	दूसरे
३७७	१	सयद	सैयद
३८२	३	वालाशाही	वालाशाही
३८३	१३	महाबत के खाँ	महाबत खाँ के
३९७	२१	का साला	के साला के साथ
	२३	उसके साथ	+
३९९	१४	भूम्याधिकारी	भूम्याधिकारी
४०३	२३	भेद	भेज
४०६	११	शाहजादा	शाहजहाँ
४१२	१४	अज्ञानुसार	आज्ञानुसार
४२७	८	तरिके	तरीके
	१०	पद	यह
४३०	८	सस्तम खाँ	रुस्तम खाँ



पृ० सं०	पं० सं०	अशुद्ध	शुद्ध
४३१	१३	खानसामाँ	खानसामाँ तथा
४७४	१६	खानजमाँ	खानखानाँ
४८३	१९	सुजाअत	शुजाअत
४९५	१	सेना से	सेना की सहायत से
	८	उसके	शत्रु के
५३२	१०	दैबालपुर	दैपालपुर
५३८	२४	खाला	खाली
५३९	१७	हजारा	हजारी

---

